

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

प्राकृत ग्रन्थाङ्क ६

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध भागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ० हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्०

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय,

एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाद्

फाल्गुन कृष्ण ९

वीर नि० २१७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००

६८ फरवरी सन् १९४४



स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी साहू शान्तिप्रसाद जैन

JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHMĀLĀ

PRĀKRIT GRANTHA



MAHĀBANDHO

[MAHĀDHAVALĀ SIDDHĀNTA SHĀSTRA]

Tadio Anubhaga bandhāhiyaro



ANUBHĀGA BANDHĀDHĪKĀRA

WITH

HINDĪ TRĀNSLATION



Editor

Pandit, PHOOL CHANDRA Siddhānt Shāstry

Published by

BHĀRĀTĪYA JÑĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1000 Copies. }

CHAITRA VIR SAMVAT 2482
VIKRAMA SAMVAT 2012
APRIL 1956

{ Price
{ Rs. 11/-

BHĀRATĪYA JÑĀNA-PĪTHA KĀSĪ

FOUNDED BY,

SETH SHĀNTI PRĀSAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MURTI DEVĪ

BHĀRATĪYA JÑĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ
JAIN GRANTHAMĀLĀ

PRĀKRIT GRANTHA NO. 6

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRANSIA, HINDI,
KANNADA AND TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain M. A., D. Litt.
Dr. A.N. Upadhye M.A., D. Litt

PUBLISHER

AYODHYĀ PRASAD GOYALIYA
Secy., BHARATIYA JNANAPITHA
DURGAKUND ROAD, BANARAS

Founded on
Phalgunā Kṛishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

{ Vikrama Samavat 2000
18 Febr. 1944

प्राथमिक

ध्वलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंका उद्धार वर्तमान युगकी सबसे महान् जैन साहित्यिक प्रवृत्ति कही जा सकती है। दिगम्बर जैन परम्परानुसार तो ये ही ग्रन्थ-निधियाँ हैं जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान् महावीरकी द्वादशग वाणीसे जुड़ता है। ध्वल और महाध्वल दोनों ही षट्खण्डागमके 'खण्ड' हैं। कितने हर्षकी बात है कि उधर षट्खण्डागमके पाँचवें खण्ड वर्गणा व उसकी चूलिकाका प्रकाशन पूरा होने आ रहा है, और इधर उसका छठा भाग महाबन्ध भी पूर्ण प्रकाशनके उन्मुख हो रहा है। इस महान् शृङ्खलाकी कड़ियाँ भी अब ऐसी आकर जुड़ी है कि वर्तमानमें दोनोंका ही मुद्रण कार्य बनारसमें चल रहा है। एक ओर यह कार्य पूरा होने आ रहा है, दूसरी ओर श्रावकोत्तम साहू शान्तिप्रसादजीके, दान व प्रेरणासे विहार सरकारने भगवान् महावीरके जन्मस्थान वैशालीमें जैन विद्यापीठकी स्थापनाका निश्चय कर उस ओर समुचित योजना व कार्यका आरम्भ भी कर दिया है। इस जैन विद्यापीठमें भगवान् महावीरके उपदेशोंका, उनकी ससारको अहिंसा रूपी अनुपम देनका तथा उनकी परम्परामें समुत्पन्न चतुर साहित्यका उच्च अध्ययन व अनुसन्धान होगा। उधर भारतकी राष्ट्रिय एवं राजकीय रीति-नीतिमें अहिंसाने अपना घर कर लिया है और उसकी आनुषंगिक मैत्री, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थ भावनाओंने देशके एक महान् सपूतके हृदयको आलोकित कर 'पञ्चशील' को जन्म दिया है जिसकी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमें भी प्रतिष्ठा हो गई है। परिणामतः युद्धसे व्रत तथा साहारिक अस्त्र-शस्त्रोंसे भयाकुल मानव-जातिको एक दिव्य दृष्टि एक नई चेतना, एक अपूर्व आशा प्राप्त हुई है। क्या हम इसे महावीर-देशनाकी, जैन तत्त्वज्ञानकी धर्म-विजय नहीं कह सकते? क्या कोई अदृष्ट हाथ ससारको हमारी एक विशिष्ट दिशामें नहीं झुका रहा?

इस स्वर्ण-सन्धिका जैन समाज पूरा लाभ उठा रहा है, यह तो हम नहीं कह सकते, तथापि थोड़े बहुत प्रभावशाली धर्म-बन्धुओंमें जो जागृति उत्पन्न हो गई है उसीके आधारपर हमें अपना भविष्य कुछ अच्छा दिखाई देने लगा है। भारतीय ज्ञानपीठ इसी जागृतिका एक परिणाम है। इसके द्वारा जो धार्मिक ग्रन्थोंका प्रकाशन हो रहा है वह एक गौरवकी वस्तु है।

प्रस्तुत भागके 'सम्पादकीय'में प्रतियोंके पाठभेद सम्बन्धी जो बातें बतलाई गई हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं। प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादनमें समय-समयपर लिखी गई नाना प्रतियोंके मिलान द्वारा सम्पादक उस पाठपर पहुँचनेका प्रयत्न करता है जो मौलिक प्रतिमें सम्भवतः रहा होगा। किन्तु हमारे सन्मुख यह शोचनीय परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि परम्परागत ताडपत्रीय प्रति एकमात्र होते हुए भी उसकी तात्कालिक प्रतिलिपियों-द्वारा नाना पाठभेद उत्पन्न हो रहे हैं। अत्यन्त खेदकी बात है कि हमारे धर्मके इन आकर ग्रन्थोंके सम्पादनमें भी हम आधुनिक वैज्ञानिक साधनोंका उपयोग करनेमें असमर्थ हैं। पूनामें महाभारत व बड़ौदामें रामायणके सम्पादन सम्बन्धी आयोजनको देखिये, और हमारे इन श्रेष्ठतम सिद्धान्त ग्रन्थोंके उद्धार, सम्पादन, अनुवाद व प्रकाशनकी स्थितिको देखिये! आजकी सीधी, सरल और सर्वथा प्रमाणभूत सम्पादन-प्रणाली तो यह है कि सम्पादकके सन्मुख या तो प्राचीन प्रतियाँ अपने मौलिक रूपमें उपस्थित हों, या उनके छायाचित्र। आजकल प्रतियोंके छायाचित्र या सूक्ष्मचित्रावली (माइक्रोफिल्म) बड़ी आसानी और किफायतसे लिये जा सकते हैं। सूक्ष्म चित्रावलीको पढ़नेके लिए प्रतिविम्बक यन्त्र (प्रोजेक्टर मशीन) भी आज बड़ी सस्ती मिलने लगी है—केवल चार पाँच सौ रुपयेमें ही। लिपिका अज्ञान कोई बड़ी समस्या नहीं है। सम्पादक स्वयं थोड़ेसे प्रयत्न व अभ्याससे अल्पकालमें अपेक्षित लिपिको सीख सकता है और अपने सम्पादनको सोलहों आने प्रामाणिक बना सकता है, यदि उसे यथोचित सुविधाएँ दे दी जायँ।

प० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादन व अनुवादमें जो विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया है, तथा ज्ञानपीठके कार्यकर्ताओंने जो सुन्दर प्रकाशनका उद्योग किया है, उसके लिए वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं। हमें भरोसा है कि उनके प्रयत्नसे इस ग्रन्थका शेष भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगा।

हीरालाल जैन
आ. ने. उपाध्याय
ग्रन्थमाला सम्पादक



सम्पादकीय

अनुभागबन्ध षट्खण्डागमके छठे खण्डका तीसरा भाग है। इनका सम्पादन व अनुवाद लिखकर प्रकाशनयोग्य बनानेमें दो वर्षका समय लगा है। कारण कि हमारे सामने ग्रन्थकी एक ही प्रति रही है और जो है वह भी पर्याप्त मात्रामे त्रुटित है। जब दूसरे भागका अनुवाद कर रहे थे तभी इस प्रतिकी यह स्थिति हमारे ध्यानमे आई थी। अधिकारी विद्वानोंसे हमने इसकी चरचा भी की थी। उनका कहना था कि जिस स्थितिमें प्रति उपलब्ध है उसे सम्पादित कर प्रकाशन-योग्य बना देना उचित है। यद्यपि यह सम्भव था कि गुणस्थानों व मार्गणास्थानोंकी बन्धयोग्य प्रकृतियोंकी तालिकाको सामने रखकर आवश्यक संशोधन कर दिया जाय। स्थितिबन्ध प्रथम पुस्तकमें कहीं-कहीं ऐसा किया भी गया है। पर ऐसा करना एक तो सब प्रकरणोंमे सम्भव नहीं है। कुछ ही ऐसे प्रकरण हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। अधिकतर प्रकरणोंके लिए तो हमें मूल प्रतिके ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे भय होता था कि इससे कहीं नई अशुद्धियोंको जन्म देनेके दोषका भागी हमें न बनना पड़े और इसलिए स्थितिबन्धकी द्वितीय पुस्तकको हमने मूल प्रतिके अनुसार ही सम्पन्न कर प्रकाशनके योग्य बनाया था।

इस परिस्थितिसे उत्पन्न कम्पियो और त्रुटियोंका हमें भान था ही। स्वभावतः समालोचकोंका ध्यान भी उस ओर गया। अतएव हम पाठशोधनके लिए यथोचित सामग्री प्राप्त करनेकी ओर विशेष प्रयत्नशील हुए। भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री जितने विचारक हैं उतने ही दूरदर्शां भी हैं। उन्होंने सब स्थितिको समझकर मूढविद्री प्रतिसे मिलान करनेकी हमें अनुज्ञा दे दी और कहा कि इस कार्यके सम्पन्न करनेमें जो व्यय होगा उसे भारतीय ज्ञानपीठ खुगीसे वहन करेगा। आप स्वयं लिखा पढ़ी करके वहाँसे प्रति मिलानकी व्यवस्था कर लीजिए। तदनुसार हमने मूढविद्री श्री पंडित नागराजजी शास्त्रीको लिखा। किन्तु उनका उत्तर आया कि यहाँकी फनडी प्रति दिल्ली जीर्णोद्धारके लिए गई है। यहाँ आनेपर हमें और प्रबन्ध-समितिको इस कार्यकी व्यवस्था करनेमें प्रसन्नता ही होगी। व्यक्तिशः इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए हम हर तरहसे तैयार हैं।

किन्तु इसी बीच यह भी विदित हुआ कि महाबन्धकी ताम्रपत्र प्रति सम्पादित होकर शा० जिनवाणी जीर्णोद्धार सस्थाकी ओरसे छपी है। फलस्वरूप शा० जिनवाणी जीर्णोद्धार सस्थाके सुयोग्य मन्त्री श्री सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र जी शहाको लिखा गया। उस समय वे उत्तर भारतके तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राके लिए आये हुए थे, इसलिए उनसे व्यक्तिशः भी सम्पर्क स्थापित किया गया और आवश्यकताका ज्ञान कराते हुए प्रत्यक्षमें इस विषयकी बात-चीत की गई। परिणामस्वरूप उन्होंने घर पहुँचनेपर ताम्रपत्र मुद्रित प्रति भिजवानेका आश्वासन दिया। यद्यपि उन्हें कई कारणोंसे प्रति भेजनेमें विलम्ब हुआ है पर अन्तमें योग्य निष्ठावर देकर यह प्रति भारतीय ज्ञानपीठको उपलब्ध हो गई है जिससे अनुभागबन्धके प्रस्तुत सस्करणमे उसका उपयोग हो सका है इसलिए यहाँ इस प्रसंगसे इन दोनों प्रतियोंके पाठ आदिके विषयमें साङ्गोपाङ्ग चरचा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। हमें प्रस्तुत सस्करणके दस फार्म छपनेपर यह प्रति मिल सकी थी, इसलिए इन फार्मोंमें न तो हम इस प्रतिके पाठ ही ले सके और न इस प्रतिके आधारसे प्रस्तुत प्रतिमे सुधार आदि कर सके। अतएव सर्वप्रथम यहाँ तकके दोनों प्रतियोंके पाठभेद देकर इस चरचाको आगे बढ़ाना उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ और टिप्पणियोंमें जो प्रति हमारे पास प्रेष कापीके रूपमें है उसका सकेताक्षर आ० है। टिप्पणीमें कहीं कहीं 'मूलप्रती' पद द्वारा भी इसी प्रतिका उल्लेख किया गया है और ताम्रपत्र मुद्रित प्रतिका सकेताक्षर ता० है। इस दोनों प्रतियोंके दस फार्म तकके पाठभेदोंकी तालिका इस प्रकार है—

आ० और ता० प्रतिके पाठभेद

पृ०	पं०	आ०	ता०
५	११	धुवयंधो अद्धुवयंधो आयु०	धुव० आयु०
५	१२	४ ?	४ [?]
५	१२	धुवयंधो णत्थि	धुवयंधो णत्थि
६	२	सामित्तस्स कच्चे	सामित्तस्स कम्म
६	३	विवागदेसो पसत्थापसत्थपरुवणा	विभा [पा] गदेसो पसत्थ (त्था) पसत्थपरुवणा
६	५	योगपञ्चयं । एवं णेद्वं याव अणाहारए त्ति	योगपञ्चयं णेद्वं । एवं याव अणाहारएत्ति णेद्वं ।
७	१	जीवविवाग०	जीवविपाका० ^१
८	१२	सव्वसंकिल्लिह्वस्स०	सव्वसंकिल्ले (लि) स्स०
९	६	आयु० उक्क० अणुभा० कस्स ३ !	आयु० उक्क० अणु० वट्ट० आयु० (?) उक्क० अणु० क० ?
९	११	उवरिमगेवजा	उपरिमके (गे) वजा
९	१२	अण्ण०	अणु० (ण्ण०)
९	१५, १६	उक्क० वट्ट०	उक्क० [अणुभाग०] वट्ट०
१०	१	उक्क० वट्ट०	उक्क० [अणु०] वट्ट०
१०	४	वणफदिपत्ते०	वणफदिपत्ते०
१०	६	गो० उक्क० अणु० कस्स० अण्ण० वादर०	गोद० वादर०
१०	८	उदिसदि	उदिसदि
११	४	सागार-जा०	जा (सा) गारजागा०
११	४	उक्कस्सअणुभा० वट्ट०	उक्कस्स अणुभा० उक्क० वट्ट०
१२	९	उवसमस्स	उवसमयस्स
१२	१४	णपुंसगे	णपुंसके ^१
१३	९	संकिल्लि० वट्ट०	संकिल्लि० उक्क० वट्ट०
१४	९	परिवदमाण०	परिपदमाण०
१६	१	अण्ण० देवस्स०	अण्ण० अण्णद० (?) देवस्स
१६	६	घादि० ४ उक्क० अणुभा० कस्स ? अण्ण०	घादि० ४ अणु० क० ? अणु० (अण्ण०)
१६	१०	उवसमसंप०	उवसमसुद्धमसंप०
१७	८	अणुभा० कस्स०	अणु० [क० ?]
१७	१२	उक्कस्सं समत्तं १	उक्कस्स (स्सं) समत्तं ।
१८	४	अण्ण० जहणियाए अपज्जत्तणिव्वत्तीए	अणु० (ण्णद०) जहणियाए भपज्ज णिव्वत्तीए णिव्वत्तेए (?)
१८	७	तस० २-पंचमण०	तस० पंचमण०
१८	११	जहण्णए पज्जत्त-	जहणियापज्जत्त
१९	१	जह० अणु०	ज० ज० (?) अणु०
१९	११	जह० अणुभा० वट्ट० ।	जह० वट्ट० ।

१. ता० प्रतिमें यहाँ सर्वत्र विवाग पदके स्थानमें विपाक पद है । २. ता० प्रतिमें प्रायः सर्वत्र णपुंसग पदके स्थानमें णपुंसक पद उपलब्ध होता है ।

पृ०	प०	आ०	ता०
१६	१२	उवरिमगेवजा	उवरिमके (गे) वेजा ^१
२१	६	सरीरपज्जत्ती गाहदि	सरीरपज्जत्तीहि गाहदि
२१	७	अरयण० अरिथि य	अरिथि य
२१	८	वेद०-यामा० ओघं ।	वेद० यामगदि (?) ओघं ।
२१	१०	सेसमणुदिसभंगो ।	सेसं म (अ) णुदिसभंगो ।
२१	१३	से काले	सेकाल (ले)
२१	१२	अरयण० चदुगादि०	अणु० (अरयणद०) चदुगादि०
२१	१३	अरयण० अरिथि य	अरिथि य
२२	६	वेद० यामा० जह० अणु० तिगदि०	वेद० यामा० तिगदि०
२२	८	अवगदवे०	अवगदे०
२२	१२	कस्स० ? अरयण० मणुस०	क० ? मणुस०
२३	२	परियत्तमा० मज्झिम० पज्जत्तणिवत्तीए णिव्वत्तमाण० जह० अणु० वट्ट० । आउ०-गोद०	परिय... .. पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमा० मज्झिमपरि० जह० वट्ट० गोद०
२३	५	मणुपज्ज० वे०-गोद० जह० अणु० कस्स ?	मणुपज्जवे गोद० ज० अणु० [क० ?]
२३	१३	छेदो० अभिसुह०	छेदो [वट्टावणा] भिसुह
२४	१	परिवद०	परिपद० ^२
२४	६	अरयण० योरह०	अणु० (अरयणद०) योरह०
२४	१४	घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? ओघं	घादि०४ ओघं ।
२५	२	ओधिभंगो ।	ओधिभंगो ओधिभंगो (?) ।
२५	३	अरयण०	अणु० (अरयण०)
२५	७	अणु० कस्स० ?	अणु [क० ?]
२५	८	अणु० ? सत्तमाए	अणु० क० ! अरयण४ सत्तमाए
२७	३	कम्माणं गिरयोघभंगो ।	कम्माणं उक्क० गिरयोघभंगो ।
२८	४	वणप्फदि-णियोदाणं च ओघं ।	वणफ (ति) णियोदाणं च ओघं पदा ।
२८	६	एग० उक्क०	ए० [उक्क०]
२८	७	-णियोद० एदे सन्वे पज्जत्ता वादरपुढवि०	णियोद० । एदे सन्वे पज्जत्ता वादरपुढवि०
२६	६	अणु० जह० अंतो० ।	अणु० उ० ज० अंतो
२६	८	घादि०४ उक्क० ओघं ।	घादि०४ ओघं ।
३०	५	जहणणुक्क०	जहणण (णणु) क्क०
३२	३	छावट्टि० ।	छावट्टे० [सागरोव] माणि ।
३२	५	एवं संजद-सामाह०-छेदोव० । परिहार०	एवं संजदा । सामाह० छेदोव० परिहार०
३२	६	पुव्वकोढी दे० । अथवा	पुव्वकोढीदे० । परिहार० अथवा
३२	६	उक्क० जह० एग०,	उ० ए०
३२	७	सजदासंजदाणं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।	संजदासंजदा ।
३४	४	पुरिसभंगो । आहारा० ओघभंगो । खवरि	पुरिसभंगो । खवरि
३४	७	जह० अणु० जह० उक्क० एग०	ज० ए०

१ ता० प्रतिमें यह पाठ आगे भी प्रायः इसी रूपमें उपलब्ध होता है । २. ता० प्रतिमें परिवद० के स्थानमें कहीं कहीं परिपद० पाठ भी उपलब्ध होता है ।

पृ०	पं०	श्रा०	ता०
३५	२	अज० जह० एग०	अज० ज० ज० ए०
३५	२	एवं आठ० याव अयाहारग त्ति । एव ओघभंगो	एवं आठ० (?) याव अयाहारग त्ति । ङ वेद० याम० ज० ज० ए० उ० चत्तारिस० । एवं याव अयाहारग त्ति षोद्व्वं [चिह्नान्तगतः पाठः पुनरुक्तः प्रतीयते] एवं ओघभंगो
३५	४	अयादियो	अयादीयो
३६	३	गोद० जह० अणु० जहणुक्क० एग० । अज० जह० अंतो,	गोद० ज० ए० अज० अंतो०
३६	५	चत्तारि समयं । अज० जह० एग० उक्क० भवट्टिदी	चत्तारिस० । अज० ज० ए० उक्क० चत्तारिस० । अज० ज० ए० उ० भवट्टिदी
३६	८	जह० एग०	ज० ज० ए०
३६	८	एवं अबभवसि० असायणीसु पंचि-	एवं अबभवसि० । असायणीसु पंचि-
३७	५	यावरायं च सुहुमपजत्तगायं च ।	यावरायं च ।
३७	१०	गोदस्स जह० अणु० जह० एग०,	गोदस्स वज० ज० ए०
३८	५	अजहणण० ओघभंगो ।	अजहणणट्टिदी ओघभंगो
३८	१,५,७	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	ज० ए० अज०
३८	६	गोद० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० अज०	गोद० ज० ए० अज०
४०	२	गोद० जह० जह० एग०	गोद० ज० एग०
४०	५,८,१०	जह० जह० एग०, उक्क० वे स० । अज०	ज० ए० अज०
४०	६	चत्तारिसम० । अज०	चत्तारिस [अज०]
४१	१	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०,	ज० ए० अज० [जह०] ए०
४१	३, ५	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० अज०	ज० ए० अज०
४१	६	मणपज्जवभंगो । एवं	मणपज्जवभंगो । घादि० ज० एग० अज० ज० अंतो उक्क० वेअट्टा० । एवं
४२	१	अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं	अज० ज० ए० उ० वेस० । अज० ज० ए० उ० तेत्तीसं
४२	५	तेउपम्मासु	तेउ० पम्मादिसु
४४	४	गोदा० जह० यत्थि	गोदा० उक्क० यत्थि०
४५	६	अद्धपोगगल० । आठ०	अद्धपोगगल० । सत्तरयं क० अणु० ज० एग० उ० वेसम० । आठ०
४८	३	पुढवि०पुढवि०
४८	६	वे वाससह०	वे वाससह०
४८	३	चत्तारि वासायि	चत्तारि वाससहरसायि
४८	८	आठ० [जह० एग०] उक्क०	आठ० उ० ज० ए० उ०
५०	१	अणु० जह० एग०	अणु० ज० ज० एग०
५०	१	आठ० [उक्क०] जह०	आठ० उ० ज०
५१	६	अंतरं । वेउम्वि० अट्टरणं	अंत० । अट्टरणं

पृ०	पं०	आ०	ता०
५३	१	अणु० जहणणु० एग०	अणु० ज० ए०
५४	१	अथवा उक्क० यत्थि	अवत्थवा (?) वाउ० (?) यत्थि
५४	५	गोदा० [उक्क० अणु०] जह० एग०	गोद० ज० ए०
५४	७	आउ० [उक्क० अणुभा०] जह०	आउ० ज०
५५	४	आउ० [उक्क० अणु०] जह०	आउ० ज०
५७	६	एवमुक्कस्समंतरं समरां ।	×
६१	४	सव्वट्टा सि गोद०	सव्वट्टासि । गोद०
६२	२	आउ० जह० गाय्या-	आउ० ज० ज० गाय्या-
६४	१	अज० जह० जह० एग०,	अज० ज० ए०
६७	४	घादि४-गोद० जह० अज० यत्थि अंतरं । वेद०	घादि४ गोद० ज० अज० यत्थि अंत० । वेद० ग्याम० ज० अज० यत्थि अंत० । वेद०
६८	३	उक्क० छावट्टिसाग०	उ० वा० (छा) वट्टिसाग०
७०	८	णवगेवज्जमंगो ।	णवके (गे) वेज्जमंगो ।
७१	३	खड्दु ए घादि०४ जह०	घादि०४ ज०
७१	४	अज० [जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । णवरि गो० उ० वेसम० ।] आउ०	अज० ओर्घं० । आउ०
७२	४	अज० जह० एग०	अज० ए०
७५	१३	उक्कस्सं । एवं ग्यामा-गोदायां	उक्कस्सं० ग्यामागोदायां
७६	३	णि० अणु०	णि वं (?) अणु०
७६	८	छट्टाणपदिदं बंधदि ।	छट्टाणपदिदं बंधदि । एवं ग्यामं ।
७७	१३	पुढवीए तिरिक्खोर्घं अणुदिस याव सव्वट्ट सि सव्वएइदि०	पुढवीए । तिरिक्खोर्घं अणुदिस याव सव्वट्ट सि सव्वएइदि०
७८	४	उवरिमगेवजा सि सव्व-	उवरिमगेजा (वजा) सि । सव्व-
७८	७	अणु० वं तिरण्य घादीयां	अणु० वं । घादीयां
७८		माय-सामाह०-छेदो० । अवगद०	माय० । सामाह० छेदो० अवगद०
७९	९	अबंधगा । एवं पगदि बंधदि	अबंधगा । ये पगदी बंधदि
७९	१०	सिया अबंधगा य बंधगे य,	सिया बंधगे य ।
७९	११	अबंधगा य बंधगा य ।	अबंधगा य बंधगा यं (य) ।
७९	११	बंधगा य, सिया बंधगा य अबंधगे य,	बंधगा य । अबंधगा य अबंधगे य ।
७९	१२	तिरिक्खोर्घं पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०- बादरपरो०	तिरिक्खोर्घं । पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० बादर पुढ० आउ० तेउ० वाउ० बादरपरो०
८०	६	अणुक्क० तिरिण्य मंगा ।	अणुक्क० अट्टमंगा ।
८०	९	गोदस्स जह० अज० उक्कस्समंगो	गोदस्स वज्ज० । अज० उक्कस्समंगो ।
८०	१२	अणाहारग सि । णवरि कम्मह० अणा- हार० आउ० यत्थि ।	अणाहारग सि ।

पाठभेदके लगभग ये १२५ उदाहरण हैं । इनमें से ता० प्रतिके लगभग २२ पाठ आह है जिनका हमने शुद्धिपत्रमें उपयोग कर लिया है । शेष आ० प्रतिके पाठ ही आह्य प्रतीत होते हैं । फिर भी तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे ये पाठ बढ़े उपयोगी हैं । इससे हमें इस बातका पता लगता है कि विषयके अज्ञानकार व्यक्तियोंके द्वारा प्रतिलिपि कराने पर कितना अधिक उलट फेर हो जाता है और केवल एक

प्रतिको आदर्श मानकर चलनेमें कितना अनर्थ होता है। जिस प्रतिके आधारसे बनारसमें सम्पादन कार्य हो रहा है उसे स्वर्गीय श्री. लोकनाथ जी शास्त्रीने प्रतिलिपि करके भेजा था और वह ता० प्रतिसे अपेक्षाकृत शुद्ध प्रतीत होती है। ता० प्रति जिस रूपमें मुद्रित होकर ताम्रपत्रों पर अङ्कित की गई है वह उसकी प्राथमिक अवस्था ही प्रतीत होती है और उसमें पर्याप्त संशोधन अपेक्षित है जैसा कि पूर्वोक्त तालिकासे स्पष्ट है।

पिछले वर्ष श्रीमान् सेठ बालचन्द्रजी देवचन्द्रजी शहा यात्रा करते हुए बनारस आये थे। उस समय हमारे सहाय्यायी श्री पं० हीरालालजी सि० शा० भी यहीं पर थे। ताम्रपत्र प्रतियोंकी चरचा उठने पर सेठ सा० ने उनका संशोधन होकर शुद्धिपत्र बनना स्वीकार कर लिया था। तदनुसार उन्होंने हमारी सलाहसे यह कार्य पं० हीरालालजी को सौंपा था। पण्डितजीके जयधवलाके पाठभेद लेते समय इस कार्यमें हमने पूरी सहायता की है। यह कार्य ताम्रपत्र मुद्रित प्रति और जयधवला कार्यालय की प्रति (प्रेसकापी) के आधारसे सम्पन्न हुआ है। इस आधारसे हम यह कह सकते हैं कि जयधवला की जो ताम्रपत्र प्रति हुई है उसमें जितनी अशुद्धियाँ हैं उससे कहीं अधिक महाबन्धकी ताम्रपत्र मुद्रित प्रति में वे पाई जाती हैं। वस्तुतः मूलप्रतिके आधारसे प्रतिलिपि होनेके अभी तक जितने प्रयत्न हुए हैं वे सब अपर्याप्त हैं। होना यह चाहिये कि इस विषयके एक दो अनुभवी विद्वान् जिन्हें विषयका अनुगम हो, मूडविद्दिमें बैठें और कनडीकी प्राचीन लिपिके जानकार विद्वान् से वाचन करकर मिलान करते हुए प्रतिलिपि प्रतिमें संशोधन करें तभी मूल कनडी प्रतिका ठीक रूप दृष्टिगोचर हो सकता है

सम्पादनकी विशेषता

इस समय हमारे सामने दो प्रतियाँ हैं एक प्रेसकापी और दूसरी ताम्रपत्र मुद्रित प्रति। प्रस्तुत भागमें इन दोनों प्रतियोंका हमने समान रूपसे उपयोग किया है। आज कल सम्पादनमें किसी एक प्रतिको आदर्श मानकर अन्य प्रतियोंके पाठ टिप्पणीमें देनेकी भी पद्धति प्रचलित है और कुछ विद्वान् इसे सम्पादन की विशेषता मानते हैं। किन्तु इस सम्पादनमें हम ऐसा नहीं कर सके हैं। हम ही क्या धवलाके सम्पादनमें भी इस नियमका पालन नहीं किया जाता है। धवलाके सम्पादनके समय अमरावती प्रति, आरा प्रति, कारखा प्रति और ताम्रपत्र प्रति सामने रहती हैं। इनमेंसे विषय आदिको देखते हुए जो पाठ ग्राह्य प्रतीत होता है वह मूलमें दिया जाता है और इतर प्रतियोंका पाठ टिप्पणीमें दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो एक या अधिक सब प्रतियोंके पाठ टिप्पणीमें दे दिये जाते हैं और विषयादिकी दृष्टिसे जो शुद्ध पाठ प्रतीत होता है वह मूलमें दिया जाता है। यहाँ इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए धवला मुद्रित प्रतिके एक दो उदाहरण दे देना आवश्यक समझते हैं—

धवला पुस्तक १० पृ० ३३३ की पंक्ति ४ में 'जहणियाए वड्डीए वड्दिदो' यह पाठ स्वीकार किया गया है। यह ता० प्रतिका पाठ है और इसके स्थानमें अ०, आ० और का० प्रतिका पाठ जहणियाए वड्दिदो' है जो टिप्पणीमें दिखलाया गया है। किन्तु इसके विपरीत इसी पृष्ठकी पंक्ति १३ में अ०, आ० और का० प्रतिका पाठ 'बहुसो' मूलमें स्वीकार किया है और ता० प्रतिका 'बहुसो बहुसो' पाठ टिप्पणीमें दिखलाया गया है। यह तो जहाँ जिस प्रतिके जो पाठ ग्राह्य प्रतीत हुए उन्हें स्वीकार करनेके उदाहरण हैं। अब एक ऐसा पाठ उपस्थित किया जाता है जो किसी भी प्रतिमें उपलब्ध नहीं होता पर प्रकरण और अर्थकी दृष्टिसे सम्पादकोंने उसे स्वीकार करना आवश्यक माना है। ऐसे स्थल पर सब प्रतियोंका पाठ नीचे टिप्पणीमें दिखलाया गया है और प्रकरण सङ्गत पाठ मूलमें दिया गया है। इसके लिये धवला पुस्तक १० पृष्ठ ३३२ की पाँचवीं टिप्पणी देखिये। यहाँ सब प्रतियोंमें 'मुवलंबणाकरण' पाठ है किन्तु इसके स्थानमें सम्पादकोंने शुद्ध पाठ 'मवलंबणाकरण' उपयुक्त समझ कर मूलमें इसे स्वीकार किया है। धवलामें सर्वत्र 'अवलम्बनाकरण'के लिए 'ओलंबणाकरण' पाठ आता है। ये एक दो उदाहरण हैं। धवलाके जितने भाग प्रकाशित हुए हैं उन सबमें इसी नीतिसे काम लिया गया है। सर्वार्थविद्धि में भी हमें इसके नीतिका अनुसरण करना पड़ा है। वहाँ हम किसी एक प्रतिको आदर्श मानकर नहीं चल सके हैं।

महाबन्ध सम्पादनके समय भी हमारे सामने इसी प्रकारकी कठिनाई रही है। स्थितबिन्धके सम्पा-

दनके समय हमारे सामने केवल एक ही प्रति रही है। इसलिए वहाँ अवश्य ही हमें अपनेको संयत रखकर प्रतिपर भरोसा करके चलना पड़ा है। बहुत ही कम ऐसे स्थल हैं जहाँ [] त्रैकेटमें नये पाठ दिये गये हैं किन्तु अनुभागबन्धके १० फामोंसे आगेके सम्पादनके समय हमें ताम्रपत्र मुद्रित प्रति उपलब्ध हो जानेसे विषय आदिकी दृष्टिसे विचारका क्षेत्र व्यापक हो जानेके कारण हमने इस बातकी अधिक चेष्टा की है कि जहाँ तक बने यह संस्करण शुद्धरूपमें सम्पादित करके प्रकाशनके लिए दिया जाय। और हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि इस कार्यमें हमें बहुत अशमं सफलता भी मिली है। हमें इस कार्यमें सहारनपुर निवासी श्रीयुत प० रतनचन्द्र जी मुख्तार और श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकीलका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थोंने इन ग्रन्थोंके काल आदि प्रकरणोंका विशेष अभ्यास किया है। इन प्रकरणोंकी प्रक्रिया उनके व्यानमें बराबर बैठती जा रही है, इसलिए लिपिकारकी असावधानीके कारण जहाँ भी अशुद्धि होती है उसे हमें व उन्हे प्रकृतियों आदिकी परिगणना कर व स्वामित्व आदि प्रकरणोंको देखकर समझनेमें ढेर नहीं लगती। अवश्य ही भागाभाग और अल्पबहुत्व आदि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें अशुद्धियोंका परिमार्जन करना कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्थामें हम किसी एक प्रतिको आदर्श मानकर चलनेके प्रघातको प्रश्रय नहीं दे सके हैं।

हमने पहले प्रस्तुत भागके १० फामोंकी दोनों प्रतियोंके आधारसे तालिका दी है उसे देखकर ही पाठक इस बातका अनुमान कर सकते हैं कि कई प्रतियोंको सामने रखे बिना मूल पाठकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत संस्करणके ८१ पृष्ठ पर भागाभागके प्रसंगसे आ० प्रतिका 'अखला भागा' पाठ हमने मूलमें स्वीकार किया है और ता० प्रतिका 'अण्णतभागो' पाठ नीचे टिप्पणीमें दिखाया है, क्योंकि यहाँ आठों फामोंके अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सत्र जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है तथा पृष्ठ ८८ की पंक्ति नौ में आ० प्रतिके पाठके स्थानसे मूलमें ता० प्रतिका पाठ स्वीकार करना पड़ा है। कारण कि यहाँ आयुके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है इस प्रश्नका समाधान किया गया है। किन्तु आ० प्रतिमें उत्कृष्टका वाची पाठ छूटा हुआ है जिसकी पूर्ति 'ता०' प्रतिके आधारसे की गई है। इतना सत्र कुछ होते हुए भी प्रस्तुत संस्करणमें ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जहाँ पाठकी कमी देखकर उनकी पूर्ति स्वामित्व आदि दूसरे प्रकरणोंके आधारसे करनी पड़ी है। ऐसे स्थलों पर वे पाठ [] त्रैकेटमें दिये गये हैं। इससे हम किसी एक प्रतिको आदर्श मान कर नहीं चल सके हैं। हमारी समझसे जब किसी मौलिक ग्रन्थका अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा करते हुए किन्हीं जीवोंके आधारसे शुद्ध पाठ प्राप्त करना सम्भव होता है तब अशुद्ध पाठोंकी परम्परा चलने देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इतना अवश्य है कि इस तरह जो भी पाठ प्रस्तुत किया जाय एक तो उसकी स्थिति स्वतन्त्र रहनी चाहिए और दूसरे जिन प्रतियोंके आधारसे सम्पादन कार्य हो रहा हो उनके सम्बन्धमें भी पूरी जागरूकतासे काम लिया जाय। हमने प्रस्तुत संस्करणमें इसी नीतिका अनुसरण किया है। मात्र ता० प्रतिके अधिकतर जो पाठ () या [] त्रैकेटोंसे सम्बन्ध रखते हैं उन सबको हम टिप्पणीमें नहीं दिखा सके हैं। इनको देखकर हमें इस बातका आश्चर्य होता है कि ता० प्रतिमें इतने पाठभेद हो कैसे गये। कनडीकी एक प्रतिके आधारसे दो प्रतिलिपि हुई एक श्री प० सुमेरुचन्द्रजीने कराई और दूसरी बनारस होकर आई। फिर भी इनमें लिपिसम्बन्धी इतना अधिक व्यत्यय ? इस आधारसे हमें यह कहना पड़ता है कि भाषा और लिपि आदि कई दृष्टियोंसे मूल कनडी प्रतिका अव्ययन होना चाहिए। इसके बिना कनडी प्रतिके ठीक स्वरूपका निश्चय होना सम्भव नहीं है। इन दोनों प्रतियोंमें हमें लिपिसम्बन्धी जो भेद दृष्टि गोचर हुआ है उसमेंसे कुछको आगे तालिका देकर दिखलाया जाता है—

१. भ और व अक्षरोंका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० १ पंक्ति ५ में 'विभागदेसो' पाठ है जब कि आ० प्रति पृ० ६ पंक्ति ३ में यह पाठ 'विवागदेसो' उपलब्ध होता है।

२ ए और इ स्वरोंका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २ पंक्ति ५ में 'सन्वसकिलेस्स' पाठ है जब कि आ० प्रति पृ० ८ पंक्ति १२ में 'सन्वसकिलिद्धस्स०' पाठ उपलब्ध होता है।

३. क और ग अक्षरोंका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २ पक्ति १३ में 'उवरिमकेवज्जा' पाठ है जब कि आ० प्रति पृ० ६ पक्ति ११ में 'उवरिमगेवज्जा' पाठ उपलब्ध होता है।

४. उ और द्वित्वका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २ पक्ति १३ में 'अणु०' पाठ है जब कि आ० प्रति पृ० ६ पक्ति १२ में इसके स्थानमें 'अण्ण०' पाठ उपलब्ध होता है।

५. 'फ' के स्थानमें केवल फ—ता० प्रति पृ० २ प० १८ में 'वणफदि' पाठ है जब कि आ० प्रति पृ० १० पंक्ति ४ में इसके स्थानमें 'वणफदि' पाठ उपलब्ध होता है।

६. ज और पका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २१ पक्ति ५ में 'सुहुमसज०' पाठ है। किन्तु इसके स्थानमें आ० प्रति पृ० ८२ पक्ति ११ में 'सुहुमसप०' पाठ उपलब्ध होता है।

७. आकारके ह्रस्व और दीर्घका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २१ पक्ति १२ में 'अणाद' पाठ है। किन्तु आ० प्रति पृ० ८३ पक्ति ११ में 'आणाद' पाठ उपलब्ध होता है।

८. त और द का व्यत्यय—ता० प्रति पृ० ८४ पंक्ति १८ में 'वणफति' पाठ है किन्तु इसके स्थानमें आ० प्रति पृ० ३३३ पंक्ति ३ में 'वणफटिका०' पाठ उपलब्ध होता है।

ये ऐसे व्यत्यय हैं जो दोनों प्रतियोंमें सर्वत्र बहुलतासे पाये जाते हैं। इनके सिवा थोड़े बहुत अन्य अक्षरोंके भी व्यत्यय उपलब्ध होते हैं उन्हें यहाँ दिखलाया नहीं है। यहाँ यह कह देना हमें आवश्यक प्रतीत होता है कि इन पाठ-भेदोंसे आ० प्रतिके पाठ हमें प्रायः उपयुक्त प्रतीत हुए इसलिए प्रस्तुत मुद्रित सत्करणमें हमने उन्हें ही स्वीकार किया है। दूसरे प्रारम्भके १० मुद्रित फार्मोंमें जहाँ हमें आ० प्रतिके पाठोंके स्थानमें अन्य पाठ स्वीकार करने पड़े हैं वहाँ हमने आ० प्रतिके पाठ टिप्पणीमें दिखला दिये हैं। इसके लिए प्रस्तुत मुद्रित प्रतिके ६, १०, ४९, ५४, ५६ और ७५ पृष्ठोंकी टिप्पणी देखिए। इन स्थलोंमें पहले हम जो आ० और ता० प्रतिके पाठ-मिलानकी तालिका दे आये हैं उसमें सङ्गोहित पाठ ही दिखलाये गये हैं। यहाँ आ० प्रतिके टिप्पणीगत पाठ ही उसके समझने चाहिए।

यहाँ एक बातकी सूचना कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है कि मूडविद्रीकी कनडी प्रतिका अनु-भागग्रन्थके प्रारम्भका कुछ अंश त्रुटित है जिसकी पूर्ति हमने उत्तरप्रकृतिअनुभागग्रन्थके प्रारम्भिक स्थलको देखकर की है। किन्तु ऐसा करते हुए हमने जोड़े हुए अशको व्यवस्थानुसार [] ब्रैकेटमें दिखलाया है। यह ब्रैकेट प्रथम पृष्ठसे प्रारम्भ होकर पाचवें पृष्ठकी ११ वीं पक्तिमें समाप्त होता है, इसलिए यह अश जोड़ा हुआ समझना चाहिए। ग्रन्थके संदर्भमें आनुपूर्वी बनी रहे एकमात्र इसी अभिप्रायसे हमने ऐसा किया है। इस प्रकार इस भागका सम्पादन हमने जिन विशेषताओंको ध्यानमें रखकर किया है उसका सञ्चित विवरण उक्त प्रकार है।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

विषय-परिचय

बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । इनमेंसे प्रस्तुत संस्करण-में अनुभागबन्धका विचार किया गया है ।

अनुभागका अर्थ है फलदानशक्ति । कषायोंका शुभ और अशुभ जैसा परिणाम होता है । उसके कर्मोंमें फलदान शक्तिका प्रादुर्भाव होता है । योगके निमित्तसे गुणस्थान परिपाटीके अनुसार यथासम्भव ज्ञानावरणादि आठ मूल प्रकृतियोंका और मतिज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता है और कषायके अनुसार उनमें न्यूनाधिक शक्तिका निर्माण होता है । यह न्यूनाधिक शक्ति ही अनुभाग है । प्रत्येक कर्ममें उसकी प्रकृतिके अनुसार ही अनुभागशक्ति पढती है । इसलिए हम प्रकृतिको सामान्य और अनुभागको विशेष कह सकते हैं । यद्यपि ज्ञानावरणके मतिज्ञानावरण आदि विशेष ही हैं पर अपनी अपनी फलदानशक्तिके तारतम्यकी अपेक्षा ये भी सामान्य ही हैं । प्रकृतिबन्धमें कहाँ कितनी शक्ति प्राप्त हुई है इस प्रकारकी विशेषता नहीं उत्पन्न होती । यह विशेषता अनुभागबन्धसे ही प्राप्त होती है । जीव उत्तर कालमें जो शुभ या अशुभ कर्मोंके फलको भोगता है उसका कारण मुख्यतः यह अनुभागबन्ध ही है और अनुभागबन्धका मूल कारण कषाय है, इसलिए कर्मबन्धके सब कारणोंमें कषायको मुख्य कारण कहा गया है । यों तो बन्धतत्त्वका साङ्गोपाङ्ग विचार करनेके लिए अनेक बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत भागमें अनुभागबन्धका ही विचार किया गया है, इसलिए यहाँ हम एकमात्र इसीका उदाहरण करेंगे ।

जीव और कर्म स्वतन्त्र दो द्रव्य हैं । उसमें भी जीव अमूर्त है और कर्म मूर्तिक । एक मूर्तिकका अन्य मूर्तिकके साथ बन्ध अपने स्पर्श गुणके कारण होता है । किन्तु अमूर्तिकका मूर्तिकके साथ बन्ध क्यों होता है ? बन्धतत्त्वको ठीक तरहसे समझनेके लिए इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है । आचार्य कुन्दकुन्दने इस प्रश्नका समाधान करते हुए कहा है—

रत्तो बंधदि कम्मं सुंचदि कम्मं विरागसंपत्तो ।

आशय यह है कि राग और द्वेषके कारण जीव कर्मसे बन्धको प्राप्त होता है । इस प्रकार यद्यपि इस वचनसे हमें यह उत्तर तो मिल जाता है कि जीवका बन्ध किस कारणसे होता है फिर भी यह शका बनी ही रहती है कि स्पर्श गुणके अभावमें जीवका पुद्गलसे सम्बन्ध कैसे होता है, क्यों कि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ स्पर्श विशेषका नाम ही बन्ध है । पुद्गलमें स्पर्शगुण होता है, इसलिए उसका अन्य द्रव्यके साथ बन्ध बन जाता है पर जीव द्रव्यमें इस गुणका अभाव होनेसे यह नहीं बन सकता है । यदि यह कहा जाय कि बन्ध पुद्गलका पुद्गलसे होता है और जीव उसमें अनुप्रविष्ट रहता है तो प्रश्न यह होता है कि जीव पुद्गलमें अनुप्रविष्ट क्यों हुआ और पुद्गलके स्थानान्तरित होने पर वह उसका अनुगमन क्यों करता है । इस प्रश्नका उत्तर आचार्योंने यह दिया है कि जीव और पुद्गलका बन्ध अनादि कालसे हो रहा है और इस बन्धका मुख्य कारण जीवकी अपनी कमजोरी है । कर्मके निमित्तसे जीवमें योग और कषायरूप परिणाम होता है और इस कारण जीवके साथ कर्म सम्बन्धको प्राप्त होता है । यद्यपि जीवमें स्पर्श गुण नहीं है फिर भी जीवमें विद्यमान कषाय परिणाम स्पर्शगुणका ही कार्य करता है । जिस प्रकार पुद्गलमें स्पर्श गुणके कारण उसका अन्य पुद्गल-द्रव्यके साथ बन्ध होता है उसी प्रकार जीवमें योग व कषायरूप परिणाम होनेके कारण उसका कर्म और नोकर्मके साथ बन्ध होता है । किन्तु जीवका यह योग और कषायरूप परिणाम स्वाभाविक न होकर नैमित्तिक है इसलिए जब तक इस प्रकारके निमित्तका सद्भाव रहता है तभी तक यह बन्ध प्रक्रिया चलती है, इसके अभावमें नहीं । इस प्रकार इस बातका निर्याय हो जाने पर कि जीवका कषायरूप परिणाम और पुद्गलका स्पर्शगुण मुख्यतः बन्धका प्रयोजक है, यहाँ इन्हीं दोनोंके आधारसे अनुभाग-

बन्धका विचार किया है। तात्पर्य यह है कि जीवमें जिस मात्रामें कपायाध्ययसान स्थान होता है कर्मका उसी मात्रामें जीवके साथ बन्ध होता है। साधारणतः जीवकी कपाय और कार्मण वर्गणाओंका स्पर्श गुण इन दोनोंके कारण बन्धको हम दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध। स्थितिवन्धमें विवक्षित कर्मका जीवके साथ किन्ने काल तक सम्बन्ध रहता है इसका विचार किया जाता है और अनुभागबन्धमें कर्मका जीवके साथ जो बन्ध होता है वह विघटनके समय जीवमें कितनी मात्रामें और किस प्रकारकी क्रियाके होनेमें सहायक होना है इस बातका विचार किया जाता है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिए 'दादमवम' का उदाहरण उपयुक्त होगा। इसमें दो बातें दृष्टिगोचर होती हैं—प्रथम तो उसका नियत समय पर विस्फोट होना और दूसरे विस्फोटके समय अमुक मात्रामें हलचल उत्पन्न करना। ठीक वही अवस्था कर्मोंकी है। कर्म भी नियत समय पर ही आत्मासे अलग होते हैं और जिस समय अलग होते हैं उस समय वे आत्मामें एक विशेष प्रकारकी नियत मात्रामें हलचल उत्पन्न करके ही अलग होते हैं। शास्त्रकारोंने इस हलचलको ही उदय या उदीरणा शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है। कर्मोंका उदय या उदीरणा जिस क्रमका जितना अनुभाग होता है तदनु रूप ही होता है, इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रमें गृह्यपिच्छ आचार्यने अनुभागकी व्याख्या करते हुए कहा है 'विपाकोऽनुभवः।'

यह अनुभाग बन्धकी अपेक्षा दो प्रकारका है—मूलप्रकृति अनुभागबन्ध और उत्तर प्रकृति अनुभाग बन्ध। मूल प्रकृतियाँ आठ हैं। बन्धके समय इन्हे जो अनुभाग प्राप्त होता है उसे मूलप्रकृति अनुभागबन्ध कहते हैं और बन्धके समय उत्तर प्रकृतियोंको जो अनुभाग प्राप्त होता है उसे उत्तर प्रकृति अनुभागबन्ध कहते हैं। तृतीय अनुभागबन्धाधिकारमें इसी अनुभागका विविध अधिकारों-द्वारा विचार किया गया है। वहाँ मूल प्रकृति अनुभाग बन्धका विचार करते समय पहले दो अधिकारों-द्वारा उसका विचार किया गया है। वे दो अधिकार ये हैं—निपेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा। जिनका खुलासा इस प्रकार है—

निपेक प्ररूपणा—प्रति समय जो विवक्षित मूल या उत्तर कर्म बंधता है उसका दो प्रकारसे विभाग होता है—एक तो स्थितिकी अपेक्षा और दूसरा अनुभागकी अपेक्षा। आत्राध कालको छोड़ कर स्थिति समयसे लेकर प्रत्येक समयमें जो कर्मपुञ्ज प्राप्त होता है उसे स्थितिकी अपेक्षा निपेक कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समयमें बंधनेवाला कर्म अपनी स्थितिके अनुसार प्रत्येक समयमें विभाजित हो जाता है। मात्र आत्राधाके जितने समय होते हैं उनमें निपेक रचना नहीं होती। यह तो स्थितिके अनुसार कर्मविभाजनका क्रम है। अनु भागकी अपेक्षा जवन्व अनुभाग वाले कर्म-परमाणुओंकी प्रथम वर्गणा होती है और प्रत्येक परमाणुको वर्ग कहते हैं। क्रमवृद्धिरूप अनुभाग शक्तिको लिये हुए अन्तर रहित ये वर्गणाएँ जहाँ तक पाई जाती हैं उसकी स्पर्धक सजा है। ये स्पर्धक देशघाति और सर्वघाति दो प्रकारके होते हैं। ये दोनों प्रकारके स्पर्धक स्थितिवन्धके अनुसार जो निपेक रचना कही है उसके प्रथम निपेकसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थिति-निपेकमें देशघाति स्पर्धक है और सर्वघाति स्पर्धक है। मात्र देशघाति स्पर्धक आठों कर्मोंके होते हैं और सर्वघाति स्पर्धक केवल चार घातिकर्मोंके होते हैं।

स्पर्धकप्ररूपणा—अविभाग प्रतिच्छेदका हम विचार आगे करेंगे। ऐसे अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद एक वर्गमें पाये जाते हैं। तथा वे वर्ग मिलकर एक वर्गणा बनती है और ऐसी अनन्तानन्त वर्गणाएँ मिलकर एक स्पर्धक होना है। विशेषता इतनी है कि प्रथम वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। दूसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा तत्र जानना चाहिए।

ये दो धनुशोगद्वार आगेकी प्ररूपणाके मूल आधार हैं। तदनुसार अनुभागबन्धका विचार संज्ञा आदि चौरांत अधिनर्गो-द्वारा किया गया है। खुलासा इस प्रकार है—

संज्ञा—संज्ञाके दो भेद हैं—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा। जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म बतलाये गये हैं वे घाति और घातिसंज्ञा इन दो भागोंमें विभाजित किये गये हैं। घातिकर्म भी दो प्रकारके हैं—देशघाति और सर्वघाति। जो जीवके ज्ञानादि गुणोंका पूरी तरहसे वात करते हैं उन्हें सर्वघाति कर्म कहते हैं और जो एकदेश

घात करते हैं उन्हें देशघाति कर्म कहते हैं। अघातिकर्म जीवके अनुजीवी गुणोंका घात नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अघाति कहते हैं। घाति कर्मोंका जो सर्वघाति और देशघाति अनुभाग है वह उत्कृष्ट आदि भेदोंमें विभाजित होकर भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति ही होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध सर्वघाति और देशघाति दोनों प्रकारका होता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभाग बन्ध देशघाति ही होता है और अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वघाति और देशघाति दोनों प्रकारका होता है। इस प्रकार घाति सजा प्ररूपणा-द्वारा इन सब बातोंकी जानकारी मिलती है। स्थान सजाप्ररूपणा-द्वारा कौन मनुष्य अनुभाग-चतुःस्थानिक है आदि बातोंका ज्ञान होता है। चारों घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एकस्थानिक होता है। जघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है और अजघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। चार अघाति कर्मोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक होता है। जघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक होता है। अजघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। यहाँ घातिकर्मोंमें लता, दारु, अस्थि और शैल रूपसे चार प्रकारका अनुभाग माना गया है। जिसमें यह चारों प्रकारका अनुभाग होता है उसे चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें शैलके बिना तीन प्रकारका अनुभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें अस्थि और शैलके बिना दो प्रकारका अनुभाग होता है उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा जिसमें केवल लता रूप अनुभाग होता है उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं। अघाति कर्म दो प्रकारके होते हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त कर्मोंमें गुड़, खाँड़, शर्करा और अमृतोपम तथा अप्रशस्त कर्मोंमें नीम, काँजीर, विष और हलाहलोपम अनुभाग माना गया है। यहाँ भी जहाँ यह चारों प्रकारका अनुभाग होता है उसे चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जहाँ अन्तके भेदको छोड़कर तीन प्रकारका अनुभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं और जहाँ अन्तके दो विकल्पोंको छोड़कर शेष दो प्रकारका अनुभाग होता है उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं।

सर्व-नोसर्वबन्ध—जानावरणादि कर्मोंका अनुभाग बन्ध होने पर वह सर्वबन्ध रूप है या नोसर्वबन्ध रूप है। इसका विचार इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। जहाँ सब अनुभागका बन्ध होता है उसे सर्वबन्ध कहते हैं और जहाँ उससे न्यून अनुभागका बन्ध होता है उसे नोसर्वबन्ध कहते हैं। मात्र यह ओघ और आदेशसे दो प्रकारका है इसलिए जहाँ जो सम्भव हो उसे घटित कर लेना चाहिए।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट बन्ध—जानावरणादिका अनुभागबन्ध होने पर वह उत्कृष्ट बन्ध है या अनुत्कृष्ट बन्ध है, इसका विचार इन दो अनुयोगद्वारोंमें किया जाता है। जहाँ ओघ या आदेशसे सर्वोत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है इसे उत्कृष्टबन्ध कहते हैं और जहाँ इससे न्यून अनुभागबन्ध होता है उसे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कहते हैं।

जघन्य-अजघन्यबन्ध—इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें जो अनुभागबन्ध हुआ है वह जघन्य है कि अजघन्य, इसका विचार किया जाता है। बन्धके समय जो सबसे कम अनुभाग प्राप्त होता है उसे जघन्य अनुभागबन्ध कहते हैं और इससे अधिक अनुभागका बन्ध होने पर वह अजघन्य अनुभागबन्ध कहलाता है। वह भी ओघ और आदेशसे दो प्रकारका होता है। यहाँ उत्कृष्ट आदि चारों भेदोंके सम्बन्धमें इतना विशेष ज्ञानना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें ओघ और आदेशसे सर्वोत्कृष्ट अनुभागका बन्ध लिया जाता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धमें ओघ व आदेशसे उत्कृष्टके सिवा शेष जघन्य आदि सब अनुभागबन्ध लिया जाता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभागबन्धमें ओघ व आदेशसे सबसे कम अनुभागबन्ध विवक्षित है और अजघन्य अनुभागबन्धमें ओघ व आदेशसे जघन्यके सिवा उत्कृष्ट तकका सब अनुभागबन्ध लिया जाता है।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्ध—इन चारों अनुयोगद्वारोंमें जो उत्कृष्ट आदि चार प्रकारका अनुभागबन्ध बतलाया है वह सादि आदि किस रूप है इस बातका विचार किया जाता है। इसका विशेष खुलासा

हमने विशेषार्थ द्वारा इस प्रकरणके समय किया ही है इसलिए वहाँ से जान लेना चाहिए। सक्षेपमें उसकी सद्यष्टि इस प्रकार है—

कर्म	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट	जघन्य	अजघन्य
ज्ञानावरण	सादि अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार रूप
दर्शनावरण	"	"	"	"
वेदनीय	"	सादि आदि चार रूप	"	सादि-अध्रुव
मोहनीय	"	सादि-अध्रुव	"	सादि आदि चार रूप
आयु	"	"	"	सादि-अध्रुव
नाम	"	सादि आदि चार रूप	"	"
गोत्र	"	"	सादि आदि चार रूप	"
अन्तराय	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि-अध्रुव	सादि आदि चार रूप

स्वामित्व—यहाँ स्वामित्वको ठीक तरहसे समझनेके लिए इस अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें तीन अन्य अनुयोगद्वारोंकी स्वतन्त्ररूपसे विवेचना की गई है। वे तीन अनुयोगद्वार हैं—प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और प्रशान्नाप्रशस्तप्ररूपणा। कर्मबन्धके प्रत्यय (कारण) चार हैं—मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग। कहीं कहीं प्रमादके साथ ये पाँच भी कहे गये हैं पर प्रमादका अन्तर्भाव असयम और कषायमें मुख्यरूपसे हो जाता है, इसलिए यहाँ ये चार ही कहे गये हैं। इन चारोंमेंसे किसके निमित्तसे किस कर्मका बन्ध होता है इसका विचार प्रत्ययानुगममें किया जाता है। यहाँ इस बातका निर्देश करना आवश्यक प्रतीत है कि इन कारणोंके रहने पर यथातम्भव विवक्षित कर्मके अनुभाग बन्धमें न्यूनाधिकता आती है, इसलिए अनुभागबन्धके स्वामित्वका निर्देश करते समय इस अनुयोगद्वारका निर्देश किया है।

बन्धके समय कर्मका जो अनुभाग प्राप्त होता है उसका विपाक जीवमें, पुद्गलमें या अन्यत्र कहाँ होता है इसका विचार विपाक देशमें किया गया है। तदनुसार कर्मोंके चार भेद होते हैं—जीवविपाकी, भवविपाकी, पुद्गलविपाकी और क्षेत्रविपाकी। चार घाति कर्म, वेदनीय और गोत्रकर्म वे लृष्ट कर्म जीवविपाकी हैं, क्योंकि इनके उदयमें जीवमें अज्ञान, अदर्शन, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, गग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुरुषवेद, उच्च, नीच, अदान, धलाम, अभोग, अनुभवोग और अव्यौर्यरूप परिणामोंकी उत्पत्ति होती है। आयुकर्म भवविपाकी है, क्योंकि नारक आदि भवोंमें इसका विपाक देखा जाता है।

नामकर्म जीव विपाकी, पुद्गलविपाकी और क्षेत्रविपाकी तीनों रूप हैं, क्योंकि एक तो इसके उदयसे नारक आदि अवस्थाओंकी और औदारिक आदि शरीरोंको प्राप्ति होती है। दूसरे विग्रहगतिमें शरीर ग्रहणके पूर्व जीवके प्रदेशोंका आकार पूर्व शरीरके समान बनाये रखना इसका कार्य है। यद्यपि उत्तर कालमें टीकाकारोंने वेदनीय कर्मको पुद्गलविपाकी मानकर ब्राह्म-सामग्रीकी प्राप्ति भी इसका कार्य बतलाया है, परन्तु यह विचार कर्म-सिद्धान्तकी मूल मान्यताके विरुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ तो वेदनीयको जीवविपाकी माना ही है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वारमें भी 'वेदनीयं सुखदुःखस्मि षिवद्दं' अर्थात् वेदनीय कर्म सुख और दुःखमें निबद्ध है ऐसा कहा है। ब्राह्म सामग्रीकी प्राप्ति इसका अर्थ है ब्राह्म सामग्रीका स्वीकार सो यह भाव कषायके सद्भावमें ही होता है, अतः ब्राह्म सामग्रीकी प्राप्ति वेदनीय कर्मका कार्य न होकर कषायके सद्भावका फल है। यद्यपि अरिहन्त परमेष्ठीके समवसरण आदि ब्राह्म सामग्री देखी जाती है फिर भी उसमें उनके ममकार भाव न होनेसे उसके सद्भावको प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है। कारण कि जहाँ अरिहन्त परमेष्ठी विराजमान होते हैं वहाँ उसका सद्भाव देवोंके धर्मानुरागवश होता है। उनके गमन करते समय कमलादिकी रचना भी देवोंके धर्मानुरागका फल है। उत्तर कालमें वेदनीय कर्मकी व्याख्यामें जो अन्तर पड़ा है वह अन्तर गोत्रकर्मकी व्याख्यामें भी दिखलाई देता है। यहाँ इसे जीवविपाकी कहा है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वारमें भी 'गोदमप्याग्रहि षिवद्दं' गोत्र कर्म आत्मामें निबद्ध है ऐसा कहा है। इसका आशय यह है कि गोत्रकर्मके उदयसे जीवकी उच्च और नीच पर्यायका निर्माण होता है। उसका सम्बन्ध वर्णोंके साथ नहीं है। यही कारण है कि कर्मभूमिमें ब्राह्मण आदिका भेद किये बिना सब मनुष्योंके उच्च या नीच गोत्रका उदय बतलाया है। अमुक वर्णमें उच्चगोत्रका उदय होता है और अमुक वर्णमें नीच गोत्रका ऐसा विभाग वहाँ नहीं किया गया है। क्योंकि वर्णका सम्बन्ध आजीविकासे है इसलिए नामके समान वे काल्पनिक हैं। इच्छाकु आदि वर्णोंके सम्बन्धमें भी यही बात समझनी चाहिए। कर्मोंके इन विभागोंके कारण भी अनुभागबन्धमें विविधता आती है। इसलिए स्वामित्वके पूर्व इन विभागोंका निर्देश किया है।

सब कर्म दो भागोंमें विभक्त हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त। दूसरे शब्दोंमें इन्हें पुण्य और पापकर्म भी कहते हैं। बन्धके समय प्रशस्त परिणामोंसे जिन्दे अधिक अनुभाग मिलता है वे प्रशस्त कर्म कहे जाते हैं और अप्रशस्त परिणामोंसे जिन्दे अधिक अनुभाग मिलता है उन्हें अप्रशस्त कर्म कहते हैं। चार घातिकर्म ये अप्रशस्त हैं और अघाति कर्म प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकारके हैं। इस कारण अनुभागबन्धके स्वामित्वमें अन्तर पड़ता है यह स्पष्ट ही है।

इस प्रकार इन तीन अनुयोगद्वारोंका निर्देश करके आगे स्वामित्वका विचार किया गया है। जैसा कि पूर्वमें निर्देश किया है चार घातिकर्म अप्रशस्त हैं अतएव इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट सकलेशरूप परिणामोंसे ही होगा और ये परिणाम सजी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके जाग्रत अवस्थामें साकार उपयोगके समय ही हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी योग्यतासम्पन्न जीवको ही इन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्धक कहा है। चार अघातिकर्म यद्यपि प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकारके होते हैं पर सामान्यसे उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध इन कर्मोंमें प्रशस्त परिणामोंसे ही प्राप्त होता है, इसलिए इन कर्मोंका क्षपकश्रेणिमें जहाँ बन्धव्युच्छित्ति होती है वहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कहा है। मात्र आयुर्कर्मका बन्ध अप्रमत्तसयत गुणस्थानतक ही होता है, इसलिए इसका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसयत गुणस्थानमें कहा है। यह उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार है। जघन्य स्वामित्वमें क्रम बदल जाता है। बात यह है कि जिन कर्मोंका उत्कृष्ट सकलेश परिणामोंसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है उनका अनुभागबन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोंसे होगा यह स्वाभाविक बात है। यही कारण है कि चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें स्थित क्षपक जीव कहा है। परन्तु यह नियम घातिकर्मोंके लिए ही लागू है, अघातिकर्मोंके लिए नहीं, क्योंकि अघातिकर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसा भेद होनेके कारण जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वमें प्रायः परिवर्तमान मध्यम परिणाम ही कारण माने गये हैं। हाँ गोत्रकर्ममें कुछ विशेषता है। बात यह है कि गोत्रकर्म अपने अचान्त भेदोंकी अपेक्षा

परावर्तमान प्रकृति होने पर भी अग्निकायिक, वायुकायिक और सातवें नरकके मिथ्यादृष्टि जीवके नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। उममें भी विशुद्ध परिणामोंकी बहुलता सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि नारकीके जितनी सम्भव है उतनी अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके सम्भव नहीं है, इसलिए ओषसे इसका जघन्य अनुभागबन्ध परावर्तमान मध्यम परिणामोंसे न कह कर सर्वविशुद्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए नारकीके कहा है। यह सामान्यसे विचार है आदेशसे जहाँ जो विशेषता सम्भव हो उसे जानकर स्वामित्वका निर्णय करना चाहिए। आगे काल आदि प्ररूपणाओंमें भी यह स्वामित्वप्ररूपणा मूल आधार है, इसीलिए यह काल आदि प्ररूपणाओंका योनि कहा जाता है। काल आदिका निर्देश ओष और आदेशमें मूलमें किया ही है। कारणका निर्देश वहाँ ही हमने विशेषार्थ ढंकर कर दिया है, इसलिए पुनः उम सबका यहाँ परिचय कराना उपयुक्त न समझ कर वहाँ चौबीस अनुयोगद्वारोंके आगेके प्रकरणको स्पर्श करना उचित मानते हैं।

भुजगारबन्ध—भुजगार पद देशामर्पक है। इससे भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यबन्ध का ग्रहण होता है। पिछले समयमें जितने अनुभागका बन्ध हुआ है उससे वर्तमान समयमें अधिक अनुभागका बन्ध होना इसे भुजगार (भूयस्कार) बन्ध कहते हैं। पिछले समयमें बँधे गये अनुभागसे वर्तमान समयमें कम अनुभागका बन्ध होना इसे अल्पतरबन्ध कहते हैं। पिछले समयमें जितने अनुभागका बन्ध हुआ है वर्तमान समयमें उतने ही अनुभागका बन्ध होना यह अवस्थित बन्ध कहलाता है। तथा जो पहले नहीं बँधकर वर्तमान समयमें बँधता है उसकी अवक्तव्य सजा है। इस प्रकार इन चार विशेषताओंके साथ इस अनुयोगद्वारमें अनुभागबन्धका विचार किया गया है। इसके अवान्तर अधिकार तेरह है—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

पदनिक्षेप—भुजगार विशेषका नाम पदनिक्षेप है। इस अनुयोगद्वारमें अनुभागबन्ध सम्बन्धी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन उपअधिकारों-द्वारा विचार किया गया है।

वृद्धि—वृद्धिवन्धमें छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तव्य इन पदोंका समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तेरह उपअधिकारों-द्वारा ओष और आदेशसे व्याख्यान किया गया है।

अव्यवसानसमुदाहार—आगे अव्यवसानसमुदाहार प्रकरण प्रारम्भ होता है। इसके बारह भेद हैं—अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, कारणप्ररूपणा, ओजयुग्मप्ररूपणा, पदस्थान-प्ररूपणा, अधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, पर्यवसानप्ररूपणा और अल्पबहुत्व। खुलासा जाननेके लिए धवलखण्ड ४ पुस्तक १२ में विषय-परिचय के २ से ४ तक पृष्ठ देखिए।

जीवसमुदाहार—आगे जीव समुदाहार प्रकरण आता है। इसके आठ अनुयोगद्वार हैं—एकस्थान जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकालप्रमाणानुगम, वृद्धि-प्ररूपणा, यवमध्यप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा और अल्पबहुत्व। इसके स्पष्टीकरणके लिए धवलखण्ड ४ पुस्तक १२ में विषय-परिचयके पृष्ठ ४ से ५ तक देखिए।

इस प्रकार मूलप्रकृति अनुभागबन्धका विचार करके उत्तर प्रकृति अनुभागबन्धका विचार प्रारम्भ होना है। अनुयोगद्वार मय वही है जिनका निर्देश मूल प्रकृति अनुयोगद्वारमें किया है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	१	उत्कृष्ट भागाभाग	८१-८२
अनुभागबन्धके दो भेदोंका नामनिर्देश	१	जघन्य भागाभाग	८२
मूलप्रकृति अनुभागबन्ध	१-१८०	परिमाणप्ररूपणा	८३-८७
मूलप्रकृतिअनुभागबन्धके दो भेद	१-२	परिमाणके दो भेद	८३
नियोकप्ररूपणा	२	उत्कृष्ट परिमाण	८३-८५
स्यर्धकप्ररूपणा	२	जघन्य परिमाण	८५-८७
चौबीस अनुयोगद्वार	३-१२३	क्षेत्रप्ररूपणा	८७-९१
सजाप्ररूपणा	३	क्षेत्रके दो भेद	८७
संज्ञाप्ररूपणाके दो भेद	३	उत्कृष्ट क्षेत्र	८७-८८
धातिसंज्ञा	३	जघन्य क्षेत्र	८९-९१
स्थानसंज्ञा	३	स्पर्शनप्ररूपणा	९१-१०६
सर्व-नोसर्वबन्धप्ररूपणा	४	स्पर्शनके दो भेद	९१
उत्कृष्ट अनुत्कृष्टबन्धप्ररूपणा	४	उत्कृष्ट स्पर्शन	९१-१००
जघन्य-अजघन्यबन्धप्ररूपणा	४-५	जघन्य स्पर्शन	१००-१०९
सादि-अनादि-ध्रुव अर्ध्रुवबन्धप्ररूपणा	५	कालप्ररूपणा	१०१-११६
स्वामित्वप्ररूपणा	६-२५	कालके दो भेद	१०१
स्वामित्वके तीन अनुयोगद्वार	६	उत्कृष्ट काल	१०१-११४
प्रत्ययानुगम	६	जघन्य काल	११४-११६
विपाकदेश	७	अन्तरप्ररूपणा	११६-१२०
प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा	७	अन्तरके दो भेद	११६
स्वामित्वके दो भेद	७	उत्कृष्ट अन्तर	११६-११८
उत्कृष्ट स्वामित्व	७-१७	जघन्य अन्तर	११६-१२०
जघन्य स्वामित्व	१७-२५	भावप्ररूपणा	१२०
कालप्ररूपणा	२६-४३	अल्पबहुत्वप्ररूपणा	१२०-१२३
कालके दो भेद	२६	अल्पबहुत्वके दो भेद	१२०
उत्कृष्ट काल	२६-३४	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१२०-१२१
जघन्य काल	३४-४३	जघन्य अल्पबहुत्व	१२१-१२३
अन्तरप्ररूपणा	४४-७४	मुजगारबन्ध	१२४-१४०
अन्तरके दो भेद	४४	अर्थपद	१२४
उत्कृष्ट अन्तर	४४-५७	मुजगारबन्धके तेरह अनुयोगद्वार	१२४
जघन्य अन्तर	५७-७४	समुत्कीर्तना	१२४-१२५
सन्निकर्षप्ररूपणा	७४-७६	स्वामित्व	१२५-१२६
सन्निकर्षके दो भेद	७४	काल	१२६-१२७
उत्कृष्ट सन्निकर्ष	७४-७६	अन्तर	१२७-१३१
जघन्य सन्निकर्ष	७६-७६	नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	१३१-१३२
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	७६-८१	भागाभाग	१३२
उत्कृष्ट भङ्गविचय	७९-८०	परिमाण	१३३
जघन्य भङ्गविचय	८०-८१	क्षेत्र	१३४
भागाभागप्ररूपणा	८१-८२	स्पर्शन	१३४-१३७
भागाभागके दो भेद	८१	काल	१३७-१३८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अन्तर	१३८	वृद्धिप्ररूपणा	१७४-१७५
भाव	१३९	यवमध्यप्ररूपणा	१७५
अल्पबहुत्व	१३९-१४०	अल्पबहुत्व	१७५-१७६
पदनिक्षेप	१४१-१६०	अल्पबहुत्वके दो अनुयोगद्वार	१७५
पदनिक्षेपके तीन अनुयोगद्वार	१४१	अनन्तरोपनिधा	१७५
समुत्कीर्तना	१४१	परम्परोपनिधा	१७६
समुत्कीर्तनाके दो भेद	१४१	जीवसमुदाहार	१७७-१८०
उत्कृष्ट समुत्कीर्तना	१४१	जीवसमुदाहारके आठ अनुयोगद्वार	१७७
जघन्य समुत्कीर्तना	१४१	एकस्थानजीवप्रमाणानुगम	१७७
स्वामित्व	१४१-१५६	निरन्तरस्थानजीवानुगम	१७७
स्वामित्वके दो भेद	१४१	सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम	१७७
उत्कृष्ट स्वामित्व	१४१-१४९	नानाजीवकालप्रमाणानुगम	१७७
जघन्य स्वामित्व	१४९-१५६	वृद्धिप्ररूपणा	१७७
अल्पबहुत्व	१५७-१६०	वृद्धिप्ररूपणाके दो अनुयोगद्वार	१७७
अल्पबहुत्वके दो भेद	१५७	अनन्तरोपनिधा	१७७
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१५७-१५८	परम्परोपनिधा	१७७
जघन्य अल्पबहुत्व	१५८-१६०	यवमध्यप्ररूपणा	१७९
वृद्धिवन्ध	१६१-१६८	स्पर्शनप्ररूपणा	१७९
वृद्धिवन्धके तेरह अनुयोगद्वार	१६१	अल्पबहुत्व	१८०
समुत्कीर्तना	१६१	उत्तरप्रकृतिअनुभागवन्ध	१८१ से ४२७
स्वामित्व	१६१-१६२	उत्तरप्रकृति अनुभागवन्धके दो अनुयोगद्वार	१८१
काल	१६२-१६३	निषेकप्ररूपणा	१८१
अन्तर	१६३	स्पर्धकप्ररूपणा	१८२
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	१६३-१६४	चौथीअनुयोगद्वार	१८२
भागभाग	१६४	संज्ञा	१८२-१८३
परिमाण क्षेत्र	१६५	सजाके दो भेद	१८२
स्पर्शन	१६५	वातिषजा	१८२
काल	१६६	स्थानसजा	१८३
अन्तर	१६६	सर्व-नोसर्व उत्कृष्टादिवन्ध	१८४
भाव	१६६	सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुववन्ध	१८४
अल्पबहुत्व	१६७-१६८	स्वामित्वप्ररूपणा	१८५-२३७
अध्यवसानसमुदाहार	१६८-१७६	स्वामित्वके दो भेद	१८५
अध्यवसानसमुदाहारके बारह अनुयोगद्वार	१६८	उत्कृष्ट स्वामित्व	१८५-२१२
अविभाग प्रतिच्छेदप्ररूपणा	१६९	जघन्य स्वामित्व	२१२-२३७
स्थानप्ररूपणा	१७०	कालप्ररूपणा	२३८-३१४
अन्तरप्ररूपणा	१७०	कालके दो भेद	२३८
काण्टकप्ररूपणा	१७०	उत्कृष्ट काल	२३८-२७३
घ्रोज-युग्मप्ररूपणा	१७१	जघन्य काल	२७३-३१४
पटस्थानप्ररूपणा	१७१	अन्तरप्ररूपणा	३१४-४२७
अधस्तानस्थानप्ररूपणा	१७२-१७३	अन्तरके दो भेद	३१४
समयप्ररूपणा	१७४	उत्कृष्ट अन्तर	३१४-३७०
समयप्ररूपणा अल्पबहुत्व	१७४	जघन्य अन्तर	३७१-४२७

सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

महाबंधो

तदियो अणुभागबंधाहियारो

[णमो अरिहंतणं णमो सिद्धाणं णमो आहरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सच्चसाहूणं ॥

१. एत्तो अणुभागबंधो दुविधो—मूलपगदिअणुभागबंधो चैव उत्तरपगदिअणुभाग-
बंधो चैव ।

१ मूलपगदिअणुभागबंधो

२. एत्तो मूलपगदिअणुभागबंधो पुच्चं गमणिञ्जं । तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहा-
राणि णादव्वाणि भवन्ति । तं जहा—णिसेगपरूवणा फइयपरूवणा य ।

सब अरिहन्तोको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब आचार्योंको नमस्कार हो,
सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें सब साधुओंको नमस्कार हो ।

१. आगे अनुभागबन्धका विचार करते हैं । वह दो प्रकारका है—मूलप्रकृति अनुभागबन्ध
और उत्तरप्रकृति अनुभागबन्ध ।

मूलप्रकृति अनुभागबन्ध

२. आगे मूलप्रकृति अनुभागबन्धका सर्व प्रथम विचार करते हैं । उसके दो अनुयोगद्वार
ज्ञातव्य हैं । यथा—निषेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा ।

विशेषार्थ—आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मोंमें राग, द्वेष और मोहके निमित्तसे
जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसे अनुभाग कहते हैं । कर्मबन्धके समय जिस कर्मकी जितनी फल-
दान शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम अनुभागबन्ध है । वह ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और मति-
ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे दो प्रकारकी है । इस अनुयोगद्वारमें इन्हीं दो प्रकारके
अनुभागबन्धोंका विविध मुख्य और अवान्तर प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है ।
सर्व प्रथम मूलप्रकृति अनुभागबन्धका विचार किया गया है और तदनन्तर उत्तरप्रकृति अनुभाग-
बन्धका । मूलप्रकृति अनुभागबन्धका विचार सर्व प्रथम दो अनुयोगोंके द्वारा करके अनन्तर उस परसे
फलित होनेवाले अनेक अनुयोगोंके द्वारा विचार किया गया है । मुख्य अनुयोगद्वार ये हैं—निषेकप्ररूपणा
और स्पर्धकप्ररूपणा । अनुभागकी मुख्यतासे निषेक दो प्रकारके होते हैं—सर्वघाति और देशघाति ।

णिसेयपरूवणा

३. णिसेयपरूवणदाए अट्टुणं कम्माणं देसघादिफहयाणं आदिवग्गणाए आदिं कादूण णिसेगो । उवरि अप्पडिसिद्धं । चटुणं घादीणं सव्वघादिफहयाणं आदिवग्गणाए आदि कादूण णिसेगो । उवरि अप्पडिसिद्धं । एवं णिसेयपरूवणा त्ति समत्तमणियोगहारं ।

फहयपरूवणा

४. फहयपरूवणदाए अणंताणंताणं अविभागपलिच्छेदाणं समुदयसमागमेण एगो वग्गो भवदि । अणंताणंताणं वग्गाणं समुदयसमागमेण एगो फहयो भवदि । एवं फहयपरूवणा समत्ता ।

यद्यपि सर्वघाति और देशघाति यह भेद घातिकर्मोंमें ही सम्भव है फिर भी अघाति कर्मोंका अनुभाग घातिप्रतिबद्ध मानकर यहाँ ये दो भेद किये गये हैं, क्योंकि अघाति कर्म भी जीवके ऊर्ध्व-गमनत्व आदि प्रतिजीवी गुणोंका घात करनेवाले होनेसे वे घातिप्रतिबद्ध ही हैं । अघाति कर्मोंको अघाति संज्ञा देनेका कारण केवल इतना ही है कि वे जीवके अनुजीवी गुणोंका अंशतः भी घात करनेमें समर्थ नहीं हैं । इस प्रकार कर्मोंके देशघाति और सर्वघाति निषेकोंका जिसमें विचार किया जाता है वह निषेक प्ररूपणा है । तथा जिसमें अनुभागकी मुख्यतासे कर्मोंके स्पर्धकोंका विचार किया जाता है वह स्पर्धक प्ररूपणा है । इस प्रकार मूलप्रकृति अनुभागबन्धका विचार सर्व प्रथम इन दो अनुयोगोंके द्वारा किया गया है ।

निषेकप्ररूपणा

अब सर्वप्रथम निषेकप्ररूपणाका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा आठों कर्मोंके जो देशघाति स्पर्धक हैं उनके प्रथम वर्गणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं । तथा चार घातिकर्मोंके जो सर्वघाति स्पर्धक हैं उनके प्रथम वर्गणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं ।

विशेषार्थ—इस प्रकरणमें आठों कर्मोंके यथासम्भव सर्वघाति और देशघाति निषेक कहींसे प्रारम्भ होकर कहीं समाप्त होते हैं इस विषयका संकेत किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण आगे करेंगे ।

इस प्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

स्पर्धकप्ररूपणा

४. अब स्पर्धक प्ररूपणाका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंके समुदायसमागमसे एक वर्ग होता है । अनन्तानन्त वर्गोंके समुदायसमागमसे एक वर्गणा होती है और अनन्तानन्त वर्गणाओंके समुदायसमागमसे एक स्पर्धक होता है ।

विशेषार्थ—प्रकृतमें सबसे जघन्य अनुभाग शत्त्यंशका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है । प्रत्येक कर्म-परमाणुमें ये अविभागप्रतिच्छेद अनन्तानन्त उपलब्ध होते हैं । किन्तु यहाँ ऐसे कर्म-परमाणु विवक्षित हैं जिनमें समान अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं । ऐसे जितने कर्म-परमाणु होते हैं उनमेंसे प्रत्येककी वर्ग और उनके समुदायकी वर्गणा संज्ञा है । अनुभागकी अपेक्षा एक एक वर्गणामें अनन्तानन्त वर्ग होते हैं और अनन्तानन्त वर्गणाओंका एक स्पर्धक होता है । पहली वर्गणासे दूसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है । दूसरी वर्गणासे तीसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें भी एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है । इस प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेदकी अधिकता स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा तक जाननी चाहिए । इसके बाद दूसरे स्पर्धककी

चउवीस-अणिओगहारपरुवणा

५. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चटुवीसमणियोगहाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—सण्णा सच्चवंधो णोसच्चवंधो उक्कस्सवंधो अणुक्कस्सवंधो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो सादिवंधो अणादिवंधो धुवबंधो अद्धवबंधो एवं याव अप्पाबहुगे त्ति । भुजगारबंधो पदणिक्खेवो वट्ठिवंधो अज्झवसाणसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति ।

१ सण्णापरुवणा

६. सण्णापरुवणादाए तत्थ सण्णा दुविहा—घादिसण्णा ट्ठाणसण्णा य । घादिसण्णा चटुण्णं घादीणं उक्कस्सअणुभागवंधो सच्चघादी । अणुक्कस्सअणुभागवंधो सच्चघादी वा देसघादी वा । जहण्णअणुभागवंधो देसघादी । अजहण्णओ अणुभागवंधो देसघादी वा सच्चघादी वा । सेसाणं चटुण्णं कम्माणं उक्क० अणु० जह० अज० अणुभागवंधो अघादी घादिपडिबद्धो ।

७. ट्ठाणसण्णा य चटुण्णं घादीणं उक्कस्सअणुभाग० चटुट्ठाणियो । अणुक्कस्सअणु० चटुट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा विट्ठाणियो वा एयट्ठाणियो वा । जह० अणुभा० एयट्ठाणियो । अज० अणु० एयट्ठाणियो वा विट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा चटुट्ठाणियो वा । चटुण्णं अघादीणं उक्क० चटुट्ठाणियो । अणुक्क० अणुभा० चटुट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा विट्ठाणियो वा । जह० अणु० विट्ठाणियो । अजह० अणु० विट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा चटुट्ठाणियो वा ।

अपलब्ध होते हैं । शेष क्रम प्रथम स्पर्धकके समान जानना चाहिए । तथा यही क्रम अन्तिम स्पर्धक तक विवक्षित है ।

चौबीस अनुयोगद्वार प्ररूपणा

५. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—संज्ञा, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक । भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिवन्ध, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार ।

१ संज्ञाप्ररूपणा

६. अब संज्ञाप्ररूपणाका प्रकरण है । उसमें भी, संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । घातिसंज्ञा—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति होता है और देशघाति होता है । जघन्य अनुभागबन्ध देशघाति होता है तथा अजघन्य अनुभागबन्ध देशघाति होता है और सर्वघाति होता है । तथा शेष चार कर्मोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध घातिसे सम्बन्ध रखनेवाला अघाति होता है ।

७. स्थानसंज्ञा—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है और एकस्थानीय होता है । जघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानीय होता है । तथा अजघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और चतुःस्थानीय होता है । चार अघाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और द्विस्थानीय होता है । जघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानीय होता है तथा अजघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और चतुःस्थानीय होता है ।

२-३ सव्व-णोसव्वबंधपरूवणा

८. यो सव्वबंधो णोसव्वबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? सव्वबंधो वा णोसव्वबंधो वा । सव्वे अणुभागे बंधदि त्ति सव्वबंधो । तदो ऊणियं अणुभागं बंधदि त्ति णोसव्वबंधो । एवं सत्तणं कम्मणं । एवं अणाहारग त्ति णेद्वं ।

४-५ उक्कस्स-अणुक्कस्सबंधपरूवणा

६. यो सो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो किं उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो ? उक्कस्सबंधो वा अणुक्कस्सबंधो वा । सव्वुक्कस्सियं अणुभागं बंधदि त्ति उक्कस्सबंधो । तदो ऊणियं बंधदि त्ति अणुक्कस्सबंधो । एवं सत्तणं कम्मणं । एवं अणाहारग त्ति णेद्वं ।

६-७ जहण्ण-अजहण्णबंधपरूवणा

१०. यो सो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो किं जहण्णबंधो अजहण्णबंधो ? जहण्णबंधो

विशेषार्थ—घातिकर्मोमे चतुःस्थानीयसे लता, दारु, अस्थि और शैलरूप, त्रिस्थानीयसे लता, दारु, और अस्थिरूप, द्विस्थानीयसे लता और दारुरूप और एकस्थानीयसे केवल लतारूप अनुभाग लिया गया है । अघातिकर्मोमे अनुभाग दो प्रकारका है—प्रशस्त और अप्रशस्त । प्रशस्त अनुभाग गुड, खॉड, शर्करा और अमृतोपम माना गया है । तथा अप्रशस्त अनुभाग नीम, कॉजी, विष और हलाहल समान माना गया है । चतुःस्थानीयमें यह चारों प्रकारका, त्रिस्थानीयमें अमृत और हलाहलको छोड़कर शेष तीन तीन प्रकारका और द्विस्थानीयमें गुड और खॉडरूप या नीम और कॉजीरूप अनुभाग लिया गया है ।

२-३ सर्ववन्ध-नोसर्ववन्धप्ररूपणा

८. जो सर्ववन्ध और नोसर्ववन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणीय कर्मका अनुभागवन्ध क्या सर्ववन्ध होता है या नोसर्ववन्ध होता है ? सर्ववन्ध भी होता है और नोसर्ववन्ध भी होता है । सब अनुभागका वन्ध होता है इसलिए सर्ववन्ध होता है । और उससे न्यून अनुभागका वन्ध होता है इसलिए नोसर्ववन्ध होता है । इसी प्रकार सातों कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४-५ उत्कृष्टवन्ध-अनुत्कृष्टवन्धप्ररूपणा

६. जो उत्कृष्टवन्ध और अनुत्कृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणीय कर्मका अनुभागवन्ध क्या उत्कृष्टवन्ध होता है या अनुत्कृष्टवन्ध होता है । सर्वोत्कृष्ट अनुभागको बंधता है इसलिए उत्कृष्टवन्ध होता है और उससे न्यून अनुभागको बंधता है इसलिए अनुत्कृष्टवन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

६-७ जघन्यवन्ध-अजघन्यवन्धप्ररूपणा

१०. जो जघन्यवन्ध और अजघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघ से ज्ञानावरणीयकर्मका अनुभागवन्ध क्या जघन्यवन्ध होता है या अजघन्यवन्ध होता है ।

वां अजहण्णबंधो वा । सच्चजहण्णयं अणुभागं बंधमाणस्स जहण्णबंधो । तदो उवरि बंध-
माणस्स अजहण्णबंधो । एवं सत्तण्णं कम्मणं । एवं अणाहारग ति णेद्व्वं ।

८-११ सादि-अणादि-ध्रुव-अद्भुवबंधपरूवणा

११. यो सो सादिवंधो अणादिवंधो ध्रुवबंधो अद्भुवबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—
ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण च्छदुण्णं घादीणं उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो जहण्णबंधो
किं सादिवंधो अणादिवंधो ध्रुवबंधो अद्भुवबंधो ? सादिय-अद्भुवबंधो । अजहण्णबंधो किं सादि०
४ ? सादियबंधो वा अणादियबंधो वा ध्रुवबंधो वा अद्भुवबंधो वा । वेदणीय-णामाणं उक्कस्स०
जहण्ण० अजहण्ण० किं सादि० अणादि० ध्रुव० अद्भुव० ? सादिय०—अद्भुवबंधो । अणु-
क्कस्सबंधो किं० सादि० ४ ? सादियबंधो वा अणादियबंधो वा ध्रुवबंधो वा अद्भुवबंधो
वा । गोदस्स उक्कस्सबंधो जहण्णबंधो किं सादि० ४ ? सादिय-अद्भुवबंधो । अणुक्कस्सबंधो
अजहण्णबंधो किं सादि० ४ ? सादिवंधो अणादियबंधो ध्रुवबंधो अद्भुवबंधो ।] आयु०
उक्क० अणु० जह० अज० किं सादि० ४ ? सादिय-अद्भुव० । एवं ओघभंगो मदि०-
सुद०—असंज०—अचक्खुदं०—भवसि०—मिच्छादि० । णवरि भवसिद्धिए ध्रुवबंधो णत्थि ।
सेसाणं सादिय-अद्भुव० । एवं याव अणाहारग ति णेद्व्वं ।

जघन्यवन्ध भी होता है और अजघन्यवन्ध भी होता है । सबसे जघन्य अनुभागको बाँधता है,
इसलिए जघन्यवन्ध होता है और उससे अधिक अनुभागको बाँधता है, इसलिए अजघन्यवन्ध
होता है । इसी प्रकार सातों कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

८-११ सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धप्ररूपणा

११. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुववन्ध और अध्रुववन्ध हैं उसका यह निर्देश है—ओघ
और आदेश । ओघसे चार घाति कर्मोंका उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्ट और जघन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है,
क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ? सादिवन्ध है और अध्रुववन्ध है ।
अजघन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ?
सादिवन्ध है, अनादिवन्ध है, ध्रुववन्ध है और अध्रुववन्ध है । वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्टवन्ध
जघन्यवन्ध और अजघन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या
अध्रुववन्ध है ? सादिवन्ध है और अध्रुववन्ध है । अनुत्कृष्टवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध
है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ? सादिवन्ध है, अनादिवन्ध है, ध्रुववन्ध है और अध्रुववन्ध
है । गोत्रकर्मका उत्कृष्टवन्ध और जघन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध
है या क्या अध्रुववन्ध है ? सादिवन्ध है और अध्रुववन्ध है । अनुत्कृष्टवन्ध और अजघन्यवन्ध क्या
सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ? सादिवन्ध है, अना-
दिवन्ध है, ध्रुववन्ध है और अध्रुववन्ध है । आयुकर्मका उत्कृष्टवन्ध अनुत्कृष्टवन्ध जघन्यवन्ध और
अजघन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या अनादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है या क्या अध्रुववन्ध है ?
सादिवन्ध है और अध्रुववन्ध है । इसी प्रकार ओघके समान मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी असंयत,
अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य-
जीवोंमें ध्रुववन्ध नहीं होता है । शेष मार्गणाओंमें सादि और अध्रुववन्ध होता है । इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

१२ सामित्तपरूवणा

१२. एत्तो सामित्तस्स^१ कच्चे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि—पच्चयाणुगमो विवागदेसो पसत्थापसत्थपरूवणा चेदि । पच्चयाणुगमेण छण्णं कम्माणं मिच्छत्तपच्चयं असंजमपच्चयं कसायपच्चयं । वेदणीयस्स मिच्छत्तपच्चयं असंजमपच्चयं कसायपच्चयं योग-पच्चयं । एवं णेद्वं याव अणाहारए त्ति ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध कादाचित्क होते हैं तथा जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणीमे होता है, इसलिए ये तीनों सादि और अध्रुवके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं । अब रहा अजघन्य अनुभागवन्ध सो जघन्य अनुभागवन्धके प्राप्त होनेके पूर्व तक अनादिकालसे जितना भी अनुभागवन्ध होता है वह सब अजघन्य है । तथा उपशमश्रेणिमें इन चार घातिकर्मोंकी वन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः इनका वन्ध होने लगता है, इसलिए अजघन्य अनुभागवन्धके सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध कादाचित्क होता है और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है, इसलिए ये तीनों सादि और अध्रुवके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं । अब रहा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सो उत्कृष्ट अनुभागवन्धके प्राप्त होनेके पूर्वतक वह अनादि है और उपशमश्रेणिमें उस अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धकी व्युच्छित्ति होकर पुनः उसका वन्ध होने पर वह सादि है, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं । गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें और जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर प्राप्त होता है, इसलिए ये दो सादि और अध्रुव हैं । तथा इनके प्राप्त होनेके पूर्वतक अनुत्कृष्ट और अजघन्य अनुभागवन्ध अनादि है और उपशमश्रेणिमें इनकी वन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः इनका वन्ध होने पर ये सादि हैं, इसलिए अनुत्कृष्ट और अजघन्य अनुभागवन्धके सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प होते हैं । यहाँ सर्वत्र ध्रुव अभव्योंकी अपेक्षा और अध्रुव भव्योंकी अपेक्षा कहा है । आयुकर्मका वन्ध कादाचित्क है इसलिए इसके उत्कृष्ट आदि चारोंके सादि और अध्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्या-दृष्टि इन मार्गणाओंमे यह ओघप्ररूपणा अविकल बन जाती है क्योंकि एक तो ये अनादिकालसे सदा बनी रहती हैं दूसरे गुणप्रतिपन्न होनेके बाद पुनः मिथ्यात्वमें आने पर इनकी प्राप्ति सम्भव है । उसमें भी अचक्षुदर्शनी और भव्य मार्गणा गुणप्रतिपन्न जीवोंके भी क्रमसे क्षीणमोह और अयोगि-केवली गुणस्थान तक पाई जाती हैं, इसलिए इन सब मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणाके समान निर्देश किया है । मात्र भव्यमार्गणामे ध्रुव विकल्प घटित नहीं होता इतना विशेष जानना चाहिए । शेष सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं, इसलिए उनमें उत्कृष्ट आदि चारो सादि और अध्रुव ये दो प्रकारके ही प्राप्त होते हैं । यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रुव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट आदि अनुभागवन्धोंके अनादि और ध्रुव न होनेसे सादि और अध्रुव ये दो विकल्प ही घटित होते हैं ।

१२ स्वामित्वप्ररूपणा

१२. आगे स्वामित्वका कथन करनेके लिए वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और प्रशस्ताप्रशस्त प्ररूपणा । प्रत्ययानुगमकी अपेक्षा छहकर्म मिथ्यात्वप्रत्यय, असंय-मप्रत्यय और कषायप्रत्यय होते हैं । वेदनीयकर्म मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय और योगप्रत्यय होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये !

१३. विवागदेसेण छण्णं कम्मणं जीवविवागं । आयुगं भवविवागं । गामस्स जीवविवागं पोग्गलविवागं खेत्तविवागं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

१४. पसत्थापसत्थपरूवणदाए चत्तारि घादीओ अप्पसत्थाओ । वेदणीं—आयुगं—गामं—गोदं पसत्थाओ अप्पसत्थाओ य । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

१५. एदेण अट्टपदेण सामित्तं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविं—ओघेण आदे० । ओघे० गाणावर०—दंसणावर०—मोहणी०—अंतराङ्गाणं उक्कस्स-अणुभागबंधो कस्स ? अण्णद० चदुगदियस्स पंचिंदियस्स सण्णिमिच्छादिट्ठिस्स सच्चाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जागार० णियमा उक्कस्ससंकिलिड्ठस्स उक्कस्सगे अणुभाग-बंधे वट्टमाणस्स । वेदणीय-गामा-गो० उक्क० अणुभागवं० कस्स ? अण्णद० खवगस्स सुहुमं चरिमे उक्कस्सए अणुभाग० वट्टमा० । आयु० उक्क० अणुभाग० ? अप्पमत्त-

विशेषार्थ—यहाँ प्रत्यय शब्दसे बन्धके हेतुओंका ग्रहण किया है। बन्धके हेतु चार हैं—मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। अन्यत्र प्रमादको भी बन्धका हेतु कहा है। किन्तु वह असंयम और कषायकी मिलीजुली अवस्था है इसलिए यहाँ उसका पृथक्से निर्देश नहीं किया है। वेदनीयका केवल योगहेतुक भी बन्ध होता है, इसलिए उसके बन्धके हेतु चार कहे हैं। शेष छह कर्मोंका केवल योगहेतुक बन्ध नहीं होता इसलिए उनके बन्धके हेतु तीन कहे हैं। यहाँ आयुकर्मका किंनिमित्तक बन्ध होता है इसका निर्देश नहीं किया। कारण कि उसका सार्वकालिकबन्ध नहीं होता। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जहाँ मिथ्यात्वबन्धका हेतु है वहाँ शेष सब हैं। असंयमके सद्भावमें मिथ्यात्व है भी और नहीं भी है। किन्तु कषाय और योग अवश्य हैं। कषायके सद्भावमें मिथ्यात्व और असंयम हैं भी और नहीं भी हैं किन्तु योग अवश्य है। योगके सद्भावमें प्रारम्भके तीन हैं भी और नहीं भी हैं।

१३. विपाक देशकी अपेक्षा छह कर्म जीवविपाकी हैं। आयुकर्म भवविपाकी है तथा नामकर्म जीवविपाकी पुद्गलविपाकी और क्षेत्रविपाकी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

१४. प्रशस्ताप्रशस्त प्ररूपणाकी अपेक्षा चार घातिकर्म अप्रशस्त होते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकारके होते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

विशेषार्थ—अन्यत्र जिनकी पुण्य और पाप संज्ञा कही है उन्हींकी यहाँ प्रशस्त और अप्रशस्त संज्ञा दी है। चार अघातिकर्मोंका अनुभागबन्ध अप्रशस्त ही होता है। तथा शेष चार कर्मोंका अनुभागबन्ध दोनों प्रकारका होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। आशय यह है कि शेष चार कर्मोंके अवान्तर भेदोंमें कोई प्रशस्त प्रकृतियाँ होती हैं और कोई अप्रशस्त, इसलिए यहाँ पर इन चार कर्मोंको दोनों प्रकारका कहा है।

१५. इस अर्थ पदके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है? पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार, जागृत नियमसे उत्कृष्ट संकलश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? सूत्र साम्पराय गुणस्थानके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग्य

संजदस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० अणुभागबंधे वट्टमाणस्स । एवं ओघभंगो पंचिंदिय-त्तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-त्तोभक०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि०-आहारग ति ।

१६. आदेशेण णिरयगदीए घादीणं उक्क० अणुभाग० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागार-जागार० संकिलि० उक्क० अणुभा० वट्टमाण० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभाग० कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० सागार-जागार० सव्वविसुद्धस्स उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयुग० उक्क० अणुभाग० कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० अणुभा० वट्ट० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्ध० उक्क० अणुभा० वट्ट० ।

१७. तिरिक्खेसु घादीणं उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागार-जागा० सव्वसंकिलिट्टस्स० उक्क० अणुभा० वट्ट० । वेद०-णामा-गोद० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० संजदासंजद० सागा०-जागा० सव्वविसुद्धस्स उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभाग० कस्स० ? अण्ण० पंचि०

विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पंचमनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकपायवाले चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमें चारों गतियों और दश गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव होनेसे ओघ प्ररूपणा बन जाती है ।

१६. आदेशसे नरकगतिसमें घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें अवस्थित अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त तीन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोगविशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार सातो पृथिवियोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है ।

१७. तिर्यञ्चोंमें घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत सर्वसंक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सर्व विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर संयतासंयत तिर्यञ्च उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च आयुकर्मके

सण्णि-मिच्छादि० सव्वाहि पज्जत्तीहि० सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिडुस्स उक्क० अणुभा० वट्टु० । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ ।

१८, पंचिदि०तिरिक्खअप० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा०-जागा० उक्कस्ससंकिलि० उक्क० अणुभा० वट्टु० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागार-जागार० सव्वविसु० उक्क० अणुभा० वट्टु० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० अणुभा० वट्टु० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिंदि०-पंचिदिय-तसअपज्ज० । णवरि विगलिंदिएसु अण्णदरेसु पज्जत्तग ति भाणिदव्वं ।

१९, मणुस०३ ओघभंगो । णवरि घादीणं उक्कस्सओ अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलेस० उक्क अणुभा० वट्टु० ।

२०, देवाणं याव उवरिमगेवज्जा ति णेरइगभंगो । अणुदिस याव सव्वट्टा ति घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० उक्क० संकिलि० उक्क० अणुभा० वट्टु० । सेसं देवोघं ।

२१, एइंदियाणं घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० वादरएइंदि० सव्वाहि प० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्टु० । वेद०-णामा० उक्क० ? वादरएइंदि० सव्वाहि प० सागा०-जा० सव्वविसु० उक्क० वट्टु० । आयु० उक्क० अणुभा० ?

उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिये ।

१८. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर संज्ञी जीव चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, साकार-जागृत, तत्प्रायोग्यविशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रियोंमें अन्यतर पर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये ।

१९. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

२०. सामान्य देवोंसे लेकर उवरिम प्रवेयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष स्वामित्व सामान्य देवोंके समान है ।

२१. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय और नाम कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव उक्त दोनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य

वादर० सागार-जा० तप्पाओग्गवि० उक्क० वड्ड० । गोद० उक्क० अणुभा० कस्स० ?
अण्ण० वादरपुढ०-आउ०-वणप्फदि० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु०
उक्क० वड्ड० । एवं वादर-वादरपज्जत्त०-वादरअपज्ज०-सुहमपज्जत्तापज्जत्ताणं ।

२२. पुढवि०-आउ०-वणप्फदिपत्ते०-णिगोद० घादि०४ उक्क० अणुभा०
कस्स ? अण्ण० वादर० सव्वाहि प० सागा०-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क०
वड्ड० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० वादर० सागार-जा०
सव्वविसुद्ध० उक्क० वड्ड० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? वादरस्स तप्पाओग्गविसु०
उक्क० वड्ड० । एवं वादरपज्जत्तापज्जत्ताणं सव्वसुह्माणं पि । णवरि यं यं उद्दिस्सदि तस्स
णामगहणं कादच्चं ।

२३. तेउ०-वाउ० घादि०४ गोदस्स च उक्क० अणु० कस्स० ? वादर० सव्वाहि०
सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० । वेदणी०-णामा० उक्क० अणुभा० कस्स ? अण्ण०
वादर० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० अणुभा० वड्ड० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स ?

विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका स्वामी है । गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त,
साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर पृथिवीकायिक
वादर जलकायिक और वादर वनस्पतिकायिक जीव गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी
है । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, वादर पर्याप्त एकेन्द्रिय, वादर अपर्याप्त एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और
इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें उच्च गोत्रका बन्ध अग्निकायिक वायुकायिक जीवोंके नहीं होता
इसलिए गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी इनको छोड़कर शेष तीन वादरकायवाले
जीवोंके कहा है ।

२२. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवोंमें चार
घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे
उत्कृष्ट संवत्शेषयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर साकार-जागृत-घातिकर्मोंके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन
है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर आयु
कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयु
तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें
अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इनके व
जीवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
करके स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए ।

२३. अग्निकायिक और वायुकायिक
भागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे
उक्त वादर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनु-
भागबन्धके स्वामी कौन है ? सागार-
अन्यतर वादर उक्त जीव उक्त दोनों कर्मोंके

अण्ण० वादर० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० । एवं वादर-पज्जत्तापज्जत्ताणं सुहुमाणं पि णेदव्वं ।

२४. ओरालियमि० घादि०४ उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि-मिच्छा० तिरिक्ख० मणुसस्स वा सागार-जा० णियमा उक्कस्सअणुभा० वट्ट० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मादि० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० तिरिक्ख-मणुस० सागार-जा० तप्पाओग्गवि० उक्क० वट्ट० ।

२५. वेउन्वियका० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? देवस्स वा णेरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-जागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? देव० णेरइ० सम्मादि० सागार-जा० णियमा सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० । एवं वेउन्वियमि० । आयु० णत्थि । णवरि वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० उवसमणादो परिवदस्स पढमसमए देवस्स ।

अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर उक्त जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामी हैं । इसी प्रकार इनके वादर, वादरपर्याप्त वादर अर्थात्त और सब सूक्ष्म जीवोंके भी जानना चाहिए ।

२४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तिर्यञ्च या मनुष्य, साकार-जागृत और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर पञ्चेन्द्रिय उक्त जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तिर्यञ्च या मनुष्य, साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर पञ्चेन्द्रिय उक्त जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

२५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर देव या नारकी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । पर इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । तथा इतनी विशेषता है कि इनके वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरकर प्रथम समयमें देव हुआ अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

२६. आहार०—आहारमि० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सागा०—जागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०—णामा-गो० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० अणु० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० । णवरि आहारमिस्स० सरीरपज्जत्तीहि गाहिदि ति ।

२७. कम्मइग० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चटुगदियस्स सण्णि-मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० अणुभागवंधे वट्ट० । वेदणी०—णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० चटुगदियस्स सम्मादि० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० अणुभा० वट्ट० । अथवा उवसमस्स कालगदस्स पढमसमयदेवगदस्स ।

२८. इत्थि०—पुरिस० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स सण्णि-मिच्छादिट्ठि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०—णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० खवगस्स अणियट्ठि० उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० ओघं ।

२९. णवुंसगे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० तिगदियस्स

२६. आहारकक्राययोगी और आहारकमिश्रक्राययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । इतनी विवेकता है कि आहारकमिश्रक्राययोगमें जो जीव शरीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा वह आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

२७. कर्मणक्राययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । अथवा जो उपशामक जीव मर कर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

२८. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षणक अनिवृत्ति करण जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आयु कर्मका भद्र श्लोके समान है ।

२९. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें चार घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

मिच्छादि० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०-आयुग०-णामा-गोदाणं इत्थिभंगो ।

३०. अवगद० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० उवसम० परिवद-माणस्स चरिमे उक्क० अणुभा० वट्ट० । वेदणी०-णामा-गो० ओघं ।

३१. क्रोध-माण-मायासु घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सेसाणं णवुंसगभंगो ।

३२. मदि०-सुद० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मणुस० संजमाभिमुहुस्स सव्वविसु० चरिमे उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० पंचिदि० सण्णि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० वट्ट० । एवं विभंगे ।

३३. आभिणि०-सुद०-ओधि० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० चदुगदि० असंजदसम्मा० सव्वाहि पज्ज० सागार-जा० उक्क० मिच्छत्ताभिमुहु० चरिमे उक्क० वट्ट० । वेदणी०-आयुग०-णामा-गो० ओघभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मादि० ।

नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर तीन गतिका मिथ्या-दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

३०. अवगतवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है ।

३१. क्रोध, मान और मायाकषायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । शेषकर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।

३२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है । संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संयमके अभिमुख, सर्वविशुद्ध और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? पंचेन्द्रिय, संज्ञी, साकार-जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिए ।

३३. आभिनिबोधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयत सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग

३४. मणपञ्ज० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसंज० णियमा उक्क० संकिलि० असंजमाभिमुह० चरिमे उक्क० वट्ट० । सेसाणं ओघं । एवं संजदाणं । णवरि घादि०४ मिच्छत्ताभिमुह० चरिमे उक्क० वट्ट० । एवं सामाइय-च्छेदो० । णवरि वेदणी०-णामा-गो० अणियट्ठि० खवग० ।

३५. परिहार० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसंजद० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० सामाइय-च्छेदोवट्टावणाभिमुह० चरिमे उक्क० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार-जा० सन्वविसुद्ध० । आयु० ओघं ।

३६. सुहुमसंप० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० उवसम० परिव-दमाण० चरिमे० उक्क० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० खवग० चरिमे उक्क० वट्टमाण० ।

३७. संजदासंजदा० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छत्ताभिमुह० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेद०-

ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सन्यग्दृष्टिजीवोंके जानना चाहिये।

३४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, असंयमके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। शेष कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित और मिथ्यात्वके अभिमुख संयत जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी अनिवृत्तिक्षपक जीव होता है।

३५. परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम, और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयु-कर्मका भङ्ग ओघके समान है।

३६. मूढमसांपरायिक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनेवाला उपशामक उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

३७. संयतासंयतोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यात्वके अभिमुख, साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट

णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार-जा० सच्चविसुद्ध० संज-
माभिमुह० चरिमे उक्क० वट्ट० । आउ० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-
मणुस० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० ।

३८. असंज० घादि०४ मदि०भंगो । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ?
अण्ण० मणुस० असंजद सम्मादि० संजमाभिमुह० उक्क० वट्ट० । आयु० मदि०भंगो ।

३९. किण्णले० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स
सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेद-णामा-गो० उक्क० अणुभा०
कस्स० ? अण्ण० णेरइयस्स असंजदसम्मा० सच्चविसुद्ध० उक्क० वट्ट० । आयु० उक्क०
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० मिच्छादि० सागार-जागार० तप्पा-
ओग्गसंकिलिद्ध० उक्क० वट्ट० । एवं णील-काऊणं । णवरि णेरइयस्स कादच्चं ।

४०. तेऊए घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स मिच्छादि०
सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेद-णामा-गो० परिहारभंगो ।
आउ० ओर्धं । एवं पम्माए । णवरि घादीणं सहस्सारभंगो ।

अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट
अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयु-
कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें
अवस्थित अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

३८. असंयतोमें चार घाति कर्मोंका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । वेदनीय, नाम और
गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संयमके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें
अवस्थित अन्यतर मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।
आयुकर्मका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

३९. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर तीन
गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर नारकी
असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत, तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अव-
स्थित अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।
इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ
नारकीके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए ।

४०. पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर देव
मिथ्यादृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका भंग
परिहारविशुद्धि सयत जीवोंके समान है । आयु कर्मका भंग ओषके समान है । इसीप्रकार पद्मलेश्या-
वाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे चार घातिकर्मोंका भंग सहस्रारकल्पके
समान है ।

४१. सुकाए घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सेसाणं ओघं ।

४२. अब्भवसि०-मिच्छा० मदिभंगो । णवरि अब्भवसि० वेद-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सण्णि० पंचिदि० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । अथवा मणुसस्स दव्वसंजदस्स कादव्वं ।

४३. वेदगे० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० उक्क० मिच्छत्तामिमुहस्स उक्क० अणु० वट्ट० । सेसं परिहारभंगो ।

४४. खड्गे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सेसं ओघं ।

४५. उवसम० घादि०४ उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० मिच्छत्तामिमुह० उक्क० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० उवसमसंप० चरिमे उक्क० वट्ट० ।

४६. सासणे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागार-

४१. शुक्लेश्यावाले जीवोमे चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर देव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है ।

४२. अभव्यों और मिथ्यादृष्टि जीवोंमे मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अभव्योंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, पंचेन्द्रिय, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । अथवा द्रव्यसंयत मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४३. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भंग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है ।

४४. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है ।

४५. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर उपशामक सूक्ष्मसापरायिक जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

जा० गिय० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुह० उक्क० वट्ट० । वेद०-गामा-गो० उक्क०
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० स गार-जागा० गिय० सव्वविसु० । आउ० उक्क०
अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० ।

४७. सम्मामिच्छा० घादि० ४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि०
सागार-जा० गिय० उक्क० मिच्छत्ताभिमु० उक्क० वट्ट० । वेद०-गामा-गो० उक्क०
अणुभा० कस्स० ? अण्णद० चदुगदि० सागार-जागार० सव्वविसुद्ध० सम्मत्ताभिमु०
उक्क० वट्ट० ।

४८. असण्णीसु घादि० ४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? पंचिदि० पज्जत्त० सागार०
गिय० उक्क० संकिलि० उक्क० अणुभा० वट्ट० । वेद०-गामा-गो० उक्क० अणुभा०
कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० पज्जत्त० सागा० सव्वविसु० उक्क० अणु० वट्ट० । आउ०
उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० पंचिदि० पज्जत्त० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० वट्ट० ।
[अणाहार कम्मइ० ।] एवं उक्कस्सं समत्तं ।

४९. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणा०-दंसणा०-अंतरा०
जहण्णओ अणुभागबंधो कस्स० ? अण्णदरस्स खवगस्स सुहुमसंपराइगस्स चरिमे

साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अव-
स्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और
गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और नियमसे सर्वविशुद्ध अन्यतर
चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
स्वामी कौन है। साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर
मनुष्य आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है।

४७ सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है?
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट मिथ्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमे अवस्थित अन्य-
तर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्र
कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और
उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका
स्वामी है।

४८. असंज्ञी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-
जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमे अवस्थित अन्यतर पंचेन्द्रिय
पर्याप्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट
अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आयुर्कर्मके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। अनाहारक जीवोंका
भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

४९. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश।
ओघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है?
अन्तिस अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक सूक्ष्मसांपरायिक जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनु-

अणुभा० वट्ट० । मोह० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० खवग० अणियट्ठि० चरिमे जह० अणु०-वट्ट० । वेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० . सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा परियत्तमाणमज्झिमपरिणामस्स । आयु० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० जहणियाए अपज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिमपरिणामस्स जह० अणु० वट्ट० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइ० मिच्छा० सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० चरिमे जह० अणु० वट्ट० । एवं ओघभंगो पंचिदि० तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-लोभक०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ।

५०. णेरइएसु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स ? अण्ण० असंजदसं०सागा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० ओघं । आउ० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० जहणए पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिमपरिणामस्स । एवं सत्तमाए । उवरिमासु वि तं चेव । णवरि गोदस्स जह० अणुभा० कस्स ? अण्ण० मिच्छादि० परियत्तमाणमज्झिमपरिणामस्स जह० अणु० वट्ट० ।

५१. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० संजदासंजद०

भागवन्धका स्वामी है। मोहनीय कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? अन्तिम जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव मोहनीय कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव वेदनीय और नाम कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुर्कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान, मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित जीव आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और अन्तिम जघन्य अनुभाग वन्धमें अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार ओघके समान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, लोभकपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवके जानना चाहिये।

५०. नारकियोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभाग वन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भंग ओघके समान है। आयुर्कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव आयुके कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये। ऊपरकी अन्य पृथिवियोंमें भी वही भङ्ग है। इतनी विरोधता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

५१. तिरिक्खोंमें घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्व-

सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । वेद०-आउ०-णामा० ओघं । गोद०जह०
अणु० कस्स० ? अण्ण० वादरतेउ०-वाउ० जीवस्स सव्वाहि पञ्जत्तीहि० सागार-जा०
सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ । णवरि गोद० जह०
अणुभा० कस्स ? अण्ण० पंचिंदि० मिच्छादि० परियत्त० जह० अणु० वट्ट० ।

५२. पंचिंदियतिरिक्खअप० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण०
सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । वेद०-णामा-नो० जह० अणुभा० कस्स० ?
अण्ण० मज्झिम० जह० अणुभा० वट्ट० । आउ० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण०
जहण्णिगाए अपज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० मज्झिम० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्ववि-
गलिंदि०-पंचिंदि०-त्तस०अपज्ज० ।

५३. मणुस०३ सत्तण्णं कम्मणं ओघो । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ?
अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० जह० अणुभा० वट्ट० ।

५४. देवाणं याव उवरिमगेवजा त्ति विदियपुढविभंगो । अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति
सत्तण्णं कम्मणं देवोघं । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सव्वाहि० सागार०
णिय० उक्क० संकिलि० जह० अणु० वट्ट० ।

विशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर संयतासंयत जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभाग
बन्धका स्वामी है । वेदनीय, आयु, और नाम कर्मका भङ्ग ओघके समान है । गोत्र कर्मके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य
अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर वादर अमिकायिक और वादर वायुकायिक जीव गोत्रकर्मके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकके जानना चाहिये । इतनी
विशेषता है कि इनमे गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम
परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर पञ्चेन्द्रिय सिध्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

५२. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंसे चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य
अपर्याप्त निवृत्तसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव आयु कर्मके जघन्य अनु-
भागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस
अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

५३. मनुष्यत्रिकमे सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभाग बन्ध-
का स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित
अन्यतर सिध्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

५४. देवोमे उपरिम प्रैवेयक तक दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ-
सिद्धि तकके देवोमे सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । गोत्र कर्मके जघन्य अनुभाग-
बन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संतोशयुक्त और
जघन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

५५. एइंदिएसु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० वादर० सव्वाहि
प० सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । वेद०-आउ०-णामा-गो० तिरिक्खोधं ।
एवं वादर० सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० ।

५६. पुढवि०-आउ०-वणप्फदि०-वादरवणप्फदिपत्तेय०-णिगोद० घादि०४ जह०
अणुभा० कस्स ? अण्ण० वादर० पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० ।
तिण्णि क० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० मज्झिमपरि० । आउ० जह०
अणु० कस्स० ? अण्ण० अपज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० मज्झिम० जह० अणु०
वट्ट० । एवं वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं च । तेउ०-वाउ० घादि०४ गोदस्स० जह०
अणु० कस्स० ? अण्ण० वादरपज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० ।
सेसाणं पुढविर्भगो ।

५७. ओरालियिका० सत्तण्णं कम्माणं ओधं । गोदे जह० अणु० कस्स० ? अण्ण०
वादरतेउ०-वाउ० सागार-जा० सव्वविसु० ।

५८. ओरालियमि० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स ? अण्ण० तिरिक्खमणुस०
असंजदसम्मादिट्ठि० सागार-जा० सव्वविसु० सेकाले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति । गोद०

५५. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियों-
से पर्याप्त साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय
जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मका भङ्ग
सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और
अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

५६. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, वादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और
निगोद जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व-
विशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादरपर्याप्त उक्त जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनु-
भागबन्धका स्वामी है । तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान
मध्यम परिणामवाला उक्त जीव तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तिमान, मध्यम परिणामवाला और जघन्य
अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी
प्रकार इनके वादर और सूक्ष्म तथा इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । अग्नि-
कायिक और वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादरपर्याप्त
जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके
समान है ।

५७. औदारिकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान
है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर
वादर अग्निकायिक और वायुकायिक जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

५८. औदारिकभिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा ऐसा
अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी

एहदियभंगो । णवरि सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति भाणिदव्वं । सेसाणं ओघं ।

५९. वेउव्वि० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स० णेरइ० असंजद०सम्मादि० सागार-जा० सव्वविसु० जह० वट्ट० । गोद० ओघं । वेदणी०-आउ०-णाम० णिरयोघं ।

६०. वेउव्वियमिस्स० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० असंजदस० से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति सागार-जा० सव्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० अत्थि य सत्तमाए पुढ० णेरइ० मिच्छादि० सागा०-जा० सव्वविसु० से काले सरीर० । वेद०-णामा० ओघं ।

६१. आहारका० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० सव्वविसु० । सेसमणुदिसभंगो । एवं आहारमि० । णवरि से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति भाणिदव्वं ।

६२. कम्मइ० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चटुगादि० असंजद-सम्मा० सागार-जा० सव्वविसु० जह० वट्ट० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० अत्थि य सत्तमाए पुढ० मिच्छादि० सागार-जा० सव्वविसु० जह० वट्ट० । सेसं परि-

है । गोत्रकर्मका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा, ऐसा कहना चाहिये । शेष कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है ।

५९. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

६०. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसा साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसा अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय और नाम कर्मका भङ्ग ओघके समान है ।

६१. आहारककाययोगी जीवोंमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भङ्ग अनदिशके समान है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा उसके कहना चाहिए ।

६२. कर्मणकाययोगी जीवोंमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंके जघन्य

यत्तमाण० सम्मा० मिच्छा० ।

६३. इत्थि० पुरिम० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० खवग० अणि-
यट्ठि० चरिमे जह० अणु० वट्ठ० । वेद०-णामा० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण०
तिगदि० परिय० जह० वट्ठ० । आउ० ओघं । गोद०जह० अणु० ? तिगदिं
मिच्छादि० परियत्त० जह० अणु० वट्ठ० ।

६४. णवुंसग० घादि०४ इत्थि०भंगो । वेद०-णामा० जह० अणु० तिगदि० ।
आउ० गोद० ओघं ।

६५. अवगदवे० घादि०४ ओघं । वेद०-णामा-गो० जह० अणुभा० कस्स० ?
अण्ण० उवसम० परिवदमा० चरिमे जह० अणु० वट्ठ० ।

६६. कोध-माण-मायासु घादि०४ णवुंसगभंगो । वेद०-णामा० जह० अणु०
कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० परिय० जह० अणु० वट्ठ० । आउ०-गोद० ओघं ।

६७. मदि०-सुद० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार-
जा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० चरिमे वट्ठ० । सेसं ओघं । एवं विभंग०-अब्भवसि०-
मिच्छा० । णवरि अब्भवसि० दव्वसंज० ।

अनुभागवन्धका स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव हैं ।

६३. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिष्टवृत्तिकरण जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्धमें विद्यमान अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

६४. नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आयु और गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है ।

६५. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनेवाला उपशामक उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

६६. क्रोध, मान और माया कपायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदीके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणाम-वाला और जघन्य अनुभागवन्धमें विद्यमान अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभाग-वन्धका स्वामी है । आयु और गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है ।

६७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अभव्य जीवोंमें द्रव्यसंयत जीवोंके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए ।

६८. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ ओघं। वेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० परियत्तमा० मज्झिम० पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० जह० अणु० वट्ट० । आयु०-गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागारजा० णिय० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुह० जह० अणु० वट्ट० ।

६९. मणपज्ज० वे०-गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० असंजमाभिमुह० जह० वट्ट० । सेसं आभिणि० भंगो । एवं संजदा० । णवरि गोद० मिच्छत्ताभिमुह० ।

७०. सामाह०-छेदो० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० अणियट्ठि-खवग० । सेसं मणपज्जवभंगो । णवरि गो० मिच्छत्ताभिमुह० जह० वट्ट० ।

७१. परिहार० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार-जा० सव्वविसु० । वेद०-आउ०-णामा० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० परिय० मज्झिम० जह० अणु० वट्ट० । गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० पमत्त० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० सामाह०-छेदो० अभिमुह० ज० वट्ट० ।

६८. अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला, जघन्य पर्याप्त निर्वृत्तिसे निवृत्तमान और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है? आयु और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

६९. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें वेदनीय और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, असंयमके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्धमें विद्यमान अन्यतर जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेष कर्मोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख जीव है।

७०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर अतिवृत्तिकरण क्षपक उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेष कर्मोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्धमें विद्यमान उक्त जीव है।

७१. परिहारविशुद्ध संयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, और सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्धमें विद्यमान अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख तथा जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

कालपरूवणा

८०. कालं दुविधं—जहण्यं उक्स्सयं च । उक्स्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ उक्क०अणुभागबंधो केवचिरं कालादो होदि ? जह०एग०, उक्क० वेसमयं । अणु० जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गल० । वेद०-गामा-गोदा० जहण्णुक्क०-एग० । अणु०अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो [सादिओ सपज्जवीसिदो] वा । यो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णि०—जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० देसू० । आउ० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं आउग० यात्र अणाहारग ति । एवं ओघभंगो मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा० । णवरि भवसि० अणादिओ अपज्जवसिदो णत्थि ।

कालप्ररूपणा

८०. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परावर्तनके बराबर है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका काल तीन प्रकारका है—अनानि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सांत । जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल अन्तमुर्हूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुकृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हूर्त है । इसी प्रकार आयु कर्मका अनाहारक मार्गणा तक काल जानना चाहिए । इसी प्रकार ओघके समान मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोमे अनादि-अनन्त विकल्प नहीं है ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे होता है । इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । जो जीव इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके एक समयके लिए अनुकृष्ट अनुभागबन्ध करता है और पुनः उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करने लगता है, उसके इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है । तथा जो अनन्त काल तक एकेन्द्रियसे लेकर असंखी पञ्चेन्द्रिय तक पर्यायोंमे परिभ्रमण करता रहता है उसके इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अनन्त काल उपलब्ध होता है, अतः इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है । वेदनीय, नाम और गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणियोंमें अपने-अपने बन्धकालके अन्तिम संयममें होता है । तथा इसके पहले नियमसे अनुकृष्ट अनुभागबन्ध होता है । उसमें भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्टकी अपेक्षा सदा अनुकृष्ट अनुभागबन्ध होता रहता है और भव्योके उपशान्तमोह होनेके पूर्व तक अनादि कालसे अनुकृष्ट अनुभागबन्ध होता है । किन्तु उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेके बाद वह सादि हो जाता है । जो जघन्यसे अन्तमुर्हूर्तकालातक और उत्कृष्टरूपसे कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक होता रहता है । यही कारण है कि इन तीनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका

८१. गिरएसु सत्तणं कम्माणं उक्कं जहं एगं, उक्कं वेसमं । अणुं जहं एगं, उक्कं तेत्तीसं सां । एवं सत्तसु पुढवीसु अप्पप्पणो द्विदिं सुणेद्व्वं ।

८२. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं गिरयोधभंगो । अणुं जहं एगं, उक्कं अणं-तकालं । एवं अब्भवसिं असण्णि त्ति । पंचिंदियतिरिक्खं३ सत्तणं कं उक्कं तिरिक्खोर्धं । अणुं जहं एगं, उक्कं तिण्णि पलिदों पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वभहियाणि । पंचिंदियतिरिक्खअपं अट्टण्णं कं उक्कं जहं एगं, उक्कं वेसमं । अणुं जहं एगं, उक्कं अंतों । एवं सव्वअपज्जत्ताणं सव्वसुहुमपज्जत्तापज्जत्ताणं च ।

८३. मणुसं३ वेदं-णामा गोदां उक्कं ओघं। सेसं पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।

८४. देवेसु सत्तणं कम्माणं उक्कं गिरयभंगो । अणुं जहं एगं, उक्कं तेत्तीसं

जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प बतला कर सादि-सान्तकी अपेक्षा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है । आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविसुद्ध परिणामोसे होता है और इसका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहा है । आयुर्कर्मका निरन्तर बन्ध अन्तर्मुहूर्तकाल तक ही होता है । यही कारण है कि इसके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ मृत्युज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गगाँएँ परिगणित की गई हैं जिनमें ओघप्ररूपणाके अनुसार काल घटित हो जाता है इसलिए उनमें सब कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान कहा है । यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि ओघप्ररूपणामें यहाँ स्वामित्वका निर्देश करके जिस प्रकार काल घटित करके बतलाया है उसी प्रकार इन सब मार्गगाँओंमें अलग-अलग स्वामित्वका विचार कर उक्त काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र भ्रम्यमार्गगामे ओघरूपणाके स्वामित्वसे कोई अन्तर नहीं है । केवल इस मार्गगामे वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका अनादि-अनन्त विकल्प नहीं बनता ।

८१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट-काल दो समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमें अपनी अपनी स्थितिको जानकर काल ले आना चाहिए ।

८२. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । किन्तु अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । इसी प्रकार अभव्य और असंखी जीवोंके जानना चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्व-कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

८३. मनुष्यत्रिकमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । शेष भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

८४. देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल नारकियोंके समान है । अनुकृष्ट

सा० । एवं सन्वदेवाणं अप्पणो डिदी णेदन्वा ।

८५. एइंदिएसु सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवं सन्वसुहुमाणं ओघं । पुढवी०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोदाणं च ओघं । वादरएइंदि० सत्तणं क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० ओसप्पिणि० उस्सप्पिणि० । वादरएइंदियपज्जत्ता० सत्तणं क० अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं वादर०पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेय-णियोद० एदे सन्वे पज्जत्ता । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि०-वादरवणप्फदिपत्ते०-वादर०णिगोद ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० कम्मडिदी० । णवरि वादरवणप्फदि० अंगुल० असंखे० ।

अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सष देवोंके अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए।

८५. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट-काल दो समय है। अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंके काल एकेन्द्रिय ओघके समान है। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अम्रिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें काल ओघके समान है। वादर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके बराबर है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अम्रिकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अम्रिकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और वादर निगोद जीवोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कर्मस्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि वादर वनस्पतिकायिक जीवोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ—यद्यपि एकेन्द्रियोंका सामान्य उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनन्तकाल है पर यह काल सब अवान्तर भेदोंमें परिभ्रमण करनेकी अपेक्षासे कहा है। सात कर्मोंका निरन्तर अनुकृष्ट अनुभागवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रियके होता है। वादरएकेन्द्रिय हो जाने पर पर्याप्त दशामे उसके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होना सम्भव है। इसीसे यहाँपर एकेन्द्रियके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट कायस्थिति उक्त प्रमाण है। एकेन्द्रिय सूक्ष्म और पाँचो स्थावरकायिक सूक्ष्म जीवोंकी यही कायस्थिति होनेसे इनके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल भी यही कहा है। पाँचों स्थावरकायिक और निगोद जीवोंमें भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पृथिवी आदि चारकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण तो है ही, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंकी कायस्थिति भिन्न है पर इनमें भी सूक्ष्म जीवोंकी अपेक्षा सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल ओघ एकेन्द्रियोंके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इनमें भी एकेन्द्रिय ओघवत् काल कहा है।

८६. वेईदि०-तेईदि-चदुरिदि० तेसिं च पज्जत्ता० उक्क० णिरयभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।

८७. पंचिदि०-तस०२ घादि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसहस्सं । पुव्वकोडिपुधत्तेण्भहियं, वेसागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुध०भहियं । पज्जत्ते सागरोवमसदपुध० वेसाग० सह० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं । अणु० जह० अंतो० । उक्क० णाणावरणभंगो ।

८८. पंचमण०-पंचवचि० सत्तणं क० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगि० घादि०४ उक्क० ओघं । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० अणंतका० असंखे० । ओरालिय० घादि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० बावीसं वाससहस्साणि देसू० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं ।

बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण काल कहा है। इसी प्रकार आगे भी जिनकी जो कायस्थिति कही है उसका विचार कर सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया। शेष कथन सुगम है।

८६. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल नारकियोंके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है।

८७. पंचेन्द्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल क्रमसे पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर है। किन्तु पर्याप्तकोंमें सौ सागर पृथक्त्व और दो हजार सागर है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणसे समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी सौ सागर पृथक्त्व, त्रसकायिककी पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रसकायिक पर्याप्तकोंकी दो हजार सागर है। इसीसे यहाँ इनमें चार घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणियोंमें होता है। इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टकाल ओघके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

८८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। काययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। तथा इन सबके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है। औदारिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है।

अणु० णाणा०भंगो । ओरालियमि० सत्तणं क० जहणु० एग०, अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । णवरि आहारमि० आउ० जह० एग०, उक्क० एग० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

८६. वेउव्वि०-आहारका० अट्टणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कम्मइग० सत्तणं क० जहणुक० एग० । अणु० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० ।

९०. इत्थि० घादि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसद-पुधत्तं । वेद०-णामा-गोदा० जहणु० एग० । अणु० णाणावरणभंगो । एवं पुरिस० ।

अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पर्याप्त होनेके एक समय पूर्व उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यही नियम वैक्रियिक मिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए, इसलिए इनमें भी सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान कहा है। मात्र आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके कालमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि इनमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध शरीर पर्याप्ति प्राप्त होनेके एक समय पहले सम्भव है। तथा इसी प्रकार शरीर पर्याप्तिके प्राप्त होनेके एक समय पहलेसे आयुवन्ध भी सम्भव है, इसलिए इनमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

८६. वैक्रियिककाययोगी और आहारकाययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगीका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। उसमें भी सात कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अन्तिम समयमें होता है, क्योंकि चार घातिकर्मोंके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम और वेदनीय, नाम व गोत्रके योग्य उत्कृष्ट सर्वविशुद्ध परिणाम वहीं सम्भव हैं, अतः इनके सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

९०. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनु-

णवरि वेद०-णामा-गोदा० अणु० जह० अंतो०, सन्वेसिं उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं ।
णवुंसगे कायजोगिभंगो । अवगद० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं ।

६१. क्रोधादि०४ घादि०४ मणजोगिभंगो । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० एग० ।
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

६२. विभंगे घादि०४ उक्क० ओधं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग०
देसु० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० एग० । अणु० णाणावरणभंगो ।

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्त-मुहूर्त है तथा सबके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । नपुंसक वेदी जीवोंमें काययोगी जीवोंके समान भंग है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार सूक्ष्मसापरायिक संयत जीवोंके छह कर्मोंका काल जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदी जीव उपशमश्रेणी पर चढ़कर उतरते समय यदि मरकर देव होते हैं तो भी पुरुषवेदी ही होते हैं । और नहीं मरते हैं तो भी पुरुषवेदी ही होते हैं । यहाँ स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके समान एक समय काल उपलब्ध नहीं होता । अतः इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त कहा है । उपशमश्रेणी पर चढ़ाकर और उतारनेके बाद पुनः अन्तमुहूर्त कालके भीतर उपशमश्रेणी पर आरोहण करानेसे यह काल उपलब्ध होता है । अपगतवेदी जीवोंमें उतरते समय अवगतवेदके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है । तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोंका क्षपकश्रेणीमें अपने वन्धके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है और अपगतवेदका जघन्यकाल एक समय व नौवें दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षा उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है, इसलिए अपगतवेदमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय व अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

६१. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । अन्यत्र इनका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता रहता है । किन्तु चारों कषायोका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध का जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

६२. विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओषके समान है अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल छह कम तेतीस सागर है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है ।

६३. आभि० सुद० ओधि० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि० साग० सादि० । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-वेदग० । णवरि वेदगे० छावट्टि० ।

९४. मणपज्जव० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्व-कोडी दे० । एवं संजद-सामाइ०-छेदोव० । परिहार० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी दे० । अथवा वेद०-णामा-गोदाणं च उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० तं चेव । एवं [संजदासंजदाणं । चक्खु० तसपज्जत्तमंगो ।]

विशेषार्थ—जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य संयमके अभिमुख और सर्वविशुद्ध होता है उसके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है । अन्यत्र इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इन तीनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है । तथा विभङ्गज्ञानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम तैतीस सागर है, इससे सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम तैतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

६३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टकाल पूरा छयासठ सागर है ।

विशेषार्थ—जो असंयतसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वके अभिमुख होता है और अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है उसके इन तीन सम्यग्ज्ञानोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है । तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोंका क्षपकश्रेणिमे बन्धके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए यहाँ उक्त सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है । तथा इन तीनों ज्ञानोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए इनमें उक्त सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल साधिक छयासठ सागर कहा है । यह प्ररूपणा सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गाओंमें भी पूर्वोक्त प्रकारसे ही काल कहा है । किन्तु इतना विशेष समझना चाहिए कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल पूरा छयासठ सागर ही है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टकाल छयासठ सागर ही होता है ।

६४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अथवा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल वही है । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग-

६५. पंचणं लेस्साणं सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सत्तारस०-सत्त०-वेसा०-अट्टारस० सादि० । णवरि तेउ०-पम्माए० वेद०-णामा-गोदा० यदि दंसणमोहक्खवगस्स सामित्तादो उक्क० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० ।

९६. सुक्काए घादि०४ उक्क० ओर्घ । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

बन्धका काल दो प्रकारसे बतलाया है। प्रथम तो चार घातिकर्मोंके समान ही इनका काल है। फिर प्रकारान्तरसे इनका काल दूसरा कहा है। इस भेदका कारण क्या है यह विचारणीय है। विदित होता है कि सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मानने पर इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता है और दर्शनमोहनीयकी क्षणवाले सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धके होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध माना जाता है तब इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम विकल्पकी अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और दूसरे विकल्पकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

६५. पाँच लेख्यावाले जीवोंमें सातकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्मलेख्यावाले जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें यदि दर्शनमोहनीयका क्षणक जीव है तो स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल कायस्थिति प्रमाण है।

विशेषार्थ—पीत और पद्म लेख्यावाले दर्शनमोहनीयके क्षणक जीवके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

६६. शुक्ल लेख्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीससागर है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। साधिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें शुक्ललेख्यावाले जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—शुक्ललेख्यामें वेदनीय, नाम और गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षणकश्रेणियोंमें उपलब्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। कारण कि शुक्ललेख्याका यही काल है। इतने काल तक इसके निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता रहता है। शेष कथन सुगम है।

९७. खड्ग० सुकले०भंगो । उवसम० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं सम्मामि० । सासणे सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसमं० । अणु० जह० एग०, उक्क० छावलियाओ । णवरि घादि०४ उक्क० एग० ।

९८. सण्णीसु पुरिसभंगो । आहारा० ओघभंगो । णवरि अणु० बादरएइंदियभंगो । अणाहारा० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सं समचं

६६. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ गोदं च जह० अणु० जह० उक्क० एग० । अज० तिभंगो । वेद-णामा० जह० जह० एग०, उक्क०

६७. चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें शुक्ललेख्यावाले जीवोंके समान भङ्ग है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल छह आवली है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल एक समय है।

विशेषार्थ—उपशम सम्यक्त्वमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले, मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है। तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यह प्ररूपणा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके इसी प्रकार घटित हो जाती है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान कहा है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध जीवके होता है। तथा सासादन सम्यक्त्वका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवलि है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मोंसे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवलि कहा है। तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवलि कहा है।

६८. संझी जीवोंमें पुरुषवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल वादर एकेन्द्रियोंके समान है। अनहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—आहारक जीवोंका उत्कृष्टकाल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वादर एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति भी इतनी ही है, इसलिए आहारक जीवोंमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल वादर एकेन्द्रियोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ।

६६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय

चत्वारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० चत्वारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवंआउ० याव अणाहारग ति । एवं ओधभंगो मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छादि० । णवरि भवसि० अणादियो अपज्जवसिदो णत्थि ।

है । अजघन्य अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आयुकर्मका विचार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इसी प्रकार ओधके समान मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्योमें अनादि-अनन्त भङ्ग नहीं है ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमे बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है तथा गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं पृथिवीमे सम्यक्त्वके अभिमुख जीवके बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । सादि-सान्त अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । खुलासा इस प्रकार है—किसी एक जीवने उपशमश्रेणि पर आरोहण किया और उतर कर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर वह क्षपकश्रेणि पर आरोहण करके उक्त कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध करता है । तब उसके उक्त चार कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । और यदि कोई अर्ध-पुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमे उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उपशान्तमोह हो गिरता है तथा अन्तमें क्षपकश्रेणि पर आरोहण कर मुक्ति लाभ करता है तब उसके उक्त कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके होता है, इसलिये इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव एक समय तक अजघन्य अनुभागवन्ध करके जघन्य अनुभागवन्ध करने लगता है उसके इनके अजघन्य अनुभागवन्धका एक समय काल ही उपलब्ध होता है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । कारण यह है कि इन दोनों कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रियों में नहीं होता, उनके निरन्तर अजघन्य अनुभागवन्ध होता रहता है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण कही है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धके जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समयका तथा अजघन्य अनुभागवन्धके जघन्य काल एक समयका खुलासा नाम और गोत्रकर्मके समान है । आयुकर्मका निरन्तर अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध होता है, इसलिये इसके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं पृथिवीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित होने पर होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है ।

१००. गिरएसु घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । गोद० जह० अणु० जहणुक्क० एग० । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० । एवं सत्तमाए पुढवीए । पढमाए याव छट्टि त्ति तं चेव । णवरि अण्पण्णो द्विदी भाणिदव्वा । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० भवट्टिदी भाणिदव्वा ।

१०१. तिरिक्खेसु घादि०४ गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं । वेद०-णामा० ओघं । एवं अब्भवसि०-असण्णीसु ।

इसके अजघन्य अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार चार घातिकर्मोंका घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । यहाँ ओघके समान मत्यज्ञानी आदि छह अन्य मार्गणाओंका निर्देश किया है सो इनमे भन्यमार्गणाके सिवा शेष मार्गणाओंमें स्वामित्वकी अपेक्षा कुछ भेद रहने पर भी कालप्ररूपणा ओघके समान अविकल बन जाती है, इसलिए इनमे कालका निर्देश ओघके समान किया है ।

१००. नारकियोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये । पहली पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है । और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी भवस्थिति प्रमाण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और प्रत्येक पृथिवीमे चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्धके होता है । इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । सामान्य नारकियोंमें और सातवीं पृथिवीमें गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि यहाँ गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध होनेके बाद ऐसा जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक नियमसे नरकमें रहता है । प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव करता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०१. तिर्यञ्चोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तकाल है । वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अभन्य और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । पचेन्द्रियतिर्यञ्च त्रिकमे चार घातिकर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके

पंचिदियतिरिक्ख०३ घादि०४ उक्कस्सभंगो । वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०,
उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०
घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क०
अंतो० । एवं सच्चअपज्जत्तगाणं तसाणं थावराणं च सुहुम-पज्जत्तगाणं च ।

१०२. मणुस०३ घादि०४ जह० ओघं । अज० अणुकस्सभंगो । वेद०-णामा-
गोदा० पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

१०३. देवाणं घादि०४ जह० णिरयभंगो । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं
सा० । वेद०-णामा-गो० तं चेव । णवरि जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । एवं
सच्चदेवाणं अप्पणो ट्ठिदी भाणिदच्चा । णवरि अणुदिस याव सच्चट्ठा त्ति गोदस्स
जह० अणु० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० अप्पणो
भवट्ठिदी० ।

समान है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है । पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और उनके पर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें और इनके अवान्तर भेदोंमें कालका विचार स्वामित्व और काय-
स्थितिको ध्यानमें रखकर कर लेना चाहिये । विशेषता इतनी है कि यहाँ चार घातिकर्म और गोत्र-
कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मूलोघके समान सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभाग-
वन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थिति प्रमाण बन जाता है । इसी प्रकार यहाँ वेदनीय, नाम
और गोत्रकर्मका विचार कर काल ले आना चाहिए ।

१०२. मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है ।
अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग पंचेन्द्रिय
तिर्यञ्चोंके समान है ।

१०३. देवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल नारकियोके समान है । अजघन्य
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । वेदनीय, नाम और
गोत्रकर्मका वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । इसी प्रकार सब देवोंके जानना चाहिए । किन्तु अजघन्य
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी भवस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—नारकियोसे देवोंमें दो विशेषताएँ हैं । प्रथम तो यह कि देवोंमें और उनके अवान्तर

१०४. एइंदि०-वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्० अणुकस्सभंगो । वेद०-णामा-गो० जह० जह० एग०, उक्० चत्तारि समयं । अज० अणुकस्सभंगो । णवरि एइंदि० गोद० जह० जह० एग०, उक्० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्० अणंतकालं ।

१०५. पंचिंदि०-त्स०२ सत्तणं क० जह० ओघं । अजहण्ण० ओघभंगो । णवरि कायट्ठिदी भाणिदव्वं । पुढवि०-आउ०-वादरवणप्फदिपत्ते०-णियोद० सत्तणं क० जह० पंचिंदि०तिरि०अपज्जत्तभंगो । अज० सव्वाणं अप्पणो अणुकस्सभंगो । तेउ०-वाउ० एवं चैव । णवरि गोद० घादीणं भंगो कादव्वो ।

भेदोमे गोत्रकर्मका स्वामित्व सामान्य नारकियोंके समान न होकर दूसरी पृथिवीके समान है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल वेदनीय और नामकर्मके साथ कहा गया है । दूसरे अनुदिशसे लेकर आगे गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व सम्यग्दृष्टि संक्षिप्त परिणामवाले जीवको प्राप्त होता है और इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है इसलिए अनुदिश आदिमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०४. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका अनुत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव पर्याप्त अवस्थामे पूर्ण विशुद्ध होकर करते हैं । इससे इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । ऐसे ये एकेन्द्रियादिक जीव चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध होकर करते हैं इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०५. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका काल भी ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि कायस्थिति कहनी चाहिये । पृथिवीकायिक, जलकायिक, वादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका काल सबका अपने-अपने अनुत्कृष्टके समान है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भङ्ग घातिकर्मोंके समान करना चाहिये ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विककी कायस्थितिका निर्देश उत्कृष्ट कालका निर्देश करते समय कर आये हैं । उसे जानकर यहाँ सात कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव सर्वविशुद्ध होकर करते हैं इसलिए अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें गोत्रकर्मका काल घातिकर्मोंके साथ

१०६. पंचमण०-पंचवचि० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-गामा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगि० सत्तण्णं क० जह० अज० ओघभंगो । णवरि घादि०४-गोद० अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० । एवं णवुंस० ।

१०७. ओरालिका० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि देसू० । एवं वेद०-गामा गोदा० । णवरि जह० तिरिक्खोघभंगो । ओरालियमि० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-गामा० अपज्जत्तभंगो । एवं वेउच्चियमि०-आहारमि० । वेउच्चियका० घादि०४ जह० अज० उक्कस्सभंगो । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० ।

कहा है। किन्तु पृथिवीकायिक आदिमें परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीव करते हैं, इसलिए इनके गोत्रकर्मके अनुभागवन्धका काल वेदनीय और नाम कर्मके साथ कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०६. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—काययोगी जीवोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है और उनकी कायस्थितिका काल अनन्तकाल है, इसलिए इनमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। परन्तु इनमें वेदनीय और नामकर्मका अजघन्य अनुभागवन्ध असंख्यात लोकप्रमाण काल तक काययोगके सद्भावमें निरन्तर होता रहता है, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकी यही कायस्थिति है और काययोगमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके इन कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ इन दोनों कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल श्रोधके समान असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०७. औदारिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम वाइस हजार वर्ष है। इसी प्रकार वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभागवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल उत्कृष्टके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है।

अज० अणुकस्सभंगो । वेद०-णामा० जह० ओर्धं । अज० णाणावरणभंगो । एवं आहार-
कायजोगि० । णवरि गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । कम्मइ० पंचण्णं क० जह०
एग० । अज० जह० एग०, उक्क० तिण्णि समयं । वेद०-णामा० जह० अज० एग०,
उक्क० तिण्णिसम० । एवं अणाहार० ।

१०८. इत्थिवे० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वे सम० । अज० जह० एग०,
उक्क० पल्लिदोपमसदपुधत्तं । वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि
सम० । अज० णाणावरणभंगो । एवं पुरिस० । णवरि घादि०४ अज० जह० अंतो०,
उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । अवगदवे० सत्तण्णं क० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० ।
अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१०९. कोधादि०४ घादि०४ गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-णामा० अपज्जत्तभंगो ।

अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार आकारक-काययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त योगोंका काल और इनमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व जान कर उक्त काल ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ हमने अलग-अलग खुलासा नहीं किया।

१०८. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य अनुभाग वन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल सौ पल्प पृथक्त्व प्रमाण है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल सौ सागर प्रभस्त्व प्रमाण है। अयगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्ध जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी जीवका जघन्यकाल एक समय है और पुरुषवेदी अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल क्रमसे एक समय ४१ और अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०९. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय और नाम कर्मका भंग अपर्याप्तिकोंके समान है।

११०. विभंगे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० णाणावरणभंगो ।

१११. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० अंतो०, उक्क० छावड्डिसागरो० सादि० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० णाणावरणभंगो । मणपज्जव० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी दे० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० णाणावरणभंगो । एवं संजद-सामाह्य-च्छेदो० ।

११२. परिहार० घादि०४-गोद० जह० एग० । अज० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । वेद०-णामा० मणपज्जवभंगो । एवं संजदासंजदस्स । सुहुमसंपराइ० छण्णं क० अवगद० भंगो ।

११०. विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य-काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है ।

१११. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र-कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक छयासठ सागर है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य-काल एक समय है और उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभाग वन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । इसीप्रकार संयत, सामाधिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आभिनिबोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । उपशमश्रेणिपर आरोहणकर और उतरकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करनेमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है । तथा गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संक्षो-वाले मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके होता है । इन जीवोंके गोत्रकर्मका एक बार जघन्य अनुभाग-वन्ध होनेपर पुनः उसके जघन्य अनुभागवन्धके योग्य यह अवस्था अन्तर्मुहूर्तकालके पहले नहीं हो सकती, अतः इनमें इन पाँचकर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध पर्याप्त निवृत्तिसे निवर्त्तमान मध्यम परिणामवाले किसी भी जीवके हो सकता है । ऐसे जीवके एक बार जघन्य अनुभागवन्ध होकर और बीचमें अज-घन्य अनुभागवन्धका अन्तर देकर पुनः जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय और नामकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११२. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है । वेदनीय और नामकर्मका भंग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । सूक्ष्मसांपरायित जीवोंमें छह

११३. किण्णाए घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । वेद०-णामा-गोदा० जह० ओघं । अज० णाणावरणभंगो । णवरि गोद० अज० जह० अंतो० । णील-काऊणं सत्तणं कम्मणं जह० पढमपुढविभंगो । अज० अणुकस्स० ।

११४. तेउ-पम्मासु घादि०४ जह० एग० । अज० जह० अंतो०, उक्क० वे-अट्टारस साग० सादि० । वेद०-णामा-गोदा० जह० सोधम्मभंगो । अज० जह० एग०, उक्क० णाणावरणभंगो । सुक्काए घादि०४ जह० एग० । अज० अणुकस्सभंगो । वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

११५. खइगे घादि०४-गोद० जह० एग० । णवरि गोद० जह० एग०, उक्क०

कर्मोका भङ्ग अपगतवेदी जीवोंके समान है ।

११३. कृष्ण लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त है । नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पहली पृथिवीके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मोंका बन्ध सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्ध जीवके होता है इसलिए इनमें जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहा है । इस लेश्यामें गोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सातवीं पृथिवीके नारकीके सस्यक्त्वके अभिमुख होनेपर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय होता है । यह जीव उसके बाद नरकमें अन्तर्मुहूर्त्तकाल तक अवश्य रहता है, इसलिए इसके गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११४ पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्ध का जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त है और उत्कृष्टकाल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका भंग सौधर्मकल्पके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणके समान है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—इन लेश्याओंमें अपने अपने स्वामित्वका विचारकर काल ले आना चाहिए । कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका स्पष्टीकरण नहीं किया ।

११५. चायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका

वेसमयं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सादि० ।

११६. वेदग० घादि०४-गोद० जह० खइग०भंगो । णवरि गोद० जह० जहण्णु० एगस० । अज० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि सा० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० छावट्टि० ।

११७. उवसम० घादि०४-गोद० जह० एग० । अज० जह० उक्क० अंतो० । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सम्मामि० । सासणे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० छावलियाओ । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० णाणा०भंगो । आहार० सत्तणं कम्माणं जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखेज्ज० ।

एवं कालं समत्तं ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट-काल दो समय कहा है सो इसका कारण यह है कि इसका जघन्य अनुभाग चारो गतिके सम्यग्दृष्टि जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से बँधता है । तथा इसे इन परिणामोंको पुनः प्राप्त करनेमें अन्तर्मुहूर्त्त काल लगता है अथवा एक बार उपशमश्रेणीसे उतरकर पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़नेका काल अन्तर्मुहूर्त्त है इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त्त है उत्कृष्ट काल छ्वासठ सागर है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छ्वासठ सागर है ।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वमे गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सिध्यात्वके अभिमुख हुए जीवके जघन्य अनुभागवन्धके समय होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११७. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्त है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्त है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । सासासनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ

अंतरपरूवणा

११८. अंतरं दुविधं—जहणायं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ उक० अणुभाग० अंतरं केवचिरं० ? जह० एग०, उक० अणंत० असंखेजा० । अणु० जह० एग०, उक० अंतो० । वेद०-णामा०-गोदा० जह० णत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक० अंतो० । आउ० उक० जह० एग०, उक० अद्ध-पोग्गल० । अणु० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० । एवं ओघभंगो अचक्खुदं-भवसि० ।

अन्तरप्ररूपणा

११९. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस प्रकार ओघके समान अचलुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध जिन परिणामोंके प्राप्त होनेपर होता है वे एक समयके बाद पुनः प्राप्त हो सकते हैं और असंखी तकके जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण है । इतने कालके भीतर इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं होता, अतएव इन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होकर पुनः उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो सकता है । तथा उपशमश्रेणिसे उतर कर पुनः उपशमश्रेणि पर चढ़कर उपशान्तमोह होने तकका काल अन्तर्मुहूर्त है, और बीचमें अन्तर देकर इतने काल तक इन कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर एक समय या अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका अवन्धक होकर पुनः इन कर्मोंका वन्ध करता है उस जीवकी अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । आयुकर्मका एक समयका अन्तर देकर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है । तथा अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें और कुछ कालसे न्यून अन्तर्में अप्रमत्तसंयत होकर आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण कहा है । जो जीव अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके बाद एक समय तक उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके पुनः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करने लगता है उसके आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है और जो पूर्वकोटिके प्रथम त्रिभागके आयुवन्धके अन्तिम समयमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके पुनः उत्कृष्ट आयुके साथ

११९. गिरएसु सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसु० । अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम० । आउ० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० देसु० । एवं सन्वणिरएसु अप्पणो द्विदी देसणं कादव्वं ।

१२०. तिरिक्खेसु घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० अणंतका० । अणुकस्स० जह० एगसमयं, उक्कस्सयं संखेज्जसमयं । वेद०-गामा-गोदा० उक्क० जह० एग०, उक्क० अद्वुपोगल० । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसु० । अणु० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० ।

देव या नारकी होकर यह छह महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुकृष्ट अनुभागवन्ध करता है उसके आयुकर्मके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है । यही कारण है कि आयुकर्मके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है ।

११६. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सब नरकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्यसे नरकमें यह अन्तरकाल कहा है । इसे उत्कृष्ट और अनुकृष्ट कालका विचार करके ले आना चाहिए । नरकमें उत्पन्न होनेके बाद पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है और उसके बाद अन्तमे वह सम्भव है, इसलिए यहाँ सातो कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । प्रथमादि नरकोंमें जिस नरककी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका विचार कर उस-उस नरकमें सातो कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१२०. तिर्यञ्चोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात समय है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्त अर्धपुद्गल प्रमाण है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके होता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । तथा तिर्यञ्चोंमें इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समय अर्थात् दो समय तक होता रहता है, इसलिए इनमें अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात समय कहा है । इनमें वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संयतासंयत जीवोंके होता है और तिर्यञ्च रहते हुए इनमें संयतासंयत गुणस्थानका कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । जो तिर्यञ्च पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके पुनः अन्तिम त्रिभागमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है उसके आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है । अतएव तिर्यञ्चोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्त

१२१. पंचिंदियतिरिक्ख०३ सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडि-
पुधत्तं । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । आयु० तिरिक्खोयं । पंचिंदियतिरिक्ख-
अपज्जत्त० सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क०
वेसम० । आयु० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्तसाणं
थावराणं च सव्वसुहुमपज्जत्ताणं च ।

१२२. मणुस०३ घादि०४-आउ० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि घादि०४
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु०
जह० उक्क० अंतो० ।

प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । ऐसा जीव मर कर पुनः तिर्यञ्च नहीं होता, इसलिए एक पर्यायमे
ही बंधनेवाली आयुकी अपेक्षा यह अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है । तिर्यञ्च आयुकर्मका पूर्व-
कोटि आयुके प्रथम त्रिभागमे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके और तीन पत्यकी आयुवाला तिर्यञ्च
होकर वहाँ छह महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर सकता है, इसलिए इनमें
आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पत्य कहा है ।

१२१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।
आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त त्रस और स्थावर तथा सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य तिर्यञ्चोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी मुख्यतासे ही आयुकर्मके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है इसलिए यहाँ आयुकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा
है । तिर्यञ्चोंमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर काल किसी भी तिर्यञ्चके उपलब्ध
हो सकता है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए । यहाँ सब स्थावर अपर्याप्त जीवोंमे सब सूक्ष्म
अपर्याप्त और सब वादर अपर्याप्त जीवोंका भी अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि इनकी कायस्थिति
अन्तर्मुहूर्त कालसे अधिक नहीं है । त्रसअपर्याप्त जीवोंका निर्देश अलगसे किया ही है । इन सब
अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त काल होनेसे इनमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान
अन्तरकाल बन जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम है ।

१२२. मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्म और आयुकर्मका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।
इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल
नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव है और इस अपेक्षा इनमे चार
घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । इसलिए इनमे
उक्त कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनमे वेदनीय, नाम
और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके

१२३. देवेषु घादि०४ उक्० जह० एग०, उक्० अठारस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्० बेसम० । वेद०-णामा गोदा० उक्० जह० एग०, उक्० तेतीसं देसणा० । अणु० जह० एग०, उक्० बेसम० । आउ० उक्० अणु० एग०, उक्० छम्मासं देस० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो द्विदीओ णेद्व्वाओ ।

१२४. एइदि० सत्तणं क० उक्० जह० एग०, उक्० असंखेजा लोगा । वादरे अंगुल० असंखे० । वादरपज्जत्ते संखेजाणि वाससहस्साणि । सव्वसुहुमाणं उक्० जह० एग०, उक्० असंखेजा लोगा । एवं वणप्फदि-णियोदाणं । सव्वेसिं० अणु० जह० एग०, उक्० बेसम० । आउ० उक्० जह० एग०, उक्० सत्तवस्ससहस्साणि सादि०

अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें उपशान्तमोह हो जानेपर इनका बन्ध नहीं होता अन्यत्र सर्वदा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता रहता है, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। यद्यपि उपशान्तमोहका मरणकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है पर ऐसा जीव मरकर नियमसे देव ही होता है और यहाँ मनुष्यत्रिकका प्रकरण है। इसलिए यहाँ इस कालका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। शेष कथन सुगम है।

१२३. देवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपनी-अपनी स्थितिको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है। किन्तु यह बात वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें नहीं है। उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वार्थ-सिद्धिके देवके भी होता है। यही कारण है कि सामान्य देवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। अन्य देवोंमें जिसकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर वहाँ सातो कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल ले आना चाहिए। उन उन देवोंमें यह अन्तर काल लाते समय यह सामान्य देवकी अपेक्षा प्राप्त किया गया सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल विवक्षित नहीं रहता इतना स्पष्ट है। शेष कथन सुगम है।

१२४. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। वादर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तिकोमें उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। सब सूक्ष्मोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सब वनस्पतिकाधिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए। इन सब जीवोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भके तीनमें साधिक सात हजार

अंतो० वणप्फदि० तिणिण वाससहस्साणि सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० बावीसं-
वास० सादि० [अंतो०] दस वाससहस्सा० सादि० अंतो० ।

१२५. पुढवि०-आउ०-तेउ० वाउ०-वणप्फदिपत्ते० सत्तणं क० उक्क० जह० एग०,
उक्क० असंखेज्जा लोगा । वादर० कम्मड्ढिदी । पञ्जत्ताणं संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।
सन्धानं अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० सत्त
वाससहस्साणि सादि० वे वाससह० सादि० तिणिण वाससह० सादि० । अणु० जह०
एग०, उक्क० अप्पणो पगदिअंतरं । तेउ०-वाउ० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० ।
अणु० अप्पणो पगदिअंतरं ।

वर्ष और सूक्ष्म तथा निगोद जीवोंमें अन्तर्मुहूर्त है। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष, अन्तर्मुहूर्त, साधिक दस हजार वर्ष और अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और वाद एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें वादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त जीवोंकी मुख्यतासे आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त किया गया है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और निगोद पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति दस हजार वर्ष है। इसलिए इनमें इस कालको ध्यानमें रखकर आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त किया गया है। शेष अन्तरकाल लाते समय स्वामित्व और अपनी-अपनी कायस्थितिको ध्यानमें रखकर वह ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया। मात्र जहाँ कायस्थिति अधिक है और अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है वहाँ जो विशंपता है उसका निर्देश हम काल प्ररूपणाके समय कर आये हैं इसलिए उसे जानकर यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

१२५. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इनके वादरोमे उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है। तथा इनके पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। इन सबके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष और साधिक तीन हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने प्रकृति-वन्धके अन्तरके समान है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर अपने अपने प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंकी अपेक्षा अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालमें कुछ विशेषता कही है। उसका कारण यह है कि पृथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक आयु-कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते समय मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं इसलिए उनकी पृथिवीकायिक आदि पर्याय बदल जाती है, अतः इनमें एक पर्यायकी मुख्यतासे ही आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है। किन्तु अग्निकायिक और वायु-कायिक जीवोंकी यह बात नहीं है। वे नियमसे निर्यञ्जायुका ही वन्ध करते हैं। इसलिए इनमें

१२६. वोइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०पञ्चत्त० सत्तणं क० उक्क० जह० एग०,
उक्क० संखेज्जाणि वाससह० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । आउ०^१ उक्क० जह०
एग०, उक्क० चत्तारि^२ वासाणि देस० सोलसरादिंदियाणि सादि० [दोमासाणि देस०] ।
अणु० जह० एग०, उक्क० पगदिअंतरं ।

१२७. पंचिदि०-त्स०२ घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायडिदी० ।
अणु० ओघं । आउ० [उक्क० अणु०] जह० एग०, उक्क० कायडिदी० । अणु० ओघं ।
वेद०-गामा-गोदा० उक्क अणु० ओघं ।

१२८. पंचमण०-पंचवचि० घादि०४-आउ०^२ [जह० एग०] उक्क० अंतो० ।
अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद० गामा०-गोदा० उक्क० अणु० णत्थि अंतरं ।
काय-जोगि० घादि०४ उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-गामा-गोदा० उक्क०

आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त करनेसे ऐसी कोई बाधा नहीं आती, अतः कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके इनमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । यही कारण है कि यहाँ यह कायस्थिति प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१२६. द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम चार वर्ष, साधिक सोलह दिन-रात और कुछ कम दो महीना है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है ।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह वर्ष, त्रीन्द्रियोंकी उनचास दिन रात और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है । इन जीवोंमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होने पर इनकी द्वीन्द्रियादि पर्याय छूट जाती है, इसलिए इनमें प्रथम त्रिभागके प्रारम्भमें और भवस्थितिके अन्तमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए ।

१२७. पञ्चेन्द्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्लोके समान है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्लोके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्लोके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विककी कायस्थितिका पहले निर्देश कर आये हैं । उसके प्रारम्भमें और अन्तमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करानेसे आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल आ जाता है । शेष कथन सुगम है ।

१२८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । काययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके

गत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आउ० [उक्क०] जह० एग०, उक्क० अंतो० । [अणु०] जह० एग०, उक्क० पगदिअंतरं । ओरालियका० मणजोगिभंगो । णवरि आउ० अणु० जह० एग०, उक्क० सत्तवाससहस्साणि सादि० ।

१२६. ओरालियमि० सत्तणं क० उक्क० अणु० गत्थि अंतरं । आउ० अपजत्त-भंगो । एवं वेउच्चियमि०-आहारमि० । णवरि आहारमि० आउ० उक्क० अणु० गत्थि अंतरं । वेउच्चिय० अट्टणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । एवं आहारका० । कम्मइ० सत्तणं क० उक्क० अणु० गत्थि अंतरं । एवं अणाहार० ।

उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । औदारिक काययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्मके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है ।

विशेषार्थ—पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके योग्य परिणाम एक समय और अन्तर्मुहूर्तके वाद होते हैं, इसलिए इनमें उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्त कहा है । इनके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है । औदारिककाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके सिवा यह अन्तरकाल इसी प्रकार प्राप्त होता है । मात्र औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है, इसलिए इसमें आयुर्कर्मके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है । काययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध एक समयके वाद इसलिए बन जाता है कि अन्य काययोगीमें ऐसे परिणाम एक समयके बाद हो सकते हैं, अतः इनमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१२६. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—औदारिक मिश्रकाययोगीमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध इसलिए किया है कि इसमें औदारिकमिश्रकाययोगीके अन्तिम समयमें चार

१३०. इत्थि० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० अणु० णत्थि अंतरं । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अणु० जह० एग०, उक्क० षणवण्णां पलिदी० सादि० । पुरिस० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-णामा-गोदा० इत्थिवेदभंगो । आउ० उक्क० णाणा०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । णवुंसगे घादि०४ तिरिक्खोघं । वेद०-णामा-गोदा० इत्थिवेदभंगो । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं दे० । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अवगतवेदे सत्तण्णां क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो० ।

घातिकर्मोका संक्षिप्त मिथ्यादृष्टिके और वेदनीय, नाम और गोत्रका सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध होता है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगमें भी उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल न होनेका कारण है । शेष कथन सुगम है ।

१३०. स्त्रीवेदी जीवोमे चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग सामान्य तियेच्चोंके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवगतवेदी जीवोमे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदमे वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल यद्यपि उपशमश्रेणिमे सम्भव है पर इनकी बन्धव्युच्छिन्निके पहले ही स्त्रीवेदका उदय नहीं रहता, इसलिए इसमे इन तीन कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भी अन्तरकाल नहीं बनता । देवियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचवन पल्य है, इसलिए इसमे आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है । क्योंकि जो पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य प्रथम त्रिभागमे आयुकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, पुनः पचवन पल्यकी आयुवाली देवी होकर वहाँ छद् महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है उसके आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य उपलब्ध होता है । नपुंसकवेदी जी

अथवा 'उक्० णत्थि अंतरं । अणु० एग० । आउ० मणपञ्जवभंगो । सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं उक्० अणुक० णत्थि अंतरं । संजदासंजद० सत्तण्णं क० उक्० अणु० णत्थि अंतरं । आउ० परिहारभंगो ।

१३५. चक्खुदं० तसपञ्जत्तभंगो । किण्णाए घादि०४ उक्० जह० एग०, उक्० तेत्तीसं सा० सादि० । अणु० जह० एग०, उ० वेसम० । वेद०-णामा-गोदा० [उक्० अणु०] जह० एग०, उक्० तेत्तीसं सा० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्० वेसम० । आउ० [उक्० अणुभा०] जह० एग०, उक्० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्० छम्मासं देसू० । एवं छण्णं लेस्साणं आउ० सरिसमंतरं । णील-काऊणं सत्तण्णं क० उक्० जह० एग०, उ० सत्तारस सत्त साग० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्० वेसम० । तेउ०-पम्मा० घादि०४ उक्० जह० एग०, उक्० वे अट्टारस० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्० वेसम० । वेदणी०-णामा-गो० उक्० णत्थि अंतरं । अणु०-एग० । सुक्काए घादि०४ उक्० जह० एग०, उक्० अट्टारससा० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्० अंतो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्० अणु० ओघं ।

समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अथवा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । आयुर्कर्मका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । आयुर्कर्मका भङ्ग परिहारविशुद्धसंयत जीवोंके समान है ।

१३५. चक्षुःदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है । इसी प्रकार छह लेश्यावाले जीवोंके आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका समान अन्तर है । नील और कपोतवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्तरह सागर व कुछ कम सात सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक दो सागर व साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल ओघके समान है ।

१३६. अब्भवसि० सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । आउ० मदि०भंगो ।

१३७. खइग० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-णामा-गोदा० ओघभंगो । आउ० [उक्क० अणु०] जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । अणु० ओघं ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्यावाले जीवोंके चार घातिकर्मोंका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध तीन गतिमें सम्भव है, इसलिए इनके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। जो नरक जानेके सम्मुख कृष्णलेश्यावाला जीव है उसके अन्तमे कृष्णलेश्या हो जाती है और नरकसे निकलनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्त काल तक यह बनी रहती है, इसलिए साधिक तेतीस सागर काल उपलब्ध हो जाता है। परन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि, सर्वविशुद्ध नारकीके होता है इसलिए इनके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। कृष्णलेश्यामें आयुकर्मका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्यके होता है, इसलिए इसमें आयुकर्मके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि इनके एक लेश्या अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं पाई जाती। नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध नारकियोंके ही होता है, इसलिए इनमे सातो कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर कहा है। पीत और पद्मलेश्यामे चार घातिकर्मोंका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध देवगतिमें होता है और देवोंमे पीतलेश्याका मुख्यतासे दूसरे कल्प तक व पद्मलेश्याका वारहवें कल्प तक निर्देश किया जाता है। इनकी उक्कृष्ट आयु क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है, इसलिए इनमे चार घातिकर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध इन लेश्याओंमे सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है, तथा पुनः उक्कृष्ट अनुभागवन्धकी योग्यता आने तक लेश्या बदल जाती है अतः इनके उक्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनमे अनुक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उक्कृष्ट अन्तर एक समय कहनेका कारण यह है कि इनमें इन कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उक्कृष्ट काल एक समय है। शुक्ललेश्यामें चार घातिकर्मोंका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध सहस्रार कल्प तक होता है, इसलिए इसमे इन कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१३६. अब्भव्य जीवोमे सात कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयु कर्मका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है।

विशेषार्थ—अबव्य जीवोंके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तका उक्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है। इसीसे यहां आयु कर्मके अतिरिक्त सात कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। यह स्पष्ट है कि इन सात कर्मोंका उक्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है। शेष कथन सुगम है।

१३७. त्वायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग ओषके के समान है। आयु कर्मके उक्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। अनुक्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओषके के समान है।

१३८. वेदग० सत्तण्णं क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० एय० । णवरि घादि०४
अणु० णत्थि अंतरं । आउग० ओधिणाणा०भंगो । उवसम० सत्तण्णं क० उक्क० णत्थि
अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१३९. सासणे घादि०४ उक्क० अणुक० णत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा-गोदा०
उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । सम्मामि०
सत्तण्णं क० उक्क० अणु० णत्थि अंतरं ।

१४०. सण्णि० पंचिदियपञ्जत्तभंगो । असण्णि० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०,

विशेषार्थ—क्षायिक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। उपशमश्रेणियोंमें क्षायिकसम्यक्त्व भी होता है और इसमें चार घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है, इसलिए क्षायिकसम्यक्त्वमे इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१३८. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुर्कर्मका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वमे चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवके होनेसे इसमे इन तीन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। उपशमसम्यक्त्वमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके अन्तिम समयमें होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उपशमश्रेणियोंमें सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशम सम्यक्त्वमें उपशमश्रेणियोंकी अपेक्षा कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१३९. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वमे मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। किन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका सर्वविशुद्ध जीवके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इसमे इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१४०. संज्ञी जीवोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अमंज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंके

उक्क० अणंतकालं असंखेजा० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम० । आउ० उक्क० जह० एग०, उ० पुव्वकोडितिभागं देस० । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० ।

१४१. आहार० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखेज० । अणु० ओघं । वेद०-गामा-गोदा० ओघं । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० । अणु० ओघं ।

एवमुक्कस्समंतरं समत्तं ।

१४२. जहणणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-गामा० जह० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आउ० जह० वेदणीय-भंगो । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । गोद० जह० जह० अंतो०, उक्क० अद्दुपोगल० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अचक्खुदं-भवसि० ।

उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—असंखी जीवको पहिली पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुर्कर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके पुनः पूर्वकोटिकी आयुवाले असंखियोंमें उत्पन्न कराकर अन्तमें आयुबन्ध करावे और इस प्रकार आयुर्कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि ले आवे । शेष कथन सुगम है ।

१४१. आहारक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अद्दुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका भङ्ग ओघके समान है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अद्दुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अद्दुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी घातको ध्यानमें रखकर यहाँ चार घातिकर्म और आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल फहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर समाप्त हुआ ।

१४२. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका संग वेदनीय कर्मके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस, सागर है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य

१४३. गिरएसु घादि०४ जह० जह० एग०, उक० तेतीसं साग० देख० ।
 अज० जह० एग०, उक० वेसमयं । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक० तेतीसं
 साग० देख० । अज० जह० एग०, उक० चत्तारि समयं । आउ० जह० अज० जह०
 एग०, उक० छम्मासं देखणं । गोद० जह० जह० अंतो०, उक० तेतीसं सा० देख० ।
 अज० जह० एग०, उ० एग० । एवं सत्तमाए पुढवीए । उवरिमासु छसु तं चेव । णवरि
 गोद० वेद०भंगो । अप्पणो द्विदीओ देखणाओ कादवाओ ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—चार घात कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है अतः ओघसे इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । उपशमश्रेणिमे चार घाति कर्मोंका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसके बाद पुनः उनका यथा-योग्य अजघन्य अनुभागबन्ध होने लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । वेदनीय और नाम कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके भी हो सकता है और इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । यही कारण है कि ओघसे इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सातवीं पृथिवीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर होता है । यह अवस्था पुनः कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके बाद या अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनके बाद उपलब्ध होती है, इसलिए ओघसे इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१४३. नारकियोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । गोत्र कर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीमे जानना चाहिए । ऊपरकी छह पृथिवियोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्र-कर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है । तथा अपनी अपनी कुछ कम स्थिति कहनी चाहिये ।

विशेषार्थ—नरकमें चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध असंयत सम्यग्दृष्टिके होता है और इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि दोनोंके परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा गोत्रका सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है । सातवें नरकमें प्रारम्भमें और अन्तमें इस व्यवस्थाको प्राप्त कर कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका भी कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर कहा है । गोत्रकर्मका एक बार जघन्य अनुभागबन्ध होनेपर पुनः वैसी योग्यता अन्तर्मुहूर्त कालके पहले नहीं आती, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य

१४४. तिरिक्खसु घादि०४ जह० जह० एग०, उ० अद्दुपोग्गलदे० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । आउ० जह ओघं । अज० अणुक्कस्सभंगो । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं असंखे० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । पंचिदि०-तिरिक्ख०३ घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० ज० एग०, उक्क० वेसमयं । वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । आउ० ज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० अणु०भंगो । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । अज०^१ जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० ।

अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । सातवीं पृथिवीमें यह ओघ प्ररूपणा अधिकल घटित हो जाती है, इसलिए उसमें सामान्य नारकियोंके समान अन्तर काल कहा है । हाँ प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें गोत्रकर्मकी वेदनीय और नामकर्मसे स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इनमें और सब अन्तर तो अपनी अपनी स्थितिके अनुसार सामान्य नारकियोंके समान है पर गोत्रकर्मकी अपेक्षा यह अन्तर वेदनीयके समान कहा है । शेष अन्तर कालको विचार कर ले आना चाहिये ।

१४४. तिर्यञ्चोमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नाम कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । पचेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकर्म चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नाम कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयतासंयतके होता है और संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है । तिर्यञ्चोमें गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध वादर अमिकायिक और वादर चायुकायिक जीवके होता है । तथा इनका उत्कृष्ट

१४५. पंचिदि० तिरि० अपञ्ज० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-शामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सन्वअपञ्जत्त-सुहुमपञ्जत्ताणं च ।

१४६. मणुस०३ घादि०४ जह० गत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खमंगो । णवरि वेद०-शामा-गोदा० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१४७. देवेसु घादि०४ जह० ज० एग०, उक्क० तेतीसं साग० देसु० । अज०

अन्तर अनन्तकाल है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त-काल कहा है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे संयतासंयत गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है। यद्यपि इनमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले पंचेन्द्रिय जीवके होता है पर ऐसी योग्यता भोगभूमिमें सम्भव नहीं, इसलिए इनमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है। आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध भी यहीं कर्मभूमिके पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त प्रमाण कहा है। मात्र वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागका वन्ध भोगभूमि और कर्मभूमि दोनोंके सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है। इन सब स्थलोंमें उत्कृष्ट अन्तर लाते समय प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है, इसलिए उसका अलग से निर्देश नहीं किया।

१४५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, और सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

१४६ मनुष्यत्रिक में चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। शेष कर्मोंके अनुभागवन्धके अन्तरकाल का भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उपशम-श्रेणिमें उपलब्ध होता है। तथा इसी प्रकार वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उपशमश्रेणिमें उपलब्ध होता है। यतः उपशमश्रेणिमें इन सबका वन्ध मनुष्यत्रिकमें अन्तर्मुहूर्त काल तक नहीं होता, अतः यहाँ चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा वेदनीय, नाम गोत्रके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१४७ देवों में चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और

जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-गामा० जह० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आउ० गिरयभंगो । गोद० ज० ज० एग०, उक्क० एकत्तीसं० देसू० । अज० जह एग०, उक्क० चत्तारि सम० । एवं सव्वदेवाणं । णवरि अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति गोद० घादिभंगो ।

१४८, एहंदिएसु घादि०४ जह० ज० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० वे सम० । वेद०-आउ०-गामा० तिरिक्खोघं । णवरि आउ० अज० उक्कस्स० पगादिअंतरं । गोद० ज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं । अज० जह० एग०, उक्क० वे सम० । वादरे० अंगुल० असंखे० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुहुम० असंखेज्जा लोगा ।

उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयु कर्मका भंग नारकियों के समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम इकतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें गोत्र कर्मका भंग चार घातिकर्मोंके समान है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे देवोंमें चार घातिकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके होता है । तथा वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके भी होता है, अतः यहां इन छह कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर कहा है । मात्र गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता है और मिथ्यात्व गुणस्थान अन्तिम प्रवैयक तक ही उपलब्ध होता है, अतः यहां गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम इकतीस सागर कहा है । भवनत्रिक आदि देवोंमें जहाँ जो स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर अपना अपना यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके ही होता है, इसलिए इनमें गोत्र कर्मका भङ्ग चार घातिकर्मोंके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१४८ एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आयु कर्मके अजघन्य अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वादर एकेन्द्रियोंमें जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातमें भाग प्रमाण है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध वादर एकेन्द्रियोंके होता है और वादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यचोंमें वेदनीय, आयु

१४९. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिदि० तेसिं च पञ्जत्त० सत्तणं क० जह० ज० एग०,
उक्क० संखेजाणि वाससहस्साणि । अज० अपञ्जत्तमंगो । आउ० जह० णाणावरणमंगो० ।
अज० पगादिअंतरं ।

१५०. पंचिदि०-पंचिदियपञ्जत्त० घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०-आउ०-
णामा० ज० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अज० ओघं । गोद० जह० अंतो०,
उक्क० कायड्ढिदी० । अज० ओघं । एवं तस-तसपञ्जत्त-चक्खुदं० ।

और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होता है । यय भी यहाँ इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । एकेन्द्रियोंमें पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति वाईस हजार वर्ष है । यदि कोई एकेन्द्रिय पूर्व भवके प्रथम त्रिभागमें आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध करके वाईस हजार वर्षकी आयुवाला पृथिवीकायिक होता है और वहाँ भवके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो आयुकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष उपलब्ध होता है । एकेन्द्रियों में प्रकृतिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है । यही कारण है कि यहाँ आयुकर्मके अजघन्य अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कहा है । एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध वादर अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है । इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । यह सामान्य एकेन्द्रियों की अपेक्षा अन्तरकाल कहा है । वादर एकेन्द्रिय, वादर पर्याप्त एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियकी कायस्थिति क्रमसे अद्भुतके असंख्यातवें भागप्रमाण, संख्यात हजार वर्ष और असंख्यात लोक प्रमाण है । इसलिये इसके अनुसार आठों कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१४६ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें तथा उनके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । अजघन्य अनुभागबन्धका भंग अपर्याप्तकोंके समान है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका भंग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभाग बन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है ।

विशेषार्थ—इन जीवोंकी कायस्थिति संख्यात हजारवर्ष है । इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजारवर्ष कहा है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है । यहाँ प्रकृतिबन्धमें आयुकर्म का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक वारहवर्ष, साधिक उनचास दिन-रात और साधिक छह महीना प्रमाण कहा है । यहाँ आयुकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका यह अन्तर इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इसके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१५० पंचेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघ के समान है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । इसी प्रकार त्रस, त्रस पर्याप्त और चक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये ।

१५१. पुढ०-आउ० घादि०४ जह० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक० बेसम० । बादरे कम्मड्ढिदी० । पज्जत्ते संखेजाणि वास-सहस्साणि । एवं वेद०-णामा-गोदाणं । णवरि अज० अपज्जत्तभंगो । एवं आउ० जह० । अज० पगदिअंतरं कादव्वं । एवं तेउ०-घाउणं पि । णवरि गोद० णाणा०भंगो । वणप्फदि-पत्तेय-णियोदाणं च पुढविभंगो । णवरि अप्पप्पणो ढ्ढिदीओ कादव्वाओ ।

१५२. पंचमण०-पंचवचि० घादि०४ ज० अज० णत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-

विशेषार्थ—ओघसे चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रियद्विककी मुख्यतासे ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह अन्तरकाल ओघके समान कहा है। किन्तु वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें सर्वथा यह बात नहीं है, इसलिए इनका विचार स्वतन्त्ररूपसे किया है। उसमें भी यहाँ जिनकी जो कायस्थिति है तन्प्रमाण इन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल बन जाता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। त्रस, त्रसपर्याप्त और चक्षुदर्शनी जीवोंमें भी चार घातिकर्मोंका ओघके समान और शेषका अपनी अपनी कायस्थितिके अनुसार यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिये वह इन जीवोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५१. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। बादर पृथिवीकायिक जीवोंमें कर्मस्थिति प्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष हैं। इसी प्रकार वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर काल अपर्याप्तकोके समान है। इसी प्रकार आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल है। इसके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान करना चाहिये। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भंग ज्ञानावरणके समान है। वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवोंमें पृथिवी कायिक जीवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिये।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसीसे इन जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बादर पर्याप्त कराके इन कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आवे। यहाँ शेष चार कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल भी इसी प्रकार ले आवे। पर यह केवल बादर पर्याप्तके ही प्राप्त होता है यह नियम नहीं है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उक्त प्रमाण कायस्थिति होनेसे इनमें भी यह अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनों कायवाले जीवोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान होनेसे इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। यहाँ अन्य जितने कायवाले जीव गिनाए हैं इनमें भी उनकी कायस्थितिको जानकर उक्त अन्तर काल ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है। शेष कथन सुगम है।

१५२. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अज-घन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका

गामा० ज० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० जह० एग०,
गोद० जह० गत्थि अंतरं । अज० [जहण्णु०] एग० ।

१५३. कायजोगि० घादि०४ जह० अज० ओघं० । वेद०-ण
एहंदियभंगो । गोद० जह० गत्थि अंतरं । अज० ओघं ।

१५४. ओरालि० घादि०४ जह० [अज०] गत्थि अंतरं । वे
एग०, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि देसू० । अज० जह० एग०,
आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० सत्तवाससह० सादि०
एग०, उक्क० तिण्णिवाससह० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क०

जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभाग बन्धका है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागक अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घ वन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । तथा उपशमश्रेणिमें योगपरिवर्तन हो ज जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम प तथा ध्यायुर्कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अन्यतर अपर्याप्त निवृत्तिसे नि जीवके होता है । उक्त योगोंमें यह अवस्था अन्तर्मुहूर्तके बाद हो कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । व बन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिसुख हुए जीवके होता है कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध होने पर उसी योगके रहते हुए दूसरी बार इसलिए इन योगोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका निषेध किया ।

१५३. काययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अ काल ओघके समान है । वेदनीय और नाम कर्मका भंग ओघके एकेन्द्रियोंके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर व भागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—काययोगके रहते हुए गोत्रकर्मका जघन्य अनुभा इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका निषेध किया है । पहले उसका विचार कर आये हैं ।

१५४. औदारिल काययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभाग बन्ध और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाइस हजार वर्ष है । अजघन्य अनु समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुर्कर्म के जघन्य अ जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात ह अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर ह अजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

मि० पंचणनं क० जह० अज० णात्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० अपञ्जत्तभंगो । एवं वेउन्वियमि०-आहारमि० । णवरि वेउन्वियमि० आउ० णत्थि अंतरं ।

१५५. वेउन्वियका० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-आउ०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । गोद० जह० णत्थि अंतरं । अज० एग० । एवं आहारका० । णवरि गोद० णाणा०भंगो । कम्मह० सत्तणं क० जह० अज० णत्थि अंतरं । णवरि वेद०-णामा० जह० अज० [एग०] । एवं अणाहारका० ।

मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बन्ध का अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्म का भंग अपर्याप्तकोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवों में जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयु कर्मका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—औदारिक काययोगमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और उपशमश्रेणिमें उपशान्तमोहके कालसे औदारिककाययोगका काल अल्प है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणामवालेके होता है । यतः औदारिककाययोगमें यह अवस्था कमसे कम एक समयका अन्तर देकर और उत्कृष्टसे कुछ कम बाईस हजार वर्षके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसमें इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय स्पष्ट ही है, क्योंकि इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल चार समय कहा है । इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होता है । आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । तथा औदारिककाययोगमें प्रथम त्रिभागसे दूसरी बार आयुबन्धके कालमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है, इसलिए इसमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है । गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध बादर अभिकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंके होता है । उसमें भी बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष है । इसलिए इसमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

१५५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग ज्ञानावरणके समान है । कर्मण-काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१५६. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० अज० णत्थि अंतरं । वेद०-णामा०-गोद० जह० ज० एग०, उक्क०, पलिदो०-सदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । अज० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि०, तेत्तीसं० सादि० । णवुंस० घादि०४ ज० अज०, णत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० जह० ओघं । अज० पुरिस० भंगो । गोद० जह० ओघं० । अज० एग० । अवगदवे०, सत्तण्णं क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके वन्धयोग्य परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरसे होते हैं, इसलिए इसमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका वन्ध मध्यम परिणामोंसे होता है । यतः ये परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है । वैक्रियिककाययोगके कालमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धके योग्य परिणाम दो वार नहीं होते इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१५६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सौ पत्य पृथक्त्व और सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य और साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल पुरुषवेदी जीवोंके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके क्षपकश्रेणिमें अपने-अपने वेदकी उदयन्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है तथा इसके पहले इनके अजघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इन जीवोंके चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इन जीवोंके स्वामित्वको देखते हुए वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव होनेसे यहाँ इन तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सौ पत्य पृथक्त्व और सौ सागरपृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि इन जीवोंके अपनी कायस्थितिके प्रारम्भ और अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध होकर मध्यमें सतत अजघन्य अनुभागवन्ध होते रहना सम्भव है । यहाँ इन तीन कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय इनके जघन्य अनुभागवन्धके जघन्य और उत्कृष्टकालको ध्यानमें

१५७. क्रोधादि०४ घादि०४ जह० अज० गत्थि अंतरं । सेसाणि मण-
जोगिभंगो । णवरि लोमे मोह० अज० ओघं ।

१५८. मदि०-सुद० घादि०४-गोद० जह० अज० गत्थि अंतरं । सेसाणं णवुंसग-
भंगो । एव मिच्छादिट्ठी० । विभंगे घादि०४-गोद० जह० अज० गत्थि अंतरं ।
वेद०-णामा० जह० अज० णिरयोघं । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अज० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देसु० ।

रखकर कहा है यह स्पष्ट ही है । आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अपनी अपनी कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे हो सकता है इसलिए यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे होने पर इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जिस पुरुषवेदी या स्त्रीवेदी मनुष्यने आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे तेतीस सागर और पचवन पत्य वोधते समय अजघन्य अनुभागबन्ध किया पुनः तेतीस सागर और पचवन पत्यकी आयुके अन्तमे पुनः आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध किया उस पुरुषवेदी और स्त्रीवेदी जीवके आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध क्रमसे साधिक तेतीस सागर और साधिक पचवन पत्य उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । नपुंसकवेदीके पुरुषवेदीके समान चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । तथा ओघ प्ररूपणाके समय वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा वह नपुंसकवेदमें सम्भव है इसलिये यहाँ यह कथन ओघके समान कहा है । मात्र गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समयसे अधिक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नपुंसकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय ही उपलब्ध होता है । इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है और शेष तीन कर्मोंका उपशमश्रेणिसे गिरते समय अपगतवेदके अन्तिम समयमें होता है । यही कारण है कि यहाँ इन सातों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

१५७. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनु-
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभ कपायमें मोहनीय कर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपक-
श्रेणिमे होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध
किया है । तथा शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल लाते समय पहले
जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके वह घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर
लेना चाहिए, इसलिए वह मनोयोगी जीवोंके समान कहा है । मात्र ओघसे मोहनीयकर्मके अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त घटित करके वतलाया है
वह यहाँ लोभकपायमे अधिकल घटित हो जाता है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है ।

१५८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य और
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।
इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र-
कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सामन्य नारकियोंके समान है । आयुकर्मके जघन्य

१५६. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० अज० णत्थि अंतरं । वेद०-णामा०-गोद०
 जह० ज० एग०, उक्क० पलिदो०सदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं । अज० जह० एग०,
 उक्क० चत्तारि सम० । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अज० जह०
 एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि०, तेत्तीसं० सादि० । णवुंसं० घादि०४ ज०
 अज० णत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० जह० ओघं । अज० पुरिस०भंगो । गोद०
 जह० ओघं० । अज० एग० । अवगदवे० सत्तण्णं क० जह० णत्थि अंतरं । अज०
 जह० उक्क० अंतो० ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरसे होते हैं, इसलिए इसमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका बन्ध मध्यम परिणामोंसे होता है । यतः ये परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है । वैक्रियिककाययोगके कालमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके योग्य परिणाम दो बार नहीं होते इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१५६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सौ पल्य पृथक्त्व और सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य और साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल पुरुषवेदी जीवोंके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके क्षपकश्रेणिमें अपने-अपने वेदकी उदयव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध होता है तथा इसके पहले इनके अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इन जीवोंके चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इन जीवोंके स्वामित्वको देखते हुए वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव होनेसे यहाँ इन तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे सौ पल्य पृथक्त्व और सौ सागरपृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि इन जीवोंके अपनी कायस्थितिके प्रारम्भ और अन्तमें जघन्य अनुभागबन्ध होकर मध्यमें सतत अजघन्य अनुभागबन्ध होते रहना सम्भव है । यहाँ इन तीन कर्मोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय इनके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य और उत्कृष्टकालको ध्यानमें

१५७. क्रोधादि०४ घादि०४ जह० अज० गत्थि अंतरं । सेसाणि मण-
जोगिभंगो । णवरि लोभे मोह० अज० ओघं ।

१५८. मदि०-सुद० घादि०४-गोद० जह० अज० गत्थि अंतरं । सेसाणं णवुंसग-
भंगो । एव मिच्छादिद्वी० । विभंगे घादि०४-गोद० जह० अज० गत्थि अंतरं ।
वेद०-णामा० जह० अज० गिरयोघं । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अज० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देसु० ।

रखकर कहा है यह स्पष्ट ही है । आयुर्कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अपनी अपनी कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे हो सकता है इसलिए यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा आयुर्कर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे होने पर इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जिस पुरुषवेदी या स्त्रीवेदी मनुष्यने आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे तेतीस सागर और पचवन पल्य बाँधते समय अजघन्य अनुभागबन्ध किया पुनः तेतीस सागर और पचवन पल्यकी आयुके अन्तमें पुनः आयुर्कर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध किया उस पुरुषवेदी और स्त्रीवेदी जीवके आयुर्कर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध क्रमसे साधिक तेतीस सागर और साधिक पचवन पल्य उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । नपुंसकवेदीके पुरुषवेदीके समान चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । तथा ओघ प्ररूपणाके समय वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा वह नपुंसकवेदमें सम्भव है इसलिये यहाँ यह कथन ओघके समान कहा है । मात्र गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समयसे अधिक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नपुंसकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय ही उपलब्ध होता है । इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और शेष तीन कर्मोंका उपशमश्रेणिले गिरते समय अपगतवेदके अन्तिम समयमें होता है । यही कारण है कि यहाँ इन सातों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

१५७. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनु-
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभ कषायमें मोहनीय कर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपक-
श्रेणिमें होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल लाते समय पहले जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके वह घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, इसलिए वह मनोयोगी जीवोंके समान कहा है । मात्र ओघसे मोहनीयकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त घटित करके बतलाया है वह यहाँ लोभकषायमें अधिकल घटित हो जाता है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है ।

१५८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य और
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र-
कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सामान्य नारकियोंके समान है । आयुर्कर्मके जघन्य

१५६. आमि०-सुद०-ओधि० घादि०४-गोद० जह० णत्थि अंतरं । अज० ओघं० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० छावट्ठि० सादि० । अज० ओघं । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० । अज० ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि० ।

१६०. मणपज्ज० घादि०४-गोद० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० पुच्चकोडी० देसू० । अज० ओघं । आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० पुच्चकोडितिभागं देसू० । एवं संजदा० ।

अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुल कम छह महीना है ।

विशेषार्थ—तीनों मिथ्याज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होने पर होता है इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इसी प्रकार गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातवें नरकके नारकीके होता है इसलिए यहाँ इसके भी जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१५६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन दोनों सम्यग्ज्ञानियोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें अपनी वन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इन पाँचोंके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उपशमश्रेणिमें उपशान्त-मोह गुणस्थानमें एक समय रहकर मरणकी अपेक्षा एक समय और उपशान्तमोहमें पूरे काल तक रहकर उतरनेकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । ओघसे भी यह इतना ही उपलब्ध होता है, इसलिए यह अन्तर ओघके समान कहा है । वेदनीय और नामकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय होनेसे इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । यह सम्भव है कि ये दोनों सम्यग्ज्ञानी अपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध करें और मध्यमें अजघन्य अनुभागवन्ध करते रहें, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा है । इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त ओघके समान यहाँ भी घटित हो जाता है इसलिए वह ओघके समान कहा है । इसी प्रकार आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका यथायोग्य विचार कर अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१६०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुल कम एक पूर्वकोटि है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुल

१६१. सामाह०-छेदो० घादि०४-गोद० जह० अज० णत्थि अंतरं । वेद०-
आउ०-णामा० मणपञ्जवभंगो । णवरि वेद०-णामा० अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि
सम० । परिहार०-संजदासंजदा० घादि०४-गोद० जह० अज० णत्थि अंतरं ।
सेसाणं सामाहयभंगो । णवरि परिहार० घादि०४ अज० एग० । असंजदे घादि०४
जह० अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं कम्माणं णवुंसगभंगो ।

१६२. किण्णाए घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देह्ण० । अज०

कम त्रिभाग प्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें भी चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिसे अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । मनःपर्ययज्ञानी जीव उपशमश्रेणिपर आरोहण कर यदि मरता है तो उसके मनःपर्ययज्ञान नहीं रहता अतएव मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें उक्त पाँचों कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उपशमश्रेणि पर आरोहण और अवरोहणकी अपेक्षा ही सम्भव है । यतः उपशान्त-मोहका स्वस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है अतः यहाँ पाँचों कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट अवस्थिति काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । किसी जीवने मनःपर्ययज्ञानके सद्भावमे एक समयके अन्तरसे वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध किया और किसीने मनःपर्ययज्ञानके कालके प्रारम्भ और अन्तमें इनका जघन्य अनुभागवन्ध किया और मध्यमें अजघन्य अनुभागवन्ध करता रहा तो यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि उपलब्ध होता है । यही कारण है कि यह उक्त प्रमाण कहा है । ओघसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त घटित करके बतला आये हैं वह यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह ओघके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६१. सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वेदनीय और नामकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । परिहारविशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग सामायिक संयत जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें चार घाति कर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । शेष कर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंको उपशान्तमोह गुणस्थानकी प्राप्ति न होनेसे इनमें वेदनीय और नामकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय कहा है । परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागका वन्ध सर्वविशुद्धि अवस्थाके होनेपर एक समय तक होता है । इसके बाद पुनः अजघन्य अनुभागवन्ध होने लगता है इसलिए यहाँ चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है । स्वामित्व और कालका विचार कर अन्तरकाल ले आना चाहिए ।

१६२. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य

जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आउ० विभंगभंगो । गोद० गिरयोघं । नील-काऊणं घादि०४-वेद०-णामा० किण्णभंगो । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसम० ।

१६३. तेउ० घादि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० एग० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि वेद०-आउ०-णामा०-गोदा० सहस्सारभंगो । सुक्काए घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० ओघं । आउ०-गोदा० णवगेवज्जभंगो ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मका भङ्ग विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान है गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्म, वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टिके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे भी ही सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ इन चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह इसीसे स्पष्ट है कि इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य वन्धयोग्य मध्यम परिणामवाले किसी भी जीवके हो सकता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी । यही कारण है कि यहाँ इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ नील और कापोत लेश्यामें चार घातिकर्म वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान कहा है सो इसका अभिप्राय इतना ही है कि कृष्णलेश्याके समान नील और कापोतलेश्याके कालको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१६३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । शेष कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग सहस्सार कल्पके समान है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयु और गोत्रकर्मका भङ्ग नौग्रैवेयकके समान है ।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें अप्रमत्तसंयतके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है । ऐसे परिणाम पीतलेश्याके कालमें दो बार सम्भव नहीं हैं । इससे यहाँ चार

१६४. अभव० घादि०४—गोद० जह० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पो० । अज० जह० एगस०, उक्क० वे सम० । सेसं ओघं ।

१६५. खइए घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०—गामा—गोदा० ज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० [जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । णवरि गोद० उ० वेसम० ।] आउ० जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । अज० ओघं ।

१६६. वेदगस० घादि०४ जह० गत्थि अंतरं । अज० एग० । वेद०—गामा०

घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनका जघन्य अनुभागवन्धका एक समय तक ही होता है । इससे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६४. अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष कर्मों का भंग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सर्व-विशुद्ध परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी होते हैं और अनन्त कालके बाद भी होते हैं । इससे यहाँ इन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तथा इन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६५. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय नाम और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इतनी विशेषता है कि गोत्रका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धकी अन्तर परूपणा जिस-प्रकार ओघमें कही है वह क्षायिक सम्यक्त्वमें अविकल बन जाती है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है । वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि अवस्थामे संक्लेशपरिणामोंसे होता है । यहाँ ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी हो सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर इनके जघन्य अनुभागवन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है । आयुकर्मका अन्तरकाल सुगम है ।

१६६. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । वेदनीय और नाम कर्मके

जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आउ० विभंगभंगो । गोद० णिरयोधं । नील-काऊणं घादि०४-वेद०-णामा० किण्णभंगो । गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसम० ।

१६३. तेउ० घादि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० एग० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि वेद०-आउ०-णामा०-गोदा० सहस्सारभंगो । सुक्काए घादि०४ जह० अज० ओधं । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० ओधं । आउ०-गोदा० णवगेवज्जभंगो ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मका भङ्ग विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान है गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्म, वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टिके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे भी ही सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ इन चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह इसीसे स्पष्ट है कि इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य वन्धयोग्य मध्यम परिणामवाले किसी भी जीवके हो सकता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी । यही कारण है कि यहाँ इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ नील और कापोत लेश्यामें चार घातिकर्म वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान कहा है सो इसका अभिप्राय इतना ही है कि कृष्णलेश्याके समान नील और कापोतलेश्याके कालको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१६३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । शेष कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग सदृश कल्पके समान है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल ओषके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओषके समान है । आयु और गोत्रकर्मका भङ्ग नौप्रैवेयकके समान है ।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें अप्रमत्तसंयतके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है । ऐसे परिणाम पीतलेश्याके कालमें दो बार सम्भव नहीं हैं । इससे यहाँ चार

१६४. अब्भव० घादि०४-गोद० जह० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पो० । अज० जह० एगस०, उक्क० बे सम० । सेसं ओघं ।

१६५. खइए घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०-णामा-गोदा० ज० जह० एग०, उक्क० तेतीसं सा० सादि० । अज० [जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । णवरि गोद० उ० बेसम० ।] आउ० जह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसु० । अज० ओघं ।

१६६. वेदगस० घादि०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० एग० । वेद०-णामा०

घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनका जघन्य अनुभागवन्धका एक समय तफ ही होता है । इससे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६४. अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष कर्मों का भंग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सर्व-विशुद्ध परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी होते हैं और अनन्त कालके बाद भी होते हैं । इससे यहाँ इन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तथा इन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६५. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय नाम और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इतनी विशेषता है कि गोत्रका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धकी अन्तर परूपणा जिस-प्रकार ओघमें कही है वह क्षायिक सम्यक्त्वमें अविकल बन जाती है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है । वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि अवस्थामें संक्लेशपरिणामोंसे होता है । यहाँ ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी हो सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर इनके जघन्य अनुभागवन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है । आयुकर्मका अन्तरकाल सुगम है ।

१६६. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । वेदनीय और नाम कर्मके

ज० जह० एग०, उक्क० छावट्टि० देस० । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० ।
आउ० जह० वेदणीयभंगो । अज० ओघं । गोद० जह० गत्थि अंतरं ।

१६७. उवसम० घादि०४-गोद० गत्थि अंतरं । अज० ओघं । वेद०-णामा०
जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१६८. सासणे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज०
जह० एग०, उक्क० वेसम० । वेद०-आउ०-णामा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज०

जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका भंग वेदनीय कर्मके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका भंग ओघके समान है । गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत होता है उसीके चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इस लिए यहाँ चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा इसके चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होनेसे यहाँ अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । यहाँ वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम छयासठ सागरके अन्तरसे उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छयासठ सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है यह स्पष्ट ही है । यहाँ गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागका वन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके हो सकता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१६७. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दृष्टिके चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध उपशमश्रेणियोंमें चढ़ते समय और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होनेपर होता है इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे सम्भव है इसलिए तो इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध कमसे कम एक समयतक और उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

१६८. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनु-

जह० एग०, उक्क० चत्तारिसमयं । गोद० जह०-अज० णत्थि अंतरं ।

१६६. सम्मामि० वेद०-णामा० सासण०भंगो । सेसाणं जह० अज० णत्थि अंतरं ।

१७०. सण्णी० पंचिंदियपज्जत्तभगो । असण्णी० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०,
उक्क० अणतकालं । अज० जह० एग०, उ० वेसम० । वेद०-आउ०-णामा० जह०
ओधं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । णवरि आउ० अज० जह० एग०,
उक्क० पुव्वकोडी सादि० ।

भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतियोंमें सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है । यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतियोंमें मध्यम परिणामोंसे और आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध पर्याप्त निवृत्तसे निवृत्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । यतः ये परिणाम भी कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें वेदनीय और नामकर्मका भंग सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके तथा गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होनेके कारण इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल सासादन सम्यग्दृष्टिके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है ।

१७०. संज्ञी जीवोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भंग है । असंज्ञी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल श्रोत्रके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिये इन कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल बन जाता है । इसी प्रकार अन्यकर्मोंका अन्तर भी अपने-अपने स्वामित्वको ध्यानमें लेकर घटित कर लेना चाहिए । मात्र आयुकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय वह साधिक एक पूर्वकोटि प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटिकी अपेक्षा ही यह अन्तर प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं ।

१७१. आहार० घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०-आउ०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । गोद० जह० अंतो, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । एवं अंतरं समत्तं ।

१५ सणियासपरूवणा

१७२. सणियासं दुविधं-जह० उक्क० । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावरणीयस्स उक्कस्सयं अणुभागं बंधंतो दंसणा०-मोहणी०- अंतरा० णियमा बंधगा । तं तु छट्ठाणपदिदं बंधदि । वेद०-णामा-गोदा० णियमा अणुक्क० अणंत-गुणहीणं बंधदि । आउ० अवंधगो । एवं दंसणा०-मोह०-अंतरा० । वेद० उक्क० अणु-भागं वं० तिण्णिघादीणं णिय० वं० । णि० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि । मोह०-आउगस्स अवंधगो । णामा-गोदा० णिय० वं० णि० उक्कस्सं । एवं णामा-गोदा० । आउगस्स उक्कस्सं वं० सत्तणं क० णिय० वं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरा-लियका०-तिण्णिवेद०-कोधादि०४-आभि०-सुद०-ओधि०- मणपज्ज०-संजद०-चक्खुदं०-

१७१. आहारक जीवोमे चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर-काल ओघके समान है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—आहारककी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीसे यहाँ वेदनीय, आयु नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य स्थितिका बन्ध कराकर यह अन्तर ले आवे । शेष कथन सुगम है । इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

१५ सन्निकर्षप्ररूपणा

१७२. सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह छह स्थान पतित बंधता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह अनुत्कृष्ट अनन्त-गुणेहीन अनुभागका बन्ध करता है । वह आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीयकर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मोंका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे-हीन अनुभागका बन्ध करता है, वह मोहनीय और आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बंध करता है । इसीप्रकार नाम और गोत्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, पाचयोगी, औदारिककाययोगी, तीन वेदवाले, क्रोधाधि चार कपायवाले, आभि-

अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति ।
णवरि तिण्णिवेद०-तिण्णिकसा० वेद० उक्क० वं० मोह० णिय० बंध० अणंतगुणहीणं
बंधदि । एवं सामाह०-छेदोव० ।

१७३. णिरएसु णाणाव० उक्क० अणु० बंध० दंसणा०-मोह०-अंतरा० णिय०
वं०, तं तु छट्ठाणपदिदं बंधदि । वेद०-णामा-गोदा० णि० वं० णि० अणु० अणंतगुण-
हीणं० । आउ० अबंध० । एवं तिण्णिघादीणं । वेद० उक्क० वं० घादि०४ णि० वं०
णि० अणंतगुणहीणं० । आउ० अबंध० । णामा-गोदा० णिय० वं० तं तु छट्ठाणपदिदं
वं० । एवं णामा-गोदाणं । आउ० उक्क० सत्तणं क० णि० वं० णिय० अणु०
अणंतगुणहीणं० ।

१७४. अवगदवे० णाणावर० उक्क० वं० दंसणा०-मोह०-अंतरा० णि० वं० णि०
उक्क० । वेद०-णामा-गोदा० णि० वं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं० । एवं तिण्णं
घादीणं । वेद० उक्क० बंधं० तिण्णिघादीणं णिय० वं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं० ।
णामा-गोदा० णि० वं० णि० उक्कस्सं । एवं णामा-गोदाणं ।

निबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी; अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, सयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी,
अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, संज्ञी
और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि तीन वेदवाले और तीन कषायवाले
जीवोंमें वेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मोहनीयका नियमसे बन्ध करता है । जो
नियमसे अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्था-
पना संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

१७३. नारकियोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बंध करनेवाला जीव दर्शनावरण, मोहनीय
और अन्तराय कर्मका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता
है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन
अनुभागका बन्ध करता है । आयुर्कर्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार तीन घाति कर्मोंकी अपेक्षा
सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्मोंका
नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । वह
आयुर्कर्मका बन्ध नहीं करता । नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, किन्तु वह छह स्थान
पतित अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार नाम और गोत्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना
चाहिये । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्ध करता है,
जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है ।

१७४. अपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दर्शना-
वरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मका नियमसे बन्ध करता है । जो नियम से उत्कृष्ट अनुभागका
बन्ध करता है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट
अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार तीन घाति कर्मोंकी अपेक्षा सन्निकर्ष
जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मों का नियम
से बन्ध करता है । जो नियम से अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । नाम और
गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार
नाम और गोत्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

१७५. सुह्रमसं० णाणावर० उक्क० वं० दंसणा०-अंतरा० णि० वं० णिय० उक्कस्स० । वेद०-णामा-गोदा० णि० वं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं० । एवं दोण्णं घादीणं । वेद० उक्क० वं० तिण्णं घादीणं णि० वं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं० । णामा-गोदा० णि० वं० णि० उक्क० । एवं णामा-गोदाणं ।

१७६. सेसाणं सव्वेसिं णिरयभंगो । णवरि तेउ-वाळणं णाणावर० उक्क० वं० तिण्णं घादीणं गोद० णि० वं० तं तु० । वेद०-णामा० णि० वं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं० । आउ० अवंधगो । एवं तिण्णं घादीणं गोदस्स च । वेद० उक्क० वं० घादीणं गोदस्स च णि० वं० णि० अणंतगुणहीणं० । णाम० णिय० तं तु छट्ठाणपदिदं वंधदि ।
एवं उक्कस्ससणियासं समत्तं

१७७. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० णाणावर० जह० अणुभागं वंधंतो दंसणा०-अंतरा० णि० वं० णि० जहण्णं० । वेद०-णामा-गोदाणं णि० वं० णि० अजहण्णं अणंतगुणव्भहियं वंधदि । मोहाउगस्स अवंधगो । एवं दंसणा०-अंतराइ० । वेद० जह० वं० घादि०४-गोद० णि० वं० णि० अज० अणंतगुणव्भहियं० । आउ०

१७५. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका नियमसे वन्ध करता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका वन्ध करता है । इसी प्रकार दो घातिकर्मोंकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घाति कर्मोंका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका वन्ध करता है । नाम और गोत्र-कर्मका नियमसे वन्ध करता है । जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है । इसी प्रकार नाम और गोत्रकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

१७६. श्रेष्ठ सब मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे छह स्थान पतित अनुभागका वन्ध करता है । वेदनीय और नामकर्मका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका वन्ध करता है । वह आयुकर्मका वन्ध नहीं करता । इसी प्रकार तीन घातिकर्म और गोत्रकर्मकी अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका वन्ध करता है । नामकर्मका नियमसे वन्ध करता है किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका वन्ध करता है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

१७७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण और अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे जघन्य अनुभागका वन्ध करता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका वन्ध करता है । वह मोहनीय और आयुकर्मका वन्ध नहीं करता । इसी प्रकार दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव

सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० णि० तं तु छट्टाणपदिदं० । णाम० णि० वं० णि०
 तं तु छट्टाणपदिदं० । एवं आउ०-णाम० । मोह० जह० बंध० छण्णं कम्मणां णि० वं०
 णि० अज० अणंतगुणब्भहियं० । आउ० अबंध० । गोद० जह० वं० छण्णं कं णि०
 वं० णि० अज० अणंतगुणब्भहियं० । आउ० अबंधगा । एवं ओघमंगो पंचिदि०-तस०
 २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-
 संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-
 आहारग ति ।

१७८. गिरएसु णाणा० जह० अणुभा० घादीणं तिण्णं णि० वं० तं तु छट्टाणप-
 दिदं वं० । वेद०-णामा-गोद० णि० वं० णि० अज० अणंतगुणब्भहियं० । आउ०
 अबंध० । एवं तिण्णं घादीणं । वेद० जह० अणु० वं० घादि०४-गोद० णि० वं०
 अज० अणंतगु० । आउ० सिया वं० सिया अबं० । यदि वं० तं तु छट्टाणपदिदं० ।
 णाम० णि० वं० तं तु छट्टाणपदिदं० । एवं आउ० । णामा-गोदाणं ओघमंगो । एवं
 सत्तमाए पुढवीए तिरिक्खोघं अणुदिस याव सच्चट्ट ति सच्चएइदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-

चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक
 अनुभागका बन्ध करता है । आयुर्कर्मका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता ।
 यदि बन्ध करता है तो वह नियमसे छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है । नामकर्मका
 नियमसे बन्ध करता है, किन्तु वह नियमसे छह स्थानपतित अनुभागका बन्ध करता है । इसी
 प्रकार आयु और नामकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । मोहनीय कर्मके जघन्य अनु-
 भागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अजघन्य अनन्त-
 गुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है । वह आयुर्कर्मका बन्ध नहीं करता । गोत्रकर्मके
 जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे
 अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है । वह आयु कर्मका बन्ध नहीं करता ।
 इसी प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी,
 औदारिक काययोगी, लोभकषायवाले, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यय-
 ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी, भग्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, उपशम
 सम्यग्दृष्टि, सही और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१७८. नारकियोमे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मोंका
 नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है । वेदनीय, नाम
 और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका
 बन्ध करता है । वह आयुर्कर्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार तीन घातिकर्मोंकी मुख्यतासे
 सन्निकर्ष जानना चाहिए । वेदनीय कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्म
 और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका
 बन्ध करता है । आयुर्कर्मका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध
 करता है तो वह नियमसे छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है । नामकर्मका नियमसे बन्ध
 करता है । किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार आयुर्कर्मकी मुख्यता-
 से सन्निकर्ष जानना चाहिये । नाम और गोत्र कर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी
 प्रकार सातवीं पृथिवी, सामान्य त्रियंच, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय,

वेदविषयमि० आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद० विभंग०-परिहार०-संजदासंजद-
असंज०-तिणिले०-अभवसि०-वेदग०-सासण०-सम्मामि०-असणि-अणाहारग ति । पढ-
मादि याव छट्टि ति तं चेव । णवरि गोद० वेदणीयभंगो । तिरिक्ख-मणुसअपज्ज० देवा
याव० उवरिमगेवज्जा ति सव्वविगलिंदि०-पंचिंदि०-तसअपज्ज०-सव्वपुढवि०-आउ०-
वणप्फदि०-वादर०पत्तेय०-णियोद० एवं चेव । मणुस०३ घादीणं ओघं । सेसं
विदियपुढविभंगो ।

१७९. सव्वतेउ०-वाउ० णाणा० जह० जह० अणु० वं० तिण्णं घादीणं गोदस्स च
णि० वं० णि० तं तु छट्टाणपदिदं० । सेसं अपज्जत्तभंगो ।

१८०. इत्थि० णाणा० जह० वं० तिण्णि घादीणं णि० वं० णि० जहण्णा० । वेद०-
णामा-गो० णि० वं० णि० अज० अणंतगु० । सेसं देवोघं । एवं पुरिस० । णवुंस०
घादि०४ इत्थिभंगो । सेसं णिरयोघं । एवं णवुंसगभंगो कोध-माण-माय-सामाइ०-छेदो० ।

१८१. अवगद० णाणा० जह० वं० दंसणा०-अंतराइ० णि० वं० णि० जह० ।
वेद०-णामा-गो० णि० वं० णि० अज० अणंतगुणव्भहियं० । मोह० अवंध० । एवं

औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी,
आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रतज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धि
संयत, संयतासंयत, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि,
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । पहली पृथिवीसे लेकर छठवीं
तकके नारकियोंमें वही भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भंग वेदनीयके समान है ।
तिर्यच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देवसे लेकर अपरिम प्रवेयक तकके देव, सब विकले-
न्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, वनस्पतिकायिक,
वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये । मनुष्य-
त्रिक्रमे चार घातिकर्मोंका भंग ओघके समान है । शेष कर्मोंका भंग दूसरी पृथिवीके समान है ।

१७६. सब अग्निकायिक और सब वायुकायिक जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका
वन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह छह
स्थान पतित अनुभागका वन्ध करता है । शेष भंग अपर्याप्तकोंके समान है ।

१८०. स्त्रीवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मों-
का नियमसे वन्ध करता है । जो नियमसे जघन्य अनुभागका वन्ध करता है । वेदनीय, नाम, और
गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है । जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका वन्ध
करता है । शेष भंग सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिये ।
नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भंग सामान्य नारकियोंके
समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके समान क्रोध कपायवाले, मानकपायवाले, मायाकपाय-
वाले, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

१८१. अपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दर्शना-
वरण और अन्तराय कर्मका नियमसे वन्ध करता है । जो नियमसे जघन्य अनुभागका वन्ध करता
है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है । जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे
अधिक अनुभागका वन्ध करता है । वह मोहनीयका वन्ध नहीं करता । इसी प्रकार दर्शनावरण और
अन्तरायकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । वेदनीय कर्मके जघन्य अनुभागका वन्ध करने

दंसणा०-अंतराह० । वेदणी० ज० वं० घादि०४ णि० वं० णि० अज० अणंतगुण-
 ब्महियं० । णामा-गो० णि० वं० णि० जह० । एवं णामा-गोदाणं । मोह० ज० वं०
 छणं कम्माणं णि० वं० णि० अजहण्णा० अणंतगु० । एवं सुहुमसं० छणं कम्माणं ।
 तेउ०- पम्मा० देवोघं । सुक्काए मणुसभंगो ।

एवं सणिकासो समत्तो ।

१६ गाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा

१८२. गाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । तत्थ इमं
 अट्टपदं—ए उक्कस्स-अणुभागवंधगा ते अणुक्कस्सअवंधगा । ए अणुक्कस्सअणु० वंध०
 ते उक्क० अणुभाग० अवंधगा । एवं पगदि वंधदि तेसु पगदं अवंधगेसु अन्ववहरो । एदेण
 अट्टपदेण अट्टणं क० उक्क० अणुभा० सिया सव्वे अवंधगा, सिया अवंधगा य वंधगे य, सिया
 अवंधगा य वंधगा य । अणुक्क० अणुभागं सिया सव्वे वंधगा य, सिया वंधगा य अवंधगे
 य, सिया वंधगा य अवंधगा य । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-
 वादरपत्ते०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-
 सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-
 अणाहारग ति ।

वाला जीव चार घातिकर्मका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक
 अनुभागका बन्ध करता है । नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य
 अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार नाम और गोत्रकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।
 मोहनीय कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्ध करता है । जो
 नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक
 संयत जीवोंमें, छह कर्मोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें
 सामान्य देवोंके समान भंग है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें मनुष्योंके समान भंग है ।

इसप्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

१६ नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयपरूवणा

१८२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचय दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका
 प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है कि जो उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक होते हैं वे अनुत्कृष्ट अनुभागके
 अबन्धक होते हैं । और जो अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक होते हैं वे उत्कृष्ट अनुभागके अबन्धक होते
 हैं । इसप्रकार कर्मका बन्ध करते हैं । उनका यहाँ प्रकरण है । क्योंकि अबन्धकोंमें व्यवहार नहीं
 होता । इस अर्थ पदके अनुसार आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सव जीव अबन्धक हैं,
 कदाचित् नाना जीव अबन्धक हैं और एक जीव बन्धक है, कदाचित् नाना जीव अबन्धक हैं और
 नाना जीव बन्धक हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सव जीव बन्धक है, कदाचित् नाना जीव बन्धक हैं
 और एक जीव अबन्धक है, कदाचित् नानाजीव बन्धक हैं और नाना जीव अबन्धक हैं । इस प्रकार ओघके
 समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पति-
 कायिक प्रत्येक शरीर, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी,
 नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले,
 भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंजी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१८३. मणुसअपज्ज०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-सुहुमसं०-
उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छा० उक्क० अणुक० अट्टभंगो । एइंदिय-वादर-सुहुम०
पज्जत्तापज्जत्त० काएसु सव्ववादरअपज्जत्त-सव्वसुहुमपज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणफ्फदि०-
णियोद०-वादर०पत्ते०अपज्जत्त० आउ० ओघं । सत्तणं कम्मणं उक्क० अणुक० अत्थि
बंधगा य अवंधगा य । सेसाणं सव्वेसिं सत्तणं कम्मणं उक्क० तिण्णिभंगो । अणुकस्ता
पि पडिलोमेण तिण्णि भंगा । आउ० उक्क० अणुक० तिण्णि भंगा ।

एवं उक्कस्सभंगविचयो समत्तो ।

१८४. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तत्थ इमं अट्टपदं उक्कस्स-
भंगो । घादि० ४-गोदस्स जह० अज० उक्कस्सभंगो । वेदणी०-आउ०-णामा० जह०
अज० अत्थि बंधगा य अवंधगा य । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायगोगि-ओरालि०-
ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-
भवसि०-अवभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग चि । णवरि कम्मइ०
अणाहार० आउ० णत्थि ।

१८५. एइंदि०-वादर०-वादरपज्जत्ता० गोद० ओघं । सेसाणं अत्थि बंधगा य
अवंधगा य । वादर०अपज्जत्त०-सव्वसुहुमाणं च अट्टण्णं कम्मणं जह० अज० अत्थि

१८३. मनुष्य अपर्याप्तक, वैक्रिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्र
काययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्म सांस्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्य-
ग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा आठ भङ्ग हैं । एकेन्द्रिय, वादर
एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तथा पाँचों स्थावर
कायिकोंमें सब वादर अपर्याप्त, सब सूक्ष्म और उनके वादर और सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, सब वन-
स्पतिकायिक, निगोद जीव और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मका
भङ्ग ओघके समान है । सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक नाना जीव हैं और
अबन्धक नाना जीव हैं । शेष सब मार्गणाओंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके तीन भङ्ग हैं ।
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके भी प्रतिलोमक्रमसे तीन भङ्ग हैं । आयु कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
पदकी अपेक्षा तीन भङ्ग हैं ।

इसप्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

१८४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
ओघकी अपेक्षा वहाँपर पर यह अर्थ पद उत्कृष्टके समान जानना चाहिये । चार घाति कर्म और
गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा भंगविचय उत्कृष्टके समान है । वेदनीय,
आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बन्धके नाना बन्धक जीव हैं और नाना
अबन्धक जीव हैं । इसप्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी,
औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्यकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुता-
ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी आहारक और
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१८५. एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें गोत्रकर्मका भङ्ग
ओघके समान है । शेष कर्मोंके नाना बन्धक जीव हैं और नाना अबन्धक जीव हैं । वादर एकेन्द्रिय
अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके नाना बन्धक

बंधगा य अबंधगा य । सव्वबादरअपज्ज • सुहुम • सव्ववणप्फदि-णियोद • पुढ • आउ • घादि • ४ उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह • अज • अत्थि बंधगा य अबंधगा य । तेउ • चाउ • बादरतेउ • चाउ • घादि • गोद • उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह • अजह • अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सेसाणं णिरयादीणं सव्वेसिं सव्वभंगा उक्कस्सभंगो ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समसं ।

१७ भागाभागपरूवणा

१८६. भागभागं दुवि • जह • उक्क • उक्क • पगदं । दुवि • ओघे • आदे • ओघे • अट्टुणं कम्मणं उक्क • अणुभागबंधगा जीवा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंत-भागो । अणुक • अणुभाग • जीवा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंता भागा । एवं-ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालिय • ओरालियमिस्स • कम्मइ • णवुंस • कोहादि • ४-मदि • सुद • असंज • अवक्खुदं • तिणिले • भवसि • अबभवसि • मिच्छादि • असण्णि • आहार • अणाहारग ति ।

१८७. एहंदि-वणप्फदि-णियोदेसु आउ • ओघं । सेसाणं उक्क • असंखेज्जदिभागो । अणुक • असंखेज्जा भागा । अवगदवे • सत्तणं क • उक्क • संखेज्जदिभागो । अणुक • संखेज्जा भागा । एवं सुहुमसंप • छणं कम्मणं । सेसाणं असंखेज्जजीविगाणं उक्क •

जीव हैं और नाना अबन्धक जीव हैं । सब बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, निगोद, पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके नाना जीव बन्धक हैं और नाना जीव अबन्धक हैं । अग्नि-कायिक, वायुकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके नाना बन्धक जीव हैं और नाना अबन्धक जीव हैं । शेष नरकादि सब मार्गणाओंमें सब कर्मोंके सब भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

१७ भागाभागपरूपणा

१८६. भागाभाग दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिथेन्द्र, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्त्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्या-वाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असङ्गी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१८७. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके छह कर्मोंकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिये । शेष

असंखेज्जदिभागो । अणुक० असंखेजा भागा । सेसाणं संखेज्जजीविमाणं उक्क० संखे-
ज्जदिभागो । अणुक० संखेजा भागा ।

१८८. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० घादि० ४—गोद० जह०
सव्व० केव० ? अणंतभागो । अज० अणंता भागा^१ । वेद०—आउ०—णामा० जह० असं-
खेज्जदिभागो । अज० असंखेजा भागा^२ । एवं तिरिक्खोघं कायजोगि—ओरालि०—
ओरालियमि०—कम्मह०—णवुंस०—कोधादि० ४—मदि०—सुद०—असंजद०—अचक्खुदं०—
तिण्णिले०—भवसि०—अभवसि०—मिच्छादि०—असण्णि—आहार०—अणाहारग ति ।
णवरि कम्मह०—अणाहारग० आउ० णत्थि ।

१८९. एइंदिएसु [सत्तणं कम्माणं जह० अणु० असंखे० । अज० असंखेजा
भागा ।] गोद० ओघं^३ । एवं वणप्फदि^४—णियोदाणं । णवरि गोदं णामभंगो ।
सेसाणं सव्वेसिं संखेज्ज०—असंखेज्जजीविमाणं उक्कस्सभंगो । णवरि अवगदवे०—सुहुम-
संप० अज० अत्थदो विसेसो^५ जाणिद्वो । एवं भागाभागं समत्तं^६ ।

असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।
अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । शेष संख्यात संख्यावाली मार्गणा-
ओंमें उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव
संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।

१८८. जघन्यका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
ओघसे चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग
प्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग
प्रमाण हैं । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण
हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च,
काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि
चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य,
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि
कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता ।

१८९. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें प्रागप्रमाण हैं
तथा अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । गोत्रकर्मका भंग ओघके
समान है । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता
है कि इनमें गोत्रकर्मका भंग नामकर्मके समान है । शेष सब संख्यात और असंख्यात संख्यावाली
मार्गणाओंमें आठों कर्मोंका भंग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और
सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अजघन्य अनुभाग बन्धकी अपेक्षा वास्तवमें विशेष जानना चाहिए ।
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

१ ता० प्रतौ भागो (गा) इति पाठ । २ ता० प्रतौ अज० असंखेजा भागा अज० असंखेजाभा० (१)
आ० प्रतौ अज० असंखेज्जदिभागा इति पाठ । ३ ता० प्रतौ ओघे इति पाठ । ४ ता० प्रतौ वणप्फदि
इति स्थाने सर्वत्र 'वणफदि, अथवा वणफति इति पाठः । ५ ता० प्रतौ सुहुमसज (प०) अज० अथदो विसेसा
इति पाठः । ६ ता० प्रतौ एवं भागाभागं समत्तं इति पाठः नास्ति ।

१८ परिमाणपरूवणा

१६०. परिमाणं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ उक्क० अणुभा० केत्ति० ? असंखेज्जा । अणुक० अणंता । वेद०—आउ०—गामा—गो० उक्क० संखेज्जा । अणुक० अणंता । एवं ओघभंगो कायजोगि—ओरालिय०—ओरालियमि०—णवुंस०—कोधादि०४—अचक्खु०—भवसि०—आहारग ति ।

१९१. णेरइएसु सत्तणं कम्माणं उक्क० अणु० असंखेज्जा । आउ० उ० संखेज्जा० । अणु० असंखेज्जा । अट्टणं कम्मा० एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए पुढवीए आउ० उक्क० अणु० असंखेज्जा । एवं णिरयभंगो सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वदेवाणं [आणद याव] सव्वट्ठ० वज्जाणं सव्वविगलिदि०—सव्वपुढ०—आउ०—तेउ०—वाउ०—बादर—सुहुम—पज्जत्तापज्जत्ता० बादर० वणप्फदिपत्ते० पज्जत्तापज्जत्ता० वेउक्खिय०—सासण०—सम्मामिच्छादिट्ठि ति । आणद^३ याव सव्वट्ठ० ति आउ० दो वि पदा संखेज्जा । सव्वट्ठ० वज्जाणं सेसाणं कम्माणं असंखेज्जा ।

१९२. तिरिक्खेसु अट्टणं कम्माणं उक्क० असंखेज्जा । अणु० अणंता । एवं

१८ परिमाणपरूपणा

१६०. परिणाम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१६१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आठों कर्मोंके आश्रयसे इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान सब अपर्याप्त, आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके सिवा सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वैक्रियिककाययोगी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें आयुकर्मके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं । तथा सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर शेषमें शेष कर्मोंके दोनों ही पदवाले जीव असंख्यात हैं ।

१६२. तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट

१ ता० प्रती सत्तरण क० उ० अणु० असंखेज्जा । आठ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसा अट्टणं कम्मा० एवं, आ० प्रती सत्तरणं कम्माणं उक्क० अणु० असंखेज्जा । एवं इति पाठ । २ ता० प्रती सत्तमापुढवीये इति पाठ । ३ ता० प्रती अणद (आणद) इति पाठ ।

कम्मइ०-तिणिले०-अभवसि०-असणि०-अणाहारग ति । [णवरि कम्मइ०-अणाहा०
आउ० णत्थि ।] सव्वपंचिंदियतिरिक्खेसु अट्टण्णं कम्माणं उक्क० अणु० असंखेजा ।

१९३. मणुसेसु अट्टण्णं क० उक्क० संखेजा । अणु० असंखेजा । मणुसेपज्जत्त^१-
मणुसिणीसु अट्टण्णं कम्माणं उक्क० अणु० संखेजा^२ । एवं सव्वट्टु-आहार०-आहारमि०-
अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद^३-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० ।

१९४. एहंदि०-वणप्फदि-णियोदाणं सत्तण्णं कम्माणं उक्क० अणु० अणंता ।
आउ० उक्क० संखेजा । अणु० अणंता । तेउ०-वाउ०^४ उक्क० अणु० असंखेजा ।

१९५. पंचिंदि०^५-तस०२ घादि०४ उक्क० अणु० असंखेजा । वेद०-आउ०-
णामा०-गोद० उक्क० संखेजा । अणु० असंखेजा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-
पुरिस०-आमि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-तेउ०-पम्म०-सुकले०-सम्मादि०-
खइग०-वेदग०-उवसम०^६-सणि ति । णवरि सुक्क०-खइगे आउ० दो वि पदा संखेजा ।

१९६. वेउन्विर्यमि० सत्तण्णं क० उक्क० अणु० असंखेजा । अधवा अघादीणं

अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी, तीन लेश्यावाले, अभव्य, असंज्ञी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों में आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

१९३. मनुष्योंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिये ।

१९४. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

१९५. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदा, पुरुषवेदी, अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं ।

१९६. वैक्रियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके

१ ता०-आ०-प्रत्योः मणुसेपज्जत्ता इति पाठ । २ ता० प्रती क० अणु० असंखेजा, अ० प्रती कम्माण उक्क० अणु० असंखेजा इति पाठः । ३ ता०-आ०-प्रत्यौ- प्रायः सर्वत्र संजदा इति पाठ । ४ ता० प्रती वाउ० आउ०-उक्क० इति पाठ । ५ ता०-प्रती पंचिंदि०-पंचिंदि० इति पाठः । ६ ता०-प्रती खइग०-उवसम० इति पाठः ।

यदि उवसमयच्छागदस्स कीरदि पढमसमयदेवस्स तो उक्क० संखेज्जा । अणुक्क० असंखेज्जा । एवं कम्मइ०-अणाहारएसु । मदि०-सुद० आउ० उक्क० असंखेज्जा । अणु० अणंता । सेसाणं सत्तणं क० उक्क० अणु० ओघं । एवं असंज०-मिच्छादिद्वि त्ति । विभंगे घादि०४-आउ० उक्क० अणु० असंखेज्जा । अघादीणं उक्क० संखेज्जा । अणुक्क० असंखेज्जा । एवं संजदासंजदा० ।

१९७, जहणं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ जह० संखेज्जा । अज० अणंता । वेद०-आउ०-णामा० ज० अज० अणंता । गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-दि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छादि०-अणाहारगत्ति० ।

१९८, षोरहएसु अट्टणं क० जह० अजह० केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं सत्तसु पुढवीसु । एवं णिरयमंगो सव्वपंचिदि०तिरि०-मणुसअपज्ज० देवा याव सहस्सार त्ति सव्वविगलिदि०-सव्वपुढवि०-आउ० तेउ०-वाउ०-वादरवणफ्फदिपत्ते०-पंचिदि०-तस० अपज्ज०-वेउ०-वेउवियमि० ।

बन्धक जीव असंख्यात हैं । अथवा उपशमश्रेणीसे आया हुआ जो प्रथम समयवर्ती देव अघाति कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबंध करता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अघातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा उक्त नियम जानना चाहिये । मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । शेष सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंको भग ओघके समान है । इसी प्रकार असयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । विभगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अघाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सयतार्यत जीवोंके जानना चाहिये ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ ।

१९७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, अचक्षु-दर्शनी, भग्न, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

१९८. नारकियोंमें आठ कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये । इसी प्रकार नारकियोंके समान सब पचेन्द्रियतिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्रारकल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, जलकायिक, अमिकायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पति-कायिक प्रत्येक

१९६. मणुस० घादि०४ जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा । एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सासण०-सम्मामि० सण्णि त्ति । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्व-पगदोणं जह० अज० संखेज्जा । एवं सव्वट्टुसि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मण-पज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोव० परिहार०-सुहुमसंप० । आणदादि याव अवराजिदा त्ति' आउ० जह० अज० संखेज्जा । सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा ।

२००. तिरिक्खेसु घादि०४ गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज० अणंता ।

२०१. एइंदिएसु गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज० अणंता । एवं बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० सुहुमपज्जत्त-अपज्जत्ता० सव्ववणप्फदि० । णियोदार्णं अट्टणं क० ज० अज० अणंता ।

२०२. आमि०-सुद०-ओधि० घादि०४-आउ० जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग०-उवसम० ।

शरीर, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये ।

१९६. मनुष्योंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनित्योंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । आनतकल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें आयु कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

२००. तिर्यचोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

२०१. एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा सब वनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिये । निगोद जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

२०२. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और आयुकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार अवधि-दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशयसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । संयतासंयत

१ ता० प्रती अणा (आण) दादि उवरिमके (रे) वेज्ज०, आ० प्रती आणदादि याव उवरिम-नेवज्जा इति पाठ ।

संजदासंजदा० घादि०४ जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । सेसाणं जह० अज० असं-
खेज्जा । तिण्णले०-अभवसि०-असण्णि०-आहारग' त्ति तिरिक्खोघं । सुक्काए घादि०४
जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । आउ० जह० अज० संखेज्जा । सेसाणं जह० अज०
असंखेज्जा । एवं खइगसम्मा० ।

एवं परिमाणं समत्तं

१६ खेत्तपरुवणा

२०३. खेत्तं दुविधं-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे आदे० । ओघे०
अट्टुण्णं कम्माणं उक्क० अणुभागबंधगा केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अणुक०
सव्वलोगे । एवं तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मह०-णवुंस०-
कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-
मिञ्छादि०-असण्णि-आहार०-अणाहारग त्ति ।

२०४. एइंदिएसु घादि०४ उक्क० अणु० सव्वलो० । वेद०-णाम० उक्क०
लोगस्स संखेज्ज० । अणु० सव्वलो० । आउ०-गोद० उक्क० लोग० असं० । अणु०
सव्वलो० । वादर०-वादरपज्जत्त-अपज्जत्त० आउ० उक्क० लो० असं० । अणु०

जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक
जीव असंख्यात हैं । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तीन-
लेख्यावाले, अभव्य, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें सामान्य तिर्यचोंके समान भग है । शुक्कलेख्या-
वाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, अजघन्य अनुभागके
बन्धक जीव असंख्यात हैं । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ।
शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार चायिकसम्य-
ग्दष्टि जीवोंमें जानना चाहिये । इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

१६ क्षेत्रपरुवणा

२०३. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा
निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका
कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका
सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-
काययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असं-
यत्, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक
जीवोंके जानना चाहिये ।

२०४. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब
लोक क्षेत्र है । वेदनीय और नामकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें
भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयु और गोत्रगर्मके उत्कृष्ट
अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक-
जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त

लोगस्स संखेज्जदिभा० । सेसाणं एइंदियभंगो । सव्वसुहुमाणं सव्ववणप्फदि^१-णियोदाणं सत्तणं क० उक्क० अणु० सव्वलो० । आउ० उक्क० लो० असंखे० । अणु० सव्वलो० । णवरि-वणप्फदि-णियोदाणं वेद०-णामा-गोदाणं उक्क० लो० असंखे० । वादरवणप्फदि-णियोद० तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्तेसु वेद०-णामा-गोद० उक्क० आउ० दो वि पदा लो० असंखे० । पुढ०-आउ०-तेउ० अट्ठणं क० ओघं । वादरपुढ०-आउ०-तेउ० सत्तणं क० उक्क० लो० असं० । अणु० सव्वलो० । आउ० उक्क० अणु० लो० असंखे० । वादरपुढ०-आउ०-तेउ०पज्जत्ता० मणुसअपज्जत्तभंगो । वादरपुढ०-आउ०-तेउ० अपज्जत्ता० घादि०४ उक्क० अणु० सव्वलो० । वेद०-णामा-गोद० उक्क० लो० असं० । अणु० सव्वलो० । आउ० उक्क० अणु० लो० असं० । एवं वाऊणं पि । णवरि यमिह लोगस्स असंखेज्ज० तमिह लोगस्स संखेज्ज० । आउ० उक्क० लोग० असं० । वादरवणप्फदिपत्तेय० वादरपुढवि०भंगो । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्ज-जीविगाणं अट्ठणं क० उक्क० अणु० लो० असंखे० । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

जीवोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष कर्मोंका भंग एकेन्द्रियोंके समान है । सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । वादर वनस्पतिकायिक, वादर निगोद और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा आयुके दोनों ही पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें आठ कर्मोंका भंग ओघके समान है । वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान भंग है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त और वादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ पर लोकका संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है । जेप सख्यात और असंख्यात सख्यावाली मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है ।

१ अः० प्रती वणप्फदि इति पाठ । २ आ० प्रती आउ० अणु० इति पाठः ।

२०५. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि४-गोद० जह०
अणुभागवन्धगा केवडि खेत्ते ? लो० असं० । अज० संवलो० । वेद०-आउ०-णामा०

विशेषार्थ—वर्तमान निवासकी क्षेत्र संज्ञा है। यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागवालोंके भेदसे इसके दो भेद किये गये हैं। चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी, पर्याप्त और साकार उपयोगवालेके उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर होता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके होता है तथा आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयतके होता है। विचार कर देखनेपर ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है अतः यहाँ आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। मूलमे कुछ ऐसी मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमे यह क्षेत्र सम्बन्धी ओघ परूपणा अविफल घटित हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन सब मार्गणाओंमें सामान्यतः यथासम्भव संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय अवस्था सम्भव है और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव जिन परिणामोंसे इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं वैसी अवस्थामें क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। एकेन्द्रियोंमे आठों कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सभी एकेन्द्रिय करते हैं इसलिए इस अपेक्षासे सब कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्धकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र कहा है। मात्र आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। जो इस प्रकार है—एकेन्द्रियोंमे चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यद्यपि वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ही करते हैं परन्तु इस योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है और मारणान्तिक समुद्धातके समय इन जीवोंका सर्व लोक क्षेत्र पाया जाता है, अतः चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध की अपेक्षा सब लोक क्षेत्र कहा है। अब रहे चार अघातिकर्म सो उनमेंसे वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यद्यपि वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ही करते हैं परन्तु इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता है और ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है, अतः इन दोनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण कहा है। आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध वादर एकेन्द्रिय जीव करते हुए भी एक तो आयुकर्मका वन्धकाल थोड़ा है, दूसरे उत्कृष्ट अनुभागवन्ध बहुत ही स्वल्पजीव करते हैं इस लिए इन जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध वादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव ही करते हैं और सर्वविशुद्ध अवस्थामे इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्ममे एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जो विशेषता कही है उसका कारण यह है कि आयु-कर्मका वन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता और उपपाद पद व मारणान्तिक पदको छोड़कर इन जीवोंका क्षेत्र अधिकसे अधिक लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा वह लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा आयु-कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार यहाँ जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रका विचार कर वह घटित करके बतलाया गया है वसी प्रकार आगे जिन मार्गणाओंमें उस क्षेत्रका निर्देश किया है उसका विचार कर लेना चाहिए। सब विशेषताएँ बुद्धिगम्य होनेसे यहाँ हमने उनका विचार नहीं किया है।

२०५. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है? लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र है। अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। वेदनीय,

जह० अज०-सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि कन्मइ०-णवुंस०-कोधादि० ४-
मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-किण्णले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-आहार०-
अणाहारग ति ।

२०६. तिरिक्खेसु घादि०४-वेद०-आउ०-णाम० मूलोघं । गोद० जह० लो०
संखे० । अज० सव्वलो० । एवं ओरालि०-ओरालियमि०-णील०-काउ०-असण्णि ति ।

२०७. [एइंदिएसु घादि०४-गोद० जह० लो० संखे० । अज० सव्वलो० ।
सेसाणं मूलोघं । एवं वादर-पज्जत्त-अपज्जत्त० । णवरि आउ० ज० अज० लो० संखेज्ज० ।
सव्वसुहुमाणं अट्टण्णं कम्माणं जह० अज० सव्वलो० । पुढवि०-आउ० घादि०४
ओघभंगो । सेसाणं सव्व० दो पदा सव्वलो० । एवं वणप्फदि-णियोद० । वादरपुढ०-
आउ० तेसिं अपज्ज० घादि०४ ज० लो० असंखे० । अज० सव्वलो० । आउ० जह०
अज० लो० असं० । सेसाणं दो पदा सव्वलो० । तेउ० घादि०४-गोद० जह० लो०
असं० । अज० सव्वलो० । सेसाणं पि दो पदा सव्वलो० । वादरतेउ० तस्सेव अपज्ज०

आयु और नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्य-ज्ञानी, श्रुताज्ञानी असंयत, अचलुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

२०६. तिर्यञ्चोमे चार घातिकर्म, वेदनीय, आयु और नामकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले और असञ्जी जीवोंके जानना चाहिये ।

२०७. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । शेष कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार वादरएकेन्द्रिय, वादरएकेन्द्रियपर्याप्त और वादर-एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सब सूक्ष्म जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष कर्मोंके दो पदोंका सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिये । वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और इनके अपर्याप्त जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयु कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष कर्मोंके दो पदवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । अग्निकायिक जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । शेष कर्मोंके दोनों ही पदवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । वादर अग्निकायिक और उनके अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य

आउ० जह० अज० लो० असं० । सेसाणं तं चेव । एवं वाऊणं पि । णवरि जम्हि लोग०
असंखेज्जदि० तम्हि लोग० संखेज्जदि० । सव्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो । सव्ववणप्फदि-
णियोदाणं सव्वपुढविभंगो । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्जजीविगाणं अट्टणं क० जह० अज०
लो० असं० । णवरि वादरवाउ० पज्जत्ते अट्टणं क० जह० अज० लो० संखे० । एवं खेत्तं समत्तं ।

२० फोसणपरुवणा

२०८. फोसणं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे०-आदे० । ओघे०

अनुभागके बन्धक जीवोका लोकके असख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष कर्मोका वही भङ्ग है । इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असख्यातवों भाग प्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ पर लोकका संख्यातवों भाग प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिये । सब सूक्ष्म जीवोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब पृथिवी-कायिक जीवोंके समान भङ्ग है । शेष संख्यात और असंख्यात जीववाली मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि वादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है ।

विशेषार्थ—तीन घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके होता है । मोहनीयका जघन्य अनुभागबन्ध अनिवृत्तिकरण क्षपक जीवके होता है । तथा गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है । इसलिए इन पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असख्यातवें भागप्रमाण कहा । अब रहे शेष तीन कर्म सो उनके जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र कहने का कारण यह है कि इन तीन कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध अपनी अपनी विशेषता के रहने पर अन्यतर जीवोंके हो सकता है । आठों कर्मोंके अजघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र है यह स्पष्ट ही है । यहाँ ओघके समान जिन मार्गणाओंमें क्षेत्र सम्भव है उनके नाम मूलमें गिनाए हैं सो अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमे रखकर उन मार्गणाओंमें ओघके समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । तिर्यचोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा क्षेत्र तो ओघके समान ही बन जाता है । मात्र गोत्रकर्ममें जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा कुछ विशेषता है । बात यह है कि तिर्यचोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव करते हैं और ऐसी अवस्थामे इनका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है । अतः तिर्यचोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है । यहाँ मूलमे औदारिककाययोग आदि अन्य पाँच मार्गणाओंमें क्षेत्रप्ररूपणाको सामान्य तिर्यचोंके समान जाननेकी सूचना की है सो इसका कारण यह है इनमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र बन जाता है । यहाँ तक हमने कुछ मार्गणाओंमें क्षेत्रको घटित करके बतलाया है । आगे मूलमें जिन मार्गणाओंमें क्षेत्र सम्बन्धी विशेषता कही है उसे उन उन मार्गणाओंमें स्वामित्वको जानकर घटित कर लेनी चाहिए । विस्तारभयसे यहाँ हमने सबका अलग अलग विचार नहीं किया है । इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

२० स्पर्शनप्ररूपणा

२०८. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक

घादि०४ उक्त० अणुभागबंधगेहि केवडि खैत्तं फोसिदं ? लोगस्स असं० अट्ट-तेरह० ।
अणु० सव्वलो० । चदुण्णं उक्कस्सं खैत्तभंगो । अणुकस्सं सव्वलोगे । एवं ओघभंगो
कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-मिच्छा० आहारगत्ति ।

२०६. षेरइएसु घादि०४ उक्त० अणुक० छच्चोदं० । वेद०-णामा०-गोदं० उक्त०
खैत्तभंगो । अणु० छच्चो० । आउ० खैत्तभंगो । एवं सत्तसु पुढवीसु अप्पप्पणो
फोसणं षेदं० ।

जीवोंन कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, आठ बटे चौदह राजू और
तेरह बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार अघाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इस प्रकार ओघके समान
काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिध्या-
दृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्यसे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तीन
प्रकारका बतलाया है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी अपेक्षा कहा है ।
कुछ कम आठबटे चौदह राजू स्पर्शन विहारवस्त्वस्थान आदि की अपेक्षा कहा है और कुछ कम
तेरहबटे चौदह राजू स्पर्शन मारणान्तिक समुद्रघातकी अपेक्षा कहा है । इन चार कर्मोंके अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक है यह स्पष्ट ही है । चार अघाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें से तीन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
विशुद्ध परिणामोंमें चपकसूक्ष्मसाम्परायिक और आयुर्कर्मका अप्रमत्तसंयत मनुष्योंके ही होता है और
इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं बनता । यदि इनके स्पर्शनका विचार किया जाता है
तो सब मिलाकर वह भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । इन चार कर्मोंके अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोक है । यहाँ मूलमें काययोगी आदि अन्य कुछ मार्गणाओंका
कथन ओघके समान कहा है सो अपनी अपनी विशेषताको समझकर इसे घटित कर लेना चाहिए ।
अभिप्राय इतना है कि ओघसे आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा जो
स्पर्शन बतलाया है वह इन मार्गणाओंमें भी बन जाता है ।

२०६. नारकियोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ
कम छह बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग
बन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह
राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मका भंग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमें
अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—नरकमें वेदनीय नाम और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि
जीवके तथा आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध सम्यग्दृष्टि जीवके होता है, इसलिये
इनका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें इससे अधिक
स्पर्शनसम्भव नहीं है । तथा आयुर्कर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि दोनों प्रकारके
जीवोंके हो सकता है परन्तु ऐसी अवस्थामें तो मारणान्तिक समुद्रघात होता है और नहीं उपपादपद
होता है, अतः आयुर्कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन
कहा है । शेष स्पर्शन स्पष्ट ही है । यहाँ एक बातकी ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि यहाँ चार
घाति आदि कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा स्पर्शनका निर्देश करते समय
वर्तमानकालीन स्पर्शनका उल्लेख नहीं किया है सो उसका यही कारण प्रतीत होता है कि इस दृष्टिसे
क्षेत्रकी अपेक्षा स्पर्शनमें कोई विशेषता नहीं है यह जानकर उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है ।

२१०. तिरिक्खेसु सत्तणं क० उक्क० छच्चो०, अणु० सव्वलो० । आउ० खेत्त० । पंचिदि०तिरिक्ख३ सत्तणं क० उक्क० छच्चो०, अणु० लो० असंखे० वा सव्वलोगो वा । आउ० खेत्त० । पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० घादि०४ उक्क० अणु० लो० असं० सव्वलोगो वा । वेद०णामा-गोदा० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लो० असंखे०भागो वा सव्वलोगो वा । आउ० खेत्त० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगल्लिदि०-पंचिदि०-तस० अपज्ज०-बादरपुढ०-आउ०-तेउं-बादरवणफ्फदिपत्ते०पज्जत्ताणं च । बादरवाउ०पज्जत्ता० तं चेव । णवरि जम्हि लो० असं० तम्हि लो० संखे० ।

२१०. तिर्यचोंमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन सब लोक है । आयुर्कर्मका भंग क्षेत्रके समान है । पचेन्द्रिय तिर्यच त्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है अनुकृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक है । आयु कर्मका भंग क्षेत्रके समान है । पचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका असख्यातवों भाग स्पर्शन कहा है, वहाँ लोकका संख्योतवों भाग प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—तिर्यच्चोंमें चार घाति कर्मोंकी अपेक्षा नीचे सातवीं पृथिवी तक और वेदनीय, नाम व गोत्र कर्मकी अपेक्षा ऊपर अच्युत कल्प तक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन सम्भव है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु कहा है । इन कर्मोंकी अपेक्षा घड़ी वात पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चत्रिकमें जाननी चाहिए, क्योंकि सामान्य तिर्यच्चोंमें इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चत्रिककी अपेक्षा ही कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्चोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत कालीन स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घात व उपपाद् पदकी अपेक्षा सब लोक है इसलिए इनमें सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोंका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत कालीन स्पर्शन अपेक्षा विशेषसे सर्वलोक है । यतः इनमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है अतः इनमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । परन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद् पदके समय सम्भव नहीं है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । आयुर्कर्मका विचार इन सब मार्गणाओंमें क्षेत्रके समान ही है । कारण कि मारणान्तिक समुद्घात व उपपाद् पदके समय आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता । मूलमें मनुष्य लब्धपर्याप्तक आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च लब्धपर्याप्तकोंके समान ही स्पर्शन उपलब्ध होता है इसलिए उनके कथनको पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च लब्धपर्याप्तकोंके समान कहा है । मात्र वायुकायिक पर्याप्तकोंमें जो विशेषता है वह मूलमें कही ही है ।

२११. मणुस०३ सत्तणं क० उक्क० खेतभंगो । अणुक० लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो सव्वलोगो वा । आउ० खेतभंगो । देवेसु' घादि०४ उक्क० अणु० अट्टु-णवचो० ।
वेद०-णामा-गो० उक्क० अट्टुचो० । अणु० अट्टु-णवचो० । आउ० उक्क० अणु० अट्टुचो० ।
एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

२१२. एइंदिएसु घादि०४ उक्क० अणुक० सव्वलो० । वेद०-णामा० उक्क० लो०
संखे० । अणु० सव्वलो० । आउ०-गोद० उक्क० लो० असंखे० । अणु० सव्वलो० । एवं
वादरपजत्तापज्ज० । णवरि आउ० उक्क० लोग० असं० । अणु० लो० संखेज्ज० । सव्व-

२११. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंक उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है । आयु कर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश युक्त मिथ्यादृष्टिके और वेदनीय, नाम व गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । यतः यह स्पर्शन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है इसलिए इसे क्षेत्रके समान कहा है । इनमें इन कर्मोंके अनु-
त्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन तथा आयुकर्मका दोनों प्रकारका स्पर्शन स्पष्ट ही है । देवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु प्रमाण कहा है । इन सातों कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध किसी भी अवस्थामें सम्भव है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु कहा है । आयुकर्मका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इसके उक्त दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । यह तो सामान्य देवोंकी अपेक्षा स्पर्शन हुआ । इसी प्रकार सब देवोंमें अपने अपने स्पर्शनका विचार कर वह जिस कर्मकी अपेक्षा जहाँ जो सम्भव हो, ले आना चाहिए ।

२१२. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय और नामकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्या-
तवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें

सुहुमाणं सत्तणं क० उक्क० अणु० सव्वलो० । आउ० उक्क० लो० असंखे० सव्वलो गो वा । अणु० सव्वलो० ।

२१३. पंचिदि०-तस०२ घादि०४ उक्क० अट्ट-तेरह० । अणु० अट्ट० सव्वलो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० खेत्तमंगो । अणु० अट्ट० सव्वलो० । आउ० उक्क० खेत्त० । अणु० अट्टचो० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विमंग०-चक्खुदं०-सणि ति ।

२१४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० घादि०४ उक्क० लो० असंखे० सव्वलो० ।

भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सत्र सूक्ष्म जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें वेदनीय और नाम कर्मका सर्वविशुद्ध वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं । अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण कहा है । आयु कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य अवस्थामें और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पृथिवी, जल और प्रत्येक वनस्पति ये तीनों वादर पर्याप्त सर्व विशुद्धि अवस्थामें करते हैं । यतः इन जीवोंके ऐसी अवस्थामें स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जिस अवस्थामें सर्वलोक स्पर्शन होगा है उस अवस्थामें आयु कर्मका बन्ध सम्भव नहीं, अतः इनमें आयुर्कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२१३. पचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभगज्ञानी, चक्षुदर्शनी और सत्री जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन पञ्चेन्द्रिय आदि चारो प्रकारके जीवोंमें यद्यपि मरणान्तिक समुद्घातके समय भी चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है पर ये जीव जब अपने उत्कृष्ट बन्धके योग्य जीवोंमें ही मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हों तभी यह सम्भव है, इसलिए इनमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्वलोक न कहकर कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु कहा है । इनमें आयु कर्मका बन्ध मरणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनमें इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह स्पर्शन सम्भव होनेसे उनके कथनको इन पचेन्द्रियादि चारो मार्गणाओंके स्पर्शनके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२१४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें चार घाति-

अणु० सव्वलो० । सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो । वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०
सत्तण्णं क० पुढविभंगो । आउ० उक्क० अणु० लो० असं० । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-
वाउ०अपज्ज० । घादि०४ उक्क० अणु० सव्वलो० । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० लो०
असंखे० । अणु० सव्वलो० । आउ० उक्क० अणु० लो० असं० । णवरि वाउ० जम्हि
लोग० असंखे० तम्हि लोग० संखे० । वणप्फदि-णियोद० घादि०४ उक्क० अणु०
सव्वलो० । सेसाणं उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । वादरवणप्फदि०-वादर-
वण०-वादरणियोद-पज्जत्ताअपज्जत्ता० वादरपुढविअपज्जत्तभंगो । वादरवणप्फदिपत्ते०
वादरपुढविभंगो । सव्वसुद्धमाणं सुद्धमेइंदियभंगो ।

२१५. ओरालि० घादि०४ उक्क० छ्चोइ० । अणु० सव्वलो० । सेसाणं खेत्तभंगो ।
ओरालियमि० अट्टण्णं कम्माणं उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० ।

कर्माके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्माके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। वादर पृथिवी-कायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्माके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त और वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्माके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवों भाग प्रमाण क्षेत्र कहना है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंमें लोकका संख्यातवों भाग प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये। वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें चार घातिकर्माके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्माके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादर वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, वादर निगोद और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान भंग है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है। सब सूक्ष्म जीवोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान भंग है।

विशोपार्थ—पहने हम एकान्द्रियों और उनके अवान्तर भेदोंमें स्पर्शनका घटित करके बतला आये हैं। उसे ध्यानमें लेकर और इन पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी अवान्तर विशेषता जानकर यह स्पर्शन ले आना चाहिए।

२१५. औदारिक काययोगी जीवोंमें चार घति कर्माके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्माका भंग क्षेत्रके समान है। औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आठ कर्माके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

२१६. वेउन्वि० घादि०४ उक्क० अणु० अट्ट-तेरह० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अट्ट० । अणु० अट्ट-तेरह० । आउ० उक्क० अणु० अट्ट० । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवमदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-असण्णि ति खेत्तभंगो ।

२१७. कम्मह० घादि०४ उक्क० एकारस० । अणु० सव्वलो० । वेद०-णामा-गोद० उक्क० छन्नो० । अणु० सव्वलो० । एवं अणाहार०^१ ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पञ्चोन्द्रय पर्याप्त दो गतिके जीवोंके ही हो सकता है और ऐसे जीवोंका उत्कृष्ट स्पर्शन नीचे कुछ कम छह राजुसे अधिक सम्भव नहीं, इसलिए औदारिक काययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२१६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, और असंज्ञी जीवोंमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमे चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है पर ऐसी अवस्थामें वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु कहा है तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन एक मात्र कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । यहाँ इन सात कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सब अवस्थाओंमें सम्भव है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु कहा है । किन्तु आयुकर्मके बन्धकी स्थिति इससे भिन्न है । मारणान्तिक समुद्घात के समय तो उसका बन्ध सम्भव ही नहीं, इसलिए उसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२१७. कामेणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—कामेणकाययोगी जीव नीचे कुछ कम छह राजु और ऊपर कुछ कम पाँच राजु स्पर्श करते हुए चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं अतः चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु स्पर्श कहा है । वेदनीय, नाम और

१ ता० प्रती अणाहार० इत्यस्य पाठस्याग्रे पूर्णविरामो नास्ति । अन्यत्रापि एवंविधो व्यत्ययो दृश्यते ।

२१८. णवुंस० घादि०४ उक्क० छुच्चोद० । अणु० सव्वलो० । सेसं खेत्त० ।

२१९. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ उक्क० अणु०-अट्ट० । सेसाणं उक्क० खेत्त० । अणु० अट्ट० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-वेदग०-उवसम० ।

२२०. संजदासंजद० सत्तण्णं क० उक्क० खेत्त० । अणु० छुच्चो० । आउ० खेत्तभंगो ।

गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध कर्मणकाययोगी जीवोंके होगा, और ऐसे जीव ऊपर कुछ कम छह राजुका स्पर्श करेंगे, अतः इन तीन कर्मोंकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु कहा है। कर्मणकाययोगमें सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब लोक क्षेत्रका स्पर्श करते हैं यह स्पष्ट ही है। कर्मणकाययोगके समय जीव अनाहारक होता है, अतः अनाहारकमें यह स्पर्शन कर्मणकाययोगके समान प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है।

२१८. नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंका भंग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक नपुंसकवेदी जीव नीचे कुछ कम छह वटे चौदह राजुका स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष स्पर्शन सुगम है।

२१९. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—असंयतसम्यग्दृष्टियोंका जो कुछ कम आठ वटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है वह आभिनिवोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानवालोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा बन जाता है, अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। यहाँ सम्यग्दृष्टि आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार स्पर्शन प्राप्त होता है, अतः उनके कथनको आभिनिवोधिक ज्ञानी आदिके समान कहा है।

२२०. संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका भंग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंमें चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर उत्कृष्ट संकलेश परिणामोंसे होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है। अतः यह स्पर्शन क्षेत्रके समान ही उपलब्ध होता है अतः उसे क्षेत्रके समान कहा। परन्तु इन सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक संयतासंयतोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं है अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२२१. किण्ण०-णील०-काउ०-घादि०४ उक्क० छ-वत्तारि-वेचोद्द० । सेसं खेत्त० ।
तेउ० घादि०४ उक्क अणु० अट्ट-णव० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० खेत्त० । अणु०
अट्ट-णव० । आउ० उक्क० खेत्त० । अणु०-अट्ट० । एवं पम्म-सुक्काणं । णवरि अट्टछ-चोद्द० ।

२२२. अब्भव०-घादि०४ उक्क० अट्ट-तेरह० । अणु० सन्वलो० । वेद०-णामा०-
गोद० उक्क० अट्ट० । अथवा लोगस्स असंखे० । अणुक० सन्वलो० । आउ० उक्क०
खेत्त० । अणु० सन्वलो० ।

२२१. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम छह बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष भंग क्षेत्रके समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रमसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंमें कृष्ण लेश्यावालोंके नीचे सातवीं पृथिवी तक कुछ कम छह बटे चौदह राजु, नील लेश्यावालोंके नीचे पाँचवीं पृथिवी तक कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कापोत लेश्यावालोंके नीचे तीसरी पृथिवी तक कुछ कम दो बटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। पीतलेश्यावालोंके अतीत कालकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु कहा है। वह यहाँ चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। परन्तु वेदनीय आदि तीन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके और आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके कुछ कम नौ बटे चौदह राजु स्पर्शन सम्भव नहीं है, क्योंकि यह स्पर्शन इस लेश्यामें मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदके समय ही सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है। पद्मलेश्यावाले और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें अतीत कालकी अपेक्षा क्रमसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है। आयु-कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंको छोड़कर और सब जीवोंके यह स्पर्शन सम्भव होनेसे इनमें यह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२२२. अब्भव्य जीवोंमें चार कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु अथवा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

२२३. सासणे घादि०४ उक्क० अणु० अट्ट-वारह० । वेद०-गामा०-गोद० उक्क० अट्ट० । अणु० अट्ट-वारह० । आउ० उक्क० खेत्त० । अणु० अट्ट० । सम्मतमि० सत्तणं कम्माणं उक्क० अणुक्क० अट्ट० ।

२२४. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४-गोद० जह० लो० असं० । अज० सव्वलो० । वेद०-आउ०-गाम० जह० अज० सव्वलो० । एवं ओघमंगो कायजोगि-णवुंसं-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-किण्णले०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति ।

विशेषार्थ—पहले हम पचेन्द्रियोमें स्पर्शनका विचार कर आये हैं । उसे ध्यानमें रखकर यहाँ भी सब स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । यहाँ वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन विकल्प रूपसे लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण भी कहा है सो इसका कारण यह है कि स्वामित्वका विचार करते समय इन कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकारसे कहा है, अतः तदनुसार स्पर्शन भी दो प्रकारसे जानना चाहिए । जब चारों गतिके सर्वविशुद्ध संज्ञी पचेन्द्रिय जीवोंको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शन प्राप्त होता है और जब द्रव्यसंयत मनुष्यको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्वामित्व प्राप्त है । शेष कथन सुगम है ।

२२३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टियोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है । इनमेंसे कुछ कम वारह बटे चौदह राजु स्पर्शन वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके तथा आयु कर्मके बन्धक जीवोंके सम्भव नहीं है, क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय यह बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इस अपेक्षासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शन और शेष अपेक्षासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु तथा कुछ कम वारह बटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है । मात्र आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही जानना चाहिए । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें न तो मारणान्तिक समुद्घात होता है और न ही आयुबन्ध होता है, अतः यहाँ सातों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु एकमात्र यही स्पर्शन कहा है ।

२२४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय-वाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी कृष्णलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

२२५. गिरएसु घादि०४-गोद० जह० खेत्त० । अज० छ्चोद्द० । वेद०-गाम० जह०^१ अज० छ० । आउ० खेत्त० । पढमपुढ० खेत्त० । विद्यादि याव छ्छि त्ति वेद०-गाम ०-गोद० जह० अज० एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-चोद्दस० । घादि०४ जह० खेत्त० । अज० वेदणीयभंगो । आउ० खेत्त० । सत्तमाए गिरयोवं ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक श्रेणिमे होता है और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवीं पृथिवीके नारकी जीव करते हैं। यतः इस अपेक्षा से स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि सभी जीवोंके सम्भव है तथा आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य अपर्याप्त निर्वृत्तिसे निर्वृत्तमान मध्यम परिणामवाले सभी जीवोंके अपने त्रिभागमें सम्भव है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन सब लोक है, अतः इन तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है। इन कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ कहीं हैं उनमें ओघके समान स्पर्शन घटित होनेसे वह ओघके समान कहा है। मात्र इन मार्गणाओंमें इस स्पर्शनको अपने अपने स्वामित्वका विचार करके लाना चाहिए। कारण कि ओघके समान स्वामित्वके गुणस्थान इन सब मार्गणाओंमें सम्भव नहीं हैं। इन मार्गणाओंमें स्वामित्वकी अपेक्षा गुणस्थान भेद रहते हुए भी स्पर्शन ओघके समान प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

२२५. नारकियोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, और नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है। पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दूसरीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम एक वटे चौदह राजु, कुछ कम दो वटे चौदह राजु, कुछ कम तीन वटे चौदह राजु, कुछ कम चार वटे चौदह राजु और कुछ कम पाँच वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय कर्मके समान है। आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भंग है।

विशेषार्थ—यहाँ इन बातों पर ध्यान देकर उक्त स्पर्शन प्राप्त करना चाहिए—१. सामान्य नारकियोंमें और सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनमें गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। २. शेष नरकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामीके समान है इसलिए इन नरकोंमें गोत्रकर्मकी परिगणना वेदनीय और नामकर्मके साथ की है। ३. सर्वत्र चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि सर्व-विशुद्ध जीवके होता है, इसलिए सर्वत्र चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और ४. प्रथमादि छह नरकोंमें गोत्र कर्मका तथा सर्वत्र वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि जघन्य पर्याप्त निर्वृत्तिसे निर्वृत्तिमान

२२३. सासणे घादि०४ उक्क० अणु० अट्ट-वारह० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० अट्ट० । अणु० अट्ट-वारह० । आउ० उक्क० खेत्त० । अणु० अट्ट० । सम्मामि० सत्तणं कम्मणं उक्क० अणुक० अट्ट० ।

२२४. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४-गोद० जह० लो० असं० । अज० सव्वलो० । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-किण्णले०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति ।

विशेषार्थ—पहले हम पचेन्द्रियोंमें स्पर्शनका विचार कर आये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ भी सब स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। यहाँ वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन विकल्प रूपसे लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण भी कहा है सो इसका कारण यह है कि स्वामित्वका विचार करते समय इन कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकारसे कहा है, अतः तदनुसार स्पर्शन भी दो प्रकारसे जानना चाहिए। जब चारों गतिके सर्वविशुद्ध संज्ञी पचेन्द्रिय जीवोंको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब कुछ कम आठ वटे चौदह राजु स्पर्शन प्राप्त होता है और जब द्रव्यसंयत मनुष्यको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्वामित्व प्राप्त है। शेष कथन सुगम है।

२२३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टियोंका कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है। इनमेंसे कुछ कम वारह वटे चौदह राजु स्पर्शन वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके तथा आयु कर्मके बन्धक जीवोंके सम्भव नहीं है, क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय यह बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इस अपेक्षासे कुछ कम आठ वटे चौदह राजु स्पर्शन और शेष अपेक्षासे कुछ कम आठ वटे चौदह राजु तथा कुछ कम वारह वटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है। मात्र आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही जानना चाहिए। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें न तो मारणान्तिक समुद्घात होता है और न ही आयुबन्ध होता है, अतः यहाँ सातों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके कुछ कम आठ वटे चौदह राजु एकमात्र यही स्पर्शन कहा है।

२२४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय-वाले, मत्यजानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी कृष्णलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

२२५. गिरएसु घादि०४-गोद० जह० खेत० । अज० छ्चोद० । वेद०-णाम० जह०' अज० छ० । आउ० खेत० । पढमपुढ० खेत० । विद्यादि याव छडि ति वेद०-णाम ०-गोद० जह० अज० एक-वे-तिणिण-चत्तारि-पंच-चोदस० । घादि०४ जह० खेत० । अज० वेदणीयभंगो । आउ० खेत० । सत्तमाए गिरयोर्ध ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध ज्ञपक श्रेणिमे होता है और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवीं पृथिवीके नारकी जीव करते हैं । यतः इस अपेक्षा से स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि सभी जीवोंके सम्भव है तथा आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य अपर्याप्त निर्वृत्तिसे निर्वृत्तमान मध्यम परिणामवाले सभी जीवोंके अपने त्रिभागमें सम्भव है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन सब लोक है, अतः इन तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है । इन कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ कहीं हैं उनमें ओघके समान स्पर्शन घटित होनेसे वह ओघके समान कहा है । मात्र इन मार्गणाओंमें इस स्पर्शनको अपने अपने स्वामित्वका विचार करके लाना चाहिए । कारण कि ओघके समान स्वामित्वके गुणस्थान इन सब मार्गणाओंमें सम्भव नहीं हैं । इन मार्गणाओंमें स्वामित्वकी अपेक्षा गुणस्थान भेद रहते हुए भी स्पर्शन ओघके समान प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

२२५. नारकियोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, और नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है । पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दूरीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम एक वटे चौदह राजु, कुछ कम दो वटे चौदह राजु, कुछ कम तीन वटे चौदह राजु, कुछ कम चार वटे चौदह राजु और कुछ कम पाँच वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय कर्मके समान है । आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है । सातवीं पृथिवीमे सामान्य नारकियोंके समान भंग है ।

विशेषार्थ—यहाँ इन बातों पर ध्यान देकर उक्त स्पर्शन प्राप्त करना चाहिए—१. सामान्य नारकियोंमें और सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनमे गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । २. शेष नरकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामीके समान है इसलिए इन नरकोंमें गोत्रकर्मकी परिगणना वेदनीय और नामकर्मके साथ की है । ३. सर्वत्र चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि सर्व-विशुद्ध जीवके होता है, इसलिए सर्वत्र चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और ४. प्रथमादि छह नरकोंमें गोत्र कर्मका तथा सर्वत्र वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि जघन्य पर्याप्त निर्वृत्तिसे निर्वृत्तिमान

२२६. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० छ० । अज० सव्वलो० । गोद० जह० लोग० संखेज्ज० । अज० सव्वलो० । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज्ज० सव्वलो० । पंचिदि०-तिरिक्ख० ३ घादि० ४ जह० छ० । अज० लो० असं० सव्वलोगो वा । वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० लो० असं० सव्वलोगो वा । आउ० खेत्त० । पंचिदि०तिरि०अपज्ज० घादि०४ जह० खेत्त० । अज० लो० असं० सव्वलो० । वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० लो० असं० सव्वलो० । आउ० खेत्त० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिदि०-पंचिदि०-तस०अपज्ज०-वादरपुट्ठ०-आउ०-वादरपत्ते०पज्जत्त त्ति ।

मध्यम परिणामवालेके होता है, अतः यहाँ इन कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अपने अपने अतीत स्पर्शनके समान कहा है। यहाँ इन कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका यही स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है।

२२६. तिर्यचोमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यचत्रिकमे चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियतिर्यचअपर्याप्तकोमे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब-विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, वादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, वादरजलकायिकपर्याप्त और वादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—यहाँ तिर्यच्च सामान्य आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबमें आयुकर्मके सिवा शेष सात कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इन सब मार्गणाओंमें सब लोक प्रमाण स्पर्शन उपलब्ध होता है अतः उसके यहाँ उक्त प्रमाण उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती। मात्र इन कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अलग अलग है। यथा—तिर्यच्चोमे चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध संयतासंयत जीव करते हैं और ये जीव ऊपर १६ वें कल्प तक समुद्रघात करते हुए पाये जाते हैं, अतः इनका स्पर्शन कुछ कम छहवटे चौदह राजु कहा है। इनमे गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध वादरअग्निकायिक पर्याप्त और वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव करते हैं। यतः वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है, अतः इनमे गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनमे वेदनीय आयु और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध ओषके समान सब लोक वन जाता है अतः यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ आयु कर्मके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी इसी प्रकार

२२७. मणुस०३ घादि०४ जह० खेत्त० । अज० लो० असं० सव्वलो० ।
वेद०-आउ०-णाम०-गोद० सव्वप०' अपज्जत्तभंगो ।

२२८. देवाणं घादि० ४ जह० अट्ट० । अज० अट्ट-णव० । वेद०-णामा०-गोद०
जह० अज० अट्ट-णव० । आउ० जह० अज० अट्ट० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो
फोसणं षोदव्वं ।

सर्व लोक घटित कर लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान ही है, क्योंकि वहाँ यह स्पर्शन पंचेन्द्रिय तिर्यच-त्रिककी अपेक्षासे ही कहा है । इनमें चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण भी कहा है । सो इसका कारण इनका वर्तमान स्पर्शन मात्र दिखाना ही मुख्य प्रयोजन प्रतीत होता है । इनमे वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके यथायोग्य होता है । यतः ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीतकालीन स्पर्शन सर्व लोक है । अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । इन तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोंमें आयुकर्मका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । अब रहे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव सो इनमे चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध जीवके होता है । यतः यह स्पर्शन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक है, अतः इनमें चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । इनमे वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मध्यम परिणामोंसे होता है । यतः ऐसे जीवोंका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक सम्भव है, अतः इनका यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्य अपर्याप्त आदि कुछ मार्गणाओंमें इसी प्रकार स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है सो इन मार्गणाओंमें सब स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तवोंके समान प्राप्त हाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

२२७. मनुष्यत्रिकमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्वामित्व ओघके समान है अतः स्वामित्व और इनके स्पर्शनका विचार कर वह यहाँ घटित कर लेना चाहिए जो मूलमे कहा ही है । मात्र वेदनीय आदि चार कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अपर्याप्तकोके समान कहा है सो यहाँ अपर्याप्तकोसे मनुष्य अपर्याप्तकोका ग्रहण करना चाहिए ।

२२८. देवोमे चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम नौवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम

२२६. एंडिएसु घादि० ४-गोद० जह० लो० संखे० । अज० सव्वलो० । सेसाणं ओघं । एवं वादरपज्जत्तापज्ज० । णवरि आउ० जह० अज० लो० संखे० । सव्वसुहुमाणं अट्टुण्णं क० जह० अज० सव्वलो० ।

२३०. पंचिदि०-तस० २ पंचणं जह० खेत० । अज० अट्टु० सव्वलो० । वेद०-णाम० जह० अज० अट्टु० सव्वलो० । आउ० जह० खेत० । अज० अट्टु० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खुदं०-सण्णि त्ति ।

आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये।

विशेषार्थ—देवोंमें चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध अविरतसम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है और इनका परप्रत्ययसे स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु प्रमाण है, अतः इनमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आयु-कर्मका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता। अतः इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२२६. एकेन्द्रियोंमें चार घाति कर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय वादरएकेन्द्रिय पर्याप्त और वादरएकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूद्ध जीवोंमें आठ कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके होता है। तथा गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध वादर अभिकायिक और वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके होता है। वायुकायिक जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः इनका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके लिए मध्यम परिणाम लगते हैं अतः वादर एकेन्द्रियोंमें आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३०. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोकका स्पर्शन किया है। आयु कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचन-योगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—ओघसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जो स्पर्शन कहा है वह पञ्चेन्द्रिय आदि चारों मार्गणाओंमें सम्भव है इसलिए यहाँ इसे ओघके समान कहा है। इन चारों मार्गणाओंका अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक है। अतः यहाँ उक्त पाँचों कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण

२३१. पुढावि०-आउ०-वणप्फदि-णियोद० घादि०४ जह० लो० असं० । अज० सव्वलो० । वेद०-आउ०-णाम०-गोद० जह० अज० सव्वलो० । बादरपुढ०-आउ० तेसिं चेव अपज्ज० बादरवणप्फदि०-बादरणियोद-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदि०पत्ते० तस्सेव अपज्ज० घादि०४ जह० खेत्तभंगो । अज० सव्वलो० । वेद०-णामा-गोद० जह० अज० सव्वलो० । आउ० जह० अज० लो० असं० । तेऊणं घादि०४-गोद० जह० लो० असं० । अज० सव्वलो० । सेसाणं जह० अज० सव्वलो० । बादरतेउ-बादरतेउ० अपज्ज० तं चेव । णवरि आउ० जह० अज० लो० असं० । बादरतेउ०पज्जत्ता० घादि० ४-गोद० जह० लो० असं० । अज० लो० असं० सव्वलो० । वेद०-णामा० जह०

कहा है, क्योंकि इन जीवोंके अजघन्य अनुभागवन्ध प्रत्येक अवस्थामें सम्भव होनेसे यह स्पर्शन वन जाता है । इन मार्गणाश्रमों वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व शोधके समान है, तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध सर्वत्र सम्भव है ही, अतः वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक कहा है । मात्र आयुर्कर्मका बन्ध भारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदके समय नहीं होता इस लिए तो इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ काम आठ बटे चौदह राजु कहा है । तथा इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें उसी प्रकार स्पर्शन प्राप्त होता है इसलिए वह पञ्चेन्द्रिय आदिके समान कहा है ।

२३१. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर पृथिवी-कायिक, बादर जलकायिक और इनके अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक व इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर निगोद व इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अग्निकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर अग्निकायिक और बादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग

२२६. संज्ञदामंत्रं वादि०४-गोद० जह० खेत्तम० । अज० छत्रा० । सेसाणं जह० अज० छ० । आउ० खेत्त० ।

२२७. गोद०-काउ० वादि०४ जह० खेत्त० । अज० सव्वलो० । सेसं खेत्त-भंगो । तंऊप वादि०४ जह० खेत्त० । अज० अट्ट-णवचो० । वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० अट्ट-णवचो० । आउ० जह० अज० अट्टचो० । एवं पम्माए वि । णवरि अट्ट० । सुफाए वादि०४ जह० खेत्तभंगो । अज० छत्रो० । सेसाणं जह० अज० छत्रो० ।

२२८. अजघनसि० वादि०४ जह० अट्ट० अथवा लोग० असं० । अज०

जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अजघनिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, साधिकासम्यग्दृष्टि, धैर्यकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इन तीन ज्ञानोंमें अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है अतः सार पातिकाओंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम ही है।

२२६. रायतारायत जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुर्कर्मका भंग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—रायतारायत जीवोंका अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है, इसमें सार पातिका और गोत्रके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा वेदनीय और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। चार आयुर्कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है।

पीत और कापीत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन भंग क्षेत्रके समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रके बन्धक जीवोंमें

भी
जिस
पर
इसलिए
उसी पर
कर्मोंके
उक्त कम
इसके अजघ
छह बटे और
अजघन्य अनुभागके
अजघन्य अनुभागके

अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने
छह बटे चौदह
कुछ कम

२३३. कम्मह० घादि०४-गोद० जह० छुचो० । अज० सव्वलो० । सेसाणं ओर्घं । एवं अणाहारग ति ।

२३४. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० खेत्तभंगो । अज० अट्ट० सव्वलो० । वेद०-णाम०-गोद० जह० अज० अट्टचो० सव्वलो० । आउ० जह० खेत्त० । अज० अट्ट० । विभंग० पंचिदियभंगो ।

२३५. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ जह० खेत्तभंगो । अज० अट्टचो० । सेसाणं जह० अज० अट्ट० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-वेदग० उवसम० ।

चौदह राजु प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती । आयुकर्मका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी आदि अन्य जितनी मार्गाणाँ गिनाई हैं उनका क्षेत्र भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और स्पर्शन भी उतना ही है, अतः इनमें यथा-सम्भव कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

२३३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगमे चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध चार गतिके असयत सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि नारकी करते हैं । यतः इन दोनोंका उपपाद पदकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक और शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । कर्मणकाययोगके कालमें जीव अनाहारक ही होते हैं, अतः इनका कथन कर्मणकाययोगियोंके समान कहा है ।

२३४. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । विभंगहानी जीवोंमें पचेन्द्रियोंके समान स्पर्शन है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोंका अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक कहा है । यतः यहाँ यह स्पर्शन आयुके सिवा सभी कर्मोंके अजघन्य अनुभागबन्धके समय तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके समय सम्भव है अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव न होनेसे वह कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३५. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक

२३६. संजदासंजदे घादि०४-गोद० जह० खेतभं० । अज० छचो० । सेसाणं जह० अज० छ० । आउ० खेत० ।

२३७. गील०-काउ० घादि०४ जह० खेत० । अज० सव्वलो० । सेसं खेत-भंगो । तेऊए घादि०४ जह० खेत० । अज० अट्ट-णवचो० । वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० अट्ट-णवचो० । आउ० जह० अज० अट्टचो० । एवं पम्माए वि । णवरि अट्ट० । सुकाए घादि०४ जह० खेतभंगो । अज० छचो० । सेसाणं जह० अज० छचो० ।

२३८. अबभवसि० घादि०४ जह० अट्ट० अथवा लोग० असं० । अज०

जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन तीन ज्ञानोंमें अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु है अतः चार घातिकर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम ही है ।

२३६. संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—संयतासंयत जीवोंका अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम छह वट चौदह राजु है, अतः इनमें चार घातिकर्म और गोत्रके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है ।

२३७. नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सत्र लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंका भंग क्षेत्रके समान है । पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम आठ वटे चौदह राजु स्पर्शन कहना चाहिये । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—किस लेश्यावाले जीवका क्या स्पर्शन है और स्वामित्व क्या है इसका विचार कर यहाँ स्पर्शन ले आना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ हमने अलग अलग विचार नहीं किया ।

२३८. अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ

सव्वलो० । गोद० जह० छचो०^१ । अज० सव्वलो० । वेद०-णामा० जह० अज० केवडि खेतं फोसिदं ? सव्वलो० । आउ० जह० अज० खेतभंगो ।

२३९. सासणे घादि०४ जह० अट्टु० । अज० अट्टु-वारह० । वेद०-णाम० जह० अज० अट्टु-वारह० । गोद० जह० खेत० । अज० अट्टु-वारह० । आउ० जह० अज० अट्टु० । सम्मामि०^२ सत्तणं क० जह० अज० अट्टुचोदस० । एवं फोसणं समत्तं ।

कालपरूवणा

२४०. कालं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे०

वटे चौदह राजु अथवा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनु-भागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनु-भागके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु-कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—अभव्योंमें द्रव्यसंघत मनुष्योंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन वह भी कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२३६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम वारह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु-कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध चार गतिके जीव करते हैं और ऐसी अवस्थामें सासादनसम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु उपलब्ध होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इनमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभाग-बन्ध सातवीं पृथिवीके सर्वविशुद्ध नारकी करते हैं और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और इनका क्षेत्र भी इतना ही है अतः यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सातों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन इनके स्वामित्वको देखते हुए कुछ कम आठ वटे चौदह राजु बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

कालपरूपणा

२४०. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा

१ ता० प्रतौ गोद० छचो० इति पाठः । २ आ० प्रतौ अट्टुवारह० । सम्मामि० इति पाठः ।

धादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखे० । अणुक० सन्वद्धा । वेद०-
आउ०-णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० सन्वद्धा । एवं
कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोधादि ४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

२४१. णिरएसु सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० ।
अणुक० सन्वद्धा । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० जह० एग०,
उक्क० पलिदो० असं० । एवं छसु पुढवीसु पंचिदि०तिरि०-मणुस-पंचिदि०-तस०
अपज्ज०-सन्वविगलिंदि०-वाद्रपुढवि०-आउ०पज्ज०-वाद्रवण०पत्ते०पज्ज०-वेउन्वि०-
वेउन्वियमि० । णवरि मणुसअप०-वेउन्वियमि० सत्तणं क० [अणुक०] जह० एग०,

निर्देश दो प्रकारका है—आंव और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनु-
कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार काययोगी, औदारिकाययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भय और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पंचेन्द्रियपर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवोंके उत्कृष्ट सक्लेश परिणामोंसे होता है । ऐसे संक्लेश परिणाम एक समय होकर दूसरे समय नहीं भी होते, और होते रहते हैं तो आवलिके असंख्यातवें भाग काल तक निरन्तर होते रहते हैं । यही कारण है कि चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणीमे होता है । और आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीवके होता है । एक तो क्षपकश्रेणीके जीव निरन्तर नहीं होते, दूसरे यदि होते हैं, तो वे कमसे कम एक समय तक क्षपकश्रेणि पर आरोहण करते हैं या संख्यात समय तक निरन्तर आरोहण करते हैं । अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आयुकर्मके बन्ध योग्य-परिणामोंकी यही विशेषता है । यही कारण है कि ओघसे इन कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय कहा है । इन कर्मोंका अनुकृष्ट अनुभागबन्ध नाना जीवोंके सर्वदा होता रहता है इसलिए इसका काल सर्वदा कहा है । यहाँ जो अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनका कथन ओघके समान किया है ।

२४१. नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात भागप्रमाण है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें तथा पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, वाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त, वाद्र जलकायिक पर्याप्त, वाद्र वनस्पति-कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण

उक० पलिदो० असंखे० । सत्तमाए सत्तणं क० [उक०] जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । आउ० उक० जह० एग०, उक० आवलि० असं० । अणु० जह० एग०, उक० पलिदो० असं० । एवं वादरतेउ०-वाउ०-पज्जता० । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पत्तेगाणं सत्तणं कम्माणं' तिरिक्खोघं । आउ० ओघं । णवरि तेउ०-वाउ० आउ० तिरिक्खोघं ।

२४२. तिरिक्खेसु अट्टणं क० उक० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । एवं कम्मइ०-किण्ण०-णील०-काउ०-अब्भवसि०-असणिण-अणाहारग ति । सव्वपंचिदि०तिरि० सव्वपदा सत्तमपुढविभंगो ।

है । सातवीं पृथिवीमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके सात कर्मोंका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें आयुर्कर्मका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान घटित कर लेना चाहिए । तथा यहाँ वेदनीय, नाम और गोत्रकर्म बन्धकालमें चार घातिकर्मोंके बन्धकालसे कोई विशेषता न होनेसे यह भी इसी प्रकार जानना चाहिए । अब रहा आयुर्कर्म सो इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण इसलिए कहा है, क्योंकि एक नारकीके वाद दूसरे नारकीके यदि निरन्तर आयुर्कर्मका बन्ध होता रहे तो उस सब कालका योग पत्यका असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है । प्रथमादि छह पृथिवियोंमें यह व्यवस्था अविक्ल बन जाती है इसलिए उनके कथनको सामान्य नारकियोंके समान कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र उनमेंसे मनुष्य अपर्याप्त और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है । कारण यह है कि ये सान्तर मार्गणाएँ हैं, इनके निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । इसलिए इनमें सदा कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । सातवीं पृथिवीमें और सब काल तो सामान्य नारकियोंके समान ही है । मात्र आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि यहाँ आयुर्कर्मका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके ही होता है और ऐसे जीव आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाले एकके वाद दूसरे असंख्यात हो सकते हैं अतः यहाँ आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

२४२. तिर्यचोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभन्य,

२४३. मणुस० सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज० । अणु० सव्वद्धा । आउ० गिरयोघं । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जस० । अणु० सव्वद्धा । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सव्वद्ध०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । देव० गिरयभंगो याव सहस्सार त्ति । आणद' याव अवरजिदा त्ति गिरयोघं । णवरि आउ० सव्वद्धभंगो ।

२४४. एइंदिएसु सत्तणं कम्मणं उक्क० अणु० सव्वद्धा । आउ० ओघं । एवं

असंखी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । सब पंचेन्द्रिय तिर्यच्चोंमें सब पदोका भंग सातवीं पृथिवीके समान है ।

विशेषार्थ—तिर्यच्चोंका प्रमाण अनन्त है इसलिए इनमें अन्य सात कर्मोंके समान आयु-कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव निरन्तर सम्भव हैं । यही कारण है कि इनमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका सर्वकाल कहा है । यहाँ कर्मणकाययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनके कथनको सामान्य तिर्यच्चोंके समान कहा है । परन्तु पंचेन्द्रिय तिर्यच्चत्रिकका प्रमाण असंख्यात है और इनमें आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्ट जीव करते हैं, अतः इनके कथनको सातवीं पृथिवीके समान कहा है । शेष सुगम है ।

२४३. सामान्य मनुष्योंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । आयुकर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धि के देव, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिये । सामान्य देव और सहस्वार कल्प तकके देवोंमें नारकियोंके समान भंग है । आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका भंग सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि पर्याप्त मनुष्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे करते हैं और आयुके सिवा शेष तीन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षणिकश्रेणिमें होता है । यतः ये जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, अतः इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । यतः मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं, अतः इनमें उक्त सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा कहा है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार नारकियोंमें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । आगे भी अन्य मार्गणाओंमें जो काल कहा है वह उन मार्गणाओंकी स्वामित्व सम्बन्धी विशेषताको जान कर ले आना चाहिए । पुनः पुनः उन्हीं युक्तियोंके आधारसे स्पष्टीकरण करनेसे पुनरुक्ति दोष आता है, इसलिए हमने प्रत्येक मार्गणामें कालका अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं किया ।

२४४. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल

सव्ववाद्दर-सुहूम०-सव्ववणप्फ०-सव्ववणप्फदि-णियोद० ।

२४५. पंचिदि०-तस०२ सत्तणं क० ओघं । आउ० णिरयोघं । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-[संजदासंजद]चक्खुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग०-सण्णि ति ।

२४६. आहार०-आहारमिस्स० आउ० मणुसि०भंगो । सेसाणं सत्तणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क संखेजसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अवगदवे० सत्तणं क० सुहुमसंप० छणं क० ।

२४७. मदि०-सुद० सत्तणं क० ओघं । आउ० तिरिक्खोघं । एवं विभंग०-असंज०-मिच्छादि० । णवरि विभंगे० आउ० पंचि०तिरि०भंगो ।

२४८. तेउ०-पम्मा० ओधिभंगो । सुक्काए सत्तणं क० ओधिभंगो । आउ० मणु-सि०भंगो । एवं खइग० ।

२४९. उवसम० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेजदि० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेज० । वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असं० । सासण्णे

सर्वदा है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सब वाद्दर, सब सूक्ष्म, सब वनस्पति-कायिक प्रत्येक शरीर, सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिये ।

२४५. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंका भंग ओघके समान है । आयु-कर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये ।

२४६. आहारक काययोगी, और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मका भंग मनुष्यनियोंके समान है । शेष सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका और सूक्ष्मसाम्प्रायिकसंयत जीवोंमें छह कर्मोंका काल जानना चाहिये ।

२४७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग ओघके समान है । आयुर्कर्मका भंग सामान्य तिर्यचोके समान है । इसी प्रकार विभंगज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि विभंगज्ञानमें आयुर्कर्मका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यच्चोंके समान है ।

२४८. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भंग है । शुक्ललेश्या-वाले जीवोंमें सात कर्मोंका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । आयुर्कर्मका भंग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

२४९. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल

सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्ज० । आउ० णिरयोधं । सम्मामि० सत्तण्णं क० उवसमघादीणं भंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं^१ ।

२५०. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज० । अज० सव्वद्धा । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सव्वद्धा । गोद० जह० जह० एग०^२, उक्क० आवलि० असं० । अज० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो कायजोगि-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति ।

अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलि के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आयुर्कर्मका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भंग उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके चार घातिकर्मोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

२५०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । वेदनीय, आयु और नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलि के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षणिकश्रेणिमें अपनी अपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है । यह हो सकता है कि यह बन्ध एक समय तक ही हो और क्रमसे यदि एकके बाद दूसरा जीव यह जघन्य बन्ध करे तो संख्यात समय तक भी यह बन्ध हो सकता है, इसलिए यहाँ इन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वदा होता है यह स्पष्ट ही है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इनका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा सम्भव है इसलिए इन तीन कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल सर्वदा कहा है । गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवें नरकके नारकीके होता है । यदि एक या नाना जीव एक साथ सम्यक्त्वके अभिमुख हुए तो एक समयके लिए जघन्य अनुभागबन्ध होगा और क्रमसे अनेक जीव निरन्तर सम्यक्त्वके अभिमुख हुए तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक जघन्य अनुभागबन्ध होगा । यही कारण है कि यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । अजघन्य अनुभागबन्धका

१ ता० प्रती पत्र उक्कस्सकालं समत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रती गोड० जह० एग० इति

२५१. गिरएसु सत्तर्णां क० उक्त्सत्सर्गो । आउ० ज० जह० एग०, उक्त्स०
आवलि० असंखे० । अज० ज० एग०, उक्त्स० पलिदो० असं० । एवं सव्वणिरय०—
सव्वपंचिदि०तिरि०—मणुस०अपज्ज० देवा याव सहस्सार त्ति सव्वविगल्लिदिय—वादर-
पुढवि०—आउ०पज्जत्ता—वादरवणप्फुदिपत्ते०पज्ज०—वेउच्चिय०—वेउच्चियमि०—उवसम०-
सासण०—सम्मामि० । णवरि मणुसअपज्ज०—वेउच्चियमि०—सासण०—सम्मामि० अज०
पगदिबंधकालो' कादव्वो । णवरि सम्मामि० पंचणं कम्माणं अज० ज० अंतो०,
उक्त्स० पलिदो० असंखेज्जदिभागो ।

काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें काल सम्बन्धी यह ओघ परूपणा अविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । मात्र इन मार्गणाओंमें यह काल अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर ले आना चाहिए ।

२५१. नारकियोमें सात कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । आयुकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्त्रार करुण तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल प्रकृति बन्धके कालके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

विशेषार्थ—नरकमें आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है । अब यदि कुछ नारकियोंने आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय किया और दूसरे समयमें दूसरे नारकी जघन्य अनुभागबन्ध करने लगे तो इस प्रकार निरन्तर आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध आवलिके असंख्यातवें भाग काल तक ही होगा । यही कारण है कि यहाँ आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें जघन्य अनुभागबन्ध यदि हो तो आयुकर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और यदि कुछ जीवोंने आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक किया । इसके बाद अन्य जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक आयुकर्मका अजघन्य अनुभागबन्ध करते रहे । इस प्रकार यदि निरन्तर आयुकर्मका बन्ध हो तो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक वह सम्भव है । यही कारण है कि यहाँ आयु कर्मके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें काल सम्बन्धी यह परूपणा अविकल वत जाती है, इसलिए उनका काल सामान्य नारकियोंके समान कहा है । मात्र सान्तर मार्गणाओंमें जो विशेषता है वह अलगसे कही है । आगे भी अन्य मार्गणाओंमें अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें लेकर काल घटित करनेमें सुगमता होगी, इसलिए हम उसका अलगसे ऊहापोह नहीं करेंगे ।

२५२. तिरिक्खेसु घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अज० सव्वद्धा । सेसाणं ज० अज० सव्वद्धा । एवं क्किण्ण०-णील०-काउ०-अभव०-असण्णि०-अणाहारग० त्ति । मणुसेसु घादि०४ जह० अज० [ओघं] । सेसाणं णिरयोघं । एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खु०-तेउ०-पम्मले०-सण्णि त्ति ।

२५३. ओरालि०-ओरालियमि० ओघं । णवरि गोद० तिरिक्खोघं । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० इत्थि०भंगो । आउ० उक्कस्सभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०'-खइग०-वेदग० । णवरि खइग० आउ० मणुसि०भंगो । सेसाणं संखेज्जरासीणं उक्कस्सभंगो । अणोसु पदानं उक्कस्स-जहण्णएसु अभणिदानं परिमाणेण कालो साधेदच्चो ।

एवं कालो समत्तो^३ ।

२२ अंतरपरूवणा

२५४. अंतरं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४-आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

२५२. तिर्यञ्चोमे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है । शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है । इसी प्रकार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभन्य, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । मनुष्योंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका काल ओघके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये ।

२५३. औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें ओघके समान काल है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुर्कर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । शेष संख्यात संख्यावाली राशियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । अन्य मार्गणाओंमें उत्कृष्ट और जघन्य काल रूपसे स्वीकृत सत्र पदोंका काल जो नहीं कहा है वह परिमाणके अनुसार साध लेना चाहिये ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

२२ अन्तरपरूवणा

२५४. अन्तर दां प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्म और आयुर्कर्मके उत्कृष्ट अनु-

१. ता० आ० प्रत्योः सम्मामि० इति पाठः । २ ता० प्रतौ एव कालो समत्तो इति पाठो नास्ति ।

अणु० गत्थि अंतरं । वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । अणु० गत्थि अंतरं । एवं मणुस०३-पंचिदि०-त्तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-सण्णि०-आहारगत्ति । एदेसिं आउ० अणुकस्से० अत्थि अंतरं तेसिं अप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं । णवरि मणुसि०-ओधिणा०-मणपज्ज०-ओधिदं० वेद०-णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुवत्तं० ।

२५५. णिरएसु अट्टणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणु० गत्थि अंतरं । णवरि आउ० अणु० अप्पणो पगदिअंतरं ।

भागके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले, आभिनिवोधिक-ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविशुद्धिसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । फिर भी इनके आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तरकाल है उनका वह अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व है ।

विशेषार्थ—चार घाति व चार अघाति कर्मोंका एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । क्षपकश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे वेदनीय, नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है और शेष कर्मोंका यदि उत्कृष्ट अनुभागबन्ध न हो तो वह असंख्यातलोक प्रमाण काल तक नहीं होता इसलिए शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । ओघसे आठो कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघ प्ररूपणा अचिकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गणाओंमें अन्तरकाल ओघके समान कहा है । मात्र इनमें बहुत-सी ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें आयुकर्मका निरन्तर बन्ध सम्भव नहीं है, अतः उनमें आयुकर्मके प्रकृतिबन्धका जो अन्तर कह आये हैं वही यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर जानना चाहिए । तथा मनुष्यिनी आदि चार मार्गणाओंमें क्षपकश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व प्रमाण है, अतएव इन मार्गणाओंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व प्रमाण कहा है ।

२५५. नारकियोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इतनी विशेषता है कि आयुके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान कहना चाहिये ।

२५६. एवं संखेज्ज-असंखेज्ज-अणंतरासीणं पि । [णवरि] इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-
तिष्णिक्सा० वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुघत्तं० वासं सादि-
रेयं० । अणु० णत्थि अंतरं । अवगदवे० सुहुमसंप० घादि०४ उक्क० जह० एग०,
उक्क० वासपुघ० । अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । वेद०-णाणा०-गोद० उक्क०
अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । उवसमसम्मा० घादि०४ उक्क० ओघं । वेद०-
णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुघ० सन्वेसिं । अणु० जह० एग०, उक्क०
सत्त रादिंदियाणि । एवं णेद्वं याव अणाहारग ति ।

एवं उक्कस्संतरं समत्तं ।

२५६. इसी प्रकार सख्यात, असख्यात और अनन्त राशिवाले जीवोंका भी अन्तर काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और तीन कषायवाले जीवोंमें वेदनीय नाम और गोत्र इनतीनोंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्षपृथक्त्व तथा कुछ अधिक एक वर्ष है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तथा अपगतवेदी और सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिया कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्ष पृथक्त्व है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल छह मास है । तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिया कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका अन्तर ओघके समान है; वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्षपृथक्त्व है और इन सबके अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल सात रात दिन है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव सदा नहीं होते अतः उनमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक काल प्रमाण कहा है । सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव सदा रहते हैं अतः उनका अन्तर नहीं हांता है । आयु कर्मका बंध केवल आयुके अन्तके छह मासमें आठ अपकर्षोंमें होना संभव होनेसे उसके बंधक जीव नारकियोंमें सदा नहीं रहते, अतः आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका अन्तर काल प्रकृति बंध अनुयोगद्वारमें कह गये प्रकृति बंधके अन्तरकालके समान कहा है । नारकियोंके अन्तर कालके समान ही अन्य सब मार्गणाओंमें भी अन्तर काल जानना चाहिये । किन्तु इसमें तीन विशेषताएँ हैं । प्रथम तीनों वेदी व तीन कषायवाले जीवोंमें वेदनीय नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण काल न होकर स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, तीन कषायवाले और पुरुषवेदी जीवोंमें वर्षपृथक्त्व और साधिक एक वर्ष है, क्योंकि इनमें क्षपकश्रेणी चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर काल उक्त काल प्रमाण है । दूसरी विशेषता अपगतवेदी व सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबंधके अन्तरकालकी है । इन दोनों मार्गणाओंमें चार घाति कर्मोंका उत्कृष्ट बंध उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले जीवके उस मार्गणाके अन्तिम समयमें होता है । इस प्रकारका बन्ध अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण होनेसे इनमें चार घाति कर्मोंके

२५७. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ जह० जह० एग०, उक० छम्मासं० । अज० गत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० गत्थि अंतरं । गोद० जह० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा । अज० गत्थि अंतरं । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

२५८. तिरिक्खेसु घादि०४-गोद० ज० जह० एग०, उक० असंखेजा लोगा । अज० गत्थि अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० जह० अज० गत्थि अंतरं० । एवं ओरालियमि०-

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्व प्रमाण कहा है । तथा अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे इनमें चार घाति कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण होनेसे इसमें वेदनीय, नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात होनेसे इसमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२५७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी उपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे यहाँ ओघसे चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना कहा है । वेदनीय, आयु और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ही संभव नहीं है । गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है । फिर भी ऐसी अवस्थामें जघन्य अनुभागवन्ध होना ही चाहिए ऐसा एकान्त नियम नहीं है । यह यदि अन्तरसे हो तो कम से कम एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण कालके अन्तरसे भी हो सकता है । यही कारण है कि ओघसे गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । मूलमें काययोगी आदि जितनी मागणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघपरुवणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है ।

२५८. तिर्यञ्चोमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक

कम्मह०-मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-अभवत्ति०-मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारग-
त्ति । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं उक्कस्सभंगो । णवरि किंचिं विसेसो अत्थेण
साधेदव्वो । सव्वपदा अणंतरासीणं बंधगाणं ओघेण तिरिक्खोघेण च साधेदव्वो ।

एवं अंतरं समत्तं ।

२३ भावपरूवणा

२५६. भावं दुविधं-जह० उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओवे०आदे० । ओघे०
अट्टणं कम्माणं दोणं पदाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं अणाहारग
त्ति णेदव्वं । एवं जहणणगं पि णादव्वं ।

एवं भावं समत्तं ।

२४ अप्पावहुअपरूवणा

२६०. अप्पावहुगं दुविधं-जहणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-
ओघे० आदे० । ओघे० सव्वतिव्वाणुभागं वेद० । णाम०-गोद० दो वि तुल्लाणि

जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक
जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सत्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना
चाहिये । शेष संख्यात और असंख्यात संख्यावाली राशियोंका भंग उत्कृष्टके समान जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें जो कुछ विशेषता है वह अर्थके अनुसार साध
लेना चाहिये । तथा अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंमें बन्धक जीवोंके सब पदोंका भंग ओघ और
सामान्य तिर्यञ्चोंके अनुसार साध लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओंके स्वामित्वका विचार कर अन्तर काल घटित कर लेना
चाहिए । जिस मार्गणमें जा विशेषता है वह घटित की जा सकती है, इसलिए सबके विषयमें यहाँ
अलग अलग नहीं लिखा है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

२३ भावपरूवणा

२५६. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा
निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके दोनों पदोंके बन्धक जीवोंका
कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । तथा
इसी प्रकार जघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी जानना चाहिये ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

२४ अल्पबहुत्वपरूवणा

२६०. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा
निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे वेदनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सबसे तीन

अणंतगुणहीणं । मोह० अणंतगुणहीणं० । णाणा०-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तुल्लाणि
अणंतगुणहीणं । आउ० अणंतगुणहीणं । एवं याव अणाहारग ति । णवरि सव्वअपज्ज०-
सव्वएइंदि०-सव्वविगल्लिंदि०-सव्वपंचकायाणं च सव्वतिव्वाणुभागं मोह० । वेद०
अणंतगुणहीणं । सेसं मूलोघं ।

२६१. जहण्णए पगदं । दुवि०^१-ओघे०आदे० । ओघे० सव्वमंदाणुभागं
मोह० । अंतरा० अणंतगुणभमहियं । णाणा०-दंसणा० दो वि तु० अणंतगुणभम० ।
आउ० अणंतगुणभम० । गोद० अणंतगुणभम० । णाम० अणंतगुणभम० । वेदणी० अणंत-
गुणभमहि० । एवं ओघभंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि क्रोधादि०४-
चक्खु०-अचक्खुदं-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ।

२६२. णिरएसु सव्वमंदाणुभागं मोह० । णाणा०-दंस०-अंतरा० तिण्णि वि तु०
अणंतगुणभम० । गोद० अणंतगुणभम० । णाम० अणंतगुणभम० । वेद० अणंतगुणभम० ।
आउ० अणंतगुणभम० । एवं सत्तमाए । पढमाए याव छट्ठि ति एवं चेव । णवरि
णाम०-गोद० दो वि तु० अणंतगु० ।

है । इससे नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध दोनो ही समान होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इससे मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय-कर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीनों ही समान होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इससे आयुर्कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणां तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सब अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और सब पाँचों स्थावरकायिक जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सबसे तीव्र है । इससे वेदनीयका अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है । शेष भंग मूलोघके समान है ।

२६१. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयका जघन्य अनुभागबन्ध सबसे मन्द है । इससे अन्तराय कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके जघन्य अनुभागबन्ध दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे आयुर्कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे वेदनीयकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

२६२. नारकियोंमें मोहनीयकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सबसे मन्द है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इससे गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे वेदनीय कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे आयुर्कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये । पहली पृथिवीसे लेकर छठी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं ।

२६३. तिरिक्खेसु ओघं । णवरि णाणा०-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तुल्ला० अणंतगु० । सव्वपंचिदि०तिरि०-मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिदि०-तिण्णिकाय-पंचिदि०-तसअपज्ज० सव्वमंदाणुभागं मोह० । णाणा-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तु० अणंत-गुणब्भं० । [आउ० अणंतगुण० ।] णामा०-गोद० दो वि' तु० अणंतगुणब्भं० । वेद० अणंतगु० ।

२६४. मणुस०३ ओघं । णवरि णामा-गोदा० दो वि तुल्ला० अणंतगु० । देवाणं याव उवरिमगेवज्जा^२ त्ति पढमपुढविभंगो । अणुदिस याव सव्वट्ठ० त्ति णिरयोघं । एवं [एइंदि०-] तेउ-वाऊणं वि ।

२६५. ओरालिय० ओघं । ओरालियमि०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-क्किण०-णील०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० तिरिक्खोघं । वेउव्वियका०-सत्तमपु० भंगो । एवं वेउव्वियमि० । णवरि आउ० णत्थि । आहार०-आहारमि०-परिहार^३०-संजदासंजद०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० सव्वट्ठभंगो । कम्मइ०-अणाहार० तिरिक्खोघं । णवरि आउ० णत्थि ।

२६३ तिर्यञ्चोमे ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मके जघन्य अनुभागवन्ध तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । सब पचेन्द्रियतिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल व वनस्पति तीनों स्थावरकाय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंमें मोहनीयकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सबसे मन्द है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मके जघन्य अनुभागवन्ध तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे आयु कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है । इससे नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इससे वेदनीय-कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है ।

२६४. मनुष्यत्रिकमे ओघके समान अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि नाम और गोत्र-कर्मके जघन्य अनुभागवन्ध दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । सामान्य देवोंमें और उपरिमग्रैवेयक तकके देवोंमें पहली पृथिवीके समान अल्पवहुत्व है । अनुदिशसे लेकर 'सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान अल्पवहुत्व है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिये ।

२६५. औदारिककाययोगी जीवोंमें ओघके समान अल्पवहुत्व है । औदारिकमिश्रकाय-योगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कपोतलेश्या-वाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान अल्पवहुत्व है । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सातवीं पृथिवीके समान अल्पवहुत्व है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका वन्ध नहीं होता । आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मथ्यादृष्टि जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान अल्पवहुत्व है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका वन्ध नहीं है ।

१. ता० प्रतौ गोद० उ० दो वि इति पाठः । २. ता० प्रतौ णवके (गेव) जा इति पाठ० ।

३. ता० प्रतौ परिहार० ? इति पाठः ।

२६६. इत्थि०-पुरिस० मणुसि०भंगो । णवुंस०-अवगद०-सुहुमसं० ओघं । आभि०-सुद०-ओधि०-मणपञ्ज०-संजद-सामाह०-छेदो०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ओघं । णवरि सव्वुवरि आउ० अणंतगु० । तेउ-पम्मा० देवोघं । सुक्काए मणुसि०भंगो । णवरि आउ० सव्वुवरि भाणिदच्चं ।

एवं अप्पावद्गुगं समत्तं ।

एवं चदुवीसमणियोगद्दाराणि समत्ताणि ।

२६६. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान अल्पबहुत्व है । नपुंसकवेदी, अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व है । आभिनिबोधिक-ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें सबके अन्तमें आयुकर्मका जघन्य अनुभावन्य अनन्तगुणा अधिक है । पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व है । शुक्ल-लेश्यावाले जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका अल्पबहुत्व सबके अन्तमें कहना चाहिये ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

भुजगारबंधो

२६७. भुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि अस्सिं समए अणुभागफह्दगाणं बंधदि अणंतरओसक्काविदविदिकंते' समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एस भुजगार-बंधो णाम । अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि अस्सिं समए अणुभागफह्दयाणि बंधदि अणंतर-उस्सक्काविद' विदिकंते समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि त्ति एस अप्प-दरबंधो णाम । अवट्टिदबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि अस्सिं समए अणुभागफह्दगाणं बंधदि अणंतरओसक्काविदविदिकंते समए तत्तियाणि तत्तियाणि चैव बंधदि त्ति एस अवट्टिदबंधो णाम । अवत्तच्चबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—अबंधादो बंधदि त्ति एसो अव-त्तच्चबंधो णाम । एदेण अट्टपदेण तेरस अणियोगहाराणि—समुक्कित्तणा सामित्तं एवं याव अप्पावहुगे त्ति १३ ।

समुक्कित्तणाणुगमो

२६८. समुक्कित्तणादाए दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० अट्टण्णं कम्माणं अत्थि भुज० अप्पद० अवट्टिद अवत्तच्चबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग त्ति ।

भुजगारबन्धप्ररूपणा

२६७. भुजगारबन्धका प्रकरण हं । उसक विषयमे यह अर्थपद है—जो इस समयमे अनु-भागके स्पर्धक बाँधता है वह अनन्तर अपकर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे अल्पतरसे बहुतर स्पर्धक बाँधता है, यह भुजगार बन्ध है । अल्पतर बन्धके विषयमें यह अर्थपद है—जो इस समय अनुभागके स्पर्धक बाँधता है, वह अनन्तर उत्कर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे बहुतरसे अल्पतर बाँधता है—यह अल्पतरबन्ध है । अवस्थितबन्धके विषयमें यह अर्थपद है—जो इस समय अनु-भागके स्पर्धक बाँधता है वह अनन्तर अपकर्षको प्राप्त हुए या उत्कर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे उतने ही उतने ही स्पर्धक बाँधता है यह अवस्थितबन्ध है । अवक्तव्यबन्धके विषयमें यह अर्थपद है—जो पहले नहीं बाँधता था और अब बाँधता है यह अवक्तव्यबन्ध है । इस अर्थपदके अनु-सार तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुक्कीर्तना और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक १३ ।

समुक्कीर्तनानुगम

२६८. समुक्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाय-योगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षु-दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुकलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२६९. गेरइएसु सत्तणं कम्माणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । आउ० ओघं । एवं सव्वणिरयाणि । वेउव्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग त्ति सत्तणं कम्माणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० । अवग० ओघभंगो । अवट्ठि० णत्थि । सुहुमसंप० अत्थि भुज०-अप्पद० । सेसाणं सव्वेसिं णिरयभंगो । णवरि लोभे मोह० ओघं ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता' ।

सामित्ताणुगमो

२७०. सामित्ताणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-बंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । अवत्त० कस्स० ? अण्ण उवसामणादो परिवद-माणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढममयदेवस्स वा । एवं ओघभंगो पंचिदि०-तस०-कायजोगि-आमि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खह्ग०-उवसम०-सण्णि-आहारग त्ति । एवं मणुस०-३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-मणपञ्ज०-संजदा० । णवरि अवत्तव्व० देवो त्ति ण भाणिदव्वं । एदेसिं सव्वेसिं आउग० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० पढम-समयआउगबंधमाणगस्स । एवं आउग याव अणाहारग त्ति भाणिदव्वं ।

२६६. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धवाले जीव हैं । आयु-कर्मका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी जीवोंके जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धवाले जीव हैं । अवगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदवाले जीव नहीं हैं । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव हैं । शेष सब मार्गणाओंका भंग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभ-कषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्मका भंग ओघके समान है ।

इस प्रकार समुक्कीर्तना समाप्त हुई ।

स्वामित्वानुगम

२७०. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात-कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी या प्रथम समयवर्ती देव उक्त पदका स्वामी है । इसी प्रकार ओघके समान पंचेन्द्रियद्विक त्रसद्विक, काययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्कलेस्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिककाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें अवक्तव्यपदका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिये । इन सब मार्गणाओंमें आयुकर्मके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । इसके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें आयुकर्मका बन्ध करनेवाला अन्यतरजीव अवक्तव्य पदका स्वामी है । आयुकर्मका भंग इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये ।

२७१. गिरएसु सत्तणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० कस्स० ? अण्ण० । वेउन्वियमि० सत्तणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० कस्स० ? अण्ण० । एवं कम्मइ०-सम्मामिच्छा०-अणाहारग ति । सेसाणं सव्वेसिं गिरयभंगो । णवरि अवगद० घादि०४ भुज० कस्स० ? अण्ण० उवसमणादो परिवदमाणस्स । एवं अवत्त० । अप्पद० क० ? अण्ण० उवसा० खइग० । अघादीणं भुज० उवरि चढमाण० । अप्प० कस्स० ? ओदरमाण० । एवं अवत्त० । एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

कालाणुगमो

२७२. कालाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तट्ठ सम० । अवत्त० एग० । आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम० । अवत्त० एग० । एवं ओघभंगो एसिं अट्टण्णं वि अवत्तव्वगा अत्थि ।

२७१. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार कार्मण-काययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। शेष सब मार्गणाओंका भंग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके भुजगारपदका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर जीव उक्त पदका स्वामी है। इसी प्रकार अवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिये। अल्पतरपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक और क्षपक जीव अल्पतरपदका स्वामी है। अघाति कर्मोंके भुजगारपदका स्वामी ऊपर चढ़नेवाला जीव कहना चाहिये। अल्पतरपदका स्वामी कौन है ? नीचे गिरनेवाला जीव अल्पतर पदका स्वामी है। इसी प्रकार अवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिए। तथा इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मोंके पदोंका स्वामित्व कहना चाहिए।

इस प्रकार स्वामित्व समप्त हुआ।

कालानुगम

२७२. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आयुर्कर्मके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इस प्रकार जिन मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं उनमें ओघके समान जानना चाहिये। शेष मार्गणाओंमें भी सात कर्मोंके अवक्तव्यपदको छोड़कर ओघके समान जानना

१. आ० प्रती कस्स० चाट्टरमा० इति पाठः । २. ता० प्रती एव सामित्तं समत्तं इति पाठो नास्ति । अत्रेऽप्येवंविधो व्यत्ययो दृश्यते बहुलतया ।

सेसाणं पि सत्तणं क० अवत्तव्वगा वज्ज ओघं । णवरि कम्मह०-अणाहार० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० वे सम० । अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० तिण्णि सम० । अवगद० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० एग० । एवं सुहुमसंप० अवत्तव्वं वज्ज ।

अंतराणुगमो

२७३. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं० क० भुज० अप्प० बंधंतरं केव० ? जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोगल्ल० । आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं^१ साग० सादिरे० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । [एवं अवक्खु० भवसि० ।]

२७४. णिरएसु सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसु० । आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसु० । एवं सव्वणिरएसु अप्पप्पणो ट्ठिदी कादव्वा ।

चाहिये । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसयत जीवोंमें अवक्तव्यपदको छोड़कर काल जानना चाहिये ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तरानुगम

२७३. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए ।

२७४. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । आयुकर्मके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपनी अपनी स्थितिका विचारकर अन्तरकाल कहना चाहिये ।

२७५. तिरिक्खेसु सत्तणं क० ओघं० । आउ० अवट्टि० ओघं । सेसाणं पदाणं जह० ओघं, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादि० । पंचिंदियतिरि०३ सत्तणं क० अवट्टि० जह० ऐग०, उक्क० कायट्टिदी । आउ० अवट्टि० णाणा०भंगो । सेसं तिरिक्खोघं । पंचि०तिरि०अप० सत्तणं क० भुज० अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आउ० तिण्णि पदा० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । एवं सव्व-अपज्जत्ताणं सुद्धमपज्जत्ताणं च ।

२७६. मणुस०३ सत्तणं क० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोट्टिपुघ० । सेसं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । देवाणं णिरयभंगो । णवरि अप्पप्पणो ट्टिदी कादव्वा ।

२७७. एहंदिएसु सत्तणं क० ओघं । आउ० अवट्टि० ओघं० । सेसाणं जह० एग० अंतो०, उक्क० बाधीसं वाससह० सादि० । वादरे अट्टणं क० अवट्टि० उक्क० अंगुल० असं^१ । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससह० । सुद्धमे असंखेज्जा लोगा । विग-लिंदिय०२ अट्टणं क० अवट्टिद० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वाससह० । सेसपदा ओघं । णवरि आउ० उक्क० अप्पप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं । पंचकायाणं एहंदिभंगादो साधेदव्वो^२ ।

२७५. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंका अन्तर काल ओघके समान है । आयु कमके अवस्थित पदका अन्तरकाल ओघके समान है । शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आयुकर्मके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरण के समान है । शेष भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, और सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके ज्ञानना चाहिये ।

२७६. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान है । देवोंमें नारकियों के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिये ।

२७७. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मके अवस्थित पदका भङ्ग ओघके समान है । शेष पदोंका अर्थात् भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यका अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है । वादर एकेन्द्रियोंमें आठ कर्मोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोक है । विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्तकोंमें आठ कर्मोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । शेष पदोंका अन्तर ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्ममें उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहना चाहिये । पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके भङ्गके अनुसार साध लेना चाहिये ।

१ ता० आ० प्रत्योः अगुल सं० इति पाठः । २. ता० प्रतौ-भंगो (गा) दो सावे (धे) दव्वो इति पाठः ।

२७८. पंचि०-तस०२ सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि०-अवत्त० जह० ओघं, उक्क० कायट्टिदी० । आउ० ओघं । णवरि अवट्टि० णाणा०भंगो ।

२७९. पंचमण०-पंचवचि० अट्टणं क० अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसं जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगि० सत्तणं क० ओघं । अवत्त० णत्थि अंतरं । आउ० एइंदिय-भंगो । ओरालि० सत्तणं क० मणजोगिभंगो । णवरि अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बावीसं सह० देसु० । आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवाससह० सादि० । ओरालियमि० अपज्जत्तभंगो । वेउव्वि० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमि०-आहार० मणजोगिभंगो । आहारमि० ओरालियमिस्स०भंगो । णवरि आउ० अवत्त० णत्थि अंतरं । कम्मइ०-अणाहार० सत्तणं क० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्टि० एय० ।

२८०. इत्थि०-पुरिस० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । आउ० अवट्टि० णाणा०भंगो । भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं पलिदो० सादि० तेत्तीसं सादि० । णवुंसं अट्टणं क०

२७८. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर ओघके समान है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका भंग ज्ञानावरणके समान है ।

२७९. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मका भंग एकेन्द्रियोंके समान है । औदारिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । आयुर्कर्मके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोंके समान भंग है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भंग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भंग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्मके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

२८०. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । आयुर्कर्मके अवस्थित पदका भंग ज्ञानावरणके समान है । भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य और साधिक तेत्तीस सागर है । नपुंसकवेदी जीवोंमें आठ कर्मोंका भंग ओघके समान है ।

ओघं । अवगद० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवत्त० णत्थि^१ अंतरं । एवं सुहुमसंप० ।

२८१. क्रोधादि०४ मणजोगिभंगो । मदि०-सुद०-असंज०-अभवसि०-मिच्छा० णवुंसगभंगो । विभंगे सत्तणं क० आउ० णिरयभंगो । आमि०-सुद०-ओधि० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठिसा० सादि० । आउ० अवट्ठि० णाणा०भंगो । सेसपदा ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० । णवरि खइग० उक्क० तेत्तीसं० सादि० । वेदगे छावट्ठि० देसू० । मणपज्ज० सत्तणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी० देसू० । आउ० तिण्णिप० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । एवं संजदा० । एवं चैव सामाह०-छेदो० । णवरि सत्तणं क० अवत्त० णत्थि । परिहार० आउ० मणपज्जव०-भंगो । सेसं सामाह०भंगो । एवं संजदासंजद० । चक्खुदं०-सण्णि० तसपज्जतभंगो ।

२८२. किण्ण०-णील०-काउ० सत्तणं क० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो० सादिरे० । सेसं ओघं । आउ० णिरयभंगो^२ । तेउ० सोधम्मभंगो ।

अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिये ।

२८१. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भंग है । अस्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भंग है । विभंगज्ञानी जीवोंमें सात कर्म और आयुकर्मका भंग नारकियोंके समान है । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है । अवस्थितिपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । आयुकर्मके अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कुछ कम छयासठ सागर है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका भंग ओघके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आयुकर्मके तीनों पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये । इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आयुकर्मका भंग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग सामायिकसंयत जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भंग है ।

२८२. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर, सत्तर सागर और साधिक सात सागर है । शेष

पम्म० सहस्सारभंगो । सुक्काए सत्तणं क० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसं देवोघं ।

२८३. उवसम० सत्तणं क० तिण्णिप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सासणे आउ० अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसपदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सम्मामि० सत्तणं क० सासण०भंगो ।

२८४. असण्णी० सत्तणं क० आउ० अवट्ठि० तिरिक्खोघं । आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । आहारएसु सत्तणं क० भुज०-अप्पद० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंगुल० असंखे० । आउ० अवट्ठि० णाणा०भंगो । सेसपदा ओघं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो

२८५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य अवत्तगा य । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह० अवत्त० अचक्खु०-

पदोंका भग ओघके समान है । आयुकर्मका भंग नारकियोंके समान है । पीतलेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म कल्पके समान भंग है । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सहस्त्रारकल्पके समान भंग है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । शेष भंग सामान्य देवोंके समान है ।

२८३. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भंग सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है ।

२८४. असंज्ञी जीवोंमें सात कर्म और आयुकर्मके अवस्थित पदका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भंग ओघके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आयुकर्मके अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है । तथा शेष पदोंका भंग ओघके समान है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम

२८५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका हैं—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीव नियमसे हैं । कदाचित् इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदका बन्धक एक जीव है । कदाचित् इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदके बन्धक नाना जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान

भवसि०-आहारग ति । आयु० सव्वपदा णियमा अत्थि । एवं अणंतरासीणं याव
अणाहारग ति । णिरएसु सत्तणं क० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सिया एदे य
अवट्ठिदे य । सिया एदे य अवट्ठिदा य । आउग० सव्वपदा भयणिज्जा । एवं असंखेज्ज-
संखेज्जरासीणं एदेण वीजेण णेदव्वं याव अणाहारग ति ।

भागाभागानुगमो

२८६, भागाभागं दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज० दुभागो
सादि० । अप्पद० दुभागो देसु० । अवट्ठि० असंखे०भागो । अवत्त० अणंतभागो ।
आउ० णाणा०भंगो । णवरि अवट्ठि०-अवत्त० असंखेज्जदिभागो । एवं ओघभंगो काय-
जोगि-ओरालि०-क्रोधादि० ४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । णिरएसु सत्तणं क०
अवत्त० णत्थि । सेसं ओघं । एवं णिरयभंगो असंखेज्ज-अणंतरासीणं । संखेज्जरासीणं
पि तं चैव । णवरि यम्हि असंखेज्जदिभागो तम्हि संखेज्जदिभागो कादव्वो । णवरि सव्व-
सम्मादिट्ठिसु गोदं विवरीदं । सेटीए कम्मणं विसेसो जाणिदव्वो ।

काययोगी, औदारिककायोगी, लोभ कषायवाले जीवोंमें मोहके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवकी
अपेक्षा, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । आयुर्कर्मके सब पदवाले जीव
नियमसे हैं । इसी प्रकार अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंमें अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।
नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् इन पदवाले
जीव हैं और अवस्थित पदवाला एक जीव है । कदाचित् इन पदवाले जीव हैं और नाना
जाव अवस्थित पदवाले हैं । आयुर्कर्मके सब पदवाले जीव भजनीय हैं । इसी प्रकार असंख्यात
और संख्यात संख्यावाली राशियोंका इसी वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक भंगविचय
जानना चाहिए ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ ।

भागाभागानुगम

२८६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
सात कर्मोंके भुजगारपदके बन्धक जीव साधिक द्वितीयभाग प्रमाण है । अल्पतर पदके बन्धक जीव
कुछ कम द्वितीयभाग प्रमाण है । अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।
अवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । आयुर्कर्मका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी
विशेषता है कि अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसी
प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य
और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । नारकियोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव नहीं
हैं । शेष पदोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार नारकियोंके समान असंख्यात और अनन्त
राशिवाली मार्गणाओंमें जानना चाहिए । संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें भी वही भंग है । इतनी
विशेषता है कि जहाँ पर असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है, वहाँ पर संख्यातवें भाग प्रमाण करना
चाहिये । इतनी विशेषता है कि सब सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मको विपरीत क्रमसे कहना चाहिए ।
तथा श्रेणियोंमें कर्मोंकी जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिए ।

परिमाणानुगमो

२८७. परिमाणानुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० अवत्त० केत्तिया ? संखेजा । भुज०-अप्प०-अवट्ठि० आउ० सव्वपदा केत्तिया ? अणंता । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं एइंदि०-वणप्फदि-णियोद०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४--मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति ।

२८८. णिरएसु सव्वेसिं अट्ठणं क० सव्वपदा केत्तिया^१ ? असंखेजा । एवं सव्वणिरय मणुसअपज्ज०-देवा याव सहस्सार ति । मणुस० सत्तणं क० अवत्त० संखेजा । सेसपदा आउ० सव्वपदा असंखेजा । एस भंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग०-उवसम०-सण्णि ति । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु अट्ठणं क० सव्वपदा संखेजा । एवं सव्वट्ठ०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुम-संप० । आणदादि याव उवरिमगेवजा^२ ति आउ० सव्वपदा संखेजा^३ । सेसाण सव्वपदा असंखेजा । एवं सुक्क०-खइग० । सेसाणं णिरयभंगो ।

परिमाणानुगम .

२८७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीव तथा आयुर्कर्मके सब पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यंच, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२८८. नारकियोमे सब आठों कर्मोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी मनुष्यअपर्याप्त, सामान्य देव और सहस्वारकल्प तकके देवोंके जानना चाहिए । मनुष्योमे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा सब पदोंके और आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । यह भंग पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमे आठों कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए । आनतसे लेकर उपरिम-भ्रैवेयकतकके देवोंमें आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार शुकुलेख्यावाले और क्षायिक सम्यग्दृष्टिजीवोंके जानना चाहिये । शेष मार्गणाश्रयोंमें नारकियोंके समान भंग है । इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

१ ता० प्रतीं केवडि० इति पाठः । २ ता० प्रती अणा (भाण) दादि याव उवरिम के (ने) वे० इति पाठः । ३ ता० प्रती असंखेजा इति पाठः ।

खेत्ताणुगमो

२८९. खेत्तं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० अवत्त०बंधगा केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्ज०भागे । भुज०-अप्प०-अवट्ठि० आउ० सव्वपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइंदिय-सव्वपंचकायाणं बादरवज्जाणं^१ कायजोगि-ओरालि-ओरालियमि०^२-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज० अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०^३-आहार०-अणाहारग ति । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्ज-अणंतरासीणं सव्वपदा केवडि० ? लो० असं० । णवरि बादर-एइंदि० तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता^४ आउ० सव्वप० लोग० संखेज्जदिभा० । एवं बादर-वाउ० तस्सेव अपज्जत्ता० । सेसबादरकायाणं पज्जत्तापज्जत्ता लो०^५ असंखेज्जदिभा० । सेसं एइंदियभंगो । बादरवाउपज्जत्ता आउ० लो० संखेज्ज० । [सेसं सव्वलो०]

फोसणाणुगमो

२९०. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० अवत्त० लो० असंखेज्ज० । सेसपदा आउ० सव्वपदा० बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । एवं

क्षेत्रानुगम

२९१. क्षेत्र दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका तथा आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यंच, वादरोंको छोड़कर सब एकेन्द्रिय व सब पौंचों स्थावर कायिक, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाय-योगी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्या-वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । शेष संख्यात, असंख्यात और अनन्त राशिवाली मार्गणाओंमें सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार वादर वायुकायिक और उनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । शेष वादरकाय व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष भंग एकेन्द्रियोंके समान है । वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष सब लोक क्षेत्र है ।

इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

स्पर्शानुगम

२९०. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंके लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

१ ता० आ० प्रत्योः बादरपज्जत्तं इति पाठः । २ ता० प्रतौ काजोगिओरालियमि० इति पाठः ।

३ ता० प्रतौ भवभवअसण्णि० इति पाठः । ४ ता० प्रतौ पज्जत्ताअपज्जत्ता । अपज्जत्ता इति पाठः ।

५ ता० आ० प्रत्योः पज्जत्तवज्जाणं लो० इति पाठः ।

ओघभंगो तिरिक्खोर्घं एहंदि० सुहुम०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सुहुमपुढवि-आउ०-तेउ०-
वाउ०-वणप्फदि-णियोद० तेसिं सुहुमा० कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मह०-
णवुंस०-कौधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-
मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति ।

२६१. णिरएसु सत्तणं क० सव्वपदा छुचोहस० । आउ० सव्वपदा खेत्तभंगो ।
एवं अप्पणो फोसणं णेदव्वं । पंचिंदियतिरि०३-पंचि०तिरि०अप०^१ सत्तणं क०
सव्वपदा लोग० असं० सव्वलोगो । आउ० सव्वपदा खेत्तभंगो । एवं सव्वअपज्जत्ताणं-
सव्वविगलिंदि०-वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वादरवणप्फ०पत्तेय०पज्जत्ताणं च । मणुस०३-
एवं चेव भंगो^२ ।

२६२. देवाणं सत्तणं क० सव्वप० अट्ट-णव० । आउ० सव्वपदा अट्टचोह० ।
एवं सव्वणं अप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

२६३. वादरएहंदि०-पज्जत्तापज्ज० सत्तणं क० सव्वपदा सव्वलोगो । आउ०
सव्वपदा लोगस्स संखेज्जदि० । एवं वादरवाउ०-वादरवाउ०अप० । वादरपुढ०-आउ०-

शेष पदोंके तथा आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यच, एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सूक्ष्म, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और इन दोनोंके सूक्ष्म, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपाय-वाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंखी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२६१. नारकियोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक और पचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर-जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । मनुष्यात्रकमें इसी प्रकार भंग है ।

२६२. देवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ-कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए ।

२६३. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके सख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार वादर वायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त

तेउ०-वाद्रवण०पत्ते० तेसिं अप० वाद्रवणफ्फदि-णियोद० पज्जत्तापज्ज० आउ० सच्चपदा
लोग० असंखे० । सेसाणं सच्चप० सच्चलो० । वाद्रवाउ०पज्जत्ता सत्तण्णं क० सच्चप०
लो० संखे० सच्चलो० । आउ० वाद्रएइंदियभंगो ।

२६४. पंचिंदिय-तस०२ सत्तण्णं क० तिण्णिप० अट्टचो० सच्चलो० । अवत्त०
खेत्त० । आउ० सच्चप० अट्टचो० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-
चक्खुदं०-सण्णि ति ।

२६५. वेउच्चिय० सत्तण्णं क० सच्चप० अट्ट-तेरह० । आउ० देवोघं । वेउच्चियमि०-
आहार०२-अवगद०-मणपज्ज०-संजद सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्तमंगो ।

२६६. आमि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० अवत्त० खेत्तमंगो । सेसपदा आउ०
सच्चप० अट्टचो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम० सम्मामि० ।
[संजदासंजद० आउ० सच्चपदा खेत्तमंगो । सेसं लोग० असंखे० छच्चो० ।]

२६७. तेउले० देवोघं । पम्माए सहस्सारमंगो । सुकाए सत्तण्णं क० अवत्त०

जीवोंके जानना चाहिए । वाद्र पृथिवीकायिक, वाद्र जलकायिक, वाद्र अग्निकायिक, वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्तक, वाद्र वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भंग वाद्र एकेन्द्रियोंके समान है ।

२६४. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग-ज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

२६५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भंग सामान्य देवोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भग है ।

२६६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके तथा आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । संयतासयत जीवोंमें आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

२६७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भग है । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें

खेत्तभंगो । सेसपदा आउ० सव्वपदा छुचो० । सासणे सत्तणं क० सव्वप० अट्ट-
वारह० । आउ० सव्वप० अट्टचो० ।

कालाणुगमो

२६८. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० अवत्त० जह०
एग०, उक्क० संखेज्जस० । सेसपदा आउ० सव्वपदा सव्वद्धा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं
सव्वएइंदि०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं वादरअपज्ज० वादरपत्तेय० तस्सेव अप०
वणप्फदि-णियोदा तेसिं वादर पज्जत्तापज्जत्त-सुहुम कायजोगि-ओरालि०-ओरालिमि०-
कम्मह०-णवुंस० कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अव्भ-
वसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति ।

२६९. णेरइएसु सत्तणं क० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क०
आवलि० असंखे० । आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० ।
अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । एवं असंखेज्जरासीणं ।

सहस्रारकल्पके समान भग है । शुक्लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष पदोंके तथा आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे
चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

इस प्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ ।

कालानुगम

२६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात
कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय
है । शेष पदोंके और आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार ओघके
समान सामान्य तिर्यच, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और
इनके वादर तथा अपर्याप्त, वादर प्रत्येक वनस्पति तथा उनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद
तथा इनके वादर तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, सूदम, काययोगी, औदारिककायोगी, औदारिकमिश्र-
काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके
जानना चाहिये ।

२६९. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है ।
अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवें
भाग प्रमाण है । आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार
असख्यात राशिवाली मार्गणाश्रमोंमें भी काल जानना चाहिये । तथा इसी प्रकार संख्यात राशिवाली

[संखेजरासीणं] पि एवं [चेव] । णवरि^१ यम्हि आवलि० असंखे० तम्हि संखेजसम० । यम्हि पलिदो० असंखे० तम्हि अंतोमुहु० । णवरि सांतररासीणं^२ सत्तणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज० अंतोमुहु० ।

अंतराणुगमो

३००. अंतराणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । सेसाणं णत्थि अंतरं । आउ० सव्वपदा णत्थि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालि०-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारग ति ।

३०१. णेरइएसु सत्तणं क० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा । एवं आउ० अवट्ठि० । आउ० भुज०-अप्प०-अवत्त० सत्तसु वि [पुढवीसु] जस्स यं पगादिअंतरं तस्स तं कादव्वं । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । णवरि मणुसअप०-वेउव्वियमि०-आहार०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० पगादिअंतरं कादव्वं । अवगद०-सुहुमसंप० सेठीए साधेदव्वं ।

मार्गणाओंमें भी काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है वहाँ पर संख्यात समय काल कहना चाहिये और जहाँ पर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है, वहाँ पर अन्तर्मुहूर्त काल कहना चाहिए । उसमें भी दोनों राशियोंमें इतनी विशेषता है कि सान्तरमार्गणाओंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य-काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तरानुगम

३००. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्व है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३०१. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । इसी प्रकार आयुर्कर्मके अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । आयुर्कर्मके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका तथा सातों ही पृथिवीयोंमें जिसका जो प्रकृतिबन्धका अन्तरकाल हो उसका वह कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकद्विक, सूक्ष्मसान्परायिकसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें प्रकृतिबन्धका अन्तरकाल करना चाहिए । अपगतवेदी और सूक्ष्मसान्परायिकसंयत जीवोंमें श्रेणीके अनुसार अन्तरकाल साध लेना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

१ ता० प्रती एवं असंखेजरासीण पि एवं (?) णवरि, आ० प्रती एवं असंखेजरासीणं पि णवरि इति पाठः । २ ता० प्रती सांतरा (२) रासीणं, आ० प्रती सांतरासीणं इति पाठः ।

भावाणुगमो

३०२. भावाणुगमेण दुवि०—ओघे०-आदे० । अट्टुणं कम्माणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदह्गो भावो । एवं अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

अप्पावहुगाणुगमो

३०३. अप्पावहुगं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० सव्वत्थोवा अवत्त-
व्वबंधगा । अवट्ठि० अणंतगु० । अप्प० असंखेज्जगु० । भुज० विसे० । आउ० सव्वत्थोवा
अवट्ठि० । अवत्त० असंखेज्जगु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । एवं कायजोगि-
ओरालि० लोभ० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

३०४. णिरएसु सत्तणं क० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । आउ० ओघं । एवं सव्वणिरयाणं ।

३०५. मणुसेसु सत्तणं क० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प०
असं०गु० । भुज० विसे० । आउ० ओघं । मणुसपज्जत्त मणुसिणीसु तं चैव । णवरि
संखेज्जं कादव्वं ।

भावानुगम

३०२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों
कर्मोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? औदधिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारकमार्गणा तक
जानना चाहिये ।

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

अल्पवहुत्वानुगम

३०३. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—आघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्य-
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्तगुणो हैं । इनसे अल्प-
तरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आयु
कर्मोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो
हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक
हैं । इसी प्रकार काययागी, औदारिककाययोगी, लोभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयका बन्ध करने-
वाले जीव, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । लोभकपायवाले जीवोंमें
केवल एक मोहनीयका ही अवक्तव्यपद होता है शेष छह कर्मोंका नहीं होता है । इसी कारण इनमें
मोहनीयका बंध करनेवाले जीव यह पद दिया है ।

३०४. नारकियोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अल्पतर-
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आयु-
कर्मका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिये ।

३०५. मनुष्योंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित-
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणो हैं । इनसे
भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आयुकर्मका भंग ओघके समान है । मनुष्य पर्याप्त और
मनुष्यनिर्घोमें यही भंग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिये ।

३०६. मणुसोवभंगो पंचि०-तस० २-पंचमण०^१-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदंस०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि त्ति । णवरि इत्थि०-पुरिस० सत्तणं क० अवत्त० णत्थि । सुक्काए खइग० आउ० मणुसि०भंगो ।

३०७. अवगद० घादि०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० । वेद०-णामा०-गोद० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्पद० संखेज्जगु० । भुज० संखेज्जगु० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

३०८. मणपज्ज०-संजद० मणुसि०भंगो । सेसाणं संखेज्जजीविगाणं असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं च णेरइगभंगो । णवरि संखेज्जजीविगाणं संखेज्जं कादव्वं । सव्वसम्मा-दिट्ठीसु गोदस्स भुजगारादो अप्पद० विसे० ।

एवं भुजगारबंधो समाप्तो

३०६. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंमें सामान्य मनुष्योंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव नहीं हैं तथा शुक्ललेश्यावाले और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है।

३०७. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक संख्यातगुणे हैं। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म-सांपरायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद नहीं हैं।

३०८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है। शेष संख्यात राशिवाली, असंख्यात राशिवाली और अन्तराशिवाली मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें संख्यात करना चाहिये। तथा सब सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मके भुजगारपदके बन्धक जीवोंसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ।

पदणिकखेवो

३०९. एत्तो पदणिकखेओ त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि--समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पावहुगे त्ति ।

समुक्कित्तणा

३१०. समुक्कित्तणा दुवि०--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हाणी उक्क० अवट्ठणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि अवगद० सुहुमसंप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हाणी । अवट्ठणं णत्थि ।

३११. जह० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि जह० वड्डी जह० हाणी जह० अवट्ठणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । अवगद०-सुहुम-संप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि जह० वड्डी जह० हाणी । अवट्ठणं णत्थि ।

सामित्तं

३१२. सामित्तं दुवि०--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० णाणा० उक्क० वड्डी कस्स होदि ? यो चट्ठणिययवमज्झस्स उवरि अंतो-

पदनिक्षेप

३०६. इसके आग पदनिक्षेपका प्रकरण हे । उसके ये तीन अनुयोगद्वार होते है--समुक्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

समुक्कीर्तना

३१०. समुक्कीर्तना दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मोंकी और छह कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । अवस्थान नहीं है ।

३११. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मोंकी और छह कर्मोंकी जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि है । अवस्थान नहीं है ।

स्वामित्व

३१२. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ?

३०६. मणुसोधभंगो पंचि०-तस० २-पंचमण०^१-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदंस०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि ति । णवरि इत्थि०-पुरिस० सत्तणं क० अवत्त० णत्थि । सुक्काए खइग० आउ० मणुसि०भंगो ।

३०७. अवगद० घादि०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० । वेद०-णामा०-गोद० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्पद० संखेज्जगु० । भुज० संखेज्जगु० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

३०८. मणपज्ज०-संजद० मणुसि०भंगो । सेसाणं संखेज्जजीविगाणं असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं च णेरइगभंगो । णवरि संखेज्जजीविगाणं संखेज्जं कादव्वं । सव्वसम्मा-दिट्ठीसु गोदस्स भुजगारादो अप्पद० विसे० ।

एवं भुजगारवंधो समाप्तो

३०६. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंमें सामान्य मनुष्योंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव नहीं हैं तथा शुक्ललेख्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

३०७. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक संख्यातगुणे हैं । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सूक्ष्म-सांपरायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद नहीं हैं ।

३०८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है । शेष संख्यात राशिवाली, असंख्यात राशिवाली और अनन्तराशिवाली मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें संख्यात करना चाहिये । तथा सब सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मके भुजगारपदके बन्धक जीवोंसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

पदणिकखेवो

३०९. एत्तो पदणिकखेओ त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि—समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पावहुमे त्ति ।

समुक्कित्तणा

३१०. समुक्कित्तणा दुवि०--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हांणी उक्क० अवट्ठारणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि अवगद० सुहुमसंप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हाणी । अवट्ठारणं णत्थि ।

३११. जह० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० अट्ठण्णं क० अत्थि जह० वड्डी जह० हाणी जह० अवट्ठारणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । अवगद०-सुहुम-संप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि जह० वड्डी जह० हाणी । अवट्ठारणं णत्थि ।

सामित्तं

३१२. सामित्तं दुवि०--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० णाणा० उक्क० वड्डी कस्स होदि ? यो चट्ठुण्णिययवमज्झस्स उवरि अंतो-

पदनिक्षेप

३०६. इसके आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसके ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

समुत्कीर्तना

३१०. समुत्कीर्तना दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मोंकी और छह कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । अवस्थान नहीं है ।

३११. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मोंकी और छह कर्मोंकी जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि है । अवस्थान नहीं है ।

स्वामित्व

३१२. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ?

३०६. मणुसोवभंगो पंचि०-तस० २-पंचमण०^१-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदंस०-मुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि ति । णवरि इत्थि०-पुरिस० सत्तणं क० अवत्त० णत्थि । सुक्काए खइग० आउ० मणुसि०भंगो ।

३०७. अवगद० घादि०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० । वेद०-णामा०-गोद० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्पद० संखेज्जगु० । भुज० संखेज्जगु० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

३०८. मणपज्ज०-संजद० मणुसि०भंगो । सेसाणं संखेज्जजीविगाणं असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं च णेरइगभंगो । णवरि संखेज्जजीविगाणं संखेज्जं कादव्वं । सव्वसम्मा-दिट्ठीसु गोदस्स भुजगारादो अप्पद० विसे० ।

एवं भुजगारबंधो समाप्तो

३०६. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंमें सामान्य मनुष्योंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव नहीं हैं तथा शुक्ललेश्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

३०७. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक संख्यातगुणे हैं । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सूक्ष्म-सांपरायसंयत जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद नहीं हैं ।

३०८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है । शेष संख्यात राशिवाली, असंख्यात राशिवाली और अनन्तराशिवाली मार्गणाओमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात राशिवाली मार्गणाओमें संख्यात करना चाहिये । तथा सब सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मके भुजगारपदके बन्धक जीवोंसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । एवं ओघभंगो कायजोगि-
कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

३१४. णेरइएसु घादि०४ उक्क० वड्डी ओघो । उक्क० हाणी कस्स० ? उक्कस्सयं
अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभगो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क०
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ?
यो जहणियादो विसोधीदो उक्कस्सयं विसोधिं गदो तप्पाओग्गउक्कस्सयं अणुभागं
बंधमाणो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणो
सागारक्खएण पडिभगो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले
उक्क० अवट्ठाणं । आउ० ओघं । एवं सव्वणेरइगाणं सव्वदेवाणं च ।

३१५. तिरिक्खेसु सत्तणं क० णिरयभंगो । आउ० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो
जहणियादो संकिलेसादो उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणुभागं पवंधो^१ तस्स
उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो तप्पाओग्गउक्कस्सयं अणुभागं बंधमाणो सागार-
क्खएण पडिभगो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले
उक्क० अवट्ठाणं । एवं पंचिदि०३ । पंचिदि०तिरि०अप० घादि०४ उक्क० वड्डी
कस्स० ? यो जहणियादो संकिलेसादो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्सयं अणु-

वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार ओघके
समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके
जानना चाहिये ।

३१४. नारकियोंमें चार घाति कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है । उत्कृष्ट
हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बंध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होने
से प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके
तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका
स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध
करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका
बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका
बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।
आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियों और सब देवोंके जानना चाहिये ।

३१५. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध
करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध
करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी
प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट
वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका

कोडाकोडिद्विदिवंधमाणो अंतोमुहुतं अणंगुणाए वड्डीए वड्ढिदूण उकस्सयं दाहं गदो तदो उकस्सयं अणुभागं पवंधो तस्स उकस्सिया वड्ढी । उकस्सिया हाणी कस्स० ? यो उकस्सयं अणुभागं वंधमाणो मदो एइंदियो^१ जादो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सिया हाणी । उकस्सयमवट्ठाणं कस्स० ? यो उकस्सअणुभागं वंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सयं अवट्ठाणं । एवं घादीणं ।

३१३. वेद०^२ उक० वड्ढी कस्स० ? खवग० सुहुससंप० चरिमे अणुभागवंधे वट्ठ० तस्स उक० वड्ढी । उक० हाणी कस्स० ? यो उवसामगो से काले अकसाई होहिदि त्ति मदो देवो जादो तस्स तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवट्ठाणं कस्स० ? अप्पमत्तसंज० अखवग० अणुवसामयस्स^३ सव्वविसुद्धस्स अणंतगुणेण वड्ढिदूण अवट्ठिदस्स उकस्सगमवट्ठाणं । एवं णामा०-गोद० । आउ० [उक०] वड्ढी कस्स होदि ? तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदो^४ तप्पाओग्गं उकस्सगं विसोधिं गदो तदो उकस्सयं अणुभागं पवंधो तस्स उक० वड्ढी । उक० हाणी कस्स० ? यो उकस्सयं अणुभागं वंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए

जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अतःकोडाकोडि प्रमाण स्थितिको बाधता हुआ अन्तर्मुहूर्तकाल तक अनन्तगुणी वृद्धिके साथ वृद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट दाहको प्राप्त हुआ और उसके बाद उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध किया वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हुआ मरा और एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हुआ साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार तीन घातिकर्मोंके विषयमें जानना चाहिये ।

३१३. वेदनीयकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो क्षपक सूक्ष्मसांप्रदायसंयत जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उपशामक तदनन्तर समयमें अकषायी होगा और मरकर देव हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो अप्रमत्तसंयत अक्षपक और अनुपशामक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तगुणी वृद्धिको प्राप्त होकर अवस्थित है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार नाम और गोत्रकर्मके विषयमें जानना चाहिये । आयुक्रमकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुआ और तदनन्तर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करने लगा

१ आ० प्रतौ एइंदिए इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्याः तिण्णिवेद० इति पाठः । ३ ता० प्रतौ अणुवसामा (म) यस्स इति पाठः । ४ ता० प्रतौ विसोवि (धी) दो इति पाठः ।

पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । एवं ओघभंगो कायजोगि-
कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

३१४. णेरइएसु घादि०४ उक्क० वड्डी ओघो । उक्क० हाणी कस्स० ? उक्कस्सयं
अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क०
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ?
यो जहण्णियादो विसोधीदो उक्कस्सयं विसोधिं गदो तप्पाओग्गउक्कस्सयं अणुभागं
बंधमाणो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणो
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले
उक्क० अवट्टाणं । आउ० ओघं । एवं सव्वणेरइहाणं सव्वदेवाणं च ।

३१५. तिरिक्खेसु सत्तणं क० णिरयभंगो । आउ० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो
जहण्णियादो संकिलेसादो उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणुभागं पबंधो तस्स
उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो तप्पाओग्गउक्कस्सयं अणुभागं बंधमाणो सागार-
क्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले
उक्क० अवट्टाणं । एवं पंचिदि०३ । पंचिदि०तिरि०अप० घादि०४ उक्क० वड्डी
कस्स० ? यो जहण्णियादो संकिलेसादो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्सयं अणु-

वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार ओघके
समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके
जानना चाहिये ।

३१४. नारकियोंमें चार घाति कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है । उत्कृष्ट
हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बंध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होने
से प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके
तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका
स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध
करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका
बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका
बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।
आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियों और सब देवोंके जानना चाहिये ।

३१५. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध
करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध
करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी
प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट
वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका

भागं पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० सागारक्खएण पडि-
भग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं ।
वेद०णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो जहण्णगादो विसोधीदो० तदो उक्क०
अणुभा० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणो
सागारक्खएण पडिभग्गो० तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ०
ओधं । एवं सच्चअपज्जत्तगाणं आणदादि याव सच्चट्टु त्ति सच्चएइंदि० सच्चविगलिंदि०-
सच्चपंचकायाणं ।

३१६. मणुस०३ घादि०४ गिरयभंगो । वेद०णामा०-गोद० उक्क० वड्डी
अवट्ठाणं च ओधं । उक्क० हाणी कस्स० ? उवसामगस्स परिवदमाणयस्स दुसमयबंध-
गस्स तस्स उक्क० हाणी । आउ० ओधं । पंचिदि०-तस०२-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि०
घादि०४ गिरयभंगो । सेसाणं ओधं । पंचमण०-पंववचि०-ओरालिय० घादि०४
गिरयभंगो । सेसाणं मणुसि०भंगो ।

३१७. ओरालियमि० घादि०४ उक्क० वड्डी कस्स० ? यो उक्क० अणु० बंधमाणो
उक्कस्सयं संकिलेसेण से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि त्ति तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी
कस्स० ? यो [उक्क०] अणुभा० बंधमाणो दुसमयसरीरपज्जत्ती जाहिदि त्ति [सागार-

बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनु-
भागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य
अनुभागका बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अव-
स्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य
विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगके
क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी
है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इसी
प्रकार सब अपर्याप्तक, आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय
और सब पाँचों स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

३१६. मनुष्यत्रिकमें चार घातिकर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । वेदनीय, नाम और
गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व ओघके समान है । उत्कृष्ट हानिका
स्वामी कौन है ? उपशान्तमोहसे गिरनेवाला जो उपशामक द्विसमयबन्धक है, वह उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । पंचेन्द्रियाद्वक, त्रसद्विक, पुरुषवेदी,
चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग
ओघके समान है । पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और श्रौदारिककाययोगी जीवोंमें चार घाति
कर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग मनुष्यनियोंके समान है ।

३१७ श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ?
जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको
प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका
बन्ध करनेवाला जीव दो समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा और साकार उपयोगके क्षय होनेसे प्रति-

क्खएण पडिभग्गो] तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-
गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो उक्क० अणु० बंधमाणो से काले सरीरपज्जत्तिं जाहिदि
त्ति तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी उक्क० अवट्ठाणं^१ णाणा०भंगो । आउ० अपज्जत्तभंगो ।
एवं वेउच्चियमि० । णवरि आउ० णत्थि । वेउच्चियका०-आहार० णिरयभंगो । आहार-
[मि०] सव्वट्ठ०भंगो ।

३१८. कम्मइ० घादि०४ उक्क० वड्डी कस्स० ? यो जहणियादो संकिलेसादो
उक्कस्सयं संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० बंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी
कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए
पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं० कस्स० ? वादरेइंदियस्स उक्कस्सिया हाणी
कादूण अवट्ठिदस्स तस्स उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी हाणी-
सम्मादि० । उक्क० अवट्ठाणं वादरेइंदिए हाणी० । [एवं अणाहार० ।]

३१९. इत्थिवे० घादि०४ णिरयभंगो । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी
कस्स० ? अण्ण० खवगस्स चरिमे उक्क० अणु० वड्डी तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी
अवट्ठाणं आऊ वि मणुसि०भंगो । एवं णवुंसग० । अवगद० घादि०४ उक्क० वड्डी
कस्स० ? अण्ण० उवसामयस्स चरिमे अणुभा०^२ बंधे वट्ठ० से काले सवेदो होहिदि त्ति

भग्न होता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।
वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने-
वाला जीव तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट-
हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका भंग ज्ञानावरणके समान है । आयु कर्मका भंग अपर्याप्तिकोके समान
है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके
आयु कर्मका बन्ध नहीं होता । वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें सामान्य नार-
कियोंके समान भंग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भंग है ।

३१८. कार्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो
जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका
स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार
उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो वादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट हानिकरके
अवस्थित है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि और
उत्कृष्ट हानिका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हानिवाला वादर एकेन्द्रिय
जीव है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३१९. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । वेदनीय, नाम और
गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक सवेदी अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागकी
वृद्धि कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान और आयु कर्मका
भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । अपगतवेदी

१ ता० प्रतौ अवट्ठि० इति पाठ । २ ता० प्रतौ अणु० क०, आ० प्रतौ अणुक्क० इति पाठः ।

तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० खवग० [अणिय० पढमादो अणुभाग-
बंधादो] विदिए अणु०बंधे वट्ट० तस्स उक्क० हाणी । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी
हाणी मणुसि०भंगो । अवट्टाणं णत्थि । एवं सुहुमसंप० ।

३२०. मदि०-सुद० घादि०४ ओघं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ?
अण्ण० मणुसस्स संजमाभिमुहस्स सव्वविसुद्धस्स चरिमे उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क०
वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो परिवदमाणस्स दुसमयमिच्छा० तस्स
उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? यो तप्पाओग्गउक्कस्सिगादो विसोधीदो
पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० अवट्टाणं । आउ० तिरिक्खोघं ।
एवं मिच्छा० । विभंगे घादि०४ गिरयभंगो । सेसं मदि०भंगो ।

३२१. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सागा०
जो णियमा उक्कस्ससंकिले० मिच्छत्ताभिमुहस्स चरिमे उक्क० अणु० वट्ट० तस्स
उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पा० उक्क० अणु० बंधमाणो
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले
उक्क० अवट्टाणं । सेसं ओघभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मादि० खइग०-उवसम० ।

जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशामक जीव अन्तिम
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धमें विद्यमान है और तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक पहिले अनुभागबंधसे दूसरे अनुभागबन्धमें
अवस्थित है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्टवृद्धि और
उत्कृष्ट हानिका भंग मनुष्यनियोंके समान है । इनके अवस्थानपद नहीं होता । इसी प्रकार
सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

३२०. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग ओघके समान है । वेदनीय,
नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? संयमके अभिमुख और सर्वविशुद्ध जो
अन्यतर मनुष्य अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट
हानिका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला जो अन्यतर मनुष्य द्विसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि है वह
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे
मुड़कर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । आयुर्कर्मका
भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । विभंगज्ञानी
जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके
समान है ।

३२१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट
वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो साकार उपयोगवाला और उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त अन्यतर जीव
मिथ्यात्वके उन्मुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है ।
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव
साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है,
वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । शेष
भंग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशाम-
सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार

णवरि खड्दो घादि०४ वड्ढो सत्थाणे कादव्वं । मणपज्जवे घादि०४ ओधि०भंगो ।
णवरिअसंजमाभिमुहस्स । सेसं मणुसि०भंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदोवट्ठावणा० ।
णवरि मिच्छाभिमुहस्स कादव्वं ।

३२२. परिहार० घादि०४ उक्क० वड्ढो कस्स० ? अण्ण० सागा० उक्क० संकिले०
सामाइ०-छेदो०भिमुहस्स चरिमे उक्क० अणु०बंधे वट्ट० तस्स उक्क० वड्ढो । उक्क०
हाणी कस्स० ? अण्ण० पमत्त० सागा० जो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क०
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्ढो कस्स० ?
अण्ण० अप्पमत्त० सव्वविसुद्ध० चरिमे उक्क०अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वड्ढो । उक्क०
हाणी कस्स० ? अण्ण० यो उक्कस्सिगादो विसोधीदो पडिभग्गो सागारक्खण्ण तप्पा-
ओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ० ओघं ।

३२३. संजदासंजदे घादि०४ वड्ढो आभिणि०भंगो । उक्क० हाणी कस्स० ? यो
तप्पाओग्गउक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खण्ण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो
[तस्स] उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्ढो
कस्स० ? अण्ण० सागार-जागा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० चरिमे उक्क० अणु० वट्ट०

घातिकर्मोंकी वृद्धि स्वस्थानमें करना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह असयमके अभिमुख हुए जीवके
कहना चाहिए । शेष भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और
छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अभिमुख
हुए जीवके कहना चाहिए ।

३२२. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो
साकार उपयोगवाला उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके
अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है ।
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? साकार उपयोगवाला जो अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य
अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अव-
स्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध
अन्यतर जो अप्रमत्तसंयत जीव अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका
स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभ्रम होकर साकार
उपयोगका क्षय होनेसे तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है
और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है ।

३२३. संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भंग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके
समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला
जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है
वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम
और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर साकार जागृत सर्वविशुद्ध और
संयमके अभिमुख हुआ जीव अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जीव

तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओग्गउक्क० अणु० बंधं सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ० ओघं । असंजद० घादि०४ ओघं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० मणुसस्स सम्मादि० सागार० सच्चविसुद्ध० संजमाभिमुह० उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च मदि०भंगो । आउ० णवुंसगभंगो ।

३२४. किण्ण-णील-काऊ० णिरयभंगो । आउ० ओघभंगो । तेउ०^१ घादि०४ देवभंगो । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त० सागार० सच्चविसु० उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणु० बंधमाणो मदो देवो जादो तस्स उक्क० हाणी अवट्ठाणं च । आउगं च ओघं । एवं पम्माए । सुक्काए घादि०४ आणदभंगो । सेसं ओघभंगो ।

३२५. अब्भव० घादि०४ ओघं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो जहण्णादो विसोधीदो उक्कस्सयं विसोधिं गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पडि० तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ० मदि०भंगो ।

साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्रहो तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । असंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि साकार जागृत सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । आयुर्कर्मका भंग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।

३२४. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें नारकियोंके समान भंग है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । पीत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग देवोंके समान है । वेदनीय नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अप्रमत्त साकार जागृत और सर्वविशुद्ध जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मरा और देव हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा इसीके उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग आनत कल्पके समान है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है ।

३२५. अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग ओघके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्र-कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । आयुर्कर्मका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

३२६. वेदगे घादि०४ ओधिभंगो । सेसं तेउ०भंगो । सासणे घादीणं उक्क०
आणदभंगो । वेद०-णामा०-गोद० आऊ वि तप्पाओग्गविसुद्धं कादव्वं । सम्मामि०
घादि०४ उक्क० वड्डी मिच्छत्ताभिमु० । हाणी अवट्टाणं ओधिभंगो । वेद०-णामा०-
गोद० उक्क० वड्डी सम्मत्ताभिमुह० । हाणी अवट्टाणं सत्थाणे । असण्णि० पंचि०-
तिरि०अपञ्जत्तभंगो । आउ० मदि०भंगो ।

३२७. जहणपदणिक्खेवे^१ सामित्तंस्स साधणद्धं अट्टपदभूदसमासस्स लक्खणं^२
वत्तहस्सामो । तं जहा—मिच्छादिट्ठिस्स जा अणंतभागफह्यपरिवड्डी संजदस्स जा
अणंतभागफह्यपरिवड्डी मिच्छादिट्ठिस्स जा अणंतभागफह्यपरिवड्डी सा अणंतगुणा ।
एदेण अट्टपदभूदसमासलक्खणेण^३—

३२८. जहणपदणिक्खेवे सामित्तं पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० णाणा०-
दंस०—अंतरा०^४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० उवसामयस्स परिवदमाणयस्स दुसमय-
सुहुमसंपराइयस्स तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० सुहुमसंपराइयस्स
खवगस्स चरिमे अणु० वट्ट० तस्स जह० हाणी । जह० अवट्टाणं कस्स० ? अण्ण०
अप्पमत्त० अखवग-अणुवसामयस्स सव्वविसुद्धस्स अणंतभागे वड्ढिण अवट्टिदस्स तस्स

३२६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष
कर्मोंका भंग पीतलेश्यावाले जीवोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग
आनन्तकल्पके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका तथा आयुर्कर्मका भी स्वामित्व तत्प्रा-
योग्य विशुद्ध जीवके कहना चाहिए । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व
मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए । हानि और अवस्थानका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके
समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व सम्यक्त्वके अभिमुख हुए
जीवके कहना चाहिए । तथा हानि और अवस्थानका स्वामित्व स्वस्थानमें कहना चाहिए । असंज्ञी
जीवोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंके समान भंग है । आयुर्कर्मका भंग मृत्युज्ञानी जीवोंके
समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

३२७. जघन्य पदनिक्षेपमे स्वामित्वका साधन करनेके लिए अर्थपदभूत समासका लक्षण
वत्तलाते हैं । यथा—मिथ्यादृष्टिके जो अनन्तभाग स्पर्द्धककी वृद्धि होती है, संयतके जो अनन्तभाग
स्पर्द्धककी वृद्धि होती है और मिथ्यादृष्टिके जो अनन्तभाग स्पर्द्धककी वृद्धि होती है, वह अनन्तगुणी
होती है । इस अर्थपदभूत समास लक्षणके अनुसार—

३२८. जघन्य पदनिक्षेपमें स्वामित्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन
है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक द्विसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक जीव है वह जघन्य वृद्धिका
स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक जीव अन्तिम
अनुभागबन्धमें अवस्थित है, वह जघन्यहानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ?

१ ता० प्रतौ जहणं पद इति पाठः । २ ता० प्रतौ अट्टपदभूदसमास तस्स समसलक्खणं इति
पाठः । ३ ता० प्रतौ अट्टपदेणभूद (पट्टभूदेण) समासलक्खणेण इति पाठः । ४ ता० आ० प्रत्योः णाणा०
दंस० अवसा० इति पाठः ।

जह० अवट्टाणं । मोह० एसेव भंगो । णवरि अणियट्टिस्स कादव्वं वड्ढि-हाणी । अवट्टाणं अप्पमत्तस्स । वेद०^१-णाम० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० मिच्छादि० परियत्तमाणमज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए अब्भवसिद्धियपाओग्गादो उक्कस्सियादो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो अणंतभागे वड्ढिदूण अवट्टिदस्स तस्स जह०^१ वड्ढी । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्टिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सव्वविसुद्धस्स सम्मत्ताभिमुहस्स तस्स जह० हाणी । आउ० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० जहणियाए अपज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । एवं ओघभंगो पंचिदि० तस० २-पंचमण० पंचवचि०-कायजोगि०-कोधादि० ४-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ।

३२६. णिरएसु वादि० ४-जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० सम्मा० साग० सव्व-विसुद्ध० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । आउ० जह०

जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत अक्षपक और अनुपशामक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धि करके अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । मोहनीयकर्मका यही भंग है । इतनी विशेषता है कि इसकी वृद्धि और हानि अनिवृत्तिकरण जीवके कहना चाहिए तथा अवस्थान अप्रमत्तसंयत जीवके कहना चाहिए । वेदनीय और नामकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह वृद्धिका स्वामी है और अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह हानिका स्वामी है तथा इन दोनोंमेंसे कोई एक स्थानपर जघन्य अवस्थान होता है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सातवीं पृथिवीका जीव अभव्यप्रायोग्य उत्कृष्टविशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है और अनन्तभाग बढ़ाकर वृद्धि करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर सर्वविशुद्धिको प्राप्त हो सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ है वह जघन्य हानिका स्वामी है । आयुर्कर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसीप्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३२६. नारकियोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्त भागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी

१ ता० आ० प्रत्योः अप्पमत्त० सवेद० इति पाठः । २ ता० प्रती अणतभागे पडि..... [भंगो तस्स जह० वट्टि] तस्सेव आ० अणंतभागे प्रती पडि..... तस्स जह० वट्टी । तस्सेव इति पाठः ।

वड्डी कस्स० ? अण्ण० जहणियाए पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिम-परिणामयस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० ओघं । एवं सत्तमाए पुढवीए । सेसाणं पुढवीणं तं चेव । णवरि गोद० भंगो० मिच्छादिट्ठिस्स कादच्चं ।

३३०. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० ? अण्णद० संजदासंजदस्स सागार० सव्वविसुद्धस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० जीव० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त-गदस्स सागा० सव्वविसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थ-मवट्ठाणं । सेसं ओघं । [एवं] पंचिदि०तिरि०३ । णवरि गोद० पढमपुढविभंगो । पंचिदि०तिरि०अपज्ज० घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० ? सण्णिस्स [सागार-जा० सव्वविसुद्ध० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । सेसाणं जोणिणिभंगो । एवं सव्वअपज्ज०-सव्वविगलिंदिय-पुढवि० आउ०-वणप्फादि-णियोद०-सव्वसुद्धुमाणं ति ।

३३१. मणुसेसु ओघं । णवरि गोद० अपज्जत्तभंगो । देवाणं पढमपुढविभंगो ।

है । जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । आयुकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । शेष पृथिवियोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके कहना चाहिए ।

३३०. तिरिक्खेसु चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संयता-सयत साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिका प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर वादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्तिको प्राप्त हुआ साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग पहली पृथिवीके समान है । पंचेन्द्रियतिर्यच अपर्याप्तकोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सही साकार जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग योनिनियोंके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब चिकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति-कायिक, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

३३१. मणुष्योंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग अपर्याप्तकोंके समान है । देवोंमें पहली पृथिवीके समान भंग है । इसी प्रकार उपरिम त्रैवेयकतक जानना

जह० अवट्टाणं । मोह० एसेव भंगो । णवरि अणियट्टिस्स कादव्वं वड्ढि-हाणी । अवट्टाणं अप्पमत्तस्स । वेद०'-णाम० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० मिच्छादि० परियत्तमाणमज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए अब्भवसिद्धियपाओग्गादो उक्कस्सियादो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो अणंतभागे वड्ढिदूण अवट्टिदस्स तस्स जह०' वड्ढी । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । जह०हाणी कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्टिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सव्वविसुद्धस्स सम्मत्ताभिमुहस्स तस्स जह० हाणी । आउ० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० जहणियाए अपज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । एवं ओघभंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण० पंचवचि०-कायजोगि०-क्रोधादि०४-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ।

३२६. णिरएसु घादि० ४-जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० सम्मा० साग० सन्त्र-विसुद्ध० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । आउ० जह०

जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत अक्षपक और अनुपशामक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धि करके अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । मोहनीयकर्मका यही भंग है । इतनी विशेषता है कि इसकी वृद्धि और हानि अनिवृत्तिकरण जीवके कहना चाहिए तथा अवस्थान अप्रमत्तसंयत जीवके कहना चाहिए । वेदनीय और नामकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह वृद्धिका स्वामी है और अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह हानिका स्वामी है तथा इन दोनोंमेंसे कोई एक स्थानपर जघन्य अवस्थान होता है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सातवीं पृथिवीका जीव अभव्यप्रायोग्य उत्कृष्टविशुद्धिसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है और अनन्तभाग बढ़ाकर वृद्धि करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर सर्वविशुद्धिको प्राप्त हो सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ है वह जघन्य हानिका स्वामी है । आयुर्कर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसीप्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भ्रम्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३२६. नारकियोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्त भागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी

१ ता० आ० प्रत्योः अप्पमत्ता० सवेद० इति पाठः । २ ता० प्रतौ अणंतभागे पडि..... [भंगो तस्स जह० वड्ढि] तस्सेव आ० अणंतभागे प्रतौ पडि.....तस्स जह० वड्ढी । तस्सेव इति पाठः ।

वड्डी कस्स० ? अण्ण० जहणियाए पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिम-परिणामयस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । वेद०-णामा०-गोद० ओघं । एवं सत्तमाए पुढवीए । सेसाणं पुढवीणं तं चेव । णवरि गोद० भंगो० मिच्छादिट्ठिस्स कादच्चं ।

३३०. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्णद० संजदासंजदस्स सागार०सव्वविसुद्धस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । गोद० जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० जीव० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त-गदस्स सागा० सव्वविसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थ-मवट्ठाणं । सेसं ओघं । [एवं] पंचिदि०तिरि०३ । णवरि गोद० पढमपुढविभंगो । पंचिदि०तिरि०अपज्ज० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? सण्णिस्स [सागार-जा० सव्वविसुद्ध० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाणिदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । सेसाणं जोणिणिभंगो । एवं सव्वअपज्ज०-सव्वविगल्लिंदिय-पुढवि०आउ०-वणप्फदि-णियोद०-सव्वसुद्धमाणं ति ।

३३१. मणुसेसु ओघं । णवरि गोद० अपज्जत्तभंगो । देवाणं पढमपुढविभंगो ।

है । जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । आयुर्कर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । शेष पृथिवियोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके कहना चाहिए ।

३३०. तिर्यञ्चोमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संयता-संयत साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिका प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर वादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्तिको प्राप्त हुआ साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यञ्चनिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग पहली पृथिवीके समान है । पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी साकार जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग योनिनियोंके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब विकलोन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति-कायिक, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

३३१. मनुष्योंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग अपर्याप्तकोंके समान है । देवोंमें पहली पृथिवीके समान भंग है । इसी प्रकार उपरिम त्रैवेयकतक जानना

एवं याव उचरिमगैवजा त्ति । अणुदिस याव सव्वड्ढा त्ति देवोघं । णवरि गोद० अण्ण० तप्पाओग्गसंकिलिट्टस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं ।

३३२. एइंदिएसु घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० वादर० सव्वविसुद्ध० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । सेसं तिरिक्खोघं । तेउ० वाउ० घादि०४-गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० वादर० सव्वविसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । सेसं अपज्जत्तभंगो । पत्तेय० पुढविभंगो ।

३३३. ओरालि० गोद० तिरिक्खोघं । सेसं मणुसि०भंगो । ओरालियमि०घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० असंजदस० सागार० सव्वविसु० दुचरिमसमए सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति पडिभंगो तस्स जह० वड्ढी । तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं । ज० हाणी कस्स० ? तस्सेव सव्वविसु० से काले पज्जत्ती गाहिदि त्ति तस्स ज० हाणी । गोद० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० वादरतेउका०-वाउ० जीव० दुचरिमसमए सरीर-पज्जत्ती गाहिदि त्ति तस्स जह० वड्ढी । तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं । जह० हाणी कस्स० ? तस्सेव से काले पज्जत्ती होहिदि त्ति । सेसमपज्जत्तभंगो ।

चाहिए । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लिष्टपरिणाम-वाला जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है ।

३३२. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर बादर एकेन्द्रिय सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो बादर अग्नि-कायिक और बादर वायुकायिक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है और वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भंग अपर्याप्तकोंके समान है । प्रत्येक वनस्पति-कायिक जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है ।

३३३. औदारिककाययोगी जीवोंमें गोत्रकर्मका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग मनुष्यनिर्योके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य-वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि साकार जागृत और सर्वविशुद्ध जीव द्विचरम समयमें शरीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा, अतएव प्रतिभग्न होकर जघन्य वृद्धि कर रहा है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य-हानिका स्वामी कौन है ? वही सर्वविशुद्ध जीव तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर बादर अग्नि-कायिक और बादर वायुकायिक जीव द्विचरम समयमें शरीर पर्याप्तिका प्राप्त होगा वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? वही जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । शेष कर्म भंग अपर्याप्तकोंके समान है ।

३३४. वेउव्वियका० णिरयोधं । वेउव्वियमि० घादि०४-वेद०-णाम० ओरा-
लियमिस्सभंगो । गोद० सत्तमाए पुढवीए मिच्छादि० तप्पाओग्गजहण्णिगादो' विसो-
धीदो पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स जहण्णिया वड्डी । तस्सेव से काले
जह० अवट्ठाणं । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० से काले सरीरपज्जती गाहिदि त्ति ।
आहार० सव्वट्ठु०भंगो । णवरि पमत्तो त्ति भाणिदव्वं । आहारमि० ओरालियमिस्सभंगो ।
कम्मइग० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० अणंतभागेण वड्डी हाणी
अवट्ठा० । एइंदिय० अणंतभागेण वड्डीए वा हाणीए वा अवट्ठिदस्स । गोद० सत्तमाए०
मिच्छा० जह० वड्डी हाणी अवट्ठाणं । एइंदि० वेद०-णाम० वड्डी हाणी ओधं ।
अवट्ठाणं एइंदियस्स ।

३३५. इत्थिवेदे घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० उवसाम० परिवद०
दुसमयबंधगस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० खवग० चरिमे अणु०

३३४. वैकियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भंग है । वैकियिकमिश्रकाय-
योगी जीवोंमें चार घातिकर्म, वेदनीय और नामकर्मका भंग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान
है । गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी
तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध कर रहा है वह जघन्य
वृद्धिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी
कौन है ? जो अन्यतर जीव तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका
स्वामी है । आहारककाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि
इनमें प्रमत्तसंयत जीवको स्वामी कहना चाहिए । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्र-
काययोगी जीवोंके समान भंग है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी
कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव अनन्त भागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी
है और जो सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्यहानिका स्वामी है, तथा
इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । अथवा जो एकेन्द्रिय जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता
है वह जघन्यवृद्धिका स्वामी है, जो एकेन्द्रिय जीव अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह
जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । गोत्रकर्मकी
जघन्यवृद्धिका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि सातवीं पृथिवीका नारकी अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त
होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका
स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । अथवा जो एकेन्द्रिय अनन्तभाग
वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्यवृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह
जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । वेदनीय और
नामकर्मके जघन्य वृद्धि और हानिका स्वामित्व ओघके समान है । जघन्य अवस्थानका स्वामी
एकेन्द्रिय जीव है ।

३३५. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर गिरने-
वाला उपशामक द्विसमयका बन्ध करनेवाला है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह जघन्य

वट्ट० तस्स जह० हाणी । अवट्टाणं अप्पमत्तस्स । सेसं मणुसि० भंगो । एवं पुरिस० । एवं चैव णवुंसग० । णवरि गोद० ओघभंगो । अवगदे घादि०४ ओघं । वेद०-णामा०-गोदा० जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० उवसामय० विदियसमयववगदवेदस्स तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० उवसाम० परिवदमा० दुसमय-सुहुमसं० जह० हाणी । एवं सुहुमसंप० ।

३३६. मदि०-सुद० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० मणुस० मणुसिणीए वा संजमादो परिवद०गस्स दुसमयमिच्छा० तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार० सव्वविसु० संजमाभिमुह० चरिमे जह० अणु० वट्ट० तस्स जह० हाणी । जह० अवट्टाणं कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओग्गउकस्सियादो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो अणंतभागेण वड्ढिदूण अवट्टिदस्स तस्स जह० अवट्टाणं । सेसं णिरयोघं । आउ० ओघं । एवं विभंगे [अभवसि०] मिच्छा० ।

३३७. आभि०-सुद०-ओधि० [ओघं । णवरि गोद० जह०] वड्डी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पा०उकस्सगादो संकिलेसादो पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स जह० वड्डी । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । जह० हाणी-कस्स० ? अण्ण० चट्ठग० असंजद०

हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी अप्रमत्तसंयत जीव है । शेष कर्मोंका भंग मनुष्य-नियोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार नपुंसक-वेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें गोत्रकर्मका भंग ओघके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग ओघके समान है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशामक द्वितीय समयवर्ती अपगतवेदी जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर गिरनेवाला उपशामक द्विसमयवर्ती सूद्धमसाम्पराय संयत जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है । इसी प्रकार सूद्धमसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

३३६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी संयमसे गिरकर द्विसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत सर्वविशुद्ध संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अन्तिम जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है और अनन्तभाग वृद्धि करके अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । शेष कर्मोंका भंग सामान्य नारकियोंके समान हैं । आयुर्कर्मका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार विभंगज्ञानी, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

३३७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अधधिज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित

सागा० उक्क० संकिले० मिच्छत्ताभिमुह० चरिमे अणु० वड्ड० तस्स जह० हाणी ।
आउ० देवभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० । णवरि खइगे गोद०
हाणी सत्थाणे उक्कस्ससंकिलिड्डस्स कादव्वं । मणपज्ज० ओघं । णवरि गोद० वड्डी
अवट्ठाणं ओधिभंगो । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० उक्क० संकिले० असंजमाभिमुह०
चरिमे अणु० वड्ड० तस्स जह० हाणी । आउ० ओधिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-
छेदो० । णवरि गोद० ओधिभंगो ।

३३८. परिहार० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त० सव्व-
विसुद्धस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्ठाणं । अथवा हाणी० ?
दंसणमोहणीयस्स खवगस्स से काले कदकरणज्जो होहिदि त्ति तस्स जह० हाणी । सेसं
मणपज्जवभंगो । णवरि गोद० जह० हाणी० ? सामाइय-च्छेदोवट्ठावणाभिमुह० तस्स जह०
हाणी । संजदासंजदे घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओगगउक्क०दो
विसोघीदो पड्ढिभग्गो तप्पा०, जह० पदिदो तस्स जह० वड्डी । तस्सेव से काले जह०
अवट्ठाणं । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमाभिमुह० सव्वविसु० । सेसं ओधिभंगो ।

जो अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग देवोंके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मकी जघन्य हानिका स्वामित्व स्वस्थानमें उत्कृष्ट संक्लिष्ट जीवके करना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें श्रोत्रके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । गोत्रकर्मकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ असंयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागबन्धमे अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है ।

३३८. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभागहानिका प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । अथवा जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो दर्शनमोहनीयका क्षुपक जीव तदनन्तर समयमें कृतकृत्य होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । शेष कर्मोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख है वह जघन्य हानिका स्वामी है । संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संयमके अभिमुख सर्वविशुद्ध जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है । शेष कर्मोंका

असंजदे घादि०४ जह० वड्डी अवट्टाणं देवभंगो । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० असंजदसं० संजमाभिमुह० सव्वविसु० जह० हाणी । सेसाणं मदि०भंगो ।

३३६. किण्ण० णिरयभंगो । णील-काऊणं गोद० तिरिक्खोघं । सेसं णिरयभंगो । तेउ०-पम्म० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त० सव्वविसु० अणंत-भागेण वड्ढिदूण वड्डी हाइदूण हाणी एक० अवट्टाणं । सेसाणं देवभंगो । सुकाए घादि०४ ओघं । सेसाणं आणदभंगो ।

३४०. वेदगे घादि० परिहार०भंगो । सेसाणं ओधिभंगो । सासणेऽघादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सव्वविसु० जह० वड्ढिदूण वड्डी हाइ० हा० एक० अवट्टाणं । सेसं देवभंगो । सम्मामि० घादि०४ जह० वड्डी सत्थाणे । तस्सेव अवट्टाणं । जह० हाणी० ? सम्मत्ताभिमुह० जह० हाणी । सेसाणं वेदगसम्मादिट्ठिभंगो ।

३४१. असणी० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सव्वाहि पज्ज० सव्वविसु० । सेसाणं तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं सामित्तं समत्तं

भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । असंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थानका भङ्ग देवोंके समान है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असंयत-सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्ध संयमके अभिमुख जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है ? शेष कर्मोंका भङ्ग मत्त्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

३३६. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है । जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग जघन्य हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भङ्ग देवोंके समान है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग देवोंके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है ।

३४०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सर्वविशुद्ध जीव जघन्य वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो जघन्य हानिसे हानिको प्राप्त है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । शेष कर्मोंका भङ्ग देवोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्यवृद्धि स्वस्थानमें होती है । तथा उसीके जघन्य अवस्थान होता है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ अन्यतर जीव जघन्य हानिका स्वामी है । शेष कर्मोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दृष्टिके समान है ।

३४१. असंज्ञा जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय सद्य पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ सर्वविशुद्ध जीव जघन्य वृद्धिका स्वामी है । शेष भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । अनाहारक जीवोंमें कामणकायोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । -

अप्पावहुअं

३४२. अप्पावहुअं दुविधं-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । अवट्ठाणं विसे० । हाणी विसे० । तिण्णं क० सव्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । उक्क० हाणी अणंतगु० । उक्क० वड्डी अणंतगु० । आउ० सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं दो वि तुल्लाणि विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारगे ति ।

३४३. गिरएसु अट्टण्णं कम्माणं सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं दो वि तुल्लाणि विसे० । मणुस०३ घादि०४ गिरयभंगो । वेद०-णाम०-गोद०-आउ० ओघं । एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-चक्खु०-सुक्क०-खइग०-सणि ति ।

३४४. ओरालियमि० सत्तण्णं कम्माणं सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्ठाणं । वड्डी अणंतगु० । आउ० गिरयभंगो । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं सव्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । वड्डी अणंतगु० । हाणी विसे० । एवं अणाहार० ।

३४५. अवगद० घादि०४ सव्वत्थोवा उक्क० हाणी । वड्डी अणंतगु० । वेद०-

अल्पवहुत्व

३४२. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । तीन कर्मोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

३४३. नारकियोंमें आठो कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । मनुष्यत्रिकर्म चार घातिकर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुर्कर्मका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसरुवेदी, चक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और संघी जीवोंके जानना चाहिये ।

३४४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । आयुर्कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

३४५. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट

गामा० गोदा० सव्वत्थोवा उक्क० [वड्डी । उक्क० हाणी] अणंतगु^१ । एवं सुहूमसंप० ।

३४६. मदि० सुद०-असंज०-मिच्छा० ओघं । विभंगे ओघं । णवरि^२ घादि०४
णिरयभंगो । आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४ सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्टाणं । वड्डी
अणंतगु० । सेसाणं ओघं । एवं मणपज्जव०-संजद-सामाह०-छेदो०-ओधिदं०-सम्मादि०-
उवसम०-परिहार०-संजदासंज० । वेदग० घादि०४ ओधिभंगो । सेसाणं णिरयभंगो ।
सम्मामि० सत्तणं क० सव्वत्थो० हाणी अवट्टाणं । वड्डी अणंतगु० । सेसाणं णिरयभंगो ।
एवं उक्कस्सं समत्तं ।

३४७. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० घादि०४ सव्वत्थो०
जह० हाणी । वड्डी अणंतगु० । अवट्टाणं अणंतगु० । गोद० सव्वत्थो० जह० हाणी ।
वड्डी अवट्टाणं दो वि तु० अणंतगु० । सेसाणि तिण्णि वि तुल्लाणि ।

३४८. णिरएसु गोद० ओघं । सेसाणं^३ तिण्णि वि तुल्लाणि । एवं सत्तमाए ।
पढमादि याव छट्ठि त्ति सव्वाणि तुल्लाणि । मणुस०३ ओघं । णवरि गोद० वेद०भंगो ।

वृद्धि अनन्तगुणी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसयत जीवोंके जानना चाहिये ।

३४६. मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसयत, छेदोपस्थापना-संयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । शेष सब मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भंग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३४७. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । इससे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । इससे जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा है । गोत्रकर्मकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । इससे जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हैं । शेष कर्मोंके तीनों ही तुल्य हैं ।

३४८. नारकियोंमें गोत्रकर्मका भंग ओघके समान है । शेष कर्मोंके तीनों ही तुल्य हैं । इस प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये । पहली पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें सब पद तुल्य हैं । मनुष्यत्रिकमें अल्पबहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग वेदनीयके समान है । पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी

१ ता० प्रतौ सव्वत्थो० उक्क० हा० । उक्क० अणंतगुणा इति पाठः ।

२ ता० प्रतौ मिच्छा० ओघं । णवरि इति पाठः । ३ आ० प्रतौ सेसाणि इति पाठः ।

पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-
चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-मिच्छा०-सणिण-आहारग ति ओघं ।

३४९. ओरालिय० मणुसि०भंगो । ओरालियमि० घादि०४ सव्वत्थोवा जह०
वड्डी अवट्ठाणं । जह० हाणी अणंतगु० । सेसाणि तिणिण वि तु० । एवं वेउव्वियमि० ।
आहार०-आहारमि० देवभंगो । कम्मह० घादि०४-गोद० सव्वत्थोवा जह० वड्डी ।
जह० हाणी अवट्ठाणं अणंतगु० । सेसाणं ओघं । एवं अणाहार० ।

३५०. इत्थि०-पुरिस०-णवुंसग० मणुसि०भंगो । णवरि णवुंस० गोद० णिरयभंगो ।
अवगद० सत्तणं क० सव्वत्थोवा जह० हाणी । वड्डी अणंतगु० । एवं सुहुमसंप० ।

३५१. आमि०-सुद०-ओधि० गोद० सव्वत्थो० जह० हाणी । वड्डी अवट्ठाणं
अणंतगु० । सेसाणं ओघं । एवं मणपज्ज०-संजद-सामाह०-छेदो-ओधिदं०-सम्मादि०-
उवसमसम्मादिट्ठि ति । परिहार० गोद० ओधिभंगो । घादि०४ सव्वत्थोवा जह०
हाणी । सेसाणं अणंतगु० । सेसं ओघं । संजदासंजद० घादि०४-सव्वत्थोवा जह०
हाणी । वड्डी अवट्ठाणं अणंतगु० । सेसं ओधिभंगो ।

कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य,
मिथ्यादृष्टि, संधी और आहारक जीवोंके ओघके समान अल्पबहुत्व है ।

३४९. औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भंग है । औदारिकमिश्रकाययोगी
जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोके हैं । इनसे जघन्य हानि
अनन्तगुणी है । शेष कर्मोंके तीनों ही पद तुल्य हैं । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके
जानना चाहिये । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवोंके समान
भङ्ग हैं । कार्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मकी जघन्य वृद्धि सबसे स्तोके
है । इससे जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान अनन्तगुणे है । शेष कर्मोंका भङ्ग ओघ के समान
है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

३५०. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है । इतनी
विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें गोत्र कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें
सात कर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोके है । इससे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सूक्ष्म-
साम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

३५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें गोत्रकर्मकी जघन्य हानि
सबसे स्तोके है । इससे जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान अनन्तगुणे हैं । शेष कर्मोंका अल्प-
बहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत,
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत
जीवोंमें गोत्रकर्मका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । चार घातिकर्मोंकी जघन्य हानि
सबसे स्तोके है । शेष वृद्धि और अवस्थान अनन्तगुणे हैं । शेष कर्मोंका भंग ओघके समान है ।
संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोके है । इससे जघन्य वृद्धि और जघन्य
अवस्थान अनन्तगुणे हैं । शेष कर्मोंका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है ।

३५२. सुक्काए खड्ग० मणुसि०भंगो । वेदगे गोद० ओधिभंगो । सेसं णिरयभंगो ।
सम्मामि० गोद० वेद०भंगो । सेसाणं णिरयभंगो । सेसाणं सव्वेसिं पढमपुढविभंगो ।
एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं पदणिक्खेवो^१ समत्तो ।

३५२. शुक्ललेश्या और क्षायाकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भंग है । वेदक-
सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गात्रकर्मका भंग अत्रधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष कर्मोंका भंग नारकियोंके
समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें गात्रकर्मका भंग वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । शेष कर्मोंका
भंग नारकियोंके समान है । शेष सत्र मार्गणाओंमें पहली पृथिवीके समान भंग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

वृद्धिवंधो

३५३. वृद्धिवंधे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि—समुक्कित्तणा याव
अप्पाबहुगे त्ति १३ ।

समुक्कित्तणा

३५४. समुक्कित्तणाए अट्टणं वं० अत्थि छवड्डी छहाणी । अवट्ठि०^१ अवत्तव्व० ।
एवं मणुस०-३-पंचिदि०^२-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ०
मोह० आमि०-सुद०-ओधि०-मणप०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं-सुक्क०-
मवसि०-सम्मादि०^३-खहग०-उवसम०-सण्णि-आहारग त्ति ।

३५५. अवगद०-सुहुमसंप० सत्तणं क० छण्णं० अत्थि अणंतगु० वड्ठि-हाणि-
अवत्त० । सुहुमसंप० अवत्त० णत्थि । सेसाणं अत्थि छवड्डी छहाणी अवट्ठणं ।
आउ० ओघं । एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

सामित्तं

३५६. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० अट्टणं पि अवत्त० भुज०

वृद्धिवन्ध

३५३. वृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुक्तीर्तनासे लेकर
अल्पबहुत्व तक १३ ।

समुक्तीर्तना

३५४. समुक्तीर्तनाकी अपेक्षा आठों कर्मोंके बन्धक जीवोंकी छह वृद्धि, छह हानि,
अवस्थित और अवक्तव्यपद होते हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, पाँच-
मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्मके,
आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी,
अवधिदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और
आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३५५. अपगतवेदी और सूक्ष्मसांपरायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मों और छह कर्मोंके
बन्धक जीवोंकी अनन्तगुणवृद्धि, अनन्त गुणहानि और अवक्तव्यपद होते हैं । इतनी विशेषता है
कि सूक्ष्मसांपरायसंयत जीवोंमें अवक्तव्यपद नहीं है । शेष सब मार्गणाओंमें छह वृद्धि, छह हानि
और अवस्थान पद होते हैं । आयुकर्मका भंग ओघके समान है । इस प्रकार समुक्तीर्तना समाप्त हुई ।

स्वामित्व

३५६. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
आठों ही कर्मोंके अवक्तव्यपदका भंग भुजगारपदके अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए । छह

१ ता० प्रतौ भवट्ठ० इति पाठः । २ ता० प्रतौ मणुस० १३ (३) पच्चि० इति पाठः ।
३ ता० भा० प्रत्योः सम्ममि० इति पाठः ।

अवत्तभंगो कादन्वो । छवड्डी छहाणी अवट्टि० कस्स० ? अण्ण० । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तत्स०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ० मोह० आभि०-सुद०-ओधि०-मणपञ्ज०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुक०-भवसि०-सम्मादि०-सुइग्ग०-उवसम० सण्णि-आहारग ति । णेरइग्गेषु सत्तण्णं क० एवं चेव । णवरि अवत्त० णत्थि । कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० छवड्डी छहाणी अवट्टि० कस्स० ? अण्ण० । एवं वेउव्वियमि०-सम्मामि० । अवगद०सत्तण्णं क०अणंतगुणवट्टि-हाणी कस्स०? अण्ण० । एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं । सेसाणं णिरयभंगो । एवं सामित्तं समत्तं ।

कालो

३५७. कालाणुगमेण अट्टण्णं कम्माणं पंचवड्डी पंचहाणी केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अणंतगुणवट्टि-हाणी जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तट्टसम० । आउ० अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमया । अवत्त० एग० । एवं अट्टण्णं कम्माणं चोदसण्णं पदा जम्हि अत्थि तम्हि एस कालो० । ३५८. णिरएसु सत्तण्णं एवं चेव । णवरि सत्तण्णं क० अवत्तव्वं णत्थि । अवट्टि०

वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनका स्वामी है । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काय-योगी, लोभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्म, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक-सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । नारकियोंमें सात कर्मोंका भंग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद नहीं है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसांपरायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भंग है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

काल

३५७. कालानुगमकी अपेक्षा आठ कर्मोंकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । आयुर्कर्मके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार आठों कर्मोंके चौदह पद जिन मार्गणाओंमें हैं उनमें यही काल जानना चाहिए ।

३५८. नारकियोंमें सातों कर्मोंका इसी प्रकार काल है । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंका

जह० एगस०, उक्क० सत्त० अट्टसम० । कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० छवड्डी
छहाणी जह० एगस०, उक्क० वेसम० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिणिसम० ।
अवगद० सत्तण्णं क० अणंतगुणवड्ठि-हाणी जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसंप०
छण्णं क० । सेसाणं गिरयभंगो । एवं कालं समत्तं ।

अंतरं

३५९. अंतराणुगमेण अट्टण्णं क० अवत्त० भुज० अवत्त०भंगो । अट्टण्णं कम्मणं
अवट्ठि० पंचवड्डी पंचहाणी भुज० अवट्ठि०भंगो । अणंतगुणवड्ठि-हाणी सव्वत्थ भुजगार-
बंधे भुज०-अप्पदराणं अंतरं कादव्वं । एवं याव अणाहारग ति । एवं अंतरं समत्तं ।

णाणाजीवेहि भंगविचयो

३६०. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण छवड्ठि-छहाणि-अवट्ठिदबंधगा णियमा
अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य अवत्तव्वगा य । आउ० सव्वपदा
णियमा अत्थि । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सव्वसुहुसाणं एइंदिय-पुठ०-आउ०-तेउ०-
वाउ०-वणप्फदि-णियोद०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०

अवक्तव्यपद नहीं है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय
है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि और छह हानियोंका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्टकाल तीन समय है। अपगतवेदी जीवोंमें सातकर्मोंकी अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुण-
हानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक-
संयत जीवोंमें छह कर्मोंकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। शेष मार्गणाओंका भंग नारकियोंके
समान है। इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

अन्तर

३५६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा आठ कर्मोंके अवक्तव्यपदका भंग भुजगारबन्धके अवक्तव्य-
पदके समान है। आठ कर्मोंके अवस्थितपद, पाँच वृद्धि और पाँच हानियोंका अन्तर भुजगारबन्धके
अवस्थितपदके समान है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका अन्तरकाल सर्वत्र भुजगारपदका
बन्ध करनेवाले जीवोंमें भुजगारबन्धके व अल्पतरपदके अन्तरकालके समान करना चाहिए।
इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

३६०. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयाणुगमसे छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपद-
के बन्धक जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये जीव हैं और एक अवक्तव्य पदका बन्धक जीव है।
कदाचित् ये जीव हैं और नाना अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीव
नियम से हैं। इसी प्रकार ओघ के समान सामान्य तिर्यच, सब सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक,
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, चनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी,
औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपाचवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रता-

४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि-
आहार०-अणाहारग ति ।

३६१. गिरएसु सत्तणं क० अणंतगुणवड्ढि-हाणी गियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि
भयणिजाणि । आउ० सव्वपदाणि भयणिजाणि । मणुसअपज्ज०-वेउन्वियमि०-आहार०-
आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सव्वपदाणि भयणिजाणि ।
चादरएइंदि०-चादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद०-पत्तेय० तेसिं च अपज्ज०
सत्तणं क० छवड्ढि-छहाणि-अवड्ढि० आउ० सव्वपदा गियमा अत्थि । सेसाणं गिरयभंगो ।

एवं भंगविचयं समत्तं ।

भागाभागो

३६२. भागाभागानुगमेण सत्तणं कम्माणं पंचवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० सव्व० केव०
भागो ? असंखे०भागो । अणंतगुणवड्ढी दुभागो सादिरे० । अणंतगुणहाणी दुभागं
देसू० । अवत्त० अणंतभा० । आउ० एवं चेव । णवरि अवत्त० असंखेजा भा० । एवं
ओधभंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । सेसाणं
पि भुजगारेण साघेद्वं । एवं भागाभागं समत्तं ।

ज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असङ्गी, आहारक और
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३६१. नारकियोंमें सात कर्मोंकी अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव नियमसे
हैं । शेष पद भजनीय हैं । आयुर्कर्मके सब पद भजनीय हैं । मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी,
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायिक संयत, उपशम
सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब पद भजनीय हैं । चादर एकेन्द्रिय,
चादर पृथिवीकायिक, चादर जलकायिक, चादर अग्निकायिक, चादर वायुकायिक, चादर वनस्पति-
कायिक, चादर निगोद, चादर वनस्पनिकायिक प्रत्येकशरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें सात
कर्मोंकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थित पदवाले जीव तथा आयुर्कर्मके सब पदवाले जीव
नियमसे हैं । शेष मार्गणाओंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

भागाभाग

३६२. भागाभागानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोंकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थित पदके
बंधक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनन्तगुणवृद्धिके
बंधक जीव सब जीवोंके साधिक द्वितीयभाग प्रमाण हैं । अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव कुछ कम
द्वितीयभाग प्रमाण हैं । अवक्तव्य पदके बन्धक जीव अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । आयुर्कर्मका भङ्ग
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।
इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, लोभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्म,
अचलुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । शेष सब मार्गणाओंका भङ्ग भुजगार
पदके अनुसार साय लेना चाहिए । इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाणं खेत्तं य

३६३. परिमाणानुगमेण सत्तणं कम्माणं अवत्तं केत्तिया ? संखेज्जा । सेसपदा केत्तिया ? अणंता । आउं सव्वपदा केत्तिया ? अणंता । एवं ओधमंगो तिरिक्खोर्धं एइंदिं-वणप्फदि-णियोदं-कायजोगि-ओरालिं-ओरालियमिं-कम्मइं-णवुंसं-कोधादिं ४-मदिं-सुदं-असंजं-अचक्खुं-तिण्णिले-भवसिं-अब्भवसिं-मिच्छां-असण्णि-आहारं-अणाहारगत्तिं । णवरि केसिं च सत्तणं कम्माणं अवत्तं णत्थि केसिं च अत्थि । णिरएसु सत्तणं कम्माणं तेरसपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । आउं चोदसपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसं भुजगारेण साधेद्वं । खेत्तं पि परिमाणेण साधेद्वं भवदि ।

फोसणं

३६४. फोसणानुगमेण सत्तणं कम्माणं तेरसपदा सव्वलोगो । अवत्तव्ववं लोगस्स असंखे । आउं सव्वपदा सव्वलोगो । एवं अट्टणं कम्माणं अवट्ठिदवं-अवत्तं भुजगारमंगो । छवड्डी छहाणीं अप्पणो भुजं-अप्पदंभंगो । एदेण वीजेण पेद्वं याव अणाहारगत्तिं । णवरि अवगदे सुहुमसंपं अणंतगुणवह्निहाणी खेत्तमंगो कादव्वो ।

परिमाण और क्षेत्र

३६३. परमाणानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यच, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मृत्युहानी, श्रुताहानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंक्षी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमेंसे किन्हीं जीवोंके सात कर्मोंका अवक्तव्यपद नहीं है और किन्हीं जीवोंका अवक्तव्यपद है । नारकियोंमें सात कर्मोंके तेरह पदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आयुकर्मके चौदह पदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष मार्गणाओंमें भुजगारबन्धके अनुसार साध लेना चाहिए । क्षेत्र भी परिमाणके अनुसार साध लेना चाहिए ।

इस प्रकार परमाणानुगम तथा क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

स्पर्शन

३६४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोंके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार आठों कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भंग भुजगारबन्धके समान है तथा छह वृद्धि और छह हानियोंके बन्धक जीवोंका भंग अपने अपने भुजगारपदके और अल्पतर पदके समान है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी

कालो

३६५. कालाणुगमेण सत्तणं कम्माणं अवत्त० जह० एग०^१, उक्क० संखेजसम० ।
सेसा तेरसपदा आउ० सव्वपदा सव्वद्वा । अट्ठणं कम्माणं अवट्ठि० अवत्त० भुज०भंगो ।
एवं पंचवड्ढो-पंचहाणी अप्पप्पणो अवट्ठि०भंगो । अणंतगुणवट्ठि-हाणी भुज०-अप्प०भंगो ।
एदेण वीजेण याव अणाहारग ति णोदव्वं ।

अंतरं

३६६. अंतराणुगमेण सत्तणं कम्माणं अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं ।
सेसपदा० णत्थि अंतरं । आउ० सव्वपदा० णत्थि अंतरं । एवं अट्ठणं कम्माणं अवट्ठि०
अवत्त० भुज० अवट्ठि०-अवत्त०भंगो । पंचवड्ढो पंचहाणी अप्पप्पणो अवट्ठि०भंगो ।
अणंतगुणवट्ठि-हाणी भुज०-अप्पद०भंगो । एवं याव अणाहारग ति णोदव्वं ।

भावो

३६७. भावाणुगमेण अट्ठणं कम्माणं चोद्दसपदानं को भावो ? ओदइगो भावो ।
एवं याव अणाहारग ति णोदव्वं ।

विशेषता है कि अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुण-
हानिके बन्धकजीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके अनुसार करना चाहिए । इस प्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ ।

काल

३६५. कालानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष तेरह पद और आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक
जीवोंका काल सर्वदा है । आठ कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भंग भुजगारके समान है ।
इसी प्रकार पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोंका भंग अपने अपने अवस्थित पदके समान
है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका भंग भुजगारबन्धके और अल्पतरपदके
समान है । इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तर

३६६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल
नहीं है । आयुर्कर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार आठों कर्मोंके
अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल भुजगारबन्धके अवस्थित और अवक्तव्य
पदके अन्तरकालके समान जानना चाहिए । पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल
अपने अपने अवस्थितपदके समान है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका
अन्तरकाल भुजगारबन्धके और अल्पतरपदके अन्तरकालके समान है । इसी प्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए । इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

भाव

३६७. भावानुगमकी अपेक्षा आठ कर्मोंके चौदह पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ?
औदयिकभाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

अप्पावहुअं

३६८. अप्पावहुअं दुवि०—ओघे० ओदे० । ओघे० सत्तणं सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतणु० । अणंतभागवट्ठि-हाणी दो वि तुला० असंखेज्जगु० । असंखेज्जभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । संखेज्जभागवट्ठि-हाणी दो वि तुल्ला० असंखेज्जगु० । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी दो वि तु० असंखेज्जगु० । अणंतगुणहाणी असं०गु० । अणंतगुणवट्ठि विसे० । आउ० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अणंतभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । असंखेज्जभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । संखेज्जभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणी । दो वि तु० असं०गु० । असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । अवत्त० असं०गु० । अणंतगुणहाणी असंखेज्जगु० । अणंतगुणवट्ठि विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओराल्लि०—लोभ० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारए त्ति । एवं० चेव मणुसोधं पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-उवसम०-सणि त्ति । णवरि अवट्ठि० असंखेज्जगु० ।

अल्पवहुत्व

३६८. अल्पवहुत्व दो प्रकार का है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अनन्तभागवट्ठि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवट्ठि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवट्ठि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवट्ठि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवट्ठि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणवट्ठिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आगुकर्मके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोका हैं । इनसे अनन्तभागवट्ठि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवट्ठि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवट्ठि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवट्ठि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवट्ठि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणवट्ठिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिकाययोगी, लोभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्म, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, आभिनिवोधिविज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३६९. मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु मणपञ्जव' संजद० ओघं । णवरि संखेज्जगुणं कादच्चं । णिरएसु सत्तणं क० सवत्थोवा अवट्ठि० । अणंतभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । असंखेज्जभागवट्ठि-हाणी दो वि तु० असं०गु० । एवं उवरि ओघं० । आउ० मूलोघं । एवं णिरयभंगो सव्वाणं असंखेज्ज-अणंतरासीणं । संखेज्जरासीणं पि तं चैव । णवरि संखेज्ज कादच्चं ।

३७०. अवगद० वादि०४ सव्वत्थोवा अवत्तव्वं० । अणंतगुणवट्ठी संखेज्जगुणा । अणंतगुणहाणी संखेज्जगु० । वेद०-णामा०-गोदा० सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतगुणहाणी संखेज्जगु० । अणंतगुणवट्ठी संखेज्जगु० । एवं सुद्धमसंप० । णवरि अवत्त० मोहणीयं च णत्थि ।

एवं वट्ठिवंधो समत्तो ।

अजभवसाणसमुदाहारो

३७१. अजभवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवात्तस अणियोगहाराणि—अवि-भागपलिच्छेदपरूवणा द्वाणपरूवणा अंतरपरूवणा कंडयपरूवणा ओजजुम्मपरूवणा छट्ठाण-परूवणा हेट्ठट्ठाणपरूवणा समयपरूवणा वट्ठिपरूवणा यवमज्जपरूवणा पञ्जवसाणपरूवणा अप्पावहुगे'त्ति ।

३६६. मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी, मनःपर्ययद्वानी और संयत जीवोमे ओघके समान भंग है इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणे करने चाहिए। नारकियोंमें सात कर्मोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। आगे इसी प्रकार ओघके समान जानना चाहिए। आयुकर्मका भंग मूलोघके समान है। इसी प्रकार नारकियोंके समान सब असंख्यात और अनन्त रासियोंका भंग करना चाहिए। संख्यात रासियोंका भंग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए।

३७०. अपगतवेदी जीवोमें चार घातिकर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव संख्यात-गुणे हैं। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सूद्धमसान्परायिक संयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद और मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं है। इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुआ।

अध्यवसानसमुदाहार

३७१. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये बारह अनुयोगद्वार होते हैं—अवि-भागप्रतिच्छेदपरूवणा, स्थानपरूवणा, अन्तरपरूवणा, कण्ठकपरूवणा, ओजयुग्मपरूवणा, पट्स्थान-परूवणा, अधस्तनस्थानपरूवणा, समयपरूवणा, वृद्धिपरूवणा, यवमध्यपरूवणा, पर्यवसानपरूवणा और अल्पवहुत्व ।

३७२. अविभागपलिच्छेदपरूपणाए एकैकम्हि कम्मपदेसे केवडियां अविभाग-
पलिच्छेदा ? अणंता अविभागपलिच्छेदा सन्वजीवेहि अणंतगुणा । एवडियां अविभागे-
पलिच्छेदा ।

विशेषार्थ—यहाँ अनुभागका प्रकरण होनेसे अध्यवसानपदसे अनुभाग अध्यवसानोंका प्रहण किया है । अनुभागबन्धके कारणभूत ये अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातलोकप्रमाण होते हैं । उन्हींका यहाँ मूलमें कहे गये वारह अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर विचार किया है । पट्खण्डा-
गमके वेदनाखण्डके अन्तर्गत वेदनाभावविधान अनुयोगद्वारकी दूसरी चूलिकामें भी इसका विचार किया गया है । अनुयोगद्वारोंके नाम भी वे ही हैं । विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय वहाँसे जान लेना चाहिए ।

अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा

३७२. अविभागप्रतिच्छेद प्ररूपणाकी अपेक्षा एक-एक कर्मप्रदेशमें कितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं ? अनन्त अविभागप्रतिच्छेद होते हैं जो सब जीवोंसे अनन्तगुणे होते हैं । इतने अविभाग-
प्रतिच्छेद होते हैं ।

विशेषार्थ—बुद्धिके द्वारा एक परमाणुमें स्थित शक्तिका छेद करने पर सबसे जघन्य शक्त्यंश का नाम प्रतिच्छेद है । यह शक्त्यंश अविभाज्य होता है, इसलिए इसे अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । प्रकृतमें अनुभाग शक्ति विवक्षित है । कमके प्रत्येक परमाणुमें इस अनुभागशक्तिको देखने पर वह सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेदोंको लिए हुए होती है । यद्यपि यह अनुभागशक्ति किसी कर्मपरमाणुमें जघन्य होती है और किसी में उच्छ्र पर उसमेंसे प्रत्येकका सामान्य प्रमाण उक्त प्रमाण ही है । उदाहरणार्थ—एक शुक्ल वस्त्र लीजिए । उसके किसी एक अंशमें कम शुक्लता होती है और किसीमें अधिक । अतएव जिसप्रकार उस वस्त्रमें शुक्ल गुणका तारतम्य दिखाई देता है वही प्रकार उन कर्मपरमाणुओंमें भी अनुभागशक्तिका तारतम्य दिखाई देता है । इससे विदित होता है कि इस तारतम्यका कोई कारण अवश्य होना चाहिए । यहाँ तारतम्यका जो भी निदर्शक है उसीका नाम अविभागप्रतिच्छेद है । ऐसे अविभागप्रतिच्छेद एक एक कर्मपरमाणुमें अनन्त होते हुए भी सब जीवोंसे अनन्तगुणे होते हैं यह एक कथनका तात्पर्य है । यहाँ मूलमें वर्गणाप्ररूपणा और स्पर्धक-
प्ररूपणाको अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणाके अन्तर्गत लिया है, इसलिए आगे स्थानप्ररूपणाको उत्पन्न करनेके लिए उसका विचार करते हैं—यहाँ हमने एक एक कर्म परमाणुमें अनन्त अविभागप्रतिच्छेद घतलाए हैं । ये सबसे जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद हैं । इसीप्रकार दूसरे, तीसरे आदि अनन्त कर्मपरमाणुओंमें प्रथम कर्मपरमाणुके समान अविभागप्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए इनमेंसे प्रत्येक कर्मपरमाणुकी वर्ग और इन सब कर्मपरमाणुओंकी वर्गणा संज्ञा है । यहाँ एक वर्गणामें अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वर्ग होते हैं । पुनः इनसे एक अधिक अविभागप्रति-
च्छेदको लिए हुए अनन्त वर्गोंका समुदायरूप दूसरी वर्गणा होती है । इसी प्रकार आगे तीसरी आदि वर्गणाएँ एक एक अविभागप्रतिच्छेदके अधिकक्रमसे उत्पन्न करने चाहिए । ये वर्गणाएँ अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण होती हैं जो मिलकर एक स्पर्धक कहलाती हैं । इन वर्गणाओंमें क्रमसे एक-एक अविभागप्रतिच्छेदकी वृद्धि देखी जाती है । अतः क्रमसे स्पर्धा करता है अर्थात् वृद्धि होती है इसलिए इसकी स्पर्धक संज्ञा है । फिर सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभाग-
प्रतिच्छेदोंका अन्तर देकर दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणाका प्रथम वर्ग लाना चाहिए । अर्थात् प्रथम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके एक वर्गमें जितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं उनसे सब जीव राशिकी

३७३. द्वाणपरूवणदाए केवडियाणि द्वाणाणि ? असंखेजालोगद्वाणाणि । एवडियाणि द्वाणाणि ।

३७४. अंतरपरूवणदाए एकेकस्स द्वाणस्स केवडियं अंतरं ? सव्वजीवेहि अणंतगुणं । एवडियं^१ अंतरं ।

३७५. कंडयपरूवणदाए अत्थि अणंतभागपरिवड्ढिकंडयं । असंखेजभागपरिवड्ढिकंडयं संखेजभागपरिवड्ढिकंडयं संखेजगुणपरिवड्ढिकंडयं असंखेजगुणपरिवड्ढिकंडयं अणंतगुणपरिवड्ढिकंडयं ।

अपेक्षा अनन्तगुणं अविभागप्रतिच्छेदोंको लॉघकर दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके एक वर्गमें प्राप्त होनेवाले अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । यह एक वर्ग है । तथा इसी प्रकार समान अविभागप्रतिच्छेदोंको लिए हुए अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवैभागप्रमाण वर्ग उत्पन्न करने चाहिए जो सब मिलकर द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणा बनते हैं । फिर आगे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिकके क्रमसे पूर्वोक्त प्रमाण वर्गोंको लिए हुए दूसरे स्पर्धककी द्वितीयादि वर्गणाएँ उत्पन्न होती हैं । ये वर्गणाएँ भी अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवै भागप्रमाण होती हैं । तथा इसी प्रकार तृतीयादि स्पर्धक उत्पन्न करने चाहिए । ये सब स्पर्धक अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवैभागप्रमाण होते हैं ।

३७३. स्थानपरूपणाकी अपेक्षा कितने स्थान होते हैं । असंख्यात लोकप्रमाण स्थान होते हैं । इतने स्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—पहले हम अविभागप्रतिच्छेदोंके निरूपणके प्रसंगसे अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवै भागप्रमाण स्पर्धकोंकी उत्पत्तिका निरूपण कर आये हैं । वे सब स्पर्धक मिलकर एक जघन्य स्थान होता है । एक जीवमें एक समयमें जो कर्मका अनुभाग दिखाई देता है उसकी स्थान संज्ञा है । यह स्थान दो प्रकारका है—अनुभागबन्धस्थान और अनुभागसत्त्वस्थान । यहाँ बन्धका प्रकरण होनेसे अनुभागबन्धस्थानका ग्रहण होता है । इस हिसाबसे जघन्यस्थानसे लेकर उक्त स्थान तक सब जीवोंके अनुभागबन्धस्थानोंका योग करने पर वे असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं ।

३७४. अन्तरपरूपणाकी अपेक्षा एक-एक स्थानका कितना अन्तर होता है ? सब जीवोंसे अनन्तगुणा अन्तर होता है । इतना अन्तर होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ एक स्थानसे दूसरे स्थानके बीच कितना अन्तर होता है इसका विचार किया गया है । बात यह है कि एक स्थानके अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके एक वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनसे सब जीवोंसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेदोंको लॉघकर अगले स्थानके प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके एक वर्गमें अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । इसी प्रकार स्थान-स्थान के बीच और प्रत्येक स्थानमें स्पर्धक-स्पर्धकके बीच अन्तर जानना चाहिए ।

३७५. काण्डकपरूपणाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धिकाण्डक होता है, असंख्यातभागवृद्धिकाण्डक होता है, संख्यातभागवृद्धिकाण्डक होता है, संख्यातगुणवृद्धिकाण्डक होता है, असंख्यातगुणवृद्धिकाण्डक होता है और अनन्तगुणवृद्धिकाण्डक होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ काण्डकसे अंगुलके असंख्यातवै भागप्रमाण राशि ली गई है । पहले जो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान बतला आये हैं उनमें अगली एक वृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होनेके

३७६. ओज-जुम्मपरूवणदाए अविभागपलिच्छेदाणि कदजुम्माणि, द्वाणाणि कद-
जुम्माणि, कंडयाणि कदजुम्माणि ।

३७७. छद्वाणपरूवणदाए अणंतभागपरिवट्टी काए परिवट्टी सन्वजीवेहि अणंत-
भागपरिवट्टी । एवडिया परिवट्टी । असंखेज्जभागपरिवट्टी काए परिवट्टी असंखेज्जालोगा-
भागपरिवट्टी । एवडिया परिवट्टी । संखेज्जभागपरि०काए परि०जहण्णपरित्तासंखेज्जय
रूवूणगस्स संखेज्जभागपरिवट्टी । एवडिया परिवट्टी । संखेज्जगुणपरिवट्टी काए० जहण्ण-
परित्तासंखेजरूवूण० संखेज्जगुणपरिवट्टी एवडिया परि० । असंखेज्जगुणपरिवट्टी काए०
परि० असंखेज्जालोगागुणपरि० । एवडि० परि० । अणंतगुणपरि० काए० सन्व-जीवेहि
अणंतगुणपरि० । एवडिया परिवट्टी ।

पहले काण्डक प्रमाण पूर्ववृद्धिको लिए हुए स्थान हो लेते हैं । अनन्तगुणवृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए । इस प्रकार सब असंख्यात लोक प्रमाण स्थानोंमें अनन्तगुणवृद्धि-रूप स्थान काण्डक प्रमाण होते हैं तथा असंख्यातगुणवृद्धि रूप स्थान काण्डकगुणित काण्डक प्रमाण होते हैं । इसी प्रकार पूर्व-पूर्व वृद्धिरूप स्थानोंका प्रमाण ले आना चाहिए ।

३७६. ओजयुग्मप्ररूपणाकी अपेक्षा अविभागप्रतिच्छेद कृतयुग्म होते हैं, स्थान कृतयुग्म होते हैं और काण्डक कृतयुग्म होते हैं ।

विशेषार्थ—ओजयुग्मप्ररूपणामे ओजशब्दका अर्थ विषम संख्या लिया गया है और युग्म-शब्दका अर्थ सम संख्या लिया गया है । उसमें भी ओजके दो भेद हैं—कलिओज और त्रेता-ओज । इसी प्रकार युग्मके भी दो भेद हैं—द्वापरयुग्म और कृतयुग्म । स्पष्टीकरण इस प्रकार है—किसी विवक्षित राशिमैं ४ का भाग देनेपर यदि १ शेष रहे तो उस राशिको कलि ओज कहते हैं, यथा १३ । २ शेष रहे तो उस राशिको द्वापरयुग्म कहते हैं, यथा १४ । ३ शेष रहें तो उस राशिको त्रेता ओज कहते हैं, यथा १५ । और शून्य शेष रहे तो उस राशिको कृतयुग्म कहते हैं, यथा १६ । इस हिसाबसे विचार करनेपर इन अनुभागस्थानोंमें अविभागप्रतिच्छेद, अनुभागस्थान और काण्डक ये सब राशियाँ कृतयुग्मरूप हैं यह उक्त कथन का तात्पर्य है ।

३७७. षट्स्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? सर्व जीव प्रमाण अनन्तका भाग देकर लब्धको उसमें मिलानेसे अनन्तभागवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है । असंख्यात भागवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? असंख्यात लोकका भाग देकर लब्धको उसमें मिलाने पर असंख्यातभागवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है । संख्यातभागवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? एक कम जघन्य परीतासंख्यातका भाग देकर लब्धको विवक्षित राशिमैं मिलाने पर संख्यातभागवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है । संख्यातगुणवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? एक कम जघन्य परीतासंख्यातसे विवक्षित राशिको गुणित करनेपर संख्यातगुणवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है । असंख्यातगुणवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? असंख्यात लोकोंसे विवक्षित राशिको गुणित करने पर असंख्यातगुणवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है । अनन्तगुणवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप है ? सब जीवराशिसे विवक्षित राशिके गुणित करने पर अनन्तगुणवृद्धि होती है । इतनी वृद्धि होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ षट्स्थान प्ररूपणामें उक्त छह वृद्धियों को प्राप्त करनेके लिए भागहार और गुणकार क्या है इसके निर्देशके साथ वृद्धि कितनी होती है यह बतलाया है । मुख्य राशियाँ तीन

३७८. हेडुहाणपरुवणदाए अणंतभागब्भहियं कंडयं गंतूण असंखेज्जभागब्भहियं
 ट्ठाणं । असंखेज्जभागब्भहियं कंडयं गंतूण संखेज्जभागब्भहियं ट्ठाणं । संखेज्जभागब्भहियं
 कंडयं गंतूण संखेज्जगुणब्भहियं ट्ठाणं । संखेज्जगुणब्भहियं कंडयं गंतूण असंखेज्जगुणब्भहियं
 ट्ठाणं । असंखेज्जगुणब्भहियं कंडयं गंतूण अणंतगुणब्भहियं ट्ठाणं । अणंतभागब्भहियाणं
 कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण संखेज्जभागब्भहियं ट्ठाणं । असंखेज्जभागब्भहियाणं कंडयवग्गं
 कंडयं च गंतूण संखेज्जगुणब्भहियं ट्ठाणं । संखेज्जभागब्भहियाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण
 असंखेज्जगुणब्भहियं ट्ठाणं । संखेज्जगुणब्भहियाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण अणंतगुण-
 ब्भहियं ट्ठाणं । संखेज्जगुणस्स हेडुदो अणंतभागब्भहियाणं कंडयघणो वे कंडयवग्गा
 कंडयं च । असंखेज्जगुणस्स हेडुदो असंखेज्जभागब्भहियाणं कंडयघणो वे कंडयवग्गा
 कंडयं च । अणंतगुण० हेडुदो संखेज्जभागब्भहियाणं कंडयघणो वे कंडयवग्गा कंडयं
 च । असंखेज्जगुणस्स हेडुदो अणंतभागब्भहियाणं कंडयवग्गावग्गो तिण्णि कंडयघणा
 तिण्णि कंडयवग्गा कंडयं च । अणंतगुणस्स हेडुदो असंखेज्जभागब्भहियाणं कंडयवग्गा-
 वग्गो तिण्णि कंडयघणा तिण्णि कंडयवग्गा कंडयं च । अणंतगुणस्स हेडुदो अणंत-

हैं—अनन्त जीवराशि, असंख्यात लोक और एक कम जघन्य परीतासंख्यात । इनमेंसे अनन्तभाग-
 वृद्धि लानेके लिए अनन्त जीवराशि भागहार है और अनन्तगुणवृद्धि लानेके लिए अनन्तजीव राशि
 गुणकार है । असंख्यात भागवृद्धि लानेके लिए असंख्यात लोक भागहार है और असंख्यातगुणवृद्धि
 लानेके लिए असंख्यात लोक गुणकार है । तथा संख्यातभाग वृद्धि लानेके लिए एक कम जघन्य-
 परीतासंख्यात भागहार है और संख्यातगुणवृद्धि लानेके लिए वही एक कम जघन्य परीतासंख्यात
 गुणकार है । तात्पर्य यह है कि किसी विवक्षित अनुभागस्थानमें अनन्तका भाग दीजिए, जो लब्ध
 आवे उसे उधरीमें मिला दीजिए । यह अनन्तभागवृद्धि है । इसी प्रकार शेष वृद्धियोंका विचार
 कर लेना चाहिए ।

३७८. अधस्तनस्थानपरुवणदाए अपेक्षा काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थान जाकर एक
 असंख्यातभागवृद्धिस्थान होता है । काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यात-
 भागवृद्धिस्थान होता है । काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातगुणवृद्धि स्थान
 होता है । काण्डकप्रमाण संख्यातगुणवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है । तथा
 काण्डकप्रमाण असंख्यातगुणवृद्धिस्थान जाकर एक अनन्तगुणवृद्धिस्थान होता है । काण्डक वग
 और काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातभागवृद्धिस्थान होता है । काण्डकवर्ग
 और काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है । काण्डकवर्ग
 और काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है । तथा
 काण्डकवर्ग और काण्डकप्रमाण असंख्यातगुणवृद्धिस्थान जाकर एक अनन्तगुणवृद्धिस्थान होता है ।
 संख्यातगुणवृद्धिस्थानके पहले अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकघन, दो काण्डकोंका वर्ग और काण्डक
 प्रमाण होते हैं । असंख्यातगुणवृद्धिके पहले असंख्यातभागवृद्धिस्थान काण्डकघन, दो काण्डकोंका
 वर्ग और काण्डकप्रमाण होते हैं । अनन्तगुणवृद्धिके पहले संख्यातभागवृद्धिस्थान काण्डकघन, दो
 काण्डकवर्ग और काण्डकप्रमाण होते हैं । असंख्यातगुणवृद्धिके पहले अनन्तभागवृद्धि स्थान
 काण्डकवर्गावर्ग, तीन काण्डकघन, तीन काण्डक वर्ग और काण्डकप्रमाण होते हैं । अनन्तगुणवृद्धि-
 के पहले असंख्यातभागवृद्धिके स्थान काण्डकवर्गावर्ग, तीन काण्डकघन, तीन काण्डकवर्ग और

भागभहियाणं कंडयो पंचहदो चत्तारि कंडयवग्गावग्गा छकंडयवणा चत्तारि कंडयवग्गा कंडयं च ।

काण्डकप्रमाण होते हैं । अनन्तगुणवृद्धिके पहले अनन्तभागवृद्धि स्थान पाँच बार गुणित काण्डक, चार काण्डक वर्गावर्ग, छह काण्डकघन, चार काण्डकवर्ग और काण्डकप्रमाण होते हैं ।

विशेषार्थ—अधस्तनस्थान प्ररूपणामें अगले विवक्षित स्थानसे पूर्व पिछले विवक्षित स्थान कितने बार होते हैं यह बतलाया गया है । यहाँ यह प्ररूपणा पाँच प्रकारसे की गई है—१ अनन्त-पूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, एकान्तर पूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, द्वयन्तरपूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, त्रयन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणा और चतुरन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणा । अनन्तपूर्वस्थानप्रमाण-प्ररूपणामें अगले स्थानके एक बार होनेके पहले अनन्तपूर्वस्थान कितने बार होते हैं यह बतलाया गया है । इस हिसाबसे यह प्ररूपणा पाँच प्रकारकी होती है, क्योंकि कुल स्थान छह हैं, इसलिए प्रथम स्थानका तो कोई अनन्तर पूर्व स्थान होगा ही नहीं, द्वितीयादिकके अनन्तरपूर्व स्थान अवश्य होंगे इसलिए ये पाँच कहे हैं । एकान्तरपूर्वस्थानप्ररूपणामें एक स्थानके अन्तरसे स्थित पूर्वस्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा—तृतीय स्थानके एक बार होनेके पहले द्वितीय स्थानका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं इत्यादि । यहाँ ये एकान्तरपूर्वस्थान चार हैं । द्वयन्तरपूर्वस्थान प्ररूपणामें अगले स्थानके पहले दो स्थानोंके अन्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा—चतुर्थ स्थानके एक बार होनेके पहले तृतीय और द्वितीय इन दो स्थानोंका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं इत्यादि । यहाँ ये द्वयन्तरपूर्वस्थान तीन हैं । त्रयन्तरपूर्वस्थानप्ररूपणामें अगले स्थानके पहले तीन स्थानोंके अन्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा—पञ्चम स्थानके एक बार होनेके पहले चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय स्थानका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं आदि । यहाँ त्रयन्तरपूर्वस्थान दो हैं । चतुरन्तरपूर्वस्थानप्ररूपणामें अगले स्थानके पहले चार स्थानोंके अन्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है । यथा छठे स्थानके एक बार होनेके पहले मध्यके सब स्थानोंका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं । यह चतुरन्तरपूर्वस्थान एक ही है । यहाँ इस विषयको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए संदृष्टि दी जाती है—

३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३७
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३७
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६
३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३५	३३४	३३४	३३६

इस संदृष्टिमें '३' से अनन्तभागवृद्धि, '४' से असंख्यातभागवृद्धि, '५' से संख्यातभागवृद्धि ६ से संख्यातगुणवृद्धि, ७ से असंख्यातगुणवृद्धि और ८ से अनन्तगुणवृद्धि लीं हैं । तथा काण्डकका प्रमाण दो बार लिया है । इस संदृष्टिके देखनेसे विदित होता है कि प्रत्येक अनन्तपूर्ववृद्धि अगली वृद्धिके प्राप्त होने तक काण्डकप्रमाण अर्थात् दो बार हुई है । एकान्तर पूर्व वृद्धि काण्डकवर्ग और काण्डक प्रमाण (६ बार) हुई है । द्वयन्तरपूर्ववृद्धि काण्डकघन, दो काण्डक वर्ग और काण्डक प्रमाण (१२ बार) है । त्रयन्तरपूर्ववृद्धि काण्डकवर्गावर्ग, तीन काण्डकघन, तीन काण्डकवर्ग और काण्डकप्रमाण (५४ बार) हुए हैं । तथा चतुरन्तरपूर्ववृद्धि पाँच बार गुणित काण्डक, चार काण्डक वर्गावर्ग, छह काण्डक घन, चार काण्डकवर्ग और काण्डक प्रमाण (१६२ बार) हुई है ।

३७९. समयपरूवणदाए चदुसमइयाणि अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जा लोगा । एवं पंचसमइ० छस्समइ० सत्तसमइ० अट्टसमइ० उवरि सत्तसमइ० छस्समइ० पंचसमइ० चदुसमइ० तिण्णिसमइ० विसमइ० ।

३८०. एत्थ अप्पावहुगं । सच्चत्थोवाणि अट्टसमइयाणि अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि । दो वि पासेसु सत्तसमइयाणि अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि [दो वि तुल्लाणि] असंखेज्जगुणाणि । दो वि पासेसु छस्समइ० अणुभा०बंधज्ज० असं०गु० । दो वि पासेसु पंचसमइ० अणु०बंधज्ज० असं०गु० । एवं चदुसमइ० उवरि तिसमइ० विसमइ० अणु०बंधज्ज० असंखेज्जगुणाणि ।

३८१. सुहुमअगणिकाइया पवेसेण असंखेज्जा लोगा । अगणिकाइया असंखेज्जगु० कायट्ठि० असंखेज्जगु० । अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

३८२. वड्ढिपरूवणदाए [अत्थि अणंतभागवड्ढि-हाणी असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी

३७९. समयपरूपणाकी अपेक्षा चार समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं, इसी प्रकार पाँच समयवाले, छह समयवाले, सात समयवाले और आठ समयवाले तथा इनके आगे सात समयवाले, छह समयवाले, पाँच समयवाले, चार समयवाले, तीन समयवाले और दो समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान जानने चाहिए ।

विशेषार्थ—जघन्य अनुभागबन्धस्थानोंसे लेकर उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान तक ये जो असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थान हैं इन्हें एक पंक्तिमें स्थापित कर देखने पर उनमेंसे जो अधस्तन असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं वे चार समयवाले हैं । उनसे आगेके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान पाँच समयवाले हैं । इसी प्रकार दो समयवाले असंख्यात लोकप्रमाण उत्कृष्ट स्थानोंके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । यह इनका उत्कृष्ट बन्धकाल कहा है । जघन्य बन्धकाल सबका एक समय है ।

३८०. यहाँ अल्पबहुत्व है—आठ समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे थोड़े हैं । इनमें दोनों ही पार्श्वोंमें सात समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पार्श्वोंमें छह समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए असंख्यातगुणे हैं । इनसे दोनों ही पार्श्वोंमें पाँच समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार चार समयवाले, तथा आगे तीन समयवाले और दो समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं ।

३८१. सूक्ष्म अग्निकायिक जीव प्रवेशकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण हैं । इनसे अग्नि-कायिक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इन्हींकी कायस्थिति असंख्यातगुणी है । इनसे अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ आठ आदि समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंका अल्पबहुत्व देनेके बाद यह अल्पबहुत्व देनेका प्रथम कारण तो यह है कि इन आठ आदि समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंके अल्पबहुत्वमें गुणकार राशि अग्निकायिक जीवोंकी कायस्थित ली गई है । दूसरे ये अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान अग्निकायिक जीवोंकी कायस्थितिसे भी असंख्यातगुणे हैं यह वतलाना भी इस अल्पबहुत्वका प्रयोजन है ।

३८२. वृद्धिपरूपणाकी अपेक्षा अतन्तभागवृद्धि-हानि, असंख्यातभागवृद्धि-हानि, संख्यात-

संखेज्जभागवद्धि-हाणी संखेज्जगुण-वद्धिहाणी असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी अणंतगुणवद्धि-हाणी । पंचवड्डी पंचहाणी जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणंतगुणवड्डी अणंतगुणहाणी जह० एगसमयं, उक्क० अंतोसुहुत्तं ।

३८३. जवमज्जपरुवणदाए अणंतगुणवड्डी अणंतगुणहाणी च यवमज्जं ।

३८४. पज्जवसाणपरुवणदाए अणंतगुणस्स उवरि अणंतगुणं भविस्सदि चि पज्जवसाणं ।

३८५. अप्पावहुगे चि । तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा च । अणंतरोवणिधाए सव्वत्थोवाणि अणंतगुणव्भहियाणि ट्ठाणाणि । असंखेज्जगुणव्भहियाणि ट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । संखेज्जगुणव्भ० असं०गुणाणि । संखेज्जभागव्भहियाणि ट्ठाणाणि असं०गु० । असंखेज्जभागव्भ० असं०गु० । अणंतभागव्भ० असंखेज्जगुणाणि ।

भागवद्धि हानि, संख्यातगुणवद्धि-हानि, असंख्यातगुणवद्धि-हानि, और अनन्तगुणवद्धि-हानि होती है । इनमें से पाँच वृद्धियों और पाँच हानियोंका जघन्य काल एक सपय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पहले एक एक स्थानमें षट्गुणीवृद्धिका निर्देश कर आये हैं । हानियाँ भी उतनी ही होती हैं । यहाँ इन हानियों और वृद्धियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है यह बतलाया गया है ।

३८३. यवमध्यपरुपणाकी अपेक्षा अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि यवमध्य है ।

विशेषार्थ—यवमध्य दो प्रकारका है—कालयवमध्य और जीवयवमध्य । उनमेसे यह काल-यवमध्य है । यद्यपि छोट समयवाले अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे थोड़े हैं इत्यादि फयनसे ही कालयवमध्य ज्ञात हो जाता है पर उसमें भी इस वृद्धि और हानिसे यवमध्यका प्रारम्भ और समाप्ति होती है यह बतलानेके लिये यवमध्यपरुपणा अलगसे की गई है । अनन्तगुणवृद्धिसे यवमध्यका प्रारम्भ होता है और अनन्तगुणहानिसे उसकी समाप्ति होती है यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि यवमध्यके नीचे और ऊपर चार, पाँच, छह और सातसमय प्रायोग्य स्थान तथा ऊपर जो तीन और दोसमय प्रायोग्यस्थान हैं इन सबका प्रारम्भ अनन्तगुणवृद्धिसे होता है और उनकी समाप्ति अनन्तगुणहानिसे होती है ।

३८४. पर्यवसान परुपणाकी अपेक्षा अनन्तगुणवृद्धिके ऊपर अतन्तगुणवृद्धि (नहीं) होगी यह पर्यवसान है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म एकेन्द्रियके जघन्य स्थानसे लेकर पहले जितने स्थान कह आये हैं उनमे प्रत्येक स्थानका आदि अदन्तगुणवृद्धिरूप होता है । पुनः उसपर पूर्वोक्त विधिसे पाँच वृद्धियाँ होकर उस स्थानका अन्त अनन्तभागवृद्धिरूप होता है । यही उस स्थानका पर्यवसान है, इसलिये एक स्थानमें अनन्तगुणवृद्धिके ऊपर पुनः अनन्तगुणवृद्धि नहीं प्राप्त होनी यह इस परुपणाका तात्पर्य है ।

३८५. अल्पवहुत्वका अधिकार है । उसमे ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तगुणवृद्धि स्थान सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यात-गुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात-भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्त-भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

३८६. परंपरोवणिधाए सच्चथोवाणि अणंतभागब्भहियाणि ट्ठाणाणि । असंखेज्ज-
भागब्भहि० असं०गु० । संखेज्जभागब्भहि० संखेज्जगु० । [संखेज्जगुणब्भहियाणि ट्ठाणाणि
संखेज्जगुणाणि । असंखेज्जगुणब्भहियाणि ट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । अणंतगुणब्भ-
हियाणि ट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

विशेषार्थ—यद्यपि यह अल्पबहुत्व सब स्थानोंका आश्रय लेकर स्थित है तथापि यहाँपर एक स्थानके आश्रयसे लेकर अल्पबहुत्वका विचार करते हैं, क्योंकि इससे पूरे स्थानोंके आश्रयसे अल्पबहुत्वके विचार करनेमें सुगमता होगी। एक स्थानमें अनन्तगुणवृद्धिस्थान एक होता है इसलिए वह सबसे स्तोक कहा है। इससे असंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुणकारका प्रमाण एक काण्डक है। इनसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे इसलिए होते हैं, क्योंकि असंख्यातगुणवृद्धिस्थानोंको एक अधिक काण्डकसे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। इनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे इसलिए होते हैं, क्योंकि संख्यातगुणवृद्धिस्थानोंको एक अधिक काण्डकसे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। इनसे असंख्यातभागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे है, क्योंकि एक स्थानमें संख्यातभागवृद्धिरूप स्थानोंको एक अधिक काण्डकसे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। तथा इनसे अनन्तभागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें जितने असंख्यातभागवृद्धिरूप स्थान हैं उन्हें एक अधिक काण्डकसे गुणित पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। यह एक स्थानकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है। विचार कर इसी प्रकार सब स्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए।

३८६. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धिस्थान सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यात-
भागवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात-
गुणवृद्धिस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं और इनसे अनन्त-
गुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ उक्त छह वृद्धियोंमें परम्परासे कौन वृद्धि कितनी गुणी है इस बातका विचार किया गया है। तात्पर्य यह है कि वृद्धियोंकी अनन्तभागवृद्धि आदि संज्ञा अनन्तर पूर्वस्थानकी अपेक्षासे है। किन्तु परम्परासे इन वृद्धियोंको देखने पर नान वृद्धिस्थान किस वृद्धिस्थानोंसे कितने गुणे हैं इस बातका विचार इस प्ररूपणामे किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि षट्स्थानप्ररूपणामें अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकप्रमाण होनेपर असंख्यातभागवृद्धिस्थान उपलब्ध होता है। यतः ये अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकमात्र हैं अतः वे सबसे थोड़े कहे हैं। इसके बाद प्रथम असंख्यात-
भागवृद्धिस्थानसे लेकर प्रथम संख्यातभागवृद्धिस्थानके प्राप्त होने तक मध्यमे जितने भी अनन्त-
भागवृद्धिस्थान और असंख्यातभागवृद्धिस्थान आये हैं वे सब परम्परासे असंख्यातभागवृद्धिरूप ही हैं। यतः ये स्थान काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थानोंसे एक अधिक काण्डक गुणित हैं अतः ये असंख्यातगुणे कहे हैं। इसके बाद प्रथम संख्यातभागवृद्धिस्थानसे लेकर प्रथम संख्यात-
गुणवृद्धिस्थानके प्राप्त होनेके पूर्व ही बीचके अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-
वृद्धिरूप सब स्थानोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण जानेपर साधिक दुगुनी वृद्धि हो जाती है। यतः ये बीचके संख्यातभागवृद्धिरूपस्थान उत्कृष्ट संख्यातसे कुछ न्यून ही हैं अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धिस्थानोंसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुणे कहे हैं। इसके आगे ये संख्यातगुणवृद्धिस्थान चालू होकर जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका जितना प्रमाण हो उतने बार जाकर प्रथम असंख्यातगुण-
वृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। अब यदि यहाँ उत्पन्न हुए प्रथम असंख्यातगुणवृद्धिस्थानको छोड़कर उसके पूर्व संख्यातभागवृद्धिरूप अन्तिम स्थानसे लेकर यहाँ तकके इन बीचके स्थानोंका संकलन किया जाय तो वे संख्यातभागवृद्धिस्थानोंसे संख्यातगुणे ही उपलब्ध होते हैं, अतः यहाँ संख्यात-

जीवसमुदाहारो

३८७. जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि अट्ठ अण्णियोगहाराणि—एयट्ठणजीव-
पमाणाणुगमो णिरंतरट्ठणजीवपमाणाणुगमो सांतरट्ठणजीवपमाणाणुगमो णाणाजीव-
कालपमाणाणुगमो वड्ढिपरुवणा जवमज्झपरुवणा फोसणपरुवणा अप्पावहुए] त्ति ।

३८८. एयट्ठणजीवपमाणाणुगमेण एक्केक्कम्मि ट्ठणो जीवा अणंता ।

३८९. णिरंतरट्ठणजीवाणुगमेण जीवेहि अविरहिदाणि ट्ठणाणि ।

३९०. सांतर० जीवेहि अविरहिदाणि ट्ठणाणि ।

३९१. णाणाजीवकालाणुगमेण एक्केक्कम्मि ट्ठणम्मि णाणाजीवो केवचिरं कालादो
होदि ? सव्वट्ठा ।

भागवृद्धिस्थानोंसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान संख्यातगुणे कहे हैं । इसके आगे जो प्रथम असंख्यात-
गुणवृद्धिस्थान उत्पन्न हुआ है उससे लेकर अंगुलके असंख्यातवैभागगुणे स्थान जाने तक बीचमें
जितने भी अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि और
संख्यातगुणवृद्धिरूप स्थान उपलब्ध होते हैं वे सब परम्परोपनिधासे असंख्यातगुणवृद्धिको लिए हुए
ही हैं । यतः ये स्थान संख्यातगुणवृद्धिस्थानोंसे असंख्यातगुणे कहे हैं । इसके आगे सब असं-
ख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थानोंमें जो अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धि आदि स्थान
हैं वे सब परम्परोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तगुणवृद्धिको लिए हुए ही हैं । यतः ये असंख्यातगुणे हैं
अतः यहाँ असंख्यातगुणवृद्धिस्थानोंसे अनन्तगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे कहे हैं ।

जीवसमुदाहार

३९७. अब जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये आठ अनुयोगद्वार होते हैं—एकस्थान-
जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकाल-
प्रमाणानुगम, वृद्धिपरूपणा, यवमध्यपरूपणा, स्पर्शनपरूपणा और उत्पत्तित्व ।

३९८. एकस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमें जीव अनन्त हैं ।

विशेषार्थ—सब अनुभागवन्धस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं । उनमेंसे प्रत्येक स्थानमें
कितने जीव होते हैं यह इस अनुयोगद्वारमें बतलाया गया है । इसमें प्रत्येक स्थानमें अनन्त जीव
होते हैं ऐसा निर्देश किया है सो यह प्ररूपणा स्थावर जीवोंकी मुख्यतासे जाननी चाहिए । त्रस
जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रत्येक स्थानमें त्रस जीव कमसे कम एक, दो या तीन और
अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवै भागप्रमाण होते हैं ।

३९९. निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंसे युक्त सब स्थान हैं ।

विशेषार्थ—ये जो असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागवन्धस्थान बतलाये हैं उनमेंसे प्रत्येकमें
स्थावर जीव पाये जाते हैं इसलिए इस अपेक्षासे कोई भी स्थान जीवोंसे रहित नहीं होता । किन्तु
त्रस जीवोंकी अपेक्षा इन स्थानोंमेंसे कमसे कम एक, दो या तीन स्थान जीवोंसे युक्त होते हैं और
अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवै भागप्रमाण स्थान जीवोंसे युक्त होते हैं ।

४००. सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंसे युक्त सब स्थान हैं ।

विशेषार्थ—यह पहले ही बतला आये हैं कि जितने अनुभागवन्धस्थान होते हैं उन सबमें
स्थावर जीव उपलब्ध होते हैं, अतः स्थावर जीवोंकी अपेक्षा एक भी सान्तरस्थान उपलब्ध नहीं
होता । किन्तु त्रसजीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर जीवोंसे रहित कमसे कम एक, दो या तीन स्थान
सान्तर होते हैं और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण स्थान सान्तर होते हैं ।

४०१. नानाजीवकालप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमें नाना जीवोंका कितना काल
है ? सब काल है ।

३६२. वृद्धिपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—अणंतरोवणिधा परंपरो-
वणिधा च । अणंतरोवणिधाए जहण्णए^१ अज्झवसाणट्टाणे जीवा थोवा । विदिए अज्झवसाण-
ट्टाणे जीवा विसेसाहिया । तदिए अज्झवसाणट्टाणे जीवा विसे० । एवं विसेसाधिया
[विसेसाधिया] याव यवमज्झं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेसहीणा
याव उक्कस्सयं^२ अज्झवसाणट्टाणं त्ति ।

३६३. परंपरोवणिधाए जहण्णअज्झवसाणट्टाणेहितो तदो असंखेज्जा लोगा
गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा याव यवमज्झं । तेण परं असंखेज्ज-
लोगं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव उक्कस्सयं अज्झवसाणट्टाणं
त्ति । एयजीवज्झवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतरं असंखेज्जा लोगा । णाणाजीवज्झवसाण-
दुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतराणि आवलि^३ असं० । णाणाजीवज्झवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणं-
तराणि थोवाणि । एयजीवज्झवसाणदुगुणवड्ढि हाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ।

विशेषार्थ—इन सब अनुभागबन्धस्थानोंमें यह काल स्थावर जीवोंकी मुख्यतासे बतलाया
गया है । त्रस जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर एक एक स्थानमें त्रस जीवोंके रहनेका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि यद्यपि एक स्थानमें एक
जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल आठ समय ही है पर निरन्तर क्रमसे एकके बाद दूसरा जीव उस
स्थानको प्राप्त करता रहे तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक एक स्थानमें त्रस जीवोंका
सङ्काव देखा जाता है ।

३६२. वृद्धिपरूवणकी अपेक्षा उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—अनन्तरोपनिधा और
परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं ।
इससे दूसरे अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । इससे तीसरे अध्यवसानस्थानमें जीव
विशेष अधिक हैं । इसीप्रकार यवमध्यके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थानमें जीव विशेष अधिक
विशेष अधिक हैं । तथा उससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थानमें जीव
उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेष हीन हैं ।

विशेषार्थ—जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान अतिविशुद्धिके बिना हो नहीं सकता और
अतिविशुद्धिको लिए हुए जीव बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानमें
सबसे थोड़े जीव कहे हैं । आगे यवमध्यतक वे विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ते जाते हैं और यवमध्यके
बाद वे विशेष अधिकके क्रमसे हीन हीन होते जाते हैं ।

३६३. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जो जघन्य अध्यवसानस्थान हैं उससे असंख्यात लोक-
प्रमाण स्थान जाकर वे जीव दूनी वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इसीप्रकार यवमध्यतक दूने दूने होते गये
हैं । उससे आगे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हीन होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट अध्य-
वसानस्थानके प्राप्त होनेतक वे दूने-दूने हीन होते जाते हैं । एक जीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुण-
हानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैं । नानाजीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । नानाजीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक
हैं । इनसे एक जीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ।

१. ता० आ० प्रत्योः जहण्णिण् इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः उक्कस्सियं इति पाठः । ३. ता०
प्रतौ भवट्ठिदि० आ० प्रतौ भवट्ठि० इति पाठः ।

३६४. यवमज्जपरूवणादाए ङ्गाणाणं असंखेज्जदिभागे यवमज्जं । यवमज्जस्स हेट्ठदो ङ्गाणाणि थोवाणि । उवरि ङ्गाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

३६५. फोसणपरूवणादाए तीदे काले एयजीवस्स उक्कस्सए अज्जवसाणङ्गाणे फोसणकालो थोवो । जहण्णए अज्जवसाणङ्गाणे फोसणकालो असं०गुणो । कंडयस्स फोसणकालो तत्तियो चैव । यवमज्जे फोसणकालो असं०गुणो । कंडयस्स उवरि फोसणकालो असं०गुणो । यवमज्जस्स हेट्ठदो कंडयस्स उवरिं फोसणकालो असं०गुणो । यवमज्जस्स उवरिं कंडयस्स हेट्ठदो फोसणकालो तत्तियो चैव । यवमज्जस्स उवरिं फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स हेट्ठदो फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स उवरिं फोसणकालो विसेसाधियो । सव्वेसु ङ्गाणेषु फोसणकालो विसेसाधियो ।

३६४. यवमध्यप्ररूपणाको अपेक्षा सब स्थानोंके असंख्यातवें भागमें यवमध्य होता है । यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं । इनसे ऊपरके स्थान असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—नीचे चार समयवाले स्थानोंसे लेकर उपरिम दो समयवाले स्थानोंके असंख्यातवें भागप्रमाण जाकर यवमध्य होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस हिसाबसे यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक होते हैं और इनसे उपरिम स्थान असंख्यातगुणे होते हैं ।

३६५. स्पर्शनप्ररूपणाकी अपेक्षा अतीत कालमें एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें स्पर्शनकाल स्तोक है । इससे जघन्य अध्यवसानस्थानमें स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । काण्डकका स्पर्शनकाल उतना ही है । इससे यवमध्यमें स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे काण्डकके ऊपर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे यवमध्यके नीचे और काण्डकके ऊपर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे यवमध्यके ऊपर और काण्डकके नीचे स्पर्शनकाल उतना ही है । इससे यवमध्यके ऊपर स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे काण्डकके नीचे स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे काण्डकके ऊपर स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे सब स्थानोंमें स्पर्शनकाल विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—यहां चतुःसमयिक आदि स्थानोंमेंसे किस स्थानको एक जीवने कितने काल तक स्पर्श किया है, इसका विचार किया गया है । इसीका ज्ञान करानेके लिए यहाँ अल्पबहुत्व दिया गया है । उसका खुलासा इस प्रकार है—

उत्कृष्ट अध्यवसान स्थान द्विसमयिक है । इसका स्पर्शनकाल सबसे थोड़ा कहा है । जघन्य अध्यवसानस्थान प्रारम्भका चतुःसमयिक है । इसकी काण्डक संज्ञा भी है । इसका स्पर्शनकाल द्विसमयिकसे असंख्यातगुण कहा है । अगले चतुःसमयिककी भी काण्डक संज्ञा है । इसका स्पर्शनकाल पहले चतुःसमयिकके समान कहा है । आठसमयिककी यवमध्य संज्ञा है । इसका स्पर्शनकाल चतुःसमयिकसे असंख्यातगुणा कहा है । यवमध्यसे पूर्वके और काण्डकसे आगेके ५, ६ और ७ समयिक स्थान हैं । इनका स्पर्शनकाल आठसमयिक स्थानसे असंख्यातगुणा कहा है । यवमध्यसे आगेके और काण्डकसे पहलेके ७, ६ और ५ समयिक स्थानों का स्पर्शनकाल पिछले ५, ६ और ७ समयिक स्थानोंके स्पर्शनकालके बराबर कहा है । इससे यवमध्यसे आगेके अर्थात् ७, ६, ५, ४, ३, २ समयिक स्थानोंका स्पर्शनकाल विशेष अधिक कहा है । इससे काण्डक अर्थात् अगले चतुःसमयिकसे पहलेके अर्थात् ५, ६, ७, ८, ७, ६, ५ और ४ समयिक स्थानोंका स्पर्शनकाल विशेष अधिक कहा है । इससे प्रारम्भके काण्डकसे आगेके अर्थात् ५, ६, ७, ८, ७, ६, ५, ४, ३ और २

३९६. अप्पावहुगे त्ति सव्वत्थोवा उक्कस्सए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा । जहण्णए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा असं०गुणा । कंडए जीवा तत्तिया चेव । यवमज्झे जीवा असं०गुणा । कंडयस्स उवरिं जीवा असं०गुणा । यवमज्झस्स उवरिं कंडयस्स हेट्ठदो जीवा असं०गुणा । कंडयस्स उवरिं यवमज्झस्स हेट्ठदो जीवा तत्तिया चेव । यवमज्झस्स उवरिं जीवा विसे० । कंडयस्स हेट्ठदो जीवा विसे० । कंडयस्स उवरिं जीवा विसे० । सव्वेसु ट्ठाणेषु जीवा विसेसाधिया ।

एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगद्वाराणि ।

एवं मूलपगदिअणुभागबंधो समत्तो ।

समयिक स्थानोंका स्पर्शनकाल विशेष अधिक कहा है । और इससे सब स्थानोंका अर्थात् ४, ५, ६, ७, ८, ९, ६, ५, ४, ३ और २ समयिक स्थानोंका स्पर्शनकाल विशेष अधिक कहा है ।

३६६. अल्पबहुत्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य अध्यवसानस्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं । काण्डकके जीव उतने ही हैं । इनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे काण्डकके ऊपर जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे यवमध्यके ऊपर और काण्डकके नीचे जीव असंख्यातगुणे हैं । काण्डकके ऊपर और यवमध्यके नीचे जीव उतने ही हैं । इनसे यवमध्यके ऊपर जीव विशेष अधिक हैं । इनसे काण्डकके नीचे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे काण्डकके ऊपर जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिवन्ध समाप्त हुआ ।

२ उत्तरपगदिअणुभागबंधो

३९७. एत्तो उत्तरपगदिअणुभागबंधो पुव्वं गमणिज्जो^१ । तत्थ इमाणि दुवे अणि-
योगहाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—णिसेगपरूवणा फद्धयपरूवणा च ।

णिसेयपरूवणा

३९८. णिसेगपरूवणदाए णाणावरणीय०४-दंसणावरणीय०३-सादासाद०-
चदुसंज०-णवणोक्क०^२-चदुआउ० सव्वाओ णामपगदीओ णीचुच्चागोदं पंचंतराइगाणं
देसघादिफहयाणं आदिवग्गणाए आदिं कादूण णिसेगो । उवरिं अप्पडिसिद्धं । केवल-
णाणा०-छदंसणा०-वारसकसायाणं सव्वघादिफहयाणं आदिवग्गणाए आदिं कादूण
णिसेगो । उवरिं अप्पडिसिद्धं । मिच्छत्तं यम्मिह सम्मामिच्छत्तं णिड्ढिदं तदो अणंतरं
सव्वघादिफहयाणं आदिवग्गणाए आदिं कादूण णिसेगो । उवरिं अप्पडिसिद्धं ।

एवं णिसेगपरूवणा त्ति समत्तमणियोगहारं ।

२ उत्तरप्रकृति अनुभागबन्ध

३९७. इंससे आगे उत्तरप्रकृति अनुभागबन्ध पहलके समान जानना चाहिये । उसमे ये
दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—निषेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा ।

निषेकप्ररूपणा

३९८. निषेकप्ररूपणाकी अपेक्षा चार ज्ञानावरणीय, तीन दर्शनावरणीय, सातावेदनीय,
असातावेदनीय, चार सज्वलन, नौ नोकपाय, चार आयु, सब नामकर्मकी प्रकृतिर्यो, नीचगोत्र,
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनके देशघाति स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे लेकर निषेक होते हैं । और
वे आगे बराबर चले गये हैं । केवलज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और बारह कपार्योके सर्वघाति-
स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे लेकर निषेक होते हैं । और वे अन्ततक बराबर चले गये हैं । मिथ्यात्वके
जहाँपर सम्यग्मिथ्यात्व समाप्त होता है वहाँसे आगे सर्वघाति स्पर्धकोंकी प्रथम वर्गणासे लेकर
निषेक होते हैं और वे आगे बराबर चले गये हैं ।

विशेषार्थ—कर्मसिद्धान्तके नियमानुसार प्रत्येक कर्मकी निषेक रचना जिस कर्मकी जितनी
स्थिति होती है उसके अन्ततक पाई जाती है । साधारणतः कर्म दो भागोंमें विभक्त हैं—सर्वघाति
और देशघाति । यह विभाग अनुभागबन्धकी मुख्यतासे किया गया है । इसलिये इन दोनों प्रकारके
कर्मोंके निषेक प्रथम समयसे लेकर अन्ततक पाये जाते हैं । मिथ्यात्वकर्मको छोड़कर शेष जितने
कर्म हैं उन सबकी यह व्यवस्था जाननी चाहिये । मात्र मिथ्यात्वकर्मकी व्यवस्थामें कुछ अन्तर
है । उपशमसम्यक्त्वरूप परिणामोंके कारण जब मिथ्यात्वके तीन विभाग हो जाते हैं तब अनुभागकी
अपेक्षा लताभाग और दारुका कुछ भाग सम्यक्त्वमोहनीयको प्राप्त होता है । इसके आगे दारुका
कुछ भाग सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीयको प्राप्त होता है । और शेष अनुभाग मिथ्यात्वमोहनीयको प्राप्त
होता है । इसी कारणसे यहाँपर जहाँ सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभाग समाप्त होता है उससे आगेका
भाग मिथ्यात्व मोहनीयका कहा है ।

इसप्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ ता० प्रतौ गमणिज्ज इति पाठः । २ ता० प्रतौ णवरि णोक्स्ता इति पाठः ।

फहयपरूवणा

३९९. फहयपरूवणादाए अणंताणंताणं अविभागपलिच्छेदाणं समुदयसमागमेण एगो वगो भवदि । एवं मूलपगदिभंगो कादच्चो ।

४००. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चट्ठवीसमणियोगदाराणि—सण्णा सच्चबंधो णोसच्चबंधो एवं याव अप्पावहुगे त्ति । भुजगारो^१ पदणिकखेओ वड्ढिवंधो अज्झवसाण-समुदाहारो जीवसमुदाहारे त्ति ।

१ सण्णा

४०१. तत्थ वि सण्णा दुविधा^२—घादिसण्णा ङ्गणसण्णा च । घादिसण्णा णाणवर०४-दंसणा०^३ ३-चट्ठसंज०-णवणोक्क०-पंचंतरा० उक्कस्सअणुभागबंधो सच्चघादी । अणुक्कस्स-अणुभागबंधो सच्चघादी वा देसघादी वा । जहण्णओ अणुभागबंधो देसघादी । अजहण्णओ अणुभागबंधो देसघादी वा सच्चघादी वा । केवलणाणा०-छदंसणा०-मिच्छत्त-वारसक० उक्कस्स-अणुक्कस्स-जह०-अजह०अणुभागबंधो सच्चघादी । सेसाणं सादासाद० चट्ठआउ० सच्चओ णामपगदीओ णीचुच्चा० उक्क०-अणु०-जह०-अज०अणुभाग० अघादी घादिपडिभागो ।

स्पर्द्धकप्ररूपणा

३६६. स्पर्द्धकप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंके समुदायसे एकवर्ग निष्पन्न होता है । इसीप्रकार मूलप्रकृतिबन्धके अनुसार कथन करना चाहिये ।

४००. इस अर्थपदके अनुसार वहाँपर ये चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं—संज्ञा, सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक । भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध, अध्यवसान-समुदाहार और जीवसमुदाहार ।

१ संज्ञा

४०२. उसमें भी संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । घातिसंज्ञाकी अपेक्षा चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, नौ नाकपाय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वघाति है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वघाति भी होता है और देशघाति भी होता है । जघन्य अनुभागवन्ध देशघाति है । अजघन्य अनुभागवन्ध सर्वघाति भी होता है और देशघाति भी होता है । केवलज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, मिथ्यात्व और वारह कपाय इनका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध सर्वघाति होता है । शेष सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध घातिके प्रतिभागके अनुसार अघाति होता है ।

विशेषार्थ—यह हम पहले कह आये हैं कि अनुभागवन्ध दो प्रकारका होता है—घाति और अघाति । जो जीवके अनुजीवी गुणोंका घात करनेवाला अनुभागवन्ध होता है उसे घाति कहते हैं । तथा जो जीवके प्रतिजीवी गुणोंका घात करनेवाला अनुभागवन्ध होता है उसे अघाति कहते हैं ।

१ ता० प्रती भुजगारा० इति पाठः । २ ता० प्रती वि दुस्सण्णा (सण्णा) दुविधा इति पाठः ।

३ ता० भा० प्रथोः दंसणा० ४ चट्ठसंज० इति पाठः ।

४०२. द्वाणसण्णा च णाणावर०[४]-दंसणावर०३-चदुसंज०-पुरिस०-पंचंत०
उकस्सअणुभाग० चदुद्वानियो । अणुक० चदुद्वानियो वा तिव्वानियो वा विद्वानियो
वा एयद्वानियो वा । जह० अणुभा० एयद्वानियो । अज० एयद्वानि० वा विद्वानि० वा
तिद्वानि० वा चदुद्वानि० वा । केवलणा०-छदंसणा०-सादासाद०-मिच्छत्त०-वारसक०-अद्व-
णोक०-चदुआयु० सन्नाओ णाम०पगदीओ णीचुच्चागो० उक० अणुभा० चदुद्वानि० ।
अणुक० अणुभा० चदुद्वानि० तिव्वानि० विद्वानि० वा । जह० अणुभा० विद्वानि० । अजह०
विद्वानि० तिव्वानि० चदुद्वानि० ।

घाति अनुभागबन्धके दो भेद हैं—देशघाति और सर्वघाति । देशघाति अनुभागबन्ध जीवके अनुजीवी गुणोंका एकदेश घात करता है । इसके उदयकालमें जीवका अनुजीवी गुण प्रगट तो रहता है परन्तु वह समस्त रहता है । उदाहरणार्थ—मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्मके देशघाति स्पर्धकोंके उदयसे और सर्वघाति स्पर्धकोंके अनुदयसे होता है । यहाँ मतिज्ञानका जो अंश प्रकाशमान है वह मतिज्ञानावरणकर्मके सर्वघातिस्पर्धकोंके अनुदयका कार्य है । और जितने अंशमें उसमें सद्दोषता है वह मतिज्ञानावरणकर्मके देशघातिस्पर्धकोंके उदयका कार्य है । इससे स्पष्ट है कि सर्वघातिस्पर्धक जीवके अनुजीवी गुणका सामस्त्येन घात करता है और देशघाति स्पर्धक एकदेश घात करता है । यहाँपर मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चक्षुःदर्शनावरण आदिक तीन दर्शनवरण, चार संज्वलन, नौ नोपकाय और पाँच अन्तराय इनमें दोनों प्रकारके स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है । तथा शेष घातिकर्मोंमें केवल सर्वघाति स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है । अघातिकर्मोंका स्पर्धक जीवके अनुजीवी गुणों का सर्वथा घात करनेमें असमर्थ होता है, इसलिए अघाति कष्ट है । इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवके किसी भी गुणका घात नहीं करता । घात तो वह भी करता है परन्तु अनुजीवी गुणोंका घात नहीं करता इतना अभिप्राय उक्त कथनका जानना चाहिये ।

४०२. स्थानसंज्ञाकी अपेक्षा चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है । अनुकृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है, द्विस्थानिक होता है और एकस्थानिक होता है । जघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है । तथा अजघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है, द्विस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है, और चतुःस्थानिक होता है । केवलज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, वारह कपाय, आठ नोकपाय, चार आयु, सब नामकर्मकी प्रकृतियों, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है । अनुकृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है अथवा द्विस्थानिक होता है । जघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक होता है । अजघन्य अनुभागबन्ध द्विस्थानिक होता है, त्रिस्थानिक होता है और चतुःस्थानिक होता है ।

विशेषार्थ—श्रेणी के नौवें गुणस्थानके अन्तिम भागसे एक स्थानिक अनुभागबन्ध सम्भव है । यही कारण है कि चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका जघन्य, अजघन्य और अनुकृष्ट अनुभागबन्ध एकस्थानिक भी कहा है । इनके सिवा अन्य कर्मोंका एकस्थानिक अनुभागबन्ध सम्भव नहीं है । इसलिए उनका अनुभागबन्ध एकस्थानिक नहीं कहा है । यद्यपि केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणका भी दमवें गुणस्थान तक घन्ध होता है, पर सर्वघाति होनेसे उनका एकस्थानिक अनुभागबन्ध नहीं होता ।

२-७ सव्व-णोसव्वबंधो उक्कस्सादिबंधो य

४०३. यो सो सव्वबंधो० णाम उक्क० अणुक० जह० अज० मूलपगदिभंगो कादन्वो ।

८-११ सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवबंधो

४०४. यो सो सादि०४ तस्स इमो णिद्देशो-पंचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-अप्पसत्थवण्ण०४-उवघाद०-पंचंत० उक्क० अणुक० जहण्ण० किं सादि०४ ? सादिय-अध्रुवबंधो । अज० किं सादि० ४ ? सादियबंधो वा० ४ । तेजा०-क०-पसत्थ०वण्ण०४-अगु०-णिमि० अणु० चत्तारिभंगो । सेसं तिण्णिपदा सेसाणं च कम्माणं चत्तारिपदा किं सादि० ४ ? सादिय-अध्रुवबंधो' ।

२-७ सर्व नोसर्वबन्ध तथा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-जघन्य-अजघन्यबन्ध

४०३. जो सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध है तथा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य बन्ध है उसका भङ्ग मूल प्रकृतिबन्ध के समान जानना चाहिये ।

८-११ सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्ध

४०४ जो सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव बन्ध है उसका यह निर्देश है । उषकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभागबन्ध क्या सादि हैं, अनादि हैं, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि और अध्रुवबन्ध है । अजघन्य अनुभागबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके चार भङ्ग हैं । इनके शेष तीन पद तथा शेष क्रमोंके चारों पद क्या सादि हैं, अनादि है, ध्रुव हैं या अध्रुव हैं ? सादि और अध्रुव हैं ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय इन चौदह प्रकृतियोंका क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें, चार संज्वलनोंका अनिवृत्तिवादरूपकके अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें, निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका क्षपक अपूर्वकरणके अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें, चार प्रत्याख्यानावरणका संयमको प्राप्त होनेवाले देशसंयतके अन्तिम समयमें चार अप्रत्याख्यानावरणका क्षायिक सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त होनेवाले अविरतसम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें, स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका सम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्ध होता है, यतः वह सादि और अध्रुव है, इसलिए इनका जघन्य अनुभागबन्ध सादि और अध्रुव कहा है । तथा इनके जघन्य अनुभागबन्धके प्राप्त होनेके पहले इन सब प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है जो अपनी अपनी व्युच्छित्तिके पूर्व तक अनादि है और यथायोग्य स्थानमें व्युच्छित्ति होनेके बाद लौटकर पुनः बन्ध होनेपर सादि है । तथा ध्रुव और अध्रुव क्रमसे भव्य और अभव्यकी अपेक्षा होते हैं, इसलिए इनका अजघन्य अनुभागबन्ध सादि आदिके भेदसे चार प्रकारका कहा है । तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चार गतिकी पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट संकलेश

१२ सामित्तपरूवणा

४०५. एत्तो सामित्तस्स कच्चे^१ तत्थ इमाणि तिण्णि—पच्चयपरूवणा विपाकदेशो^२
पसत्थापसत्थपरूवणा त्ति ।

४०६. पच्चयपरूवणादाए पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-अट्टक०-पुरिस०-हस्स-रदि-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-देवाउ०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउ-
व्विय०^३अंगो०-पसत्थापसत्थवण०४-देवाणुपु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-धिराधिर-
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत०६५ एत्तो
एकेकस्स पगदीओ मिच्छत्तपच्चयं असंजमपच्चयं कसायपच्चयं । सादावे० मिच्छत्तपच्चयं

परिणामोंसे करता है। यतः इसकी प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्भव है और उत्कृष्टके
बाद अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी इसी प्रकार होता रहता है, अतः इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सादि और अध्रुवके भेदसे दो प्रकारका कहा है। तैजसशरीर,
कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण इनका रूपक अपूर्वकरणके अपनी
व्युच्छित्तिके अन्तम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है इसलिए वह सादि और अध्रुव होनेसे
इन आठ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धको सादि और अध्रुव कहा है। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धके प्राप्त होनेके पूर्व इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है जो उपशम श्रेणीमें
अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके पूर्वतक अनादि है और व्युच्छित्ति होनेके बाद लौटकर पुनः इनका अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्ध होनेपर वह सादि है। ध्रुव और अध्रुव भंग पहलेके समान है। इस प्रकार इन
आठ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धमें सादि आदि चारों विकल्प घटित हो जानेसे वह चार
प्रकारका कहा है। अब रहे इन आठ प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बन्ध सो इनका जघन्य
अनुभागबन्ध चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है। यतः इसकी
प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्भव है और जघन्यके बाद उसी क्रमसे इनका अजघन्य अनुभाग-
बन्ध होता है। अतः इन आठ प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सादि और अध्रुवके
भेदसे दो प्रकारका कहा है। यह सैंतालीस ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंका विचार है। इनके अतिरिक्त
जो ७३ अध्रुव बन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध कादाचित्तिक होनेसे उनके उत्कृष्ट आदि चारों
प्रकारके अनुभागबन्ध सादि और अध्रुवके भेदसे दो प्रकारके होते हैं यह कहा है।

१२ स्वामित्तपरूवणा

४०५. इससे आगे स्वामित्तका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—प्रत्यय-
परूवणा, विपाकदेश और प्रशस्ताप्रशस्तपरूवणा ।

४०६. प्रत्ययपरूवणाकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, आठ
कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पञ्चोन्द्रयजाति,
वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकआद्गोपाङ्ग, प्रशस्त और
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर,
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, वशःकीर्ति, अवशःकीर्ति, निर्माण, उच्चागोत्र और
पाँच अन्तराय इन पैंसठ प्रकृतियोंमेंमे प्रत्येक प्रकृतिका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय और

१ ता० प्रतौ कच्चे (?) इति पाठः । २ ता० प्रतौ विपाकदेश्च० इति पाठः । ३ ता० धा०
प्रत्योः चदु०वेउव्विय-वेउव्विय० इति पाठः ।

असंजमपच्यं कषायपच्यं जोगपच्यं । मिच्छ०-णवुंसं०-णिरयाउग०-चदुजादि-हुंड०-
असंप०-णिरयाणु०-आदाव०-थावरदि०४ मिच्छत्तपच्यं । थीणगिद्धि०३-अट्टकसा०-
इत्थि०-तिरिक्खा०-मणुसायु०-तिरिक्ख-मणुसग०-ओरालि०-चदुसंठा०-ओरालि० अंगो०-
पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० मिच्छत्तपच्यं असं-
जमपच्यं । आहारदुगं संजमपच्यं । तित्थयरं सम्मत्तपच्यं ।

४०७. विपाकदेशो णाम मदियावरणं जीवविपाका । चदु आउ० भवविपाका ।
पंचसरीर०-छस्संढाण-तिणिअंगो०-छस्संघड०-पंचवण्ण०-दुगंध-पंचरस०-अट्टप०-
अगुरु०-उप०-पर०-आदाउज्जो०-पत्तेय०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ०-णिमिणं एदाओ
पुग्गलविपाकाओ । चदुण्णं आणु० खेत्तविपाका० । सेसाणं मदियावरणभंगो ।

कषायप्रत्यय होता है । सातावेदनीयका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय और योगप्रत्यय होता है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, चार जाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावरआदि चारका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय होता है । स्त्यानगृद्धि तीन, आठ कषाय, स्त्रीवेद, तीर्थञ्चायु, मनुष्यायु, तीर्थञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय और असंयमप्रत्यय होता है । आहारकट्टिकका बन्ध संयमप्रत्यय होता है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वप्रत्यय होता है ।

विशेषार्थ—मुख्य प्रत्यय चार हैं—मिथ्यात्व प्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषाय प्रत्यय और योग प्रत्यय । मिथ्यात्वप्रत्यय प्रथम गुणस्थानमें होता है । असंयमप्रत्यय चौथे गुणस्थानतक होता है । कषायप्रत्यय दशवें गुणस्थानतक होता है । और योगप्रत्यय तेरहवें गुणस्थानतक होता है । जिन प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिथ्यात्वप्रत्यय कहा है । जिनका बन्ध चौथे गुणस्थानतक होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिथ्यात्वप्रत्यय और असंयमप्रत्यय कहा है । जिनका बन्ध दशवें गुणस्थानतक होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय और कषायप्रत्यय कहा है । सातावेदनीयका बन्ध तेरहवें गुणस्थानतक होता है इसलिये उसे मिथ्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय और योगप्रत्यय कहा है । इतनी विशेषता है कि आहारकट्टिकका बन्ध संयमके सद्भावमें और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वके सद्भावमें होता है । इसलिये इनको तत्तत्प्रत्यय कहा है । यद्यपि मिथ्यात्वके रहते हुए असंयम, कषाय और योग अवश्य पाये जाते हैं । असंयमके सद्भावमें मिथ्यात्व पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है । पर कषाय और योग अवश्य पाये जाते हैं । कषायके सद्भावमें पूर्वके दो पाये भी जाते हैं और नहीं भी पाये जाते हैं । परन्तु योग अवश्य पाया जाता है और योगके सद्भावमें पहलेके तीन पाये भी जाते हैं और नहीं भी पाये जाते हैं । इसलिये यहाँ जिन प्रकृतियोंका मिथ्यात्वप्रत्यय बन्ध कहा है उनके बन्धके समय असंयम, कषाय और योग अवश्य होते हैं । मात्र मिथ्यात्वकी प्रधानता होनेसे उनका बन्ध मिथ्यात्वप्रत्यय कहा है । इसीप्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिये ।

४०७. विपाकदेशकी अपेक्षा मतिज्ञानावरण जीवविपाकी है । चार आयु भवविपाकी हैं । पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और निर्माण ये पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ हैं । चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ हैं । शेष प्रकृतियोंका भद्र मतिज्ञानावरणके समान हैं ।

४०८. पसत्थापसत्थपरूवणदाए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-
सक०-णवणोक०-णिरयाउ०-दोगदि०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थवण०४-
दोआणु०-उप०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंतरा० ८२
एदाओ पगदीओ अप्पसत्थाओ । सादावेद०-तिण्णिआउ०-दोगदि०-पंचिदि०-पंचसरीर०-
समचदु०-तिण्णिअंगो०-वज्जरिस०-पसत्थवण०४-दोआणु०-उप०-उस्सा०-आदाउज्जा०-
पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० ४२ एदाओ पगदीओ पसत्थाओ ।
एवं पसत्थापसत्थपरूवणा समत्ता ।

विशेषार्थ—ये जो बन्धकी अपेक्षा १२० प्रकृतियों वतलाइ हैं उनके विपाकका आधार क्या है इस दृष्टिको स्पष्ट करनेके लिए विपाकदेश अधिकार आया है । सब प्रकृतियाँ ४ भागोंमें विभक्त की गई हैं—जीवविपाकी, भवविपाकी, पुद्गलविपाकी और क्षेत्रविपाकी । जीवके ज्ञानादि गुणों और विविध नरकादि अवस्थाओंके हेतुरूपसे जिन प्रकृतियोंका विपाक होता है वे जीवविपाकी प्रकृतियाँ हैं । नरक भव आदिके हेतुरूपसे जिनका विपाक होता है वे भवविपाकी प्रकृतियाँ हैं । शरीर, वचन और मनके कारणरूप पुद्गलोंको जीवोपयोगी बनानेमें जिन प्रकृतियोंका विपाक होता है वे पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ हैं और एक गतिसे दूसरी गतिमें जाते समय विग्रहगतिमें जिन प्रकृतियोंका विपाक होता है वे क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ हैं । यद्यपि रति और अरति आदि बहुत सी जीवविपाकी प्रकृतियोंका स्त्री व कण्ठक आदि के निमित्तसे विपाक देखा जाता है पर इतने मात्रसे वे पुद्गलविपाकी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि ये स्त्री आदि पदार्थ रति आदिके विपाकमें नोकर्म अर्थात् सहकारी कारण हैं, उनके फल नहीं । जब कि शरीरादि पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंके ही कार्य हैं, इसलिए रति आदि जीवविपाकी प्रकृतियोंसे पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंमें और उनके फलमें महान् अन्तर है ।

४०८. प्रशस्ताप्रशस्तकी प्ररूपणा करनेपर पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, नरकायु, दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्यावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय ये व्यासी प्रकृतियों अप्रशस्त हैं । सातावेदनीय, तीन आयु, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, वज्ररूपभ-
नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र ये व्यासीस प्रकृतियों प्रशस्त हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रशस्ताप्रशस्तपरूपणामें पाँच ज्ञानावरण आदि ८२ प्रकृतियोंको अप्रशस्त और सातावेदनीय आदि ४२ प्रकृतियोंको प्रशस्त वतलाया है । सो इसका कारण यह है कि अप्रशस्त परिणामोंकी तीव्रतासे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है और प्रशस्त परिणामोंकी उत्कृष्टतामें सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है । यहाँ प्रकृतियोंमें प्रशस्त और अप्रशस्तका भेद अनुभागकी दृष्टिसे ही किया गया है । तात्पर्य यह है कि जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध प्रशस्त परिणामोंसे और जघन्य अनुभागबन्ध अप्रशस्त परिणामोंसे होता है वे प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं । तथा जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रशस्त परिणामोंसे और जघन्य अनुभागबन्ध प्रशस्त परिणामोंसे होता है वे अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं । यद्यपि बन्ध प्रकृतियों कुल १२० हैं पर यहाँ १२४ गिनाई हैं सो वर्णचतुष्कके प्रशस्त वर्णचतुष्क और अप्रशस्त वर्णचतुष्क ऐसा विभाग करके उनकी दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंमें परिगणना की गई है, इसलिए कुल प्रकृतियाँ १२० होनेपर भी यहाँ दोनों मिलाकर १२४ प्रकृतियों परिगणित की गई हैं ।

इसप्रकार प्रशस्ताप्रशस्तपरूपणा समाप्त हुई ।

४०९. एदेण अट्टपदेण सामित्तं दुविधं—जहं उक्कं । उक्कस्सए पगदं । दुवि-
 ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
 हुंडसंठा०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिह०-णीचा०-पंचंत० उक्कस्सओ
 अणुभागबंधो कस्सं ? अण्ण० चदुगदियस्स पंचिंदियस्स सण्णि० मिच्छादिट्ठिस्स
 सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागा०-जा० णियमा उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स उक्कस्सए
 अणुभागबंधे वट्ठं । सादावे०-जस०-उच्चा० उक्कस्सअणुभा० कस्सं ? अण्ण० खवग०
 सुहुमसंप० चरिमे उक्कं अणु० वट्ठं । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ०
 मदियावर०भंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलि० । णिरयाउग-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-
 साधार० उक्कं अणु० कस्सं ? अण्णदरस्स मणुसस्स वा पंचिंदियतिरिक्खजोणि-
 णीयस्स वा सन्वाहि पज्जत्तीहि० सागा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्कं अणु० वट्ठं ।
 तिरिक्ख-मणुसाउ० तं चेव । णवरि तप्पाओग्गविसुद्धं उक्कं अणु० वट्ठं । देवाउ०
 उक्कं अणु० कस्सं ? अण्ण० अप्पमत्तं सागा० तप्पाओग्गविसु० उक्कं अणु०
 वट्ठमाणगस्स । णिरयग०-णिरयाणुपु० उक्कं अणु० कस्सं ? अण्ण० मणुसस्स वा
 पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी० वा सण्णि० सन्वाहि पज्जं सागा०-जागा० णियं उक्कस्सं
 संकि० उक्कं अणुभा० वट्ठं । तिरिक्खगदि-असंपत्तं-तिरिक्खाणु० उक्कं अणु०

४०९. इस अर्थपक्षके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंके द्वारा पर्याप्तिको प्राप्त हुआ, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, यशः कीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? क्षपक सूक्ष्मसाम्परायसयत और अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग मति-ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाले जीवके कहना चाहिये । नरकायु, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला, अन्यतर मनुष्य या संज्ञीपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जीव कहना चाहिये । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसयत जीव देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइगस्स मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क०-
अणु० वट्टु० । मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० अणुमा०
कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइ० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० उक्क० वट्टु० । देवगदि-
पंचिदि०-वेउव्वि०-आहार०-तेजा०-क०-समचदु०-दोअंगो०-पसत्थ०वण्ण०४-देवाणु०-
अगु०-पर०-उस्सा०'-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०-तित्थय० उक्क० अणु०
कस्स० ? अण्ण० खवग० अपुव्वकरण० परभवियणामाणं चरिमे अणु० वट्टु० । एइदि०-
थावर० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सोधम्मीसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय०
उक्क० संकिलि० वट्टु० । आदाव० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स
सण्णिस्स सागा०-जा० तप्पा०विसु० उक्क० वट्टु० । उज्जो० उक्क० अणु० कस्स० ?
अण्ण० सत्तमाए पृढवीए णोइ० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० सागा०-जागा० सव्वविसु०
से काले सम्मत्तं पडिवज्जहिदि ति उक्क० वट्टु० ।

४१०. णेरइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
तिरिक्खग०-हुंड०-असंपत्त०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधि-
रादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज०

तियञ्चगात्, असम्प्राप्तासृपाटिका सहंनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि साकार-जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक-
आङ्गोपाङ्ग, वज्रभ्रुपभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि, साकार, जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक-
शरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण-
चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निमाण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर क्षपक अपूर्वकरण जो परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति और स्यावरके उत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म और ऐशान कल्पका देव उ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? संही, साकारजागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव आतप के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४१०. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त वर्ण-
चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिरआदि छह नीचगात्र और पाँच

सागा०-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादावे०-मणुसगदि-पंचिदि०-
ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०-वण्ण०' ४-मणुसाणु०-
अगु०-३-पसत्थ०-त्तस०-४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चागो० उक्क० अणुभा०
कस्स० ? अण्ण० सम्मा० सागार० सन्ववि० उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-
चदुसंठा०-चदुसंध० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० मदियावरणभंगो । णवरि तप्पा०-
संकिलि० । तिरिक्खाउ० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० तप्पा०-
विसु० उक्क० वट्ट० । मणुसाउ० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० तप्पा०-
विसुद्ध० उक्क० वट्ट० । उज्जोवं ओधं । एवं सत्तमाए पुढवीए । उवरिमासु छसु पुढवीसु
तं चैव । णवरि उज्जोवं तिरिक्खाउ०भंगो ।

४११. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
णिरयग०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०-४-णिरयाणुपु० उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा०-
पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० संवाहि पज्ज०
उक्क० अणु० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादावे०-देवगदिपसत्थसत्तावीस०-

अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकिलिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, वज्रऋषभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुज्युत्रिक, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्री-वेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? इसका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाले जीवके कहना चाहिये । तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये । पहले की छह पृथिवियोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उद्योत का भङ्ग तिर्यश्चायुके समान है ।

४११. तिर्यश्चोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला, अन्यतर संक्षी पञ्चेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताइस प्रकृतियों और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-

उच्चा० उक्क० [अणु० कस्स० ?] अणु० संजदासंजद० सागा० णिय० सव्ववि० उक्क०
वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-णिरयाउ-तिरिक्खगदि-चट्टुजादि-चट्टुसंठा०-पंचसंघ०-
तिरिक्खाणु०-थावरादि४ उक्क० अणु० कस्स० ? अणु० सागा० तप्पा०संकिलि० ।
[तिरिक्ख-मणुसाउ०-मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-आदाव०-
उज्जो० उक्क० अणु० कस्स० ? अणु० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० उक्क०
अणु० तप्पा० विमु० उक्क० वट्ट० । देवाउ० उक्क० अणु० कस्स ? अणु० संजदासंजद०
सागा० णिय० तप्पा० विमु० उक्क० वट्ट० । एवं पंचिदि० तिरिक्ख०३ ।

४१२. तिरिक्ख०अपज्जत्तेसु पंचणा-णवदंस०-असादा०-] मिच्छ०-सोलसक०-पंच-
णोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि४-
अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० ? अणु० सण्णि० सागा० णिय० उक्क०
संकिलि० उक्क० अणु० वट्ट० । सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचट्टु०-
ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरा-
दिह्ल०-णिमि०-उच्चा० उक्क० अणु० कस्स० ? अणु० सण्णिस्स सागा० सव्वविमु० उक्क०
वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिजादि-चट्टुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर०

जागृत, नियमसे सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, नरकायु, तिर्यञ्चगति, चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यचगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्षेप परिणामवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्च आयु, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्ररूपभनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि संज्ञी पचेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है । नियमसे तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला, साकार-जागृत और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिये ।

४१२. तिर्यञ्चअपर्याप्तिकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्षेप परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्ररूपभनाराचसंहनन, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविहायोगति, त्रस आदि चार स्थिर आदि दृढ़, निर्माण और उच्च-गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति और

उक्० ? अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्ख-मणुसार०-
आदाउज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०विमु० उक्क० वट्ट० ।
एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगल्लिदि०-पंचिंदि०-तसअपज्ज०-पुढवि०-आउ०-वणप्फदि-
णियोद०-वादर०पत्तेगं च^१ ।

४१३. मणुसेसु खविगाणं देवाउगं च ओघं । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खमंगो ।

४१४. देवेसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छा०-सोलसक०-पंचणोक०-
तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत०
उक्क० कस्स० ? अण्णद० मिच्छा० सागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० ।
सादा०-मणुस०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-
पसत्थवण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-
उचा० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० सागा० सव्ववि० उक्क० वट्ट० ।
इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा०
तप्पा०संक्किलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खायु०-उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा०

दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर संज्ञी जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यअपर्याप्त, सब-विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियअपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और वादरप्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिये ।

४१३. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका और देवायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है ।

४१४. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसस्यान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर-आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रचपभ नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविहायोगति, त्रस-चतुष्क, स्थिर आदि द्वादह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृति-योंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्यसंक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

१ ता० प्रतौ सागा० (गा) तप्पा० विमु० ट० विमु० ट० इति पाठः । २ ता० प्रतौ पत्तेगं (प) च इति पाठः ।

तप्पा०विस्सु० । मणुसायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० तप्पा०विस्सु० उक्क०
वट्ट० । एइंदि०-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सोधम्मीसाणहेट्ठिमदेवस्स मिच्छादि०
सागा० उक्क संकिलि० उक्क० वट्ट० । असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० सहस्सारंत० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० ईसाणंतदेवस्स मिच्छा० तप्पा०विस्सु० ।

४१५. भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मी० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-
मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खवर्ग०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरि-
क्खवाणु०-उप०-थावर०-अधिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा-
दिट्ठिस्स सागा० णिय० उक्क० वट्ट० । सेसं देवोघं । णवरि असंपत्त०-अप्पसत्थ०-
दुस्सर० इत्थिभंगो । भवण०-वाणवें०-जोदिसि० तित्थयरं णत्थि । सणक्कुमार याव
सहस्सार ति विदियपुढविभंगो । आणदादि याव णवगेवज्जा ति सहस्सारभंगो ।
णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खवाणु०-उज्जोव० वज्ज ।

स्वामी है । तिर्यञ्चगु और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध
परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ?
मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामयुक्त और उत्कृष्ट
अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत,
उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म और ऐशान व उससे
नीचेका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त
विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और नियमसे
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्सार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य
विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर ईशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है ।

४१५. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय,
तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपवात,
स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला
अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष भद्र सामान्य
देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगति और
दुःस्वर प्रकृतिका भद्र जिस प्रकार सामान्य देवोंमें स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामीकहा है
उस प्रकार है । तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें तीर्यङ्कर प्रकृतिका वन्ध नहीं होता ।
सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भद्र है । आनत
कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें सहस्वार कल्पके समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि
इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतको छोड़कर स्वामित्व कहना चाहिए ।

१. वा० प्रवौ तिरिक्ख च (?) आ० प्रवौ तिरिक्खं च एवि पाठः ।

४१६. अणुदिस याव सव्वदृत्ति पंचणा०-उदंसणा०-आसादा०-वारसक०-पंच-
णोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
सागा० उक्क० वट्ट० । सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-
ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-पसत्थवण्ण०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरा-
दिद्ध०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० णिय० सव्वविसु० उक्क०
वट्ट० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तप्पा०संकिलि० । मणुसायु० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० तप्पा०विसु० उक्क० वट्ट० ।

४१७. एइंदिएसु मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० वादर-
पुढ०-वादरआउ०-वादरपत्तेय०-वादरणियोदपज्ज० सागा० सव्वविसु० । एवं
मणुसायु० । णवरि तप्पाओगविसुद्ध० । सेसपगदीणं पसत्थाणं सो चेव भंगो । णवरि
वादरतेउ०-वादरवाउ० त्ति भाणिदव्वं । सेसं पंचिदि०तिरि०अपज्ज०भंगो । णवरि
वादरपज्जत्तग त्ति भाणिदव्वं । एवं सव्वएइंदिय-पंचकायणं च । णवरि तेउ-वाऊणं
मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० वज्ज० ।

४१६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तराय इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समुच्चतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी अगुस्लघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला करनेवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है । तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४१७. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर प्रत्यंक वनस्पति-कायिक पर्याप्त और वादर निगोद पर्याप्त जीवोंमेंसे साकार जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्धके कहना चाहिए । शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंको स्वामी कहना चाहिए । इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वादर पर्याप्त ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय और पाँच स्यावरकायवाले जीवोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको नहीं कहना चाहिए ।

४१८. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगी० ओषं । ओरालि० मणुसभंगो । केसिं च दुगदियस्स ति भाणिद्वं ।

४१९. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खवग०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थ० ४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंचणीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णिस्स तिरिक्ख० मणुस० सागा० गिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादा०-देवग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० दुगदियस्स सम्मा० सागा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । णवरि तित्थ० मणुस० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० तप्पा० संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खायु-मणुसायु-मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-आदाउज्जो०-उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सण्णि० मिच्छा० सागा० तप्पा० विसु० उक्क० वट्ट० ।

४२०. वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-

४१८. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंमें ओषधके समान भङ्ग है। औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है और दो गतिके कोई जीव स्वामी है ऐसा कहना चाहिए।

४१९. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अस्मातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तवर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्यरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर पचेन्द्रिय संज्ञी तिर्यञ्च या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, देवगति, पचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी मनुष्य है। खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्जपभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य संज्ञी मिथ्या-दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

४२०. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अस्मातावेदनीय,

णोक०-तिरिक्त्वाण०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्त्वाणु०-उप०-अथिरादिपंच०-णीचा०-
 पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि०
 उक्क० वट्ट० । सादावे०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०
 अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-
 तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० सन्वविमु०
 उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
 देव० णेरइ० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्त्वायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
 देव० णेरइ० मिच्छादि० सागा० तप्पाओग्गवि० उक्क० वट्ट० । मणुसाउ० उक्क० कस्स० ?
 अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विमु० उक्क० वट्ट० । एइदि०-थावर०
 उ० कस्स० ? अण्ण० देवस्स ईसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० ।
 असंप०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स सहस्सारंतस्स सन्वणेरइ०
 मिच्छा० सन्वसंकि० उक्क० वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंतस्स

मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-
 गत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
 स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकिलिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला
 अन्यतर देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।
 सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्र-
 संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,
 अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र-
 के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
 करनेवाला अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी
 है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका
 स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संकिलिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला
 अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट
 अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
 करनेवाला अन्यतर देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी
 है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और
 उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट
 अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन
 है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकिलिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर
 ईशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।
 अस्मन्प्राप्तृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी
 कौन है ? मिथ्यादृष्टि सर्व संकिलिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्सार कल्प
 तकका देव और सब नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट
 अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर

देवस्स तप्पा० विसु० उक्क० वट्ट० । उज्जो० ओघं । एवं चैव वेउच्चियमि० । णवरिं उज्जोव० सत्तमाए पुढवीए मिच्छा० सागा० सव्वविसु० ।

४२१. आहार०-अहारमि० पंचणा०-द्वदंसणा०-असादा०-चटुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० सव्वसंक्किलि० । सादावे०-देवगदि-पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचटु०-वेउच्चि०-अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० सव्वविसु० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० तप्पा०संक्किलि० । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सागा० तप्पा०-विसु० उक्क० वट्ट० ।

४२२. कम्मइ० पंचणा०-णवदंसणो०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खगदि-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० चटुगदि० मिच्छादि० सागा० सव्वसं० सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्व०-

ऐशान तकका देव आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्योतका भंग श्रोत्रके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी साकार-जागृत और सर्व विशुद्ध सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी होता है।

४२१. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकनाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर जीव हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर जीव देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

४२२. कार्मणकाययोगी जीवों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकनाय, तिर्यङ्खगति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्खगत्यानपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त

१. ता० प्रती आदावे० [ष] आ० प्रती आदावे इति पाठः । २. ता० प्रती [ष] दंयणा०, आ० प्रती छदंसणा० इति पाठ । ३. ता० प्रती तेजा० समचटु० इति पाठ ।

णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० । इत्थि०-
 पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंध० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि०
 सागा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । मणुसगदिपंचगस्स देव० णेरइ० सम्मादिद्विस्स
 सागा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । देवगदिचदु^१० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-
 मणुस० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० । एइंदिय-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसा-
 पंतदेवस्स सागा० सव्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । तिणिजादी० ओघं । असंप०-अप्पसत्थ०-
 दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सहस्सारंतदेवस्स णेरइगस्स सव्वसंकिलि० उक्क०
 वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदिय० सागा० तप्पाओग्गविसुद्ध०
 उक्क० वट्ट० । उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए सागा० सव्वविसु०
 उक्क० वट्ट० । सुहुम-अपज्ज०-साधो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
 पंचिदि० सण्णि मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । तित्थय०
 उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० सव्ववि० ।

वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि ब्रह्म, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीव है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तीन जातियोंका भङ्ग ओघके समान है । असम्प्राप्तार्ष्टपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्तर कल्प तकका देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर तीन गतिका जीव आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर पंचेन्द्रिय, संज्ञा मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?

१. ता० प्रती देवगदिचदुक्क०, आ० प्रती० देवगदिचदुजादि० इति पाठः । २. ता० प्रती सादा० इति पाठः ।

४२३, इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-पंचणोक०-
हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिछ०-णीचागो०-पंचंत० उक्क० कस्स०?अण्ण० तिगदि०
सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादा०-जस०-उच्चा० उक्क०
कस्स० ? अण्ण० खवग० अणियट्टिचरिमे अणुभाग० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-
रदि-चदुसंठा०-पंचसंध० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा०संकिलि०
उक्क० वट्ट० । आउचदुक्कं ओघं । णिरयगदि-णिरयाणुं०-अप्पस० उक्कं० कस्स० ?
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खवग०-एइंदि०-
तिरिक्खाणु०-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंनदेवीए मिच्छादि० सागा० णिय०
उक्क० संकिलि० । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवीए सम्मादि०
सागा० सव्ववि० । देवगदियादीणं ओघं । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क०
कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० संकि० उक्क० वट्ट० । आदाउज्जो०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० ।

साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४२३. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और पाँच संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । चार आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, और अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्यावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाली अन्यतर ऐशान कल्पतक की मिथ्यादृष्टि देवी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी स्वामी है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाली अन्यतर सम्यग्दृष्टि देवी मनुष्यगतिपञ्चककी उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी स्वामी है । देवगति आदिक ओषमें कही गई २६ प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । तीन जाति, मूत्तम, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?

१. ता० प्रती ओघं । गिरयाणु० इति पाठः । २. ता० आ० प्रयोः अप्सस० दुस्सर० ठण० इति पाठः ।

णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० । इत्थि०-
 पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंध० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि०
 सागा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । मणुसगदिपंचगस्स देव० णेरइ० सम्मादिट्टिस्स
 सागा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । देवगदिचदु^१० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-
 मणुस० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० । एइंदिय-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसा-
 णंतदेवस्स सागा० सव्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । तिणिजादी० ओधं । असंप०-अप्पसत्थ०-
 दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सहस्सारंतदेवस्स णेरइगस्स सव्वसंकिलि० उक्क०
 वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदिय० सागा० तप्पाओग्गविसुद्ध०
 उक्क० वट्ट० । उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए सागा० सव्वविसु०
 उक्क० वट्ट० । सुहुम-अपज्ज०-साधो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
 पंचिदि० सण्ण मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । तित्थय०
 उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० सव्ववि० ।

वर्णाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और
 उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट
 अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-
 वन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
 करनेवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
 है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट
 अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीव है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला
 अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
 एकेन्द्रियजाति और स्याघरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट
 और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका स्वामी है । तीन जातियोंका भङ्ग ओषके समान है । असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन,
 अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व-
 संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्रार कल्प तकका देव और नारकी उक्त
 प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
 साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर तीन गतिका
 जीव आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
 कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं
 पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके
 उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट और उत्कृष्ट
 अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर पंचेन्द्रिय, संज्ञा मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके
 उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तीर्यङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

१. ण० प्रती देवगदिचदुक्क०, आ० प्रती० देवगदिचदुजादि० इति पाठः । २. ण० प्रती सादा०
 इति पाठः ।

४२३, इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-पंचणोक०-
हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिछ०-णीचागो०-पंचंत० उक्क० कस्स०?अण्ण० तिगदि०
सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादा०-जस०-उच्चा० उक्क०
कस्स० ? अण्ण० खवग० अणियट्टिचरिमे अणुभाग० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-
रदि-चदुसंठा०-पंचसंध० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा०संकिलि०
उक्क० वट्ट० । आउचट्टुक्कं ओघं । णिरयगदि-णिरयाणु^१०-अप्पस० उक्कं० कस्स० ?
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खवग०-एइदि०-
तिरिक्खाणु०-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंनदेवीए मिच्छादि० सागा० णिय०
उक्क० संकिलि० । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवीए सम्मादि०
सागा० सव्ववि० । देवगदियादीणं ओघं । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क०
कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० संकि० उक्क० वट्ट० । आदाउज्जो०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० ।

साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४२३. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम अनुभागकाण्डकमे विद्यमान अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और पाँच संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । चार आयुत्रोंका भङ्ग ओघके समान है । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, और अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वसंक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाली अन्यतर ऐशान कल्पतक की मिथ्यादृष्टि देवी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी स्वामी है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाली अन्यतर सम्यग्दृष्टि देवी मनुष्यगतिपञ्चककी उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी स्वामी है । देवगति आदिक ओघमे कही गई २६ प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्चऔर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतप और द्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?

१. ता० प्रतौ ओघं । णिरयाणु० इति पाठः । २. ता० द्या० प्रत्योः अप्पस० दुस्सर० उक्क० इति पाठः ।

४२४. पुरिसवेदे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-
गोक०-हुंड०-अप्पस०४-उप०-अप्पस०-अथिरादिद्व०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकि० उक्क० वट्ट० । खविगाणं इत्थि-
भंगो । इत्थि-पुरिसदंडओ चदुआयु-णिरय-णिरयाणु० ओघं । तिरिक्खवग०-तिरिक्खाणु०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० उक्क० संकिलि० । मणुसपंचग० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० देव० सम्मादि० सागा० सव्ववि० । एइदि०-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
ईसाणंतदेवस्स सव्वसंकिलि० । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्स० वा सागा० तप्पा० संकिलि० वट्ट० । असंप० उक्क०
कस्स० ? अण्ण सहस्सारंतदेवस्स मिच्छा० सा ।।० उक्क० संकिलि० । आदाउज्जो०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा० विसु० ।

४२५. णवुंसगे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा० याव पढमदंडओ ओघो ।
णवरि तिगदि० पंचिदि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० । सादादिखवि-

साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४२४. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति,
अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन
गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । सातादिक ३, देवगति
आदिक २६ इन ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग खवेदी जीवोंके समान है । स्त्री-पुरुषवेददण्डक, चार
आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका भङ्ग श्रोत्रके समान है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानु-
पूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त
अन्यतर ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । तीन जाति,
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रा-
योग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियों
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत और उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४२५. णवुंसवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और असातावेदनीय
से लेकर प्रथम दण्डकका भङ्ग श्रोत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंका स्वामी

१. ता० आ० प्रयोः अप्पस० ४ सम्मादिद्विस्स उप० इति पाठः । २ ता० प्रवो खविगाणं इत्थि-
पुरिस० इति पाठः ।

गाणं इत्थिभंगो० । इत्थिपुरिसं०दंडओ ओघो० । णवरि तिगदिय० सागा० तप्पा० संकिलि० । आउचदुक्कं णिरयगदि-णिरयाणु० ओघं । तिरिक्खग०-असंप०-तिरिक्खाणु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० । मणुस-गदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० सम्मादि० साग० सव्वविसु० । चदु-जादि-थावर४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पा०संकिलि० । आदा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पा०विसु० । उज्जोव० ओघं ।

४२६. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुदंसज०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० उवसामं० परिवद० अणिय० चरिमे अणुभाग० वट्ट० । सादा०-जसगि०-उच्चा० ओघं ।

४२७. कोधं-माण-माय० सादा०-जस०-उच्चा० इत्थिभंगो । सेसं ओघं । लोभे मूलोघं ।

४२८. मदि०-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-णोक०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत०

साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव है। साता आदि ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। स्त्री-पुरुषवेद दण्डकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त तीन गतिका जीव इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। चार आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तास्त-पाटिकासंहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध का स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। चार जाति और स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। उद्योतका भङ्ग ओघके समान है।

४२६. अतगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर गिरनेवाला उपशामक अनिष्टत्तिकरण जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है।

४२७. क्रोधरूपायवाले, मानरूपायवाले और मायारूपायवाले जीवोंमें सातावेदनीय, यशः-कीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। तथा श्रेय भङ्ग ओघके समान है। लोभरूपायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है।

४२८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात, अप्रशस्त

१. ता० प्रती० खविगाणं इत्थि-पुरिसं इति पाठः । २. ता० प्रती उवसामा० इति पाठः ।

३. ता० प्रती उच्चा० । कोध० इति पाठः । ४. आ० प्रती पमत्थवि० इति पाठः ।

उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० पंचिदि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकि०
 उक्क० वट्ट० । सादा०-देवग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-
 पसत्थवण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध० -- णिमि०-उच्चा०
 उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० चरिमे अणु०
 वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स०-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघड० ओघं । तिण्णिआउ० ओघ ।
 देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुसस्स सागा० तप्पा०सव्वविसु० । णिरयगदि-
 तिण्णिजादि-णिरयाणु०-उज्जोव०-सुहुम०-अप०-साहा० ओघं । तिरिक्खगदि-असंप०-
 तिक्खाणु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क०
 सकिलि० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छादि० सव्वादि०
 सम्मत्ताभिमुह० चरिमे उक्क० अणु० वट्ट० । एइदि०-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
 ईसाणंतदेव० मिच्छा० सागा० उक्क० संकिलि० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
 तिगदिय० सागा० तप्पा० विसु० । एवं विभंगे । णवरि सण्णि ति ण भाणिदव्वं ।

विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग ओघके समान है । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, उद्योत, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सत्र पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, सम्यक्त्वके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर एशान कल्पतकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तीन गतिका जीव आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्वामित्वका कथन करते समय मंझी गेसा नहीं कहना चाहिए ।

४२६. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०--द्वंदसणा०-असादा०-वारसक०-पंच-
णोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
चदुगदि० सागा० णिय० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभिमुह० उक्क० वट्ट० । सादादिखवि-
गाणं ओघं । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० सागा० तप्पा०संकि० ।
मणुसाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सागा० तप्पा०विमु० । देवाउ०
ओघं । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सागा० सव्वविमुद्ध० ।
एवं ओधिदं०-सम्मादि० ।

४३०. मणपज्ज० पंचणा०-द्वंदसणा०-असादा०-चदुसज०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-
वण्ण०४-उप०-अथिर०-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स०? अण्ण० पमत्तसं० सागा०
सव्वसकि० असंजमाभिमुह० उक्क० वट्ट० । सादादिखविगाणं ओघं । हस्स-रदि०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसं० सागा० तप्पाओग्गसंकि० । देवाउ० ओघं । एवं
संजदे । णवरि मिच्छत्ताभिमुह० । एवं सामाइ०-वेदो० । णवरि सादावे०-जस०
उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० अणियट्ठि० खवग०-चरिमे उक्क० वट्ट० ।

४२६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह
दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर,
अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-
जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला
अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि ३२ क्षपक
प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत
और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
देवायुका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है । इसी प्रकार अविधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए !

४३०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार
संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त,
असंयमके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृ-
तियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान
है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य
संक्लेशयुक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुका
भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
इनमें मिथ्यात्वके अभिमुख जीवोंके पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कहना
चाहिए । इसी प्रकार सामाधिकसंयत और द्वेषोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि इनमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति और चणोघके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी

४३१. [परिहारे] पंचणाणादी० मणपज्जवभंगो' । णवरि सामाइ०-छेदो-
वट्टावणाभिमुह० सव्वसंकिलि० । सादादीणं अप्पमत्त० सव्वविसु० । हस्स-रदि०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसं० तप्पाओगसंकि० । देवाउ० ओघं । सुहुमसंप०
पंचणा०-चट्टदंसणा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० उवसाम० परिवद० उक्क० वट्ट० ।
सादा०-जस०-उच्चा० ओघं ।

४३२. संजदासंजदे पंचणा०-द्धदंसणा०-असादा०-अट्टक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-
वण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस०
सागार० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमुह० उक्क० वट्ट० । सादावे०-देवगदिपसत्थट्टावीसं
तित्थ०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० उक्क०
वट्ट० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरि० मणुस० सागा० तप्पा०संकि०
उक्क० वट्ट० । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरि० मणुस० तप्पा०विसु० उक्क०
वट्ट० ।

कौन है ? अन्तिस उत्कृष्ट अनुभागवन्धकमें विद्यमान अन्यतर अनिवृत्तिक्षपक जीव उक्त प्रकृ-
तियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४३१. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ३४ प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्यय-
ज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख और
सर्व संक्लेशयुक्त इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादिकके सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
है । देवायुका भङ्ग ओघके समान है । सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-
वरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला
अन्तर गिरनेवाला उपशामक जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय,
यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है ।

४३२. संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, आठ कपाय,
पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तराय
के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके
अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय और देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियों
तीथकूर सहित और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध,
संयमके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च
और मनुष्य हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध-
का स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और
मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४३३. असंजद० सादा०-देवगदिपसत्थहावीसं तित्थ०-उच्चा० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० मणुस० असजदसम्मादिद्विस्स सागा० सब्वविसु० संजमाभिमुह० । देवाउ०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० मिच्छादि० सागा० तप्पा० विसु० उक्क० वट्ट० ।
सेसाणं ओघं० । चक्खु०-अचक्खु ओघं ।

४३४. किण्णाए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अप्पस०-अथिरादिछ०-णीचां०-पंचंत० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० तिगदि० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकिलि० । सादा०
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालिअंगो०-वज्जरि०-पसत्थ-
वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थविं०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० उक्क०
कस्स० ? अण्ण० णेरइ० असंजदसम्मा० सागार० सब्वविसु० उक्क० वट्ट० । चदुणो०-
चदुसंठा०-चदुसंध० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० तप्पाओ०संकि० । तिण्णि
आउ० ओघं० । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि०
सम्मादि० तप्पा० विसु० उक्क० वट्ट० । णिरयगदि-णिरयाणु० उक्क० कस्स० ? अण्ण०

४३३. असंयत जीवोंमें सातावेदनीय और देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियाँ, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । चक्षुदर्शनवाले और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें स्वामित्व ओघके समान है ।

४३४. कृष्ण लेख्यामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघान, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका पचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुत्तद्युत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । चार नोकपाय, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव देवायुके

तिरिक्ख० मणुस० उक्क० संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्ख०-असंप०-तिरिक्खाणु०
 उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० उक्क० संकि० । देवगदि०४ उक्क० कस्स० ? अण्ण०
 तिरिक्ख० मणुस० सम्मादि० सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । चदुजादि-थावरादि४
 उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० तप्पा०संकि० । आदाव० उक्क०
 कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० तप्पा०विसु० । उज्जोव० ओघं ।
 तित्थ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० असंजदसं० सागा० तप्पा०विसु० ।

४३५. णील०-काळ० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-
 पंचणोक०-तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पस०-
 अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्णद० णेरइ० मिच्छादि० सागा०
 सव्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । सादा०-मणुसगदिपसत्थट्ठावीसं उच्चा० उक्क० कस्स० ?
 अण्ण० णेरइ० सम्मादि० सव्वविसु० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदु-
 संव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० मिच्छा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० ।

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । चार जाति और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । उद्योतका भङ्ग ओघके समान हैं । तार्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४३५. नील और कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगात्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति आदि प्रशस्त अट्टार्डस प्रकृतियाँ और उद्योगात्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

तिष्णिआउ० ओयं । देवाउ०-देवगदि०४ किष्णभंगो । णिरय०-चदुजा०-णिरयाणु०-
थावरादि०४ उक्क० कस्सं० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० तप्पा०संकि० ।
आदाउज्जो० उक्क० कस्सं० ? अण्ण० दुगदिय० तिगदिय० तप्पा०विमु० उक्क० वट्ट० ।
णीलाए तित्थ० किष्ण० भंगो । काऊए तित्थय० णेरइ० सव्ववि० ।

४३६, तेऊए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड० - अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर-अधिरादिपंच०
णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्सं० ? अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणंत० मिच्छादि० सव्वसंकि० ।
सादा०-देवग०पसत्थतीसं तित्थय० उच्चा० उक्क० कस्सं० ? अण्ण० अप्पमत्त० सागा०
सव्ववि० उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंध० उक्क० कस्सं० ?
अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणं० मिच्छा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खाउ०-
आदाउज्जो० उक्क० कस्सं० ? अण्ण० देवस्स तप्पा०विमु० । मणुसाउ० ? देवस्स

स्वामी है । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । देवायु और देवगति चतुष्कका भङ्ग कृष्ण-
लेश्याके समान है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तात्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और
मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्यविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर दो गति
का जीव आतपके और तीन गतिका जीव उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । नील
लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । तथा कापोतलेश्यामें सर्वविशुद्ध नारकी
तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहां पर मनुष्यगति आदि अट्टाईस प्रशस्त प्रकृतियों ये हैं—मनुष्यगति, पञ्चो-
न्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आज्ञो-
पाङ्ग, वन्नर्पभनाराच सहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
यशःकीर्ति और निर्माण ।

४३६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकैन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-
गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्टअनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सौधर्म-ऐशान कल्प तकका देव
उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त तीस
प्रकृतियोंके तथा तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जायृत,
सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार सहननके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्य-
तर मिथ्यादृष्टि सौधर्म और ऐशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
है । तिर्यञ्चायु, आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी-कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध
अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

सम्मादि० तप्पाओग्गविसु० । देवाउ० ओघं ! मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ?
 अण्ण० देव० सम्मादि० सव्वविसु० । असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ?
 अण्ण० ईसाणहेट्ठिमदेवस्स मिच्छा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ठ० ।

४३७. पम्माए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-
 तिरिक्खगदि-हुंड०-असंपत्त०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-
 अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सहस्सारंतदेवस्से मिच्छादि०
 सागा० सव्वसंकि० । सेसं तेउ०भंगो । णवरि एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज ।

४३८. सुक्काए पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-[पंच-
 णोक०] हुंड०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिद्ध०-णीचा०-
 पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० आणदादिदेव० मिच्छादि० सागा० संकि० । सादादि-
 खविगाणं ओघं । चदुणोक०-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० आणदादि-

स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
 स्वामी है । देवायुका भद्र ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
 कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
 असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहाययोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी
 कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान
 कल्प तकका देव व नीचेका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहां देवगति आदि प्रशस्त तीस प्रकृतियों ये हैं—देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति,
 वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग,
 आहारकआङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त
 विहाययोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण
 और तीथकर ।

४३७. पद्मालेश्यामं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
 कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्ण
 चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाययोगति, अस्थिर आदि छह, नीच गोत्र और
 पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संव्लेशयुक्त
 अन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
 शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां
 एकेन्द्रियजाति, आतप और स्वावर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे उनके उत्कृष्ट अनुभाग-
 वन्धका स्वामित्व छोड़कर कथन करना चाहिए ।

४३८. शुक्ललेश्यामं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
 कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात,
 अप्रशस्त विहाययोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
 का स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संव्लेशयुक्त अन्यतर आनतादिका मिथ्यादृष्टि देव
 उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । चार नोकषाय, चार संस्थान और चार संह
 नन अन्यतर आनतादिका मिथ्यादृष्टि देव
 उक्त प्रकृतियोंका भद्र ओघके समान
 अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

देव० मिच्छा० तप्पा०संकि० । मणुसाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० असंजद-
सम्मादि० तप्पा०विसु० । देवाउ० ओघं । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण०
देव० सम्मादि० सव्ववि० ।

४३६. भवसि० ओघं । अब्भवसि० पंचणाणावरणादि० ओघं । सादा०-पंचिदि०-
तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण४-अणु०३'-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-[जस०]
णिमि०-उच्चा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदिय० पंचिदि० सण्णि० सागा० सव्ववि० ।
चदुणो०-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० तप्पा०संकि० । आउ०
मदि०भंगो । णिरयगदि-णिरयाणु० तिरिक्ख-मणुस० सव्वसंकि० । तिरिक्ख०-असं-
पत्तसें-तिरिक्खाणु० देव० णेरइ० सव्वसंकि० । मणुसगदिपंचग० देव० णेरइ०
सव्वविसु० उक्क० वट्ट० । देवगदि०४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
सागार० सव्वविसु० । सैसाणं ओघं ।

तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि आनतादिका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध
अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुका भङ्ग
ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध
अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहां जिन क्षपक प्रकृतियोंका निर्देश किया है वे ये हैं—सातावेदनीय, देवगति,
पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, आहारक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
यशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र ।

४३६. भव्योंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरणादिका भङ्ग ओघके
समान है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, यशःकीर्ति, निर्माण
और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर
चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । चार
नोकपाय, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य
संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । चारों
आयुओंका भङ्ग मत्यहानियोंके समान है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तासृपादिका संहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियों
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत
और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

१. सा० प्रती अणु ४ इति पाठः । २. ता० प्रती थिरादिद्ध० उच्चा०, सा० प्रती धावरादिद्ध०
णिमि० उच्चा० इति पाठः ।

४४०. खड्ग० ओधिभंगो । पाणावरणादि० सत्थाणे सव्वसंकि० । वेदगे ओधि०भंगो । णवरि खड्गपगदीणं अप्पमत्त० सव्वविसु० । उवसम० ओधिभंगो ।

४४१. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-सोलसक०-इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दु०-तिरिक्ख०-वामण०-खीलिय०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पस०-अधिरादिद्ध०-णीचा०-पचत्त० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चट्ठुगदिय० सागा० सव्व-संकि० । सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचट्ठु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चट्ठुगदि० सागा० सव्व-विसु० । पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिसंघाण-तिण्णिसंघट्ठण० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चट्ठुग० तप्पा०संकिलि० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० सागा० तप्पा०विसु० । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० तप्पा०

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ अभव्योंमें जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान कहा है वे ओघ प्ररूपणाके समय गिनार्ई ही गई हैं । उनकी संख्या ५६ है, इसलिए वहाँसे जान लेनी चाहिए । यहाँ अन्तमें जेप प्रकृतियोंका स्वामित्व ओघके समान कहा है पर उनका नामनिर्देश नहीं किया है । वे ये हैं—एकेन्द्रियादि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण ।

४४०. चायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरणादिकका स्वस्थानमें सर्वसंक्लिष्ट चायिकसम्यग्दृष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ३२ क्षपक प्रकृतियाँ हैं । उनका यहाँ सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवके स्वामित्व कहना चाहिए । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हैं ।

विशेषार्थ—३२ क्षपक प्रकृतियोंका अवधिज्ञानीके जिस स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है उसी स्थानमें उन प्रकृतियोंका उपशमसम्यग्दृष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए । अन्तर इतना है कि अवधिज्ञानीके क्षपकश्रेणियोंमें कहना चाहिए और उपशम सम्यग्दृष्टिके उपशमश्रेणियोंमें ।

४४१. ससादनसम्यग्दृष्टियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कपाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वसक्लेश-युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजसगरीर, कर्मणशरीर, समचतुस्त संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रुस्तघुत्रिक, प्रशस्त विहागति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन संस्थान और तीन संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

विसु० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सव्ववि० । देवगदि०४
तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वविसु० । उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए
पुढवीए सागार० सव्वविसु० ।

४४२. सम्माभि० पंचणा०-द्धदंसणा०--असादा०--वारसक०-पंचणोक०-अप्प-
सत्थवण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चटुगदि०
सागा० णि० उक्क० संकि० मिच्छताभिमु० । सादावे०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-
पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० चटुगदि० सागा० सव्वविसु० समत्ताभिमु० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० चटुगदि० तप्पा०संकि० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइ०
सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० । देवगदि०४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख०
मणुस० सम्मत्ताभिमुह० ।

४४३. मिच्छादिट्ठी० मदि०भंगो । सण्णी० ओघं । असण्णी० तिरिक्खोघं ।
णवरि सादादीणं उक्क० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सागा० सव्वविसु० । आहार०

तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-
जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध
अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह
कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अचशःकीर्ति और पाँच
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त
और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्च-
गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और सम्यक्त्वके
अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । हास्य
और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार
गतिका जीव हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व विशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर
देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४४३. मिथ्यादृष्टि जीवोंके मत्तज्ञानी जीवोंके समान भद्र हैं । संज्ञी जीवोंके ओषके समान
भद्र हैं । असंज्ञी जीवोंके सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भद्र हैं । इतनी विशेषता है कि सातादि
२६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर

४४०. खड्ग० ओधिभंगो । णाणावरणादि० सत्थाणे सव्वसंकि० । वेदो ओधि०भंगो । णवरि खड्गपगदीणं अप्पमत्त० सव्वविसु० । उवसम० ओधिभंगो ।

४४१. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-सोलसक०-इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दु०-तिरिक्ख०-वामण०-खीलिय०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पस०-अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगदिय० सागा० सव्व-संकि० । सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्व-विमु० । पुरिस०-इस्स-रदि-तिण्णिसंढाण-तिण्णिसंघडण० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० तप्पा०संकिलि० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० सागा० तप्पा०विमु० । देवाउ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० तप्पा०

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ अभव्योंमें जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान कहा है वे ओघ प्ररूपणाके समय गिनाई ही गई हैं । उनकी संख्या ५६ है, इसलिए वहाँसे जान लेनी चाहिए । यहाँ अन्तमें शेष प्रकृतियोंका स्वामित्व ओघके समान कहा है पर उनका नामनिर्देश नहीं किया है । वे ये हैं—एकेन्द्रियादि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण ।

४४०. चायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरणादिका स्वस्थानमें सर्वसंक्लिष्ट चायिकसम्यग्दृष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ३२ क्षपक प्रकृतियाँ हैं । उनका यहाँ सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवके स्वामित्व कहना चाहिए । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हैं ।

विशेषार्थ—३२ क्षपक प्रकृतियोंका अवधिज्ञानीके जिस स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है उसी स्थानमें उन प्रकृतियोंका उपशमसम्यग्दृष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए । अन्तर इतना है कि अवधिज्ञानीके क्षपकश्रेणियोंमें कहना चाहिए और उपशम सम्यग्दृष्टिके उपशमश्रेणियोंमें ।

४४१. ससादनसम्यग्दृष्टियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वसंक्लेश-युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुस्त संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहागति, त्रयचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन संस्थान और तीन संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

विमु० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सव्ववि० । देवगदि० ४
तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्वविमु० । उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए
पुढवीए सागार० सव्वविमु० ।

४४२. सम्मामि० पंचणा०-द्वंदसणा०--असादा०--वारसक०-पंचणोक०-अप्प-
सत्थवण्ण० ४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चटुगदि०
सागा० णि० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभिमु० । सादावे०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-
पसत्थवण्ण० ४-अगु० ३-पसत्थवि०-तस० ४-थिरादिद्व०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० चटुगदि० सागा० सव्वविमु० समत्ताभिमु० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० चटुगदि० तप्पा० संकि० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइ०
सागा० सव्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० । देवगदि० ४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख०
मणुस० सम्मत्ताभिमुह० ।

४४३. मिच्छादिद्वी० मदि० भंगो । सण्णी० ओघं । असण्णी० तिरिक्खोघं ।
णवरि सादादीणं उक्क० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सागा० सव्वविमु० । आहार०

तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-
जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सवविशुद्ध
अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चारह
कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त
और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
स्वामी है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्च-
गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और सम्यक्त्वके
अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । हास्य
और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार
गतिका जीव हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व विशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर
देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४४३. मिथ्यादृष्टि जीवोंके मत्यज्ञानी जीवोंके समान भद्र हैं । संज्ञी जीवोंके ओघके समान
भद्र हैं । असंज्ञी जीवोंसे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भद्र हैं । इतनी विशेषता है कि सातादि
२६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर

ओघं । अणाहार० कम्मङ्गभंगो ।

एवं उक्कस्सयं सामित्तं समत्तं ।

४४४. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० जह० अणुभागबंधो कस्स० ? अण्ण० खवग० सुहुमसं० चरिमे० जह० वट्ट० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मणुस० मिच्छादि० सागा० सव्वविमु० संजमाभिमुह० जह० वट्ट० । णिदा-पचला० जह० कस्स० ? अण्ण० अपुव्वकरणखवग० णिदा-पचलाबंधचरिमे वट्ट० । सादासाद०--थिराथिर--सुभासुभ-जस०-अजस० जह० कस्स० ? अण्ण० चदुग० मिच्छादि० वा सम्मादि० वा परि-यत्तमाणपञ्चिमपरिणामस्स जह० अणु० वट्ट० । अपच्चक्खाणा०४ जह० कस्स० ?

असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार करते समय मूलमें कहीं पर साकार-जागृत, और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला ये दो विशेषण दिये हैं और कहीं पर नहीं दिये हैं । पर ये जहाँनहीं दिये हों वहाँ इन्हें भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो साकार-जागृत होता है उसके ही उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है । उसमें भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य सब विशेषताओंके रहते हुए उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नियमसे होता ही है ऐसा भी एकान्त नियम नहीं है, इसलिए जब उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो रहा हो तभी उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । इसी प्रकार कहीं उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त या सर्वविशुद्ध आदि विशेषणका भी मूलमें निर्देश न किया हो तो उसे भी जान लेना चाहिए । यहाँ पर असंज्ञीके उत्कृष्ट स्वामित्व कहते समय जो सातादि प्रकृतियोंका पृथक्से संकेत किया है । वे ये हैं—देवगति, सातावेदनीय, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्र ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

४४४. जवन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम जवन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ता-बन्धी चारके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभि-सुर और जवन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । निद्रा और प्रचलाके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? निद्रा और प्रचलाके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक उक्त दो प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जवन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि और सम्य-दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके जवन्य

अण्ण० मणुस० असंजदसम्मा० सागा० सञ्चविसु० से काले संजमं पडिवज्जिहिदि
 त्ति । एवं पच्चक्खाणा०४ । णवरि संजदासंज० । कोधसंजल० जह० कस्स० ? अण्ण०
 खवग० अणियट्ठि० कोधसंजल० चरिमे अणुभा० वट्ट० । एवं माण-मायाणं । लोभ-
 संजल० जह० कस्स ? अण्ण० खवग० अणियट्ठि० चरिमे जह० वट्ट० । इत्थि०-
 णवुंस० जह० कस्स० ? अण्ण० चदुग० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सञ्वाहि० सागा०
 तप्पा० विसु० । पुरिस० जह० कस्स० ? अण्ण० खवगस्स अणियट्ठि० पुरिस० चरिमे
 अणु० वट्ट० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जह० कस्स० ? अण्ण० खवग० अपुव्व० सागा०
 सञ्चविसु० चरिमे अणुभा० वट्ट० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ? अण्ण० पमत्त०
 सागा० तप्पा० विसु० । णिरय-देवाउ० जह० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
 मिच्छा० जहण्णिगाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मज्झिमपरिणामस्स ।
 तिरिक्ख०-मणुसाउ० जह० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि०
 जहण्णिगाए अपज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणमज्झिम० । णिरय-देवगदि-दोआणु०
 ज० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० मिच्छा० परिय० मज्झिम० जह० वट्ट० ।

अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और तदनन्तर समयमें सयमको प्राप्त होनेवाला अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि यह संयतासयतके कहना चाहिए । क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? क्रोधसंज्वलनके अन्तिम अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मानसंज्वलन और माया संज्वलनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी जानना चाहिए । लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि पञ्चन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तमें पुरुषवेदका जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव पुरुषवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । हास्य, रति, भय और जुगुप्साके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत सर्वविशुद्ध परिणामवाला और अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर क्षपक अपूर्वकरण जीव इनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । नरकायु और देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्त-मान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तिमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्विके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य

तिरिक्त्व०-तिरिक्त्वाणु०-णीचा० ज० क० ? अणु० सत्तमाए पुढ० मिच्छाः सव्वाहि
 पज्जत्तीहि पज्ज० सागा० सव्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० जह० वट्ट० । मणुस०-द्धसंठा०-
 द्धसंघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-मज्झिक्कल्लतिण्णियुग०-उच्चा० जह० कस्स० ? अणु० चदु-
 गदि० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० परिय०मज्झिम० ज० वट्ट० । एइदि०-
 थावर० जह० कस्स० ? अणु० तिगदि० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । तिण्णिजा०-
 सुद्धम०-अप०-साधार० जह० कस्स० अणु० तिरिक्त्व० मणुस० मिच्छादि० परिय०-
 मज्झिम० । पंचिं०-तेजा०-क०--पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० जह०
 कस्स ? अणु० चदुगदि० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकि० । ओरालि०-ओरालि-
 अंगो०-उज्जो० ज० क० अणु० देवस्स० णेरइ० मिच्छादि० सव्वाहि० प० सागा०
 णि० उक्क० संकि० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० ज० क० ? अणु० तिरिक्त्व० मणुस०
 पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्वसंकिं० । आहारदुगं० ज० क० ? अणु० अप्पमत्तसंज०
 सागा० णि० उक्क० संकि० पमत्ताभिमुह० जह० वट्ट० । अप्पसत्थ०४-उप० जह०

अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्ध-
 का स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?
 सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जघन्य अनुभाग-
 बन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-
 बन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, ब्रह्म संस्थान, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोंगति, मध्यके
 सुभगादिक तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम
 परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी
 मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके
 जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन
 गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त
 और साधारणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला
 अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।
 पंचेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्वुत्रिक, त्रसचतुष्क और
 निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त
 अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। औदारिक
 शरीर, औदारिक आहोपाह्न और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब
 पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव
 और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक
 आहोपाह्नके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी
 मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। आहारकद्विकके
 जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, प्रमत्त-
 नवमके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियों
 के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातके जघन्य अनुभागबन्धका

कस्स० ? अण्ण० अपुच्चक० खवग० परभवियणामाणं वंधचरिमे० वट्ट० । आदाव० जह० कस्स० ? अण्ण० सोधम्मीसाणंतस्स देवस्स मिच्छादि० उक्क० संकि० जह० वट्ट० । तित्थय० ज० क० ? अण्ण० मणुस० असंजदसम्मा० सागा० णि० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभिमुह० जह० वट्ट० ।

४४५. णिरएसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-
अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० सागा० सव्ववि० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त०-अणंताणुवं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सागा०
सव्ववि० सम्मत्ताभिमु० जह० वट्ट० । सादासादा०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-
जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० वा मिच्छा० वा परिय०मज्झिम० । इत्थि०-णवुंस०
ज० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० तप्पा०विमु० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ?
अण्ण० सम्मादि० सागा० तप्पा०विमु० जह० वट्ट० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० जह०
कस्स० ? मिच्छा० जहण्णिगाए पज्जत्तणिव्वत्तीए णिवत्तमाणमज्झिम० जह० वट्ट० ।
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ओघं । मणुस०-छस्संठा०-छस्संव०-मणुसाणु०-दो-

स्वामी कौन है ? परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? उक्कष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म-पेशान कल्पतकका मिथ्यादृष्टि देव आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उक्कष्ट संक्लेश-युक्त, मिथ्यात्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४४५. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यच्चायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान, मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा और नीचगोत्रका

विहा०-तिष्णिण्युगल०-उच्चा० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० ।
 पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थवण्ण४-अगु०३-उज्जो०-
 तस०४-णिमि० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकि० जह०
 वट्ट० । तित्थि० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० सागा० तप्पा०संकि० । एवं
 सत्तमाए पुढ० । णवरि मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्माइद्विस्स
 सम्मामिच्छताभिमुहस्सं । एवं छउवरिमासु । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० मणुस-
 गदिभंगो ।

४४६. तिरिक्खेसु पंचणा०-द्वंदंसणा०-अट्टक०-पंचणोक०-अण्णसत्थवण्ण०४-
 उप०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० संजदासंजद० सागार० सव्वविसु० । धीण-
 गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सव्वविसु०
 संजमाभिमुह० जह० वट्ट० । अपचक्खा०४ एवं चेव । णवरि असंज० । इत्थि०-णवुंसं०
 जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० तप्पा०विसु० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ?

भद्र श्रोत्रके समान है । मनुष्यगति, छह, संस्थान छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, नुभगादि मध्यके तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यागत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यग्मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भद्र जैसा नारकियोंमें मनुष्यगतिका जघन्य स्वामित्व कहा है उस प्रकार जानना चाहिए ।

४४६. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर संयतासयत तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध, संयमासंयमके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दृष्टिके कहना चाहिए । स्त्रीवेद और नपुमकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध

१. णा प्रती उच्चा० " भिनुग्गु, आ० प्रती उच्चा उक्क० कस्स अरण० सम्मत्ताभिमुहस्स इति पाठ ।

२. णा० प्रती इत्थि० पुत्थिम० यवुंसं इति पाठः ।

अण्ण० संजदासंजदं० तप्पा० विसु० । सादासादा०-धिरादितिणियुग०-आउ०४ ओघं ।
 तिण्णिगदि-चदुजादि-इस्संठा०-इस्संघ०-तिण्णिआणुपु०-दोविहा०-थावरादि०४-
 [मज्झिमल्ल-] तिण्णियुग०-उच्चा० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० ।
 तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० कस्स० ? अण्ण० वादरतेउ०-वाउ० सव्वाहि०
 सागा० सव्वविसु० । पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-
 अणु०३-तस४-णिमि० जह० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छाइट्ठि० सागार०
 णि० उक्क० संकिं० । ओरालि०२-आदाउज्जो० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि०
 तप्पा०संकि० ज० अणु० वट्ट० । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । णवरि तिरिक्ख०-
 तिरिक्खाणु०-णीचा० मणुसगदिभंगो ।

४४७. पंचिदियतिरिक्खअप० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-
 णोक्क०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा० सव्व-

अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर संयतासंयत तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति ये तीन युगल तथा चार आयु इनका भङ्ग ओघके समान है । तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, सुभगादि मध्यके तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त और सर्वविशुद्ध अन्यतर वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्लघुत्रिक, त्रंस चतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियमसे उक्त सक्लेशयुक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । इतनी विवेकता है कि इनके तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग मनुष्यगति प्रकृतिके जघन्य स्वामित्वके समान है ।

४४७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च

१ ता० प्रती मिच्छा... ण० संजदासंजदं०, धा० प्रती मिच्छा० तप्पा० विसु०... अण्ण० संजदासंजदं० इति पाठः । २. ता० प्रती पंचिं... संकिं०, धा० प्रती पंचिदि सण्णि०... उक्क० संकि० इति पाठः । ३. ता० प्रती ज० वाउ० (वट्ट०) एवं, धा० प्रती ज० वा० उक्क० पंचं इति पाठः । ४. ता० प्रती पंचत० उ० (ज०) क०, धा० प्रती पंचत उक्क० कस्स० इति पाठः ।

विमृ० । सादासादा०-दोगदि-पंचजादि-द्वस्संठा०-द्वस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तस-
थावरादिदसयुग०-दोगोद० जह० कस्स० ? अण्ण० परियत्त० मज्झिम० । इत्थि०-
णवुंस०-अरदि-सोग० जह० कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा० विसु० । दोआउ०
ओघं ! ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० जह० कस्स० ? अण्ण०
सण्णि० सागा० उक्क०-संकि० । ओरालि०-अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० ज०
कस्स० ? अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०-संकि० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिंदि०-
पंचिंदि०-तस०-अपज्ज०-सव्वपुहवि०-आउ०-वणप्फदि-णियोद०-वादरपत्ते० । मणुसेसु ३
खविगाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदि०-तिरिक्खभंगो ।

४४८. देवेषु पंचणा०-द्वदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-
पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० सव्ववि० । 'थीणगिद्धि०३-मिच्छं-
अणंताणुवं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० सव्वविसु० सम्मताभिमुह० ।
सादादीणं चदुयुगलं ओघं । इत्थि०-णवुंस० जह० कस्स० ? अण्ण० तप्पा० विसु० ।

उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुसकवेद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और उल्कष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। औदारिक आद्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सव पृथिवीकायिक, सव जलकायिक, सव वनस्पतिकायिक, सव निगोद और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके जानता चाहिए।

मनुष्यत्रिकमे क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है।

४४९. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और सन्धस्त्वके अभिमुख अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलोंका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवेद और नपुसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

अरदि-सोग० ज० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० तप्पा० विस्सु० । दोआधु० जह० कस्स० ?
 अण्ण० जहण्णिगाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्त० मज्झिम० । तिरिक्ख०-मणुस०-
 छस्संठा०-छस्संघ०--दोआणु०-दोविहा०--तिण्णिण्युग-णीचागो०-उच्चा० जह० कस्स० ?
 अण्ण० मिच्छा० परिय० मज्झिम० । एइदि०-थावर० ज० कस्स० ? अण्णं ईसाणंत-
 देवस्स मिच्छादि० परिय० मज्झिम० । पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-तस० जह०
 कस्स० ? अण्ण० सण्णक्कुमार उवरिं याव सहस्सार ति मिच्छा० सव्वसंकि० ।
 ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण० ४-अगु० ३-उज्जो०-वादर-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० जह०
 कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि० सागा० सव्वसंकि० । आदाव० जह० कस्स० ?
 अण्ण० ईसाणंत० मिच्छा० सव्वसंकि० । तित्थय० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा०
 सागा० तप्पासंकि० ।

४४६. एवं भवण०-वाणवेंतर-जोदिसिं-सोधम्मीसाण० । णवरि पंचिदि०-
 ओरालि० अंगो०-तस० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० तप्पा० संकि० । अथवा
 पंचिदि०-तस० ज० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० परिय० मज्झिम० । सणक्कुमार

अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्य-
 ग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य अनुभाग-
 वन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर
 देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, छह संस्थान,
 छह संहनन, दो आयुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादिक तीन युगल, नीचगोत्र और
 उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर
 मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके
 जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि
 ऐशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति,
 औदारिक आद्गोपाद्ग और त्रसके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त
 अन्यतर सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प, तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
 अनुभागवन्धका स्वामी है । औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,
 अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
 कौन है ? सत्र पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव
 उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आतपके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन
 है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर ऐशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
 है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य
 संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४४६. इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म-ऐशान कल्पके देवोंके जानना
 चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आद्गोपाद्ग और त्रसके जघन्य
 अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके
 जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अथवा पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसके जघन्य अनुभागवन्धका
 स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके

याव सहस्सार त्ति पढमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्जा त्ति सो चेव भंगो ।
णवरि त्तिरिक्ख०३ णत्थि० । मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-
पसत्थवण्ण०४-मणुसाणु०-अणु०३-तस०४-णिमि० जह० कस्स ? अण्ण० मिच्छा०
सव्वसकि० ।

४५०. अणुदिस याव सव्वदृ त्ति पंचणा०-द्धंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-
अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचत० जह० कस्स० ? अण्ण० सागा० सव्वविसु० । सादादि-
चदुयुगल० जह० कस्स० ? अण्ण० परिय०मज्झिम० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ?
अण्ण० सागा० तप्पा०विसु० । मणुसाउ० जह० कस्स० ? अण्ण० जहणियाए
पज्जत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्त० परिय०मज्झिम० । मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-
समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्थवि०-तस०४-
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा० जह० कस्स० ? अण्ण सव्वसंकि० ।

४५१. एइंदियाणं पंचिदि०तिरि०अपज्जत्तभंगो । णवरि वादरस्से त्ति भाणि-

जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्सार कल्प तक पहली पृथिवीके
समान भद्र है । आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तक वही भद्र है । इतनी विशेषता है कि इनमे
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंका (तथा तिर्यञ्चायुका) वन्ध नहीं
होता । तथा इनमे मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर,
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और
निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४५०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,
वारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-
अयशःकीर्ति इन चार युगलोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम
परिणामवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और
शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर
देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव
मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर,
तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन,
प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग,
सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और वज्रगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व
संक्लेश अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४५१. एनेन्द्रियोंमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भद्र है । इतनी विशेषता है

द्वं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरिक्खोघं । एवं सव्वएइंदिए ।

४५२. तेउ०-वाउ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु-उप०-णीचा०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० वादरस्स सव्वविसु० । सेसं तिरिक्ख०अप०भंगो० ।

४५३. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-क्रोधादि०४-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि०-आहारग ति ओघभंगो । ओरालियकायजोगी० मणुसि० भंगो । णवरि तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरिक्खोघं ।

४५४. ओरालियमि० पंचणा०-उदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ वण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मादि० सागा० सव्व-विसु० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० सागा० सव्ववि० । सादादिचदुयुगं० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । इत्थि०-णधुंस० जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० तप्पा०विसु० जह० वट्ट० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० तप्पा०विसु० । दो-

कि बादरोंके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । तथा तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोंमें जानना चाहिए ।

४५२. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर बादर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

४५३. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, चक्षुदर्शनी, श्रवणदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिककायोगी जीवोंमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि औदारिककायोगी जीवोंके तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

४५४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसमवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि

आयु० ओघं । तिरिक्खवग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० कस्स० ? अण्ण० वादरतेउ०-
वाउ० से काले सरीरपज्जती जाहिदि त्ति जह० वट्ट० । मणुसग०-पंचजादि-द्धस्संठा०-
द्धस्संय०-मणुसाणु०-दोविहा०-तसादिचदुयुग०-सुभगादितिण्णियुग-उच्चा० जह० कस्स० ?
अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । देवगदिपंच० जह० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख०
मणुस० सम्मा० सागा० सव्वसकि० से काले सरीरपज्जती जाहिदि त्ति । णवरि
तित्थय० मणुसग० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० जह०
कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वसंकि० । ओरालि०अंगो०-पर०-
उस्सा०-आदाउज्जो० जह० कस्स० ? अण्ण० पंचि० सण्णि० तप्पा०संकि० ।

४५५. वेउव्वियका० पंचणा०-द्धदंसणा०-वारक०-पंचणोकै०-अप्पसत्थवण्ण०४-
उप०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० ।
धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा०
सागा० सव्ववि० सम्मत्ताभिमुह० । सादादिचदुयुग० जह० कस्स० ? अण्ण० देव०

जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी है । दो ध्यायुओंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानु-
पूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला
जो अन्यतर वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्ति ग्रहण
करेगा वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पाँच जाति, छह
संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रसाद चार युगल, सुभगादि तीन-
युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणाम-
वाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति-
पञ्चकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त जो
अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्ति ग्रहण करेगा वह उक्त
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि तीक्ष्ण प्रकृतिके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी मनुष्यको कइना चाहिए । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्तुषु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व
संक्लेशयुक्त अन्यतर पञ्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परवात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर पञ्चन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४५५. वैकियिक्राययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच
नोरुपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख

गेरइ० सम्मादि० मिच्छादि० परिय०मज्झिम० । इत्थि०-णवुंस० जह० कस्स० ?
 अण्ण० देव० गेरइ० तप्पा०विस्सु० । अरदि०-सोग० ज० क० ? अण्ण० देवस्स
 गेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विस्सु० । दो आयु० ज० क० ? अण्ण० देव०
 गेरइ० जहणियाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्त० परिय०मज्झिम० । मणुस०-
 छस्संठा०-छस्संध०-मणुसाणु०-दोविहा०-तिण्णियुम०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० देव०
 गेरइ० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० कस्स० ?
 अण्ण० गेरइ० सत्तमाए पुढवीए मिच्छा० सागा० सव्ववि० सम्मत्ताभिमुह० जह०
 वट्ट० । एइंदि०-थावर० ज० क० ? अण्ण० देव० ईसाण० परि०मज्झिम० । पंचिं०
 ओरालि० अंगो०-तस० ज० क० ? अण्ण० सणकुमार उवरिमदेव० सव्वगेरइ० मिच्छादि०
 सव्वसंकि० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते-
 णिमि० ज० क० ? अण्ण० देव० गेरइ० मिच्छा० सव्वसंकि० । आदाव० ज० क० ?
 अण्ण० ईसाणंतदेव० मिच्छादि० सव्वसंकि० । उज्जो० ज० क० ? अण्ण० देव०

अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातादि चार युगल्लोके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। श्रति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादिक तीन युगल और उच्च गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आद्दोपाद्द और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सानत्कुमारसे ऊपरका देव और सब नरकोका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। औदारिकशरीर, तैलशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वण्चतुष्क, अगुरुल्लयु-त्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेश-युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान कल्प तपका देव आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। ज्योतके जघन्य अनुभागबन्धका

गेरइ० सव्वसंकि० । तित्थ० ज० क० । अण्ण० देव० गेरइ० सव्वसंकि० । एवं चेव वेउव्वियमि० । णवरि आउअं णत्थि ।

४५६. आहार०-आहारमि० पंचणा०-ब्बंदसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-वण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० क० ? अण्ण० सागा० सव्ववि० । सादादिचदुयुगं० ज० क० ? अण्ण० परिय०मज्झिम० । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विसु० । देवायु० ज० क० ? अण्ण० परिय०मज्झिम० । देवग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० सागा० उक्क०संकि० ।

४५७. कम्मइ० पंचणा०-ब्बंदसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सागा० सव्ववि० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० सागा० सव्ववि० ।

स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर देव और नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे आयुओंका वन्ध नहीं होता ।

४५६. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । साता आदि चार युगलोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तात्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुस्त्रसंस्थान, वैक्रियिक आद्भोपाद्भ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और उक्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४५७. कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभाग-

सादादिचदुयुगल० ज० क० ? अण्ण०-चदुगदि० सम्मादि० मिच्छा० परि०मज्झिम० ।
 इत्थि०-णवुंस० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छा० सागा० तप्पा०सव्ववि० ।
 अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० चदुग० सम्मादि० तप्पा०विमु० । तिरिक्ख०-
 तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढ० सागा० सव्वविमु० । मणुसग०-
 छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु०--दोविहा०--तिण्णियुग०--उच्चा० ज० क० ? अण्ण०
 चदुग० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । एइंदि०-थावर० ज० क० ? अण्ण० तिगदि०
 परि०मज्झिम० । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साहा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख०
 मणुस० मिच्छा० परिय०मज्झिम० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-तसं० ज० क० ? अण्ण०
 देव० सहस्सारंतस्स सव्वणेरइय० मिच्छा० सव्वसंकि० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्य-
 वण्ण०४-अगु०-णिमि० ज० क० ? अण्ण०चदुगदि० मिच्छा० सव्वसंकि० । पर०-
 उस्सा०-उज्जो०-वादर-पज्ज०-पत्ते० ज० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा०
 सव्वसंकि० । देवगदि०४ ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मा० सव्वसंकि० ।

बन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सन्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तात्प्रायोग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका सन्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और उच्च गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीन जाति सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि, तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आद्गोपाद्ग और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सहस्रार कल्प तकका देव और सब नरकोंका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । औदारिकशरीर, तँजसशरीर, कार्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । परघात, उच्छ्वास, उद्योत, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सन्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका

आदव-तित्थयं० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० सव्वसंकि० ।

४५८, इत्थि० पंचणा०-चदुदंसाणा०--चदुसंज०-पुरिस०-पंचंत० ज० क० ?
अण्ण० खवग० अणियट्ठि० चरिमे ज० अणु० वट्ठ० । पंचदंस०-मिच्छा०-वारसक०-
अट्ठणोक०-चदुआयु०-आहारदुग-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-तित्थय० ओघं । णवरि इत्थि०-
णवुंस० तिगदि० तप्पा० । सादादिचदुयुग० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा०
सम्मादि० परिय०मज्झिम० । णिरय-देवगदि-तिण्णिजादि-दोआणु०-सुहुम०-अपज्ज०-
साधा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० परि०मज्झिम० । तिरिक्ख०-
मणुसग०-एइंदि०-द्धस्संठा०-द्धस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थावर०-तिण्णियुग०-णीसुच्चा०
ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० परि०मज्झिम० । पंचिदि०-[वेउ०-] वेउ०
अंगो०-तस० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सव्वसंकि० । ओरालि०-आदा-
वुज्जो० ज० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० सव्वसंकि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-
अगु०३-वादर-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सव्वसंकि० ।

स्वामी है। आतप और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेश-
युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

४५८. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम जघन्य अनुभागवन्ध करने-
वाला अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।
पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, आठ नोकपाय, चार आयु, आहारकट्टिक, अप्रशस्त
वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थङ्करका भङ्ग ओषधके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और
नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व तत्राशोग्य तीन गतिवालेके कहना चाहिए। सातादि चार युगलके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका
मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। नरकगति,
देवगति, तीन जाति, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं। तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति,
छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर, तीन युगल, नीचगोत्र और उच्च-
गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर
तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। पञ्चन्द्रिय
जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आह्नोपाद्ग और ब्रसके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन
है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी है। औदारिक शरीर, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है।
सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव

ओरालि०अंगो० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० तप्पा०संकिं० ।

४५६. पुरिस० पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अणु०३-तस०४-णिमि० ज० क०? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सव्वसंकिं० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-उज्जोव०? देव० सव्वसंकिं० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० ज० क० ? अण्ण० तिरि० मणुस० सव्वसंकिं० । आदाव० ओघं० । सेसं इत्थिवेदभंगो ।

४६०. णवुंसगे णिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-दोआणु०-थावरादि०४ ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० परि०मज्झिम० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-उज्जो० ज० क० ? अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सव्वसंकिं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थ-वण्ण०४-अणु०३-तस०४-णिमि० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छादि० सव्व-संकिं० । सेसं ओघं । णवरि आदावं तिरिक्खोघं ।

४६१. अवगद० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० ओघं । सादा०-जस०-उच्चागो० ज० क० ? अण्ण० उवसा० परिवदमा० चरिमे जह० अणु० वट्ट० ।

उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४५६. पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेश-युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

४६०. नपुंसकवेदी जीवोंमें नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावरादि चारके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । औदारिक-शरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेश-युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि आतप प्रकृतिका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

४६१. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्ञलन और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनोय, चशःकीर्ति और उज्जोत्रके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य अनुभागबन्ध फरनेवाला उपगामक गिरते हुए अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४६२. मदि-मुदे पंचंगा०-णवदंसणा०--मिच्छत्त०--सोलसक०-पंचणोक०-अप्प-सत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु० संजमाभि० । सादादिचदुयुगल०-मणुस०-द्धस्संठा०-द्धस्संव०-मणुसाणु०-दोविहा०-सुभगादि०तिण्णि-युगं०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण चदुग० परि०मज्झिम० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० चदुग० तप्पा०विसु० । सेसं ओघं^२ । एवं विभंगे मिच्छा-दिट्ठि त्ति ।

४६३. आभि०-सुद०-ओधि० खविगाण संजमपाओग्गाणं च ओघं । सादादि-चदुयुग० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० परि०मज्झिम० । मणुसाउ० ज० क० ? अण्ण० देव० वा णेरइ० ज० पज्ज० मज्झिम० । देवाउ० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० ज० पज्ज० मज्झिम० । मणुसगदिपंच० ज० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सागा० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमु० । देवगदि०४ ज० ? तिरिक्ख-मणुस० सागार० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमु० । पंचिंद०--तेजा०--क०--समचदु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थ०-

४६२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । सातादि चार युगल, मनुष्यगति, द्रह संस्थान, द्रह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग आदि तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है? स्त्रीवेद, नपुसकवेद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार विभङ्ग-ज्ञानी और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

४६३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों और संयमप्रायोग्य प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? जघन्य पर्याप्तिसे पर्याप्त और परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? जघन्य पर्याप्तिसे पर्याप्त और मध्यम परिणामवाला तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-

१. षा० धा० प्रयोः दोविहा० धिरादिद्युग० इति पाठः । २. ता० प्रतो सेसं [दे] बोधं इति पाठः ।

तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०--उच्चा० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सागा०
णि० उ० संकि० मिच्छत्ता० । आहारदु० [अप्पसत्थवण्ण४-उप०-] तित्थयरं च ओघं० ।
एवं ओधिदंस०-सम्मा० ।

४६४. मणपज्ज० देवग०--पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०--समचदु०-वेउव्वि०-
अंगो०--पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थवि०--तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-
उच्चा० ज० क० ? अण्ण० पमत्तसंज० सव्वसंकि० असंजमाभिमु० । तित्थय० ज० ?
पमत्तसंज० असंजमाभि० । सेसं ओघं^३ । एवं संजदा० । णवरि पढमदंडओ मिच्छत्ता-
भिमु० । एवं सामाइय-च्छेदो० । णवरि पंचणाणावरणादि० ज० क० ? अण्ण०
खवग० अणियट्ठि० । परिहारे मणमज्जव०भंगो । णवरि देवगदिआदीओ असंजमाभिमुहाणं
ताओ सामाइ०-च्छेदोव०णाभिमुह० कादव्वं । याओ खवगपगदीओ ताओ अप्पमत्तस्स

संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर,
आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत
नियमसे उत्कृष्ट संश्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उघघात और तीर्थङ्कर
प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां चपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान कहा है । उनसे क्षपक प्रायोग्य
प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृह्णित्तिको छोड़कर छह दर्शनावरण, चार संज्वलन
और पुरुषवेद-हास्य रति-भय और जुगुप्सा ये पाँच नोकनाय । संयमप्रायोग्य प्रकृतियों ये हैं—
मध्यकी आठ कपाय, अरति और शोक ।

४६४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,
कार्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संश्लेशयुक्त और असंयमके अभिमुख अन्यतर
प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? असंयमके अभिमुख अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार संयत
जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें प्रथम दण्डकमे जो देवगति, आदि २५
प्रकृतियों कहीं हैं उनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख संयत जीव है ।
इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवों के जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
कि इनके पाँच ज्ञानावरणदिकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चपक अनिशुद्धि-
करण जीव इनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपर्यय-
ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जिन देवगति
आदि प्रकृतियोंका असंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है उनका परिहारविशुद्धि-
संयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहना

१. ता० प्रती संकि० । मिच्छा० । आ० प्रती संकि० मिच्छा इति पाठः । २. ता० प्रती
असंजमाभिमु० ॥ तित्थय ज० पमत्तसंज० असंजमाभि० ॥ [पञ्चिद्वान्तर्गतः पाठः पुनरुक्तः प्रतीपठे]
सेसं ओघं इति पाठः ।

सव्ववि० । सुहुमसंप० अवगद०भंगो ।

४६५. संजदासंजदे पंचणा०--द्वंदंसणा०--अट्टकसा०--पंचणोकसा०--अप्पसत्थवण्ण०४--उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविसु० संजमाभिसु० । सादादिचदुयुग० ज० ? परि०मज्झिम० । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विसु० । देवाउ० जहग्ग० ? तिरिक्ख० मणुस० जहणियाए पज्जत्तगणिव्वतीए परि०मज्झिम० । देवग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०--वेउव्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४--देवाणु०-अगु०३--पसत्थवि०--तस०४--सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सव्व० मिच्छत्ताभिसु० । तित्थ० ज० ? असंजमाभिसुह० ।

४६६. असंजदे पंचणा०--द्वंदंसणा०--वारसक०--पंचणोक०--अप्पसत्थवण्ण०४--उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० असंज०सम्मादिट्ठिस्स सागा० सव्ववि० संजमा-

चाहिए । तथा जो क्षपक प्रकृतियों हैं उनका जघन्य स्वामित्व सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवके कहना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोमे अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व अनिवृत्तिकरण क्षपक जीवके प्राप्त होता है वे ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय । तथा परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमें जिन क्षपक प्रकृतियोंका जघन्य स्वामी सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीवको वतलाया है । वे ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक को छोड़कर छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद-हास्य-रति-भय-जुगुप्सा ये पाँच नोकषाय, चार अप्रशस्त वर्ण और उपघात । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

४६५. संयतासंतत जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्च देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिकआज्ञोपाद्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लयुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उज्जोगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? नाकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तीर्थद्वार प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? असंयतके अभिमुख अन्यतर जीव तीर्थद्वार प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४६६. असंयत जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

भिमु० । सेसं ओधं ।

४६७. क्रिण्णाए पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसक०-पंचणोकसाय-अप्पसत्थंवण्ण०४'-
उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० गेरइ० असंजदस० सागा० सव्वविसु० । सादादि-
चदुयुग० ? तिगदि० परि०मज्झिम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० क०
अण्ण० गेरइ० मिच्छा० सागा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमु० । इत्थि०-णवुंस० ज०
क० ? अण्ण० गेरइ० तप्पा०विसु० । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० गेरइ० सम्मादि०
तप्पा०विसु० । आउचहु० ओधं । णिरयँ०-देवग०-चहुजादि-दोआणु०-थावरादि०४
ज० क० ? अण्ण० तिरि० मणुस० परि०मज्झिम० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-
णीचा० ओधं । मणुसग०-द्धसंठाण-द्धसंधण-मणुसाणु०-दोविहा०-तिण्णियुगल०-
उच्चा० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० परि०मज्झिम० । पंचिदिय०-तेजा०-क०-पसत्थ-
वण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० क० ? अण्ण० तिगदियस्स सागा० सव्व-
संकि० । ओरा०-ओरा०अंगो०-उज्जो० ज० क० ? गेरइ० मिच्छा० सव्वसकि० ।

साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जाव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

४६७. कृष्ण लेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि चार युगलके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्नानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । चार आयुका भङ्ग ओघके समान है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति, छह मस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति मध्यके सुभगादिक तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । पञ्चद्वियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रमस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्या-

१. भा० प्रती वारसक० अप्पसत्थवण्य ४ इति पाठः । २. भा० प्रती आउचहु० यिरय० इति पाठः ।

वेज्वि०-वेज्वि०अंगो० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० सागा०
सव्वसंकि० । आदाव० ? दुगदियस्स तप्पा०संकि० । तित्थ० ओघं ।

४६८. णील-काउलेस्साणं [पंचणाणावरणादि जाव] णिरयग०दंडगा त्ति किण्ण-
भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० ? अण्ण० वादरतेउ०-वाउ० सागा०
सव्ववि० । पंचिदि० [ओरालि-तेजा०-कम्म०] ओरालि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-अगु३-
तस०४-णिमि० ज० क० ? अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सागा० सव्वसंकि० । मणुस०-
छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तिण्णियुगल०-उच्चा० ? तिण्णिगदि० परि०
मज्झिम० । [वेज्वि०-वेज्वि०अंगो० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा०
सागा० सव्वसंकि०] आदाव० ज० क० ? अण्ण० दुगदि० तप्पा०संकि० । उज्जो० ?
णेरइ० सव्व०संकि० । णीलए तित्थ० मणुस० तप्पा०संकि० । काऊए तित्थय०
णिरयांघं ।

दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक
आद्भोपाद्भके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्य-
तर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर दो गतिका जीव आतप
के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

४६८ नील और कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण दण्डकसे लेकर नरकगति दण्डक तकका
भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभाग-
बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर वादर अग्निऋयिक और वादर-
वायुकायिक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चन्द्रियजाति, औदारिक
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आद्भोपाद्भ, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस-
चतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेश-
युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति,
द्वह संस्थान, द्वह संहनन मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और उच्च
गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन
गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-
आद्भोपाद्भके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लिष्ट अन्यतर
मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट अन्यतर दो गतिका जीव आतपके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी है । उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त
अन्यतर नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त मनुष्य है । तथा कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके
जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी सामान्य नारकियोंके समान है ।

१. सा० आ० प्रयोः सव्वसंकि० । सादादिचदुयुग० ज० तिगदि० परि०मज्झिम० । आठ० ओघं ।
मणुस० इति पाठः । २. सा० आ० प्रयोः परि०मज्झिम० इयि० ययुंस० ज० क० ? तप्पा० विमु० ।
शरदिसेंग० ज० ? रोइ० यस्संजइ० तप्पा० विमु० । आदाव० इति पाठः ।

४६६. तेउले० पंचणा०-द्वदंसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-
 उप०-पंचंत० ज० क० ? अप्पमत्त० सव्वविसु० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-वारसक०-
 अरदि-सो०-आहारहुगं ओधं । सादादिचदुयुग० ज० ? तिगदि० परिमज्झिम० ।
 इत्थि० ज० ? तिगदि० तप्पा०विसु० । णवुंस० ज० ? देव० तप्पा०विसु० । तिरिक्ख-
 मणुसायु० ? देव० मिच्छा० मज्झिम० । देवायु० ज० ? तिरि० मणुस० मज्झिम० ।
 तिरिक्खग०-मणुस०-एइदि०-पंचि०-द्वस्संठा०-द्वस्संध०-दोआणुपु०-दोविहा०-तस०-
 थावर-तिण्णियुगल०-दोगोद० ज० क० ? अण्ण० देव० परि०मज्झिम० । देवगदि०४
 ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सव्वसंकि० । ओरालि०-तेजा०-
 क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-आदाउज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ज० क० ?
 अण्ण० सोधम्मीसाणं० मिच्छादिद्विस्स सव्वसंकि० । ओरालि०अंगो० ज० ?
 सोधम्मीसा० तप्पा० सकि० । तित्थय० ज० ? देव० सोधम्मीसा० असंजद०
 सव्वसंकि० ।

४६६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व विशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, वारह कपाय, अरति, शोक और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध तीन गतिका जीव स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध देव नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ? तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रिय-जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्वावर, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनु-भागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसकिलष्ट अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आँदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि सौधर्म और ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । औदारिक आहोपाङ्गके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश युक्त अन्यतर सौधर्म और ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । तीर्यङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेश युक्त अन्यतर असयतसन्वग्दृष्टि सौधर्म और ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४७०. पम्माए एवं चैव । णवरि पंचिं-ओरालिय-तेजा-क-ओरालि-अंगो-पसत्थवण्ण-०४-अगु-३-तस-०४-णिमि-ज-क-१-अण्ण-देव-सहस्सार-मिच्छा-सव्वसंकि-। तिरि-मणुस-अस्संठा-अस्संध-दोआणु-दोविहा-तिण्णि-युग-दोगोद-ज-क-१-अण्ण-देव-सहस्सार-परि-मज्झिम-। इत्थि-णवुंस-ज-१-देव-तप्पा-सव्वविसु-।

४७१. सुक्काए सादादिचदुयुगल-ज-१-तिगदि-परि-मज्झिम-। इत्थि-णवुंस-ज-१-देव-तप्पा-विसु-। पंचिदि-ओरालि-तेजा-क-ओरालि-अंगो-पसत्थवण्ण-०४-एवं [जाव णिमिण ति] णवगेवज्जभंगो । मणुसायु-ज-१-देव-मिच्छा-। देवायु-१-तिरि-मणुस-जह-पज्ज-णि-मज्झिम-। देवगदि-०४-ज-१-तिरि-मणुस-मिच्छा-सव्वसंकि-। अस्संठा-अस्संध-दोविहा-तिण्णि-युग-दोगोद-ज-१-देव-मिच्छा-परि-मज्झिम-। तित्थय-ज-१-देव-सव्व-संकि-। सेसं ओघं ।

४७०. पद्मालेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु-त्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सहस्त्रार कल्पका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सहस्त्रार कल्पका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४७१. शुक्लेश्यामें सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्णचतुष्कमे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका भङ्ग नव प्रवेयकके समान है । मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और नियमसे मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । तीर्थद्वार प्रकृतिके जघन्य अनु-

४७२. अबभवसि० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक० -पंचणोक०-
अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचत० ज० क० ? अण्ण० चदुग० पंचिं० सण्णि० सागा०
सव्वविमु० । सादासादा०-मणुस०-द्वस्संठा०-द्वस्संध०-मणुसाणु०-दोविहा०-थिरादि-
द्वयुग०-उच्चा० ज० चदुग० परि०मज्झिम० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० क० ?
अण्ण० चदुग० तप्पा०विमु० । सेसं ओधं ।

४७३. खड्गे ओधिभंगो । णवरि सत्थाणे जहण्णयं करेदि । वेदगे पंचणा०-
दंसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०--अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचत० ज० क० ? अण्ण०
अप्पमत्त० सागार० विमु० । सेसं ओधिभंगो० । उवसम० ओधिभंगो० । तित्थय०
मणुस० सव्वसंकि० ।

४७४. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०--सोलसक०--पंचणोक०--अप्पसत्थ०४-
उप०-पंचत० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्वविमु० । सादासाद०-मणुस०-
पंचसंठा०--पंचसंध०--मणुसाणु०--दोविहा०--द्वयुगल०--उच्चा० ज० चदुगदि० परि०-

भागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभाग-
वन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

४७२. अभव्योमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच
नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, छह
संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका
जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

४७३. क्षात्रिक सम्यक्त्वमे अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
यह जघन्य अनुभागवन्ध स्वस्थानमें करता है । वेदक सम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-
वरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके
समान है । उपशम सम्यक्त्वमे अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इसमें
सर्व संक्लेशयुक्त मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४७४. सासादनसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय,
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगत्या-
नुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य

मज्झिम० । इत्थि०-अरदि-सोग० ज० क० ? चदुग० तप्पा० विसु० । तिरिक्ख-मणुसायु
ज० चदुगदि० मज्झिम० । देवायु^१० ज० ? तिरि० मणुस० मज्झिम० । तिरिक्ख
तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढ० णेरइ० सव्ववि० । देवग
देवाणु० ज० ? तिरिक्ख० मणुस० परि० मज्झिम० । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-उज्जो
ज० ? चदुग० सव्वसंकि० । पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण० ४-अगु० ३-तस० ४
णिमि० ज० ? चदुगदि० सव्वसंकि० । वेउच्चि०-वेउच्चि० अंगो० ज० ? तिरि
मणुस० सव्वसंकि० ।

४७५. सम्मामि० पंचणा०-ब्बदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण० ४
उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० चदुग० सव्ववि० सम्मत्ताभिमुह० । सादादिचदुगु
ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० मज्झिम० । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० चदुग० तप्पा
विसु० । मणुसगदिपंचग० ज० क० ? अण्ण० देव-णेरइ० सव्वसंकि० मिच्छत्ताभिमु०

अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन
है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका
स्वामी है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मध्य
परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
है। देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला तिर्यञ्च
और मनुष्य देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और
नोचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारक
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और
उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका
स्वामी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है
सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

४७५. सम्यग्मिथ्यात्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चारह कपाय, पाँच नोकपाय
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व
विशुद्ध और सन्यस्तके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग
बन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान
मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी
है। अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार
गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति पञ्चके जघन्य
अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर देव और

देवगर्दि०४ ज० क० ? अण्ण० तिरि० मणुस० सव्वसंकि० मिच्चत्ताभिमुहस्स ।
पंचि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर
आदेज्ज-णिमिण-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० चदुग० सागा० सव्वसंकि० मिच्चत्ताभिमु० ।

४७६. असण्णि० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्च०-सोलसक०-पंचणोक०--अप्प-
सत्थवण्ण०४-उप०--पंचंत० ज० क० ? अण्ण० पंचि० सागा० सव्वविसु० । सादा-
साद०-तिण्णिग०-चदुजादि-द्धस्संठा०-द्धस्संध०-तिण्णिआणु०-दोविहा०-धावरादि०४-
थिरादिद्धयुग०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० मज्झिम० । इत्थि०--णवुंस०-अरदि-सोग०
ज० क० ? अण्ण० तप्पा० विसु० । आयु० ओघं । तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा०
तिरिक्खोघं । पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०-अंगो०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-
तस०४-णिमि० ज० क० ? अण्ण० सागा० सव्वसंकि० । ओरालि०--ओरालि०-
अंगो०-आदाउज्जो० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०संकि० । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभाग-
वन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर तिर्यञ्च और
मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मण-
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्तलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-
जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

४७६. असंज्ञी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच
नोकरपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान,
छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिरादि छह युगल और
उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मध्यम परिणामवाला उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य अनु-
भागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
अनुभागवन्धका स्वामी है । चारों आयुओंका भङ्ग श्रेयके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्या-
नुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चोंके समान हैं ।
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैकियिक आद्गोपाद्ग, प्रशस्त चण
चतुष्क, अगुस्तलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
साकार-जागृत और सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
हैं । औदारिकशरीर, औदारिक आद्गोपाद्ग, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी
कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी

१. आ० प्रती देवगदि ज० इति पाठः । २. ता० प्रती आदेज्ज.....ज० क०. आ० प्रती आदेज्ज०
जस० (षजस०).....ज० क० इति पाठः ।

१३ कालपरूवणा

४७७. कालं० दुविधं-जह० उक्क० । उक्क० पगदं० । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पसत्यव०४-उप० पंचंत० उक्क०अणुभागवंधगा ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क० अणंतकालमंसखे० पोग्गल० । सादा०--आहारदुग-उज्जो०--थिर-सुभ-जस० उक्क० [जहणुक्क०] एग० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-छण्णोक०-चदुआयु०-णिरय०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-णिरयाणु०-आदाव०-अप्पसत्य०-थावरादि०४-अथिरादि० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० वेखावट्टिसागं० सादि० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० असंखेज्जलो० । मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु०

हैं । आहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग हैं ।

इस प्रकार जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

१३ कालपरूपणा

४७७. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हैं । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । सातावेदनीय, आहारकद्विक, उद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असातावेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच महानन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि चार और अस्थिरादि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यगति, वज्रपमनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

१. ता० आ० प्रयोः ओरालि० ओरालि० अप्रसत्यव० इति पाठः । २. ता० आ० प्रयोः पारसदि ४ थिरादिदु० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रयोः वेसम० द्वावट्टिसाग० इति पाठः ।

उक्क० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सा० । देवगदि०४
 उक्क० जहणुक्कस्सेण एग० । अणु० ज० एग० उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादि० ।
 पंचि०-पर०--उस्सा०-तस०४ उक्क० ज० उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० पंचा-
 सीदिसागरोवमसदं । तेजा०---क०--पसत्थवण्ण०४--अगु०--णिमि० [उक्क०] ज०
 [उक्क०] एग० । अणु० तिभंगो । जो सो सादिओ० ज० अतो०, उक्क० अद्धपोगल० ।
 समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० एग० । अणु० जह० एग०,
 उक्क० वेद्धावट्ठि० सादिरे० तिण्णिपल्लिदो० देसु० । ओरालि०अंगो० उक्क० ज०
 एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सा० सादि० । तित्थ० उक्क०
 एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेतीसं० सादि० ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तैतीस सागर है । देवगतिचतुष्के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और असचतुष्के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक सौ पचासी सागर है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं । उनमेंसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर है । औदारिक आहोपाहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर है । तीर्थद्वार प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सामान्यतः उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए जिन प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणीमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है उनको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । तथा क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणीमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्ति के अन्तिम समयमें होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । जिन मार्गणाओंमें क्षपकश्रेणी सम्भव है उन सब मार्गणाओंमें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका यह काल इसी प्रकार जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें साधारणतः अन्य प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समान ही इन क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल है । मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमकी अपवाद हैं । उदाहरणार्थ औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिक-मिश्रकाययोग, कर्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही बनता है । कारण इन मार्गणाओंमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्ध चोप्य परिणाम एक समयके लिए ही होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागवन्धके

कालका विचार सर्वत्र जानना चाहिए, इसलिए आगे हम सर्वत्र केवल अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालका ही विचार करेंगे। यहां इस बातका निर्देश कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि कहीं प्रकृति परिवर्तनसे और कहीं अनुभागबन्धके योग्य परिणामोंके बदलनेसे प्रायः सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। प्रकृति परिवर्तनका उदाहरण—कोई जीव सातावेदनीयका बन्ध कर रहा है। फिर उसने साताके स्थानमें एक समय तक असाताका बन्ध किया और दूसरे समयमें पुनः वह साताका बन्ध करने लगा। यह प्रकृति परिवर्तनसे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका एक समय जघन्य काल है। परिणामोंके बदलनेका उदाहरण—किसी जीवने मतिज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया। पुनः वह उत्कृष्ट बन्धके योग्य परिणामोंकी हानिसे एक समयके लिए उसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करने लगा। यह परिणामपरिवर्तनका उदाहरण है। इस प्रकार प्रायः सर्वत्र सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो जाता है। जिन मार्गणाओंमें इसका अपवाद है वहां इसका अलगसे निर्देश किया ही है। अब सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालका विचार करना शेष रहता है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां कही हैं उनका ओचसे एकेन्द्रियोंमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सदा होता रहता है और एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिके दूसरे दण्डकमें जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं वे सब परावर्तमान प्रकृतियों हैं और परावर्तमान प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इसी तरह तीसरे दण्डकमें कही गई असातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालके विषयमें जानना चाहिए। यद्यपि तीसरे दण्डकमें चार आयु भी सम्मिलित हैं और ये परावर्तमान प्रकृतियाँ नहीं हैं पर इनका बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही कहा है। बीचमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर हैं। ऐसे जीवके निरन्तर एक मात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, क्योंकि नपुंसकवेदकी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें और स्त्रीवेदकी सासादन गुणस्थानमें बन्धव्युच्छिन्नि हो जाती है, इसलिए पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है। तिर्यञ्चरगति, तिर्यञ्चरगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता रहता है और इन जीवोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हों इतने समयप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका सबसे अधिक काल तक निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिके देव करते हैं और उनकी उत्कृष्ट आयु तैंतीस सागरप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर कहा है। एक पूर्वकोटि की आयुवाला जो मनुष्य मनुष्यायुका प्रथम त्रिभागमें बन्ध कर क्षायिकसम्यग्दृष्टि हो तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक निरन्तर देवगतिचतुष्कका बन्ध होता रहता है, अतः देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य रहा है। जो चाईस सागरकी आयुवाला छठे नरकका नारकी जीवनके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर मन्यक्त्वको प्राप्त कर छयासठ सागर काल तक वेदकमन्यक्त्वके साथ रहा। फिर सम्यग्मिथ्यात्वमें नाकर पुनः छयासठ सागर काल तक वेदक मन्यक्त्वके साथ रहा और अन्तमें इकतीस सागरकी आयुके साथ नव प्रैयस्कमें उत्पन्न हुआ उसके एक सौ पचासी सागर काल तक पञ्चन्द्रिय जाति, पर्याप्त, उन्ध्वाम और त्रसचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट

४७८. गिरएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-
पंचि०-ओरालि०-तेजा०--क०-ओरालि०अंगो०--पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--
अणु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु०ज०
एग०, उक्क० तेत्तीसं० । पुरिस०-मणुसग०-समचदु०-वज्जरि०--मणुसाणु०--पसत्थवि०-
सुभग-सुस्सर-आदे०--उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०,

अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर कहा है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुस्तधु और निर्माण ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके तीन भङ्ग प्राप्त होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। अनादि-अनन्त विकल्प अभव्योंके प्राप्त होता है। अनादि-सान्त विकल्प उन जीवोंके होता है जिन्होंने क्रमसे सम्यक्त्व और संयमको प्राप्त कर और क्षपकश्रेणि आरोहण कर बन्धव्युच्छित्तिके समय इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है। तथा सादि-सान्त विकल्प उन जीवोंके होता है जो उपशमश्रेणी पर चढ़कर इनकी बन्धव्युच्छित्ति करनेके बाद पुनः उतर कर इनका बन्ध करने लगे हैं। यहां सादि-सान्त विकल्पका अधिकार है। उसकी अपेक्षा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहनेका कारण यह है कि जो जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणी पर चढ़ा और इसके अन्तमें वह क्षपकश्रेणी पर चढ़ा, उसके कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक इन प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्टबन्ध देखा जाता है। अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। जो उत्तम भोगभूमिका जीव समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका बन्ध कर रहा है वह यदि जीवनके अन्तमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रथम छयासठ सागर काल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा। पुनः सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त किया और साधिक छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा। उसके इतने काल तक इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य प्रमाण कहा है। नरकमें औदारिक आङ्गोपाङ्गका निरन्तर बन्ध होता है और नरककी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। तथा ऐसा जीव नरकमें जानेके पहले और निकलनेके बाद अन्तमुहूर्त काल तक औदारिक आङ्गोपाङ्गका बन्ध करता है, अतः औदारिक आङ्गोपाङ्गके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्रमाण कहा है। जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला सम्यग्दृष्टि मनुष्य तेतीस सागर आयुका बन्ध कर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध देखा जाता है, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है।

४७९. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यङ्गगति, पञ्चोन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी, अगुरुस्तधुचतुष्क, असचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वध्र्यभनाराचसंज्ञन, मनुष्यागत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक

उक्क० तेतीसं० देसू० । उज्जोवं ओघं । तित्थय० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि साग० सादि० । सेसाणं उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । एवं सत्तमाए पुढवीए । ब्बसु उवरिमासु एवं चेव । णवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० सादभंगो । सेसाणं अप्पप्पणो द्विदी भाणिदव्वा ।

४७६. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० अणंतका० । सादासाद०-अण्णोक०-आयु०४-णिरय०-मणुस०-

समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । उद्योतका भंग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी उद्योत और नीचगोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी उत्कृष्टि स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गईं प्रकृतियोंका जीवन भर निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । पुरुषवेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गईं प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । उद्योतके विषयमें जो ओघ प्ररूपणामे काल कहा है वही यहाँ भी जानना चाहिए । ओघप्ररूपणासे यहाँ कोई विशेषता न होनेसे यह ओघके समान कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध तीसरे नरक तक होकर भी साधिक तीन सागरकी आयुवालेसे अधिक आयुवाले नारकीके नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है । इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंके सिवा शेष जितनी प्रकृतियों नरकमें बँधती है वे सब परावर्तमान हैं, अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेके कारण उक्त प्रमाण कहा है । सामान्यसे नारकियोंमें यह जो काल कहा है वह सातवीं पृथिवीमें अविकल घटित हो जाता है, इसलिए सातवीं पृथिवीके कथनको सामान्य नारकियोंके समान कहा है । प्रथमादि छह पृथिवियोंमें सब काल इसी प्रकार है । मात्र जहाँ पर पूरा तेतीस सागर या कुछ कम तेतीस सागर काल कहा है वहाँ पर अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर यह काल कहना चाहिए । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिके कालका विचार प्रथमादि तीन पृथिवियोंमें ही करना चाहिए । चौथी आदि शेष चारों पृथिवियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके कालका विचार नहीं करना चाहिए ।

४७६. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, और शरिफरारी, तैजसशरीर, कामेशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्व, उपपाड, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त-

चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-द्वसंध०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-
थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० उक्क० ज०
एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । पुरिस०-देवग०-वेउव्वि०-
समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ज०
एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि पलिदो० सादि० । तिरिक्ख०-
तिरिक्खाणु०-णीचागो० ओघं । पंचि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्क० ज० ए०, उक्क०
वेसम० । अणु० ज० ए०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० । एवं पंचिदिय-
तिरिक्ख०३ । णवरि पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-
पसत्थापसत्थ०४-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु०
ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० पुव्वकोडिपुधत्तेण० । पुरिस०-देवगदि०४-समचदु०-
पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ०
तिण्णिपलि० । जोणिणीसु देसु० । तिरिक्ख०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सादभं० ।

काल है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, नरकगति, मनुष्यगति, चार
जाति, पाँच सस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त
विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशः-
कीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो
समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
पुरुषवेद, देवगति, वैकियिक शरीर, समचतुरस्रसस्थान, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी,
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग
ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परवात, वच्छ्वास और त्रसचतुष्के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,
भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अंगुरुलघु,
उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
पूषकांठिपुधत्थ अधिक तीन पत्य है । पुरुषवेद, देवगति चतुष्क, समचतुरस्रसस्थान, प्रशस्त
विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल तीन पत्य है । किन्तु चोनिनो तिर्यञ्चोमे कुल्य कम तीन पत्य है । तिर्यञ्चगति, औदारिक-
शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों ध्रुववन्धिनी है । एकेन्द्रियोंमें
इनका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, और एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण

४८०. पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० सव्वपगदीणं उ० ज० एग०, उ० वेसम० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-सव्वसुहुमपज्ज०-
अपज्ज० सव्ववादरअपज्जत्तगा त्ति । णवरि विगल्लिंदियपज्जत्तगाणं धुवपगदीणं अणु०
ज० एग०, उ० संखेज्जाणि वाससह० ।

है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। भोगभूमिके तिर्यञ्चके निरन्तर पुरुषवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रशस्त प्रकृतियोंका बन्ध होता है और ऐसा जीव पूर्व पर्यायमें तिर्यञ्च होकर भी प्रशस्त परिणामोंसे अन्तमुहूर्तकालतक अन्तमें इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। तिर्यञ्चगतिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघमें तिर्यञ्चगतिकी अपेक्षासे ही घटित करके बतलाया है, अतः यह प्ररूपणा ओघके समान कही है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तिर्यञ्चोंमें भोगभूमिकी प्रधानतासे प्राप्त होता है, क्योंकि जो तिर्यञ्च मर कर भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके मरणके समय अन्तमुहूर्तकालसे लेकर भोगभूमिकी कुल पर्याय भर निरन्तर इनका बन्ध होता रहता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथनको सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है। किन्तु इस व्यवस्थाके कुछ अपवाद हैं। वात यह है कि पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, अतः इनमें औदारिक शरीरको छोड़कर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि शेष सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है, क्योंकि ध्रुवबन्धनी होनेसे इनका इतने कालतक निरन्तर बन्ध होता है। तिर्यञ्चत्रिकके भोगभूमिमें पुरुषवेद आदिका निरन्तर बन्ध सम्भव है, क्योंकि जो चायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होता है उसके भोगभूमिमें निरन्तर पुरुषवेद आदिका ही बन्ध होता है, अतः यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। पर ऐसा जीव तिर्यञ्च योनिनियोंमें नहीं उत्पन्न होता और वहां अपर्याप्त अवस्थामें इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी बन्ध होता है, अतः इनमें यह काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

४८०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब सूक्ष्म पर्याप्त, सब सूक्ष्म अपर्याप्त और सब वादर अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गाणाँ गिनाई हैं उन सबमें एक जीवकी कायस्थिति अन्तमुहूर्त से अधिक नहीं है। यही कारण है कि इनमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। मात्र विकलत्रयोंमें इनके पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण कहा है। इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, चार्मणशरीर, छह संस्थान,

४८१. मणुसेसु [३] खविगाणं उ० एग० । अणु० [पंचिदिय-] तिरिक्वभंगो० ।
पुरिस० उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णिपलिदो० सादि० । मणुसिणीए
देसू० । देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० ए० । अणु०
ज० ए०, उक्क० तिण्णिपलि० सादि० । मणुसिणीसु देसू० । पंचि०-पर०-उस्सा०-
तस०४ उ० एग० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलिदो० सादि० । तित्य० उ०
एग० । अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी देसू० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्वभंगो ।

औदारिक आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । शेष कथन सुगम है ।

४८१. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । किन्तु मनुष्यनिर्योमें यह काल कुछ कम तीन पल्य है । देवगति चतुष्क, संचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । किन्तु मनुष्यनिर्योमें कुछ कम तीन पल्य है । पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें जो क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है वे ये हैं—सातावेदनीय, देवगति, पञ्चन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, आहारक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि पाँच और निर्माण । इन क्षपक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तिर्यञ्चोमें घटित करके बतलाया है उस प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । पुरुषवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तो ओघमें ही घटित करके बतला आये हैं । उससे यहां कोई विशेषता न होनेसे वह ओघके समान कहा है । मात्र यहाँ इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है । जो इस प्रकार है—जिस मनुष्यने पूर्व कोटि कालके त्रिभागमें मनुष्यशुका वन्ध कर क्रमसे क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया । वह मरकर तीन पल्यकी आयु लेकर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है । यतः सम्यग्दृष्टि के एक मात्र पुरुषवेदका ही वन्ध होता है अतः मनुष्योंमें पुरुष वेदके अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य प्राप्त होनेसे यहां वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र ऐसा जीव मरकर मनुष्यनिर्योमें नहीं उत्पन्न होता, अतः इनमें वह कुछ कम तीन पल्य कहा है । यह मी, जो मनुष्यिनी तीन पल्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुई और सम्यक्त्वके योग्य कालके प्राप्त होने पर सम्यक्त्व ग्रहण कर जीवन भर उसके साथ रही उसके कहना चाहिए । पञ्चन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्क ये भी क्षपक प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तो एक ही समय होगा, पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्धके उत्कृष्ट कालमें तिर्यञ्चोसे विशेषता होनेके कारण यहां इनका काल अलगसे कहा है । बात यह है

४८२. देवैसु पंचणा०-द्वंदसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-मणुस०पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसस्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ० जं० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेतीसं० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० एकतीसं सा० । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं सन्वदेवाणं अप्पणो कालो णादन्वो ।

कि जो मनुष्य भोगभूमिमें उत्पन्न होता है वह विशुद्ध परिणामोंसे मरनेके पूर्व अन्तमुहूर्त कालसे इन प्रकृतियोंका बन्ध करने लगता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल तीनों प्रकारके मनुष्योंमें साधिक तीन पत्य घटित होनेसे वह यहां उक्त प्रमाण कहा है। पर्याप्त मनुष्योंमें यहां अन्य विशेषता भी घटित कर लेनी चाहिए। तीर्थकर प्रकृति भी क्षपक प्रकृति है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु मनुष्य पर्यायमें इसका निरन्तर बन्ध कुछ कम एक पूर्वकोटिकाल तक ही सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

४८२. देवोंमें पौंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं। स्त्वानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहां देवोंमें प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां कहीं हैं वे ध्रुवबन्धिनी हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध यदि होता है तो वह भी ध्रुवबन्धिनी है। यही कारण है कि सामान्यसे देवोंमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है। मात्र स्त्वानगृद्धि आदिक जो आठ प्रकृतियां दूसरे दण्डकमें कहीं हैं उनमेंसे मिथ्यात्व मिथ्यादृष्टिके और शेष सात मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टिके ध्रुवबन्धिनी हैं किन्तु अनुदिशादिकमें एक सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः इन आठके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा इकतीस सागर कहा है। इनके सिवा शेष जितनी प्रकृतियां बचती हैं वे सब यहाँ पर परावर्तमान हैं, अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। यह सामान्य देवोंमें कालकी प्ररूपणा है। विशेषरूपसे जिन देवोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे जानकर और अपनी अपनी बँधनेवाली प्रकृतियोंको जानकर कालकी प्ररूपणा करनी चाहिए। यद्यपि वारहवें कल्प तक तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भी बन्ध होता है इसलिए वहाँ तक मनुष्य

४८३. एइदिएसु धुविगाणं तिरिक्वगदितिगस्स च उ० ज० ए०, उ० वेसम० ।
अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । वादरे अंगुल० असंखे०, तिरिक्वगदितिगस्स
कम्मट्ठिदी । वादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुहुमे असंखेज्जा लोगा ।
सेसाणं अपज्जत्तभंगो ।

४८४. पंचि०-तस०२ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०--भय-दु०-
अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणुक्क० ज० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० ।

गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र परावर्तमान प्रकृतियों हो जाती हैं । इसी प्रकार दूसरे कल्प तक एकेन्द्रिय जाति और स्थावरका भी बन्ध होता है इसलिए वहां तक पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रस ये दो प्रकृतियों भी परावर्तमान हो जाती हैं पर सौधर्मादि कल्पोंमें सम्यग्दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं और सम्यग्दृष्टियोंके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए सौधर्मादि कल्पोंमें यथासम्भव सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस और उच्चगोत्र ये ध्रुवबन्धिनी ही हैं और इस अपेक्षासे इन कल्पोंमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अपने अपने कल्पकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण मिल जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र भवनत्रिकमें सम्यग्दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होते अतः यहां जिनकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसमेंसे कुछ कम करके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

४८३. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्चगति त्रिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । वादर जीवोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । किन्तु तिर्यञ्चगतित्रिकका कर्मस्थितिप्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्म जीवोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्त जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण अर्थात् असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कही है; तथापि यह कायस्थिति एकेन्द्रियोंमें वादरसे सूक्ष्म और सूक्ष्मसे वादर तथा पर्याप्त और अपर्याप्त होते हुए प्राप्त होती है और असंख्यात लोक प्रमाण काल तक सूक्ष्म रहनेके बाद ऐसे जीवके वादर होने पर पर्याप्त अवस्थामें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्ध भी होने लगता है । यदि यह मानकर भी चला जाय कि ऐसे जीवके पर्याप्त अवस्थामें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पर्याप्तकी कायस्थितिके अन्तमें करावेंगे तो भी वादर पर्याप्त जीवकी कुल कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष प्रमाण ही है । यदि सामान्यसे वादर जीवकी कायस्थिति ली जाती है तो वह अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होती है । पर इससे सूक्ष्म जीवोंकी कायस्थितिमें विशेष अन्तर नहीं आता, अतः यहांके एकेन्द्रियोंमें उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । शेष वादरादिककी जो कायस्थिति है उसे ध्यानमें रख कर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का वहां उत्कृष्ट काल कहा है । मात्र तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल वादरोंमें कर्म स्थिति प्रमाण कहा है । सो इसका कारण यह है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ही इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है और वादर अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियों सो वे सब परावर्तमान हैं अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४८४. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभाग-

सादा०-आहारदुग्-उज्जो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० अणुक्क० ओघं । असाद०-सत्तणोके०-
 आयु०४-णिरय०-चदुजादि-पंचसंठा०--पंचसंघ०-णिरयाणु०-आदाव-अप्पसत्थ०-
 थावरादि०४-अथिरादिद्ध० उक्क० अणु० ओघं । तिरिक्ख०-ओरालि०-ओरालि०-
 अंगो०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
 मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० अणु० ओघं । देवगदि०४ उक्क० अणु० ओघं ।
 पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्क० अणु० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-
 आदे०-उच्चा० उक्क० अणु० ओघं । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० उक्क०
 एगं० । अणु० जं० अंतो०, उ० कायट्ठिदी० । तित्थय० उक्क० अणु० ओघं ।

वन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है । सातावेदनीय, आहारकद्विक, उद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । मनुष्य-गति, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध ओघसे संधी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त करता है इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान वन जाता है अतः वह ओघके समान कहा है । तथा ये ध्रुववन्धिनी प्रकृतियों होनेसे पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर वन्ध सम्भव है इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रियद्विककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण है और त्रसद्विककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और दो हजार सागर है । सातादण्डकके कालका खुलासा ओघ परूपणके समय कर आये हैं । उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इस दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके कालमें अन्य

१. ता० आ० प्रत्योः द्युरणोक्क० इति पाठः । २. ता० प्रतौ उक्क० [ज०] ए० इति पाठः ।

३. ता० आ० प्रत्योः अणु० ज० ज० इति पाठः ।

४८५. पुढवि०-आउ० ध्रुवियाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । बादरे कम्मट्टिदी । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा । सेसाणं अपज्जत्तभंगो ।

४८६. तेउ०-वाउ० ध्रुवियाणं तिरिक्खगदितिगस्स च उ० ज० ए०, उ०

कोई विशेषता न होनेसे वह ओघके समान कहा है । असातावेदनीय आदि तीसरे दण्डकमें जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका काल भी यहाँ ओघके समान घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है । मात्र पुरुषवेदको ओघप्ररूपणामें अलगसे बतलाया है और यहाँ उसे सम्मिलित कर लिया है । इसलिए इसका ओघमें जिस प्रकार काल कहा है उसी प्रकार यहाँ उसका अलगसे काल कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र इनके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल तो ओघके ही समान है । मात्र अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है । बात यह है कि इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्भव है और ऐसा जीव संक्लेश परिणामवश नरकमें जानेके पहले व बादमें अन्तमुहूर्त काल तक इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल जैसा ओघमें बतलाया है वह यहाँ अचिकल घटित हो जाता है इसलिए यह प्ररूपणा ओघके समान की है । इसी प्रकार देवगतिचतुष्क, पञ्चन्द्रिय जाति, परधात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्क तथा समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा काल ओघके समान यहाँ घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । बात यह है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इन्हीं मार्गणाओंमें सम्भव है, इसलिए इन मार्गणाओंमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान कहा है । अब रहीं तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण सो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें ओघसे कुछ विशेषता है । बात यह है कि ओघ प्ररूपणामें अमुक मार्गणाका कोई बन्धन न होनेसे वहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो काल बतलाया है वह यहाँ सम्भव नहीं है । इन प्रकृतियोंके ध्रुवबन्धिनी होनेसे यहाँ यह इन मार्गणाओं की कायस्थिति प्रमाण ही बनता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४८५. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । इनके बादर जीवोंमें कर्मस्थिति-प्रमाण है । बादर पर्याप्त जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । सूक्ष्म जीवोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है । इनके बादरोंकी कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है । बादर पर्याप्तकोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है । इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४८६. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट

वेस० । अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । वादरे कम्मट्टिदी । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुहुमे असखेज्जा लोगा । सेसाणं अपज्जत्तभंगो ।

४८७. वणप्फदि० एइंदियभंगो । तिरिक्खगदित्तिग० परिय० भाणिदब्बं । वादर०पत्ते० वादरपुढविभंगो । णियोद० पुढविभंगो ।

४८८. पंचमण०-पंचवचि० साद०-देवगदि०-पंचिंदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अणु०३-उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उक्क० अंतो० । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध का जघन्यकाल एक समय है, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। वादरोंमें कर्मस्थिति-प्रमाण है। पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्त जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका ही वन्ध होता है। इनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, अतः यहां ये ध्रुव-वन्धिनी ही हैं। शेष कथन सुगम है।

४८७. वनस्पतिकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। मात्र यहां तिर्यञ्चगतित्रिकको परिवर्तमान प्रकृतियोंके साथ कहना चाहिए। वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें वादर पृथिवी-कायिक जीवोंके समान भङ्ग है। तथा निगोद जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें अग्निकायिक और वायुकायिक जीव भी सम्मिलित हैं इसलिए उनमें इनकी अपेक्षा तिर्यञ्चगतित्रिकको ध्रुववन्धिनी मान कर काल कहा है पर वनस्पतिकायिक जीवोंमें यह बात नहीं है इसलिए इनमें तिर्यञ्चगतित्रिककी परिवर्तमान प्रकृतियोंके साथ परिगणना करनेकी सूचना की है। वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंकी कायस्थिति वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान होनेसे इनमें कालकी प्ररूपणा वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान कही है। निगोद जीवोंकी कायस्थिति यद्यपि ठाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है पर इनके वादर जीवोंकी कायस्थिति वादर पृथिवीकायिक जीवोंके ही समान है। यह देखकर यहां सामान्यसे निगोद जीवोंकी प्ररूपणा पृथिवीकायिक जीवोंके समान जाननेका निर्देश किया है।

४८८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें सातावेदनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय-जाति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छद्म, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां सब प्रकृतियोंके अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा प्रथम दण्डकमें जो सातावेदनीय आदि प्रकृतियां कही गई हैं वे सब क्षपक प्रकृतियों हैं और क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह ओघमें वतला ही आये हैं, अतः वह ओघप्ररूपणा

४८६. कायजोगी० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छत्त०--सोलसक०--भय--दु०-
ओरालि०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० उक्क० अणु० ओघं । तिरिक्खगदितिगं च ओघं ।
सादा०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-आहार०-समचदु०-दोअंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-
उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-तित्थय०-उच्चा० उ० ए'० । अणु० ज० एग०,
उक्क० अंतो० । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेस० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।
तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० उ० एग० । अणु० णाणावरणभंगो ।

४६०. ओरालियका० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छत्त०--सोलसक०--भय--दु०-
ओरालि०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०, उ०
वावीसं वाससहस्साणि देसू० । तिरिक्खगदितिगस्स च उक्क० ओघं । अणु० ज० ए०,

इन योगोंमें भी वन जाती है, अतः यहां इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४८६. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । सातावेदनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । तैजस शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

विशेषार्थ—यहां प्रथम दण्डरूपे कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है और एकेन्द्रियोंके एकमात्र काययोग ही होता है, अतः काययोगमें इन प्रकृतियोंको प्ररूपणा ओघके समान वन जानेसे वह ओघके समान कही है । तिर्यञ्चगतित्रिककी प्ररूपणाका भी यही कारण है, इसलिए यहां वह भी ओघके समान कही है । एक तो सातावेदनीय आदि अधिकतर प्रकृतियों परिवर्तमान हैं, दूसरे संज्ञी पञ्चेन्द्रियके काययोगका काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तैजसशरीर आदि आठ प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके भी निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६०. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम चाईस हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल

उ० तिण्णिवाससहस्साणि देसू० । उज्जो० सादभंगो । सेसं कायजोगिभंगो ।

४६१. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दु०-देव-
गदि-चदुसरीर-समचदु०-वेउन्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०-
तित्थय०-पंचंत० उक्क० एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० अंतो० । णवरि समचदु०
अणु० ज० एग० । दोआयु० ओघं । सेसाणं उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क०
अंतो० । एवं वेउन्वियमि०-आहारमि० ।

ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। उद्योत प्रकृतिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा शेष प्रकृतियों का भङ्ग काययोगी जीवों के समान है।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इतने काल तक ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध औदारिककाययोगके रहते हुए अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ही सम्भव है। उसमें भी वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति तीन हजार वर्षप्रमाण होती है, किन्तु इसमें औदारिकमिश्रकाययोगका काल भी सम्मिलित है इसलिए उसे अलग करने पर कुछ कम तीन हजार वर्ष होते हैं, अतः औदारिककाययोगमें तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। शेष कथन सुगम है।

४६१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि समचतुरस्रसंस्थानके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है। दो आयुओंका भंग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम एक समयके लिए ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु उसमें भी पहले दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियों गिनाई हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध शरीर पर्याप्तिके ग्रहण करनेके एक समय पूर्व होता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। मात्र समचतुरस्रसंस्थान इसका अपवाद है। इसका शरीर पर्याप्तिके ग्रहण करनेमें एक आदि समयका अन्तर देकर भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। समचतुरस्रसंस्थानके समान शेष प्रकृतियोंके विषयमें भी जानना चाहिए, इसलिए उन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। वैक्रियिक-मिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें इस दृष्टिसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उनके

४६२. वेज्वियका० उज्जोवं ओघं । सेसाणं उक्क० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । एवं आहारका० ।

४६३. कम्मइ० [थावर] संजुत्ताणं उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिसम० । एवं तससंजुत्ताणं । देवगदिपंचग० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।

४६४. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ-व०४-उप०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । सादा०-आहार-दुग-थिर-सुभ-जसगि० उक्क० अणु० ओघ । असादा०-द्वण्णोक०-चदुआयु०-णिरय-गदि०-तिरिक्ख०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-

कथनको औदारिकमिश्रकाययोगीके समान कहा है । मात्र इनमें अपनी अपनी प्रकृतियों जानकर यह काल घटित करना चाहिए ।

४६२. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे उद्योत प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सातवीं पृथिवीमे सम्यक्त्व ग्रहण करनेके एक समय पूर्व होता है । यतः इस अवस्थामें वैक्रियिककाययोग सम्भव है, अतः वैक्रियिक काययोगमें उद्योत प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है । तथा वैक्रियिक काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें स्थावर संयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । इसी प्रकार त्रससंयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल जानना चाहिए । देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगके तीन समय एकेन्द्रियोंमें ही सम्भव है और उनके देवगति-चतुष्क तथा तीर्थङ्कर प्रकृति इन पाँचका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । इनके सिवा कर्मणकाययोगमें अन्य जितनी प्रकृतियों बँधती हैं वे स्थावरसंयुक्त या त्रससंयुक्त जो भी प्रकृतियों हों उन सबका बन्ध एकेन्द्रियके सम्भव होनेसे उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६४. स्त्रीवेदी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है । सातावेदनीय, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । असातावेदनीय, छह नोकषाय, चार आयु, नरकगति, तिर्यञ्चगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति,

थावरादि०४-अथिरादि०-णीचा० उक्क० अणु० पंचिदियतिरिक्खभंगो । पुरिस०-
मणुसग०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
पणवण्णं पलिदो० देसू० । देवगदि०४ उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णि-
पलिदो० देसू० । पंचिदि०-समदु०-पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ०
एग० । अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० देसू० । ओरालि० उ० ओघं । अणु०
ज० एग०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । पर०-उस्सा०-वादर-पज्ज०-पत्ते०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि० । तित्थ० उ० एग० । अणु०
ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज्यभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । देवगति चतुष्केके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-सस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुस्लघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों भ्रुवबन्धिनी होनेसे इनका स्त्री-वेदकी कायस्थितिप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल स्त्रीवेदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है । स्त्रीवेदकी कायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है । दूसरे दण्डकमे कही गई साता आदि और तीसरे दण्डकमे कही गई असाताआदि सब परावर्तमान प्रकृतियों हैं । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्तसे अधिक किसी भी अवस्थामे नहीं बनता । ओघसे साता आदिका और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके असाता आदिका यह काल अन्तमुहूर्त ही बतलाया है, इसलिए इन दोनों दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे ओघ और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान कहा है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब इनका काल एक समान है तब उसे अलग-अलग क्यों कहा ? समाधान यह है कि सातादिक दण्डकमें एक तो आहारकट्टिक सम्मिलित हैं । दूसरे सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और चराःकीर्तिका सपनी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बिना भी बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके काल

४६५, पुरिसवेदेसु षडमदंडओ णाणावरणादि० सागरोवमसदपुधत्तं । विदिय-
दंडओ सादादि० तदियदंडओ असादादि० इत्थिभंगो । मणुसगदिपंचगदंडगस्स अणु०
ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । सेसं पंचिदियपज्जत्तभंगो । णवरि पंचिदियदंडओ
तेव्हिसागरोवमसदं ।

की समानता ओघके समान बतलाई है और असातादिक दण्डकमें जो प्रकृतियों कही गई हैं उनका तिर्यञ्चके अपनी अपनी व्युच्छित्ति काल तक नियमसे बन्ध होता है, अतः यहां इनके कालकी समानता पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चके समान बतलाई है । पुरुषवेद आदि चौथे दण्डकमें जो प्रकृतियों कही हैं उनका देवी सम्यग्दृष्टिके नियमसे बन्ध होता है और देवीके सम्यग्दर्शनकी अवस्थितिका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । इसके बाद यदि वह सम्यग्दर्शनके साथ मरती है तो नियमसे पुरुषवेदी मनुष्य ही होती है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य कहा है । उत्तम भोगभूमिकी मनुष्यिनी अपर्याप्त अवस्थाको छोड़कर नियमसे देवगतिचतुष्कका बन्ध करती है अतः यहां देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । देवीके सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर पञ्चन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं; इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य कहा है । देवीके पचवन पल्य काल तक तो औदारिकशरीरका बन्ध होगा ही । इसके बाद भी पर्यायान्तरमें उसका अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य कहा है । तैजसशरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों है । स्त्रीवेदीके अपनी कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका नियमसे बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल स्त्रीवेदीकी कायस्थितिप्रमाण कहा है । स्त्रीवेदीकी कायस्थितिका निर्देश हम पहले कर ही आये हैं । परघात, उच्छ्वास, वादर और पर्याप्त ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं । देवीके तो इनका बन्ध होता ही है, पर वहां उत्पन्न होनेके पहले अन्तर्मुहूर्त काल तक भी इनका बन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पल्य कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टि मनुष्यिनीके सम्भव है, देवी सम्यग्दृष्टिके नहीं । और मनुष्यिनीके सम्यग्दर्शन कुछ कम पूर्वकोटि काल तक ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहां तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६५. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदिक और तीसरे दण्डकमें कही गई असातावेदनीय आदिकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकदण्डकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चन्द्रिय दण्डकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ त्रैसठ सागर है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदीकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहां पर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । साता आदि दूसरे दण्डकमें और असाता आदि तीसरे दण्डकमें परावर्तमान प्रकृतियोंका विचार किया है । इसलिए यहां पुरुषवेदमें इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान बन जाता है, अतः वह स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है । तेतीस सागरकी आयुवाले-देवोंके मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसके बाद उसके मनुष्य होने पर और देवपर्यायके पहले देवगतिचतुष्कका बन्ध होता है, अतः मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट

थावरादि०४—अथिरादि०—णीचा० उक्क० अणु० पंचिदियतिरिक्खभंगो । पुरिस०-
मणुसग०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
पणवण्णं पलिदो० देसू० । देवगदि०४ उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णि-
पलिदो० देसू० । पंचिदि०—समदु०—पसत्थ०—तस०-सुभग—सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ०
एग० । अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० देसू० । ओरालि० उ० ओघं । अणु०
ज० एग०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४—अगु०-णिमि०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । पर०-उस्सा०-वादर-पज्ज०-पत्ते०
उ० एग० ! अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि० । तित्थ० उ० एग० । अणु०
ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है। तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है। परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों ध्रुववन्धिनी होनेसे इनका स्त्री-वेदकी कायस्थितिप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल स्त्रीवेदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदकी कायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है। दूसरे दण्डकमे कही गई साता आदि और तीसरे दण्डकमे कही गई असाताआदि सब परावर्तमान प्रकृतियों हैं। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक किसी भी अवस्थामें नहीं बनता। ओघसे साता आदिका और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके असाता आदिका यह काल अन्तर्मुहूर्त ही बतलाया है, इसलिए इन दोनों दण्डकोंमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे ओघ और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान कहा है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब इनका काल एक समान है तब उसे अलग-अलग क्यों कहा? समाधान यह है कि सातादिक दण्डकमे एक तो आहारकद्विक सम्मिलित हैं। दूसरे सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका सपनी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके बिना भी बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके काल

४६५. पुरिसवेदेसु षडमदंडां णाणावरणादि० सागरोवमसदपुधत्तं । विदिय-
दंडां सादादि० तदियदंडां असादादि० इस्थिभंगो । मणुसगदिपंचगदंडगस्स अणु०
ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । सेसं पंचिदियपज्जत्तभंगो । णवरि पंचिदियदंडां
तेवहिसागरोवमसदं ।

की समानता ओघके समान बतलाई है और असातादिक दण्डकमें जो प्रकृतियों कही गई हैं उनकां तिर्यञ्चके अपनी अपनी व्युच्छित्ति काल तक नियमसे बन्ध होता है, अतः यहां इनके कालकी समानता पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान बतलाई है । पुरुषवेद आदि चौथे दण्डकमें जो प्रकृतियों कही हैं उनका देवी सम्यग्दृष्टिके नियमसे बन्ध होता है और देवीके सम्यग्दर्शनकी अवस्थितिका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । इसके बाद यदि वह सम्यग्दर्शनके साथ मरती है तो नियमसे पुरुषवेदी मनुष्य ही होती है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है । उत्तम भोगभूमिकी मनुष्यिनी अपर्याप्त अवस्थाको छोड़कर नियमसे देवगतिचतुष्कका बन्ध करती है अतः यहां देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कडा है । देवीके सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं; इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है । देवीके पचवन पत्य काल तक तो औदारिकशरीरका बन्ध होगा ही । इसके बाद भी पर्यायान्तरमें उसका अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य कहा है । तैजसशरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों है । स्त्रीवेदीकी अपनी कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका नियमसे बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल स्त्रीवेदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है । स्त्रीवेदकी कायस्थितिका निर्देश हम पहले कर ही आये हैं । परघात, उच्छ्वास, वादर और पर्याप्त ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं । देवीके तो इनका बन्ध होता ही है, पर वहां उत्पन्न होनेके पहले अन्तर्मुहूर्त काल तक भी इनका बन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टि मनुष्यिनीके सम्भव है, देवी सम्यग्दृष्टिके नहीं । और मनुष्यिनीके सम्यग्दर्शन कुछ कम पूर्वकोटि काल तक ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहां तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६५. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदिक और तीसरे दण्डकमें कही गई असातावेदनीय आदिकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकदण्डकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय दण्डकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहां पर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । साता आदि दूसरे दण्डकमें और असाता आदि तीसरे दण्डकमें परावर्तमान प्रकृतियोंका विचार किया है । इसलिए यहां पुरुषवेदमें इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान बन जाता है, अतः वह स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है । तेतीस सागरकी आयुवाले-देवोंके मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसके बाद उसके मनुष्य होने पर और देवपर्यायके पहले देवगतिचतुष्कका बन्ध होता है, अतः मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट

४६६. णवुंसगे पंचणाणावरणादिपढमदंडं० सादादिविदियदंडओ असादादि-
तदियदंडओ ओघं । पुरिस०-मणुसग०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० ज०
एग०, उक्क० तेतीसं सा० देसू० । तिरिक्खगदितिगं ओघं । देवगदि०४ उ० एग० ।
अणु० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०--तस०४ उक्क०
एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सा० सादि० । ओरालि०अंगो० ओघं ।
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उ० अणंतका० ।
समचदु०-पसत्थवि०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० एग० । अणु० ज० ए०, उ०
तेतीसं० देसू० । तित्थ० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसा० सादि० ।

अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । पञ्चन्द्रियदण्डकमें पञ्चन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्क ये सात प्रकृतियों ली जाती हैं । इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें जो एक सौ पचासी सागर बतलाया है उसमें नारकके बाईस सागर सम्मिलित हैं और नारकी नपुंसकवेदी होता है जब कि यहां पुरुषवेदीका विचार चला है, अतः बाईस सागर कमकर इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६६. नपुंसक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि, प्रथम दण्डक, सातावेदनीय आदि द्वितीय दण्डक और असातावेदनीय आदि तृतीय दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, वज्रर्षम-नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थश्र-गतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । औदारिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग ओघके समान है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय नपुंसक ही होते हैं और प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे बनता है । ओघ प्ररूपणामे भी यह काल इसी अपेक्षासे कहा है इसलिए तो पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धके कालको ओघके समान कहा है । तथा दूसरे और तीसरे दण्डक में कही गई प्रकृतियों परावर्तमान हैं, इसलिए इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्त-सुहृत्त यहां भी उपलब्ध होता है । यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनु-

४६७. अवगदवे० पंचगा०--चदुदंसणा०--चदुसंज०--सादा०--जस०--उच्चा०--
पंचंत० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

४६८. क्रोधादि०४ तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-णिमि० उक्क० एग० । अणु० जं०

भागबन्धके कालको ओघके समान कहा है । नरकमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । इतने काल तक इस जीवके पुरुषवेद, मनुष्यद्विक और प्रथम संहननका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण ओघसे कहा है । यहां भी यह बन जाता है, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नपुंसक ही होते हैं, अतः यह प्ररूपणा ओघके समान की है । नपुंसकवेदमें देवातिचतुष्कका निरन्तर बन्ध सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्चके ही सम्भव है और ऐसे जीवके न तो जीवनके प्रारम्भसे सम्यग्दर्शन होता है और न यह भोगभूमिज होता है और कर्मभूमिमें इनकी उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटिसे अधिक नहीं होती, अतः यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । नरकमें पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक आगे पीछे भी इनका बन्ध होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ औदारिक आङ्गोपाङ्गके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर नारकियोंकी मुख्यतासे प्राप्त होता है । ओघसे यह काल इतना ही बनता है, अतः इसका काल ओघके समान कहा है । तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं, अपनी व्युच्छित्तिके पूर्वतक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्त काल कहा है, क्योंकि नपुंसकवेदकी इतनी कायस्थिति है । नरकमें सम्यक्त्व के कालके भीतर समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तीर्थकर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध सम्भव है । उसमें भी ऐसा जीव साधिक तीन सागरकी आयुसे अधिक आयु लेकर वहां उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४६७. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकसूक्ष्मसान्परायके अन्तिम समयमें और शेष अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उपशमश्रेणि से उतरते हुए अपगतवेदके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका एक समय काल कहा है । तथा अपगतवेदके शेष समयमें इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है । किन्तु अपगतवेदका जघन्य काल एक समय है और अपगतवेदी होनेके प्रारम्भ कालसे लेकर उपशान्तमोह तकका काल व उतर कर पुनः सवेदी होने तकका काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

४६८. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट

एग०, उक्क० अंतो० ; सैसाणं मणजोगिभंगो ॥

४६६. मदि०-सुद० पंचणाणावरणादिपढमदंडओ-सादादिविदियदंडओ तिरिक्ख-
गदितिगं च ओघं ! असादा-सत्तणोक०-चदुआयु०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-
पंचसंघ०-णिरयाणु०--आदाव०--अप्पसत्थवि०--थावरादि०४-अथिरादिछ० उ० ज०
एग०; उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० । एवं उज्जोवं वज्जरिस० ।
णवरि उक्क० एग० । मणुस०-मणुसाणु० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० एक-
त्तीसं० सादि० । देवगदि४-समचदु०-पसत्थवि०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क०
एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पलि० देसू० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-
पर०--उस्सा०-तस०४ उक्क० एग० ! अणु० ज० ए०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनोयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित करके बतला-आये हैं वह क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें भी घन जाता है । फिर भी यहां पर तैजसशरीर आदि कुछ प्रकृतियोंका अलगसे उल्लेख कर जो उनका काल कहा है सो प्रकारका दिग्दर्शन कराना मात्र उसका प्रयोजन है । तात्पर्य यह है कि जो क्षपक प्रकृतियों हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त मनोयोगी जीवोंके समान यहाँ भी होता है, कारण कि चारों कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा क्षपकश्रेणियोंमें भी चारों कषायोंका सद्भाव पाया जाता है । मात्र स्वामित्वको अपेक्षा जहाँ जो विशेषता आती है उसे जान कर यह काल घटित करना चाहिए ।

४६६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, सातावेदनीय आदि द्वितीय दण्डक और तिर्यञ्जगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । असातावेदनीय, सात नोकगय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार उद्योत और वज्रपमनाराचसंहननके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल

ओरालि० उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० अणंतका० । तेजा०-क०-पसत्य-
वण्ण०४-अगु०-णिमि० उक्क० अणु० ओघं ।

५००. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्खग०-
अप्पसत्यवण्ण०-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०--पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।

एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु
और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिके अनुभागबन्धका काल दूसरे
दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदिके अनुभागबन्धका काल और तिर्यञ्चगतित्रिकके
अनुभागबन्धका काल जो ओघमें कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह ओघके
समान कहा है । असातावेदनीय और सात नोरुषाय आदि सब परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । उद्योत और वज्रवभनाराच
संहननका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए क्रमसे नारकी और देव-नारकीके एक
समयके लिए होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
कहा है । इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल असातावेदनीय आदिके समान है
यह स्पष्ट ही है; क्योंकि ये परिवर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बन जाता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इन दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध अन्तिम
प्रैवेयकमें अधिक समय तक उपलब्ध होता है । तथा नौवें प्रैवेयकमें उत्पन्न होनेके पूर्व अन्तमुहूर्त
काल तक इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक
इकतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्क आदिका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख
हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
कहा है । तथा यहाँ इनका निरन्तर अधिक समय तक अनुभागबन्ध उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त
जीवके होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है ।
पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके
होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है ।
इनका अधिक काल तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सातवें नरकमें सम्भव है और वहाँ उत्पन्न होनेके
पूर्व अन्तमुहूर्त काल तक भी इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । औदारिकशरीरका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके
अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समय कहा है । तथा इसका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियके अनन्त काल तक होता रहता है,
इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । तैजसशरीर आदि
ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं । ओघसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो काल कहा है
वह मत्यहानी श्रुताज्ञानीके सम्भव है, इसलिए यह ओघके समान कहा है ।

५००. विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।

अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देसू० । सादा०-देवगदि४-समचदु०-पसस्थ०-उज्जो०-
थिरादि४०-उच्चा० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० । मणुसगदि०-
मणुसाणु० उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० एकतीसं० देसू० । पंचिदि०-
ओरालि०--तेजा०--क०--ओरालि०अंगो०--पसस्थव०४--अगु०३--तस४--णिमि० उ०
एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देसू० । सेसाणं असादादीणं उ० ज०
एग०, उक्क० देसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

५०१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्वदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-
पंचिदि०-तेजा०-क०--समचदु०--पसस्थापसस्थ०४--अगु०४--पसस्थवि०-तस४--सुभग-

अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, देवगतिचतुष्क, समचतुरस्र सस्थान, प्रशस्त विहायोगति, उद्योत, स्थिरादि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । मनुष्यगति और मनुष्यत्यानुपूर्वाके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । शेष असातादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ— विभङ्गज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमे कही गईं प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमे कही गईं प्रकृतियों परिवर्तमान हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगतिद्विक और पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । किन्तु मनुष्यगतिद्विकका अधिक समय तक निरन्तर वन्ध नौवें प्रवेयकमें सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा है और पञ्चेन्द्रिय जाति आदिका अधिक समय तक निरन्तर वन्ध सातवीं पृथिवीमें होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । शेष असातादि परावर्तमान प्रकृतियों है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है ।

५०१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,

सुस्वर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० एग० । अणु० ज० अंतो^१, उक्क० छावट्टि० सादि० । सादा०-अरदि-सोग-आहार०-दुग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अपच्चक्खाणा०४-तित्थय० उक्क० एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । पच्चक्खाणा०४ उक्क० एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० वादालीसं^२ सादि० । हस्स-रदि-दोआयुग० उक्क० अणु० ओघं । मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० । देवगदि०४ उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० सादि० । एवं ओधिदं०-सम्मादिद्वि ति ।

समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पौच अन्तरायके उत्कृष्ट अनु-भागबन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है । सातावेदनीय, अरति, शोक, आहारकद्विक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । प्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है । हास्य, रति और दो आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियों कही हैं उनका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणीमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा आभिनिबोधिक आदि तीनों ज्ञानोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर है इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है । सातादि दूसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियों परावर्तमान हैं और इनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिम समयमें होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणीमें अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा परावर्तमान होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । अप्रत्याख्यानावरण चार, तीर्थङ्कर और प्रत्याख्यानावरण चारका उत्कृष्ट

१. ता० प्रतौ अणु० अंतो० इति पाठः । २. ता० प्रतौ अद् [दा] तीसं, छा० प्रतौ चोदातीसं इति पाठः ।

५०२. मणपज्जवे पंचणा-इदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०
 वेडव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेडव्वि०अंगो०---पसत्थापसत्थवण्ण०४-देवाणु०-
 अणु०४-पसत्थ०--तस४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि०--तित्थ०--उच्चा०-पंचंत० उ०
 एग० । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसूणं । सेसं ओधिभंगो । एवं संजद-
 सामाइ०-च्छेदो० । एवं चेव परिहार०-संजदासंजद० । णवरि धुविगाणं उक्क० एग० ।
 अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनमेंसे अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्करके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि सर्वार्थसिद्धिमें तो इनका निरन्तर बन्ध होता ही है। तथा अप्रत्याख्यानावरणका सर्वार्थसिद्धिसे आनेके बाद अविरत अवस्थामें और तीर्थङ्करका पहले और बादमें भी विरत और अविरत अवस्थामें बन्ध होता है। किन्तु प्रत्याख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव इतने ही काल तक अविरत और विरताविरत अवस्थामें रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर कहा है। हास्य, रति और दो आयु अर्थात् मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार ओघमें बतला आये हैं उससे यहाँ कोई विशेषता न होनेसे वह ओघके समान कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्व विशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव नारकीके होता है। ओघसे यह स्वामित्व इसी प्रकार है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ये क्षणिक प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें ही होता है। तथा जो ज्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्व मनुष्यायुका बन्ध कर ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि हो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके निरन्तर देवगति चतुष्कका बन्ध होता रहता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

५०२. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायांगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानमें प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट

५०३. सुहृमसंप० अवगदवेदभंगो । असंजदे पंचणा०--णवदंसणा०-मिच्छ०-
सोलसक०--भय--दु०-ओरालि०--अप्पस०४--उप०--पंचंत० उक्क० अणु० ओघं । एवं
सादादिदंडओ० । पुरिस०-ओरालि०अंगो० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
तेत्तीसं सा० सादि० । तिरिक्ख०३-मणुस०-मणुसाणु०-वज्जरि०-देवगदि०४ तित्थयरं
च ओघं । पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-
णिमि० उक्क० अणु० ओघं ।

अनुभागबन्ध असंयमके अभिशुख होने पर अन्तिम समयमें और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणि में अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध उपशमश्रेणिसे उत्तरते समय एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें मरकर देव होनेसे एक समयके लिए प्राप्त होता है और मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे इतने समय तक भी होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । इनके सिवा शेष सब परावर्तमान प्रकृतियों वचती हैं, इसलिए उनका जैसे अधिज्ञानीके काल बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित हो जानेसे वह अधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । संयत, सामायिकसंयत और ज्येदोपस्थापनासंयत जीवोंके यह सब काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए उनके कथनको मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है । परिहार-विशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें और सब काल तो इसी प्रकार है सो अपना अपना स्वामित्वका विचार कर वह पूर्वोक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र इन दोनोंके ध्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके जघन्य कालमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि इन दोनों मार्गणाओंकी प्राप्ति श्रेणिमें सम्भव नहीं है और इनमें मार्गणाओंका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है, अतः इनमें सब ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है ।

५०३. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कण्ठ, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । इसी प्रकार सातादि दण्डके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान जानना चाहिए । पुरुषवेद और औदारिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तिर्यञ्चगतित्रिक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदसे सूक्ष्मसाम्परायसंयममें अन्य कोई विशेषता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म-साम्परायमें बंधनेवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल अपगतवेदी जीवोंके

५०२. मणपज्जवे पंचणा-द्धदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०
वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०---पसत्थापसत्थवण्ण०४-देवाणु०-
अगु०४-पसत्थ०--तस४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि०--तित्थ०--उच्चा०--पंचत० उ०
एग० । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसूणं । सेसं ओधिभंगो । एवं संजद-
सामाइ०-च्छेदो० । एवं चेव परिहार०-संजदासंजद० । णवरि धुविगाणं उक्क० एग० ।
अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इनमेंसे अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्करके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि सर्वार्थसिद्धिमें तो इनका निरन्तर बन्ध होता ही है । तथा अप्रत्याख्यानावरणका सर्वार्थसिद्धिसे आनेके बाद अविरत अवस्थामें और तीर्थङ्करका पहले और बादमें भी विरत और अविरत अवस्थामें बन्ध होता है । किन्तु प्रत्याख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव इतने ही काल तक अविरत और विरताविरत अवस्थामें रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर कहा है । हास्य, रति और दो आयु अर्थात् मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार ओघमें वतला आये हैं उससे यहाँ कोई विशेषता न होनेसे वह ओघके समान कहा है । मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्व विशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव नारकीके होता है । ओघसे यह स्वामित्व इसी प्रकार है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ये क्षणिक प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें ही होता है । तथा जो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्व मनुष्यायुका बन्ध कर क्षायिकसम्यग्दृष्टि हो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके निरन्तर देवगति चतुष्कका बन्ध होता रहता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५०२. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानमें प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट

५०३. सुहृमसंप० अवगदवेदभंगो । असंजदे पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-
सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पस०४-उप०--पंचंत० उक्क० अणु० ओघं । एवं
सादादिदंडओ० । पुरिस०-ओरालि०अंगो० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
तेतीसं सा० सादि० । तिरिक्कव०३-मणुस०-मणुसाणु०-वज्जरि०-देवगदि०४ तित्थयरं
च ओघं । पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-
णिमि० उक्क० अणु० ओघं ।

अनुभागबन्ध असंयमके अभिशुख होने पर अन्तिम समयमें और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणि में अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध उपशमश्रेणिसे उत्तरते समय एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें मरकर देव होनेसे एक समयके लिए प्राप्त होता है और मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे इतने समय तक भी होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । इनके सिवा शेष सब परावर्तमान प्रकृतियों वचती हैं, इसलिए उनका जैसे अवधिज्ञानीके काल बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित हो जानेसे वह अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके यह सब काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए उनके कयनको मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है । परिहार-विशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें और सब काल तो इसी प्रकार है सो अपना अपना स्वामित्वका विचार कर वह पूर्वोक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र इन दोनोंके ध्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके जघन्य कालमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि इन दोनों मार्गणाओंकी प्राप्ति श्रेणिमें सम्भव नहीं है और इनमें मार्गणाओंका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है, अतः इनमें सब ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है ।

५०३. सूद्धमसाम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । इसी प्रकार सातादि दण्डके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान जानना चाहिए । पुरुषवेद और औदारिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तिर्यञ्चगतित्रिक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदसे सूद्धमसाम्परायसंयममें अन्य कोई विशेषता नहीं है, इसलिए सूद्धम-साम्परायमें बंधनेवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल अपगतवेदी जीवोंके

५०४. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० ओघं ।

५०५. किण्ण-णील-काउ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय०-दु०-
तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०--तेजा०-क०--ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-तिरि-
क्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।
अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सत्तारस सत्त साग० सादि० । सादासाद०-अण्णोक०-
चदुआयु०-वेउन्विचयद्ध०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-आदाव-थावरादि४-
थिरादितिण्णियुगल०-दूभग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज०
एग०, उ० अंतो० । पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-

समान कहा है। असंयत जीवोंमें प्रायः अधिकतर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका काल ओघके समान वन जाता है। जिसमें कुछ विशेषता है उनका यहां स्पष्टीकरण करते
हैं—पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिमें और उसके बाद मनुष्य पर्यायमें सम्भव है। इसी
प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्गका निरन्तर बन्ध भी वहां सम्भव है पर यहां नरककी अपेक्षा लेना चाहिए,
कारण कि नरकसे निकलनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्त काल तक औदारिक आङ्गोपाङ्गका बन्ध होता
रहता है, इसलिए असंयतोंमें इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक
तेतीस सागर कहा है। असंयतोंमें पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके
अभिमुख होनेपर असंयतसम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कड़ा है। तथा इनका निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिमें
और वहाँ से च्युत होनेपर भी होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
साधिक तेतीस सागर कड़ा है। शेष कथन सुगम है।

५०४. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें
ओघके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—त्रसपर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियों की मुख्यता है और इनके चक्षुदर्शन नियमसे
होता है, इसलिए त्रसपर्याप्तकोंके पहले जो प्ररूपणा कर आये हैं वह चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें अविकल
वन जाती है। तथा अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए ओघप्ररूपणा अचक्षु-
दर्शनवाले जीवोंमें अविकल वन जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

५०५. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, सोलह कणाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर,
कार्मणकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्र सागर और साधिक
सात सागर हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, वैक्रियिकपट्टक, चार
जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, आतप, स्यावर आदि चार, स्थिर
आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन,

सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क०
तेतीसं सत्तारस [सत्त] साग० देसु० । उज्जोवं ओघं । तित्थय० उ० ज० एग०,
उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० । एव णील० । काऊणं तित्थय० तदिय-
पुढविभंगो । णील० काउ० तिरिक्ख० ३-उज्जो० सादावेदणीयभंगो ।

५०६. तेउ० पंचणा०-णवदस०--मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुस-
गदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-अप्पसत्थ०४-मणुसाणु०-उप०-पंचंत उ०

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह
सागर और कुछ कम सात सागर है । उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल नीलेश्यामें जानना चाहिए । तथा कापोत लेश्यामें
तीसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । तथा नील और कापोत लेश्यामें तिर्यञ्चगतित्रिक और उद्योतका
भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमे कहीं गई प्रकृतियों का निरन्तर अनुभागबन्ध
कृष्णादि तीन लेश्याओंमें उनके उत्कृष्ट काल तक सम्भव होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । पर
पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध इन लेश्याओंमें सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव है, अतः इन
प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामे कुछ कम तेतीस सागर, नील
लेश्यामें कुछ कम सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें कुछ कम सात सागर कहा है । सातावेदनीय
आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः तीनों लेश्याओंमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट
काल अन्तमुहूर्त कहा है । कृष्ण और नील लेश्यामे तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्योंके ही होता है
और इनके इन लेश्याओंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए तो इन दोनों लेश्याओंमें तीर्थङ्कर
प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है और कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर
प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आयुवाले नारकियोंके भी सम्भव है, इसलिए
कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीसरी पृथिवीके समान
कहा है । सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए कृष्ण-
लेश्यामें तो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर बन जाता है पर
नील और कापोत लेश्यामें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट काल साधिक सत्रह सागर और
साधिक सात सागर नहीं बनता । किन्तु प्रथम दण्डकमें इनका यह काल कह आये हैं, अतः उसका
वारण करनेके लिए यहां पर इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
सातावेदनीयके समान कहा है । इसी प्रकार उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय ओघके समान कृष्ण लेश्यामें ही बनता है । किन्तु यहां पहले तीनों लेश्याओंमें
इसका काल ओघके समान कह आये हैं जो नील और कापोत लेश्यामें नहीं बनता, अतः इन
दोनों लेश्याओंमें उसके कालका अलगसे निर्देश किया है ।

५०६. पीतलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद,
भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपर्मनाराचसंहनन, अप्रशस्त

१. ता० आ० प्रत्योः ओरालि० तेजा० क० ओरालि० अंगो० इति पाठः ।

ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० वेसाग० सादि० । सादा०-देवगदि-
वेउन्वि०-आहार०-दोअंगो०-देवाणु०-थिर-सुभ-जस० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, णवरि
देवगदि०४ अंतो०, उ० अंतो० । असादा०-छण्णोक०-तिण्णिआयु०-तिरिक्खग०-एइदि०-
पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०--अप्पसत्थ०--थावर०--अधिरादिछ०-
णीचा० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । पंचिदि०-सम-
चदु०-[पर०-उस्सा०-] पसत्थ०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० एग० ।
अणु० ज० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-वादर-
पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ० उक्क० एग० । अणु० ज० अंतो०, उ० वेसाग० सादि० ।
एवं पम्माए वि । णवरि एइदि०-आदाव-थावरं वज्ज० । पंचिदि०-तस० धुवं कादव्वं ।

वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । सातावेदनीय, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है । किन्तु इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, छह नोकपाय, तीन आयु, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, व्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरको छोड़कर काल कहना चाहिए । तथा पञ्चेन्द्रियजाति और व्रसको ध्रुव करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहाँ ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है । अन्य जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इतना कहा है वह भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । साता दण्डक और असाता दण्डककी सब प्रकृतियों परावर्तमान हैं अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । सातावेदनीय आदि जितनी प्रशस्त प्रकृतियों हैं उनका सर्वविशुद्ध अप्रमत्त संयतके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः उन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । पीतलेश्याके कालमें मनुष्य और तिर्यञ्चके नियमसे देवगति चतुष्कका बन्ध होता है और इनके पीतलेश्याका काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए यहां देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका

५०७. सुकाए पंचाणावरणादिसम्मादिद्विपगदीओ पुरिस०-अप्पसत्थ०४-
 उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० ।
 थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं४ उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज०, एग०,
 उ० एकत्तीसं० सादि० । सादादिदंडओ ओघं । असादा०-छण्णोक०-दोआयु०-पंच-
 संठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ०-णीचा० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु०
 ज० एग०, उ० अंतो० । मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं
 सा० । देवगदि०४ सादभगो । पंचिदिय-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-
 णिमि०-तित्थ० उ० एग० । अणु० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । समचदु०-
 पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क०
 तेत्तीसं० सादि० ।

जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यही बात तैजसशरीर आदि प्रकृतियोंके विषयमें भी जान लेनी चाहिए। पद्मलेख्याका उत्कृष्ट काल साधिक अठारह सागर है। इसलिए जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पीत लेख्यामे साधिक दो सागर कहा है उनका यहां साधिक अठारह सागर काल कहना चाहिए। तथा पद्म लेख्यामे एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरका बन्ध न होनेसे पञ्चन्द्रिय जाति और त्रस ये दो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हो जाती हैं, अतः इनका काल तैजसशरीर आदि प्रकृतियोंके समान घटित कर लेना चाहिए; क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियों हैं इसलिए उनके समान यहां काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती। शेष कथन सुगम है।

५०७. शुक्ललेख्यामें पाँच ज्ञानावरणादि सम्यग्दृष्टिके वैधनेवाली ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ, पुरुषवेद, अप्रशस्त वर्णचार, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर है। सातादि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है। असातावेदनीय, छह नोकषाय, दो आयु, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें ये प्रकृतियाँ हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उगघात और पाँच अन्तराय। ये प्रकृतियाँ सम्यग्दृष्टिके भी वैधनी रहती हैं, इसलिए शुक्ललेख्याके उत्कृष्ट काल तक इनका बन्ध सम्भव होनेसे

५०८. भवसि० ओघं। अबभवसि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-
भय-दु०-ओरालि० तेजा०-क०-पसत्थापसत्थवण्ण०-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ०
ज० एग०, उ० वेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। सादासाद०-सत्तणोक०-चदु-
आयु०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-
थावरादि०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० उ० ज० एग०, उ०
वेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो०। तिरिक्खगदितिगं ओघं। मणुस०-मणुसाणु०
उक्क० ओघं। अणु० मदि०भंगो। एवं वज्जरि०। देवगदि०^१-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-
सुस्सर--आदेज्ज--उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० ज० एग०, उ०

इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदि
आठ प्रकृतियोंका वन्ध अन्तिम ग्रैवयक तक ही सम्भव है इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। सातादण्डक और असाता दण्डकका विचार
सुगम है। मनुष्यगतिपञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमे निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। कोई जीव एक समय तक उपशमश्रेणिमें
देवगतिचतुष्कका वन्ध कर मर कर देव हो जाय तो उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
काल एक समय बन जाता है, इसलिए यहां देवगतिचतुष्कका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है।
पञ्चेन्द्रियजाति आदि और समचतुरस्र संस्थान आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय स्पष्ट ही है। शुक्ललेश्याका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल
साधिक तेतीस सागर है और यहां पञ्चेन्द्रियजाति आदि ध्रुववन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए यहां
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर
कहा है। किन्तु समचतुरस्र आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध
कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर तक सम्भव होनेसे वह
उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

५०८. भव्य मार्गणामें ओघके समान भङ्ग है। अभव्य मार्गणामें पाँच ज्ञानावरण, नौ
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट
अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। सातावेदनीय,
असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,
नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ,
अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगति
और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। तथा अनुत्कृष्ट
अनुभागवन्धका काल मरत्यज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार वज्रर्पभनाराचसंहननका काल
जानना चाहिए। देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय
और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय

तिष्णिणपलिं० देसू० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ उ० ज० एग०,
उ० वेसम० । अणु० मदि०भंगो ।

५०६. खड्गसं० पंचणा०-द्वंदसणा०-वारसक०-पुरिस०-भयदु०-अप्पसत्थ०४-
उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० ।
आहारदुग--थिर-सुभ--जस० ओघं । असादा०--चदुणोक०--दोआयु०--अथिर०असुभ-
अजस० उक्क० अणु० ओघं । मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ०
तेत्तीसं० । देवगदि०४ उक्क० अणु० ओघं । पंचिदि०-तेजा०-क०-[समचदु०]-पसत्थ०४-
अगु०३--पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० एग० ।
अणु० ज० अतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और व्रसन्नतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका
काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—अभयोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर अनुत्कृष्ट वन्ध अनन्त काल तक
सम्भव होनेसे यहां वह उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियां होनेसे उनके
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ओघसे घटित करके वतला आये हैं । वह यहाँ अवि-
कल बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है । मत्यज्ञानियोंके मनुष्यगतिद्विकके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इक्तीस सागर वतला आये हैं वह यहाँ इन दोनोंका बन
जाता है, इसलिए वह मत्यज्ञानी जीवोंके समान कहा है । उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर देवगति
आदिका निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम
तीन पल्य कहा है । नरकमें व वहाँसे निकलने पर अन्तमुहूर्त काल तक पञ्चेन्द्रियजाति आदिका
निरन्तर वन्ध होता है, इसलिये यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके
समान साधिक तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५०६. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद,
भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । असातावेदनीय, चार नोकषाय, दो
आयु, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके
समान है । मनुष्यगतिपञ्चरुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मण-
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगगति, व्रसचतुष्क,
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल
साधिक तेतीस सागर है ।

५१०. वेदगे पंचणा०-द्वंदसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय०-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उ० ए०। अणु० ज० अंतो०, उक्क० छावट्टि०। सेसं आभिणि०भंगो। णवरि देवगदि०४ अणु० उक्क० तिण्णि पलि० देसू०।

५११. उवसम० पचना०-द्वंदसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ० ए०। अणु० ज० उ० अंतो०। सादासाद०-

विशेषार्थ—ज्ञायिकसम्यक्त्वमें ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्ति होने तक निरन्तर बन्ध सम्भव है और यह काल उत्कृष्टरूपसे साधिक तेतीस सागर है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणिसे उतरकर और अन्तमुहूर्त काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंका बन्ध करके पुनः उनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। इनका निरन्तर बन्ध साधिक तेतीस सागर काल तक सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

५१०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है। शेष भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वमें प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके एक समयके लिए होता है तथा पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध अप्रसत्तसंयतके एक समयके लिए होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर कहा है। देवगति चतुष्कका वेदक सम्यक्त्वमें अधिक काल तक बन्ध उत्तम भोगभूमिमें ही सम्भव है और वहाँ पर वेदक सम्यक्त्व कुछ कम तीन पत्य तक ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

५११. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल

अरदि-सोग-देवगदि४-आहार०दुग-धिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उ०ए० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । हस्स-रदि-मणुसगदिपंच० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

५१२. सासणे सादासाद०-इत्थि०-अरदि-सोग-वामण०-खीलिय०-उज्जो०-अप्प-सत्थ०-धिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अज० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णआयु०-चदुसंठा०-चदुसंघं० उ० ज० ए०, उ० वेस० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० छावलियाओ ।

एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति शोक, देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । हास्य, रति और मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त होनेसे सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है यह स्पष्ट ही है । यहाँ विचार केवल उत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालका करना है । पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है तथा चपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमे होता है, इसलिए इन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । मात्र मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्व-विशुद्ध देव और नारकीके तथा हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त चारों गतिके जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५१२. सासादनसम्यक्त्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, वामन-सस्थान, कीलकसंहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन आयु, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवली है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें जो प्रकृतियों गिनाई हैं उनमेंसे कुछका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चारों गतिके सर्वसंक्लिष्ट जीवके और कुछका चारों गतिके सर्वविशुद्ध जीवके होता है । यतः यह एक समय तक ही होता है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है, छह आवली नहीं

१ 'ता० प्रतौ तिण्णआयु० चदुसंघ० इति पाठः ।

५१३. सम्मामि० सादासाद०--अरदि-सो०-थिराथिर--सुभासुभ-ज०-अजस०
उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । हस्स-रदि० ओघ । सेसाणं उ० ए० । अणु०
ज० उ० अंतो० । मिच्छादिद्वी० मदि० भंगो । सण्णी० पंचिदियपज्जत्तभंगो ।

५१४. असण्णीसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-
तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४--अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० ।
अणु० ज० ए०, उ० अणंतकाल० । तिरिक्खगदितिगं ओघं । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेस० ।

सो इसका यह कारण प्रतीत होता है कि ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः छह आवलि कालके भीतर भी इनके बन्धका परिवर्तन सम्भव है, अतः वह छह आवलि काल द्वारा न बतला कर अन्तमुहूर्त काल द्वारा व्यक्त किया है । किन्तु पुरुषवेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहनेका कारण पहले कह ही आये हैं: शेष जो पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वसंक्लेशयुक्त जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा वे ध्रुवबन्धिनी हैं तथा सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि है अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि कहा है ।

५१३. सम्यग्मिथ्यात्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग है । संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए तो यहाँ सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तथा ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है । यद्यपि वैक्रियिकपट्टक और औदारिक चतुष्क इनका भी सम्यग्मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है पर यहाँ वे अधिकारीभेदसे बँधनेके कारण परावर्तमान नहीं हैं । अब रहा सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके जघन्य कालका विचार सो हास्य और रतिको छोड़कर किसीका मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर और किसीका सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर बन्ध होता है, अतः इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान बन जानेसे वह ओघके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५१४. असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उदघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है । तिर्यङ्गति त्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके

अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

५१५. आहारगेषु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-ओरालि०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०-पंचंत०- उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । तेजइगादीणं पि उ० ओघं । अणु० णाणा०भंगो० । सेसाणं पि ओघभंगो । तिथ्य० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अणाहारा० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्खस्सकालं समतं ।

५१६. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय-दु०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० एग० । अज०

समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंमें एकेंद्रियोंकी मुख्यता है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५१५. आहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तैजसशरीर आदि प्रकृतियोंके भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल भी ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—आहारक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इनमें पाँच ज्ञानावरणादि और तैजसशरीर आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिके अपूर्वकरण में अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इसका निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिमें और उसके आगे पीछेकी मनुष्य पर्यायमें सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

५१६. जघन्य कालका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक

तिष्णिभंगी० । ज० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । सादासादं०-चदुआयु-णिरयगदि-
 चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-णिरयाणु०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभा-
 सुभ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज०
 ज० एग०, उक्क० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि०सोग-आदाउज्जोव० ज० ज०
 एगं०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० ज० ए० । अज०
 जह० एगं०, उक्क० वेद्धावट्ठि० सादि० । हस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग० । अज०
 ज० एग०, उक्क० अंतो० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० एग० । अज० ज०
 एग०, उक्क० असंखेज्जा० लोगा । मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु० ज० ज० एग०, उक्क०
 चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं । देवगदि-देवाणु० ज० ज० एग०,
 उक्क० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक्क० तिष्णिपलि० सादि० । पंचिदि०-
 पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० पंचा-
 सीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० ज० ज०

समय है । अजघन्य अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं । उनमेंसे सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । साता वेदनीय, असाता-वेदनीय, चार आयु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है । हास्य, रति और आहारकद्विकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यगति, वज्रपभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । पञ्चैन्द्रियजाति, परधात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभाग वन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एकसौ-पचासी सागर है । आँदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुन्तवु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल

१. ता० आ० प्रचोः तिमंगि० इति पाठः । २. ता० प्रती सादासादासाद (?) इति पाठः ।
 ३. ता० प्रती आदावुज्जोव० ज० ए० इति पाठः । ४. ता० प्रती अज० ए० इति पाठः ।

एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक० अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्टं ।
 वेउच्चि०—वेउच्चि०अंगो० ज० ज० एग०, उक० वेसम० । अज० देवगदिभंगो ।
 समचट्टु०-पसत्थ०—सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम० ।
 अज० ज० एग०, उक० वेखावट्टि साग० सादि० तिण्णि पलि० देसू० । ओरालि०-
 अंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि० ।
 तिथ्थ० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि० ।

एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल देवगतिके समान है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य साधिक दो छयासठ सागर है । औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तीर्थद्वार प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—यहां प्रथम दण्डकमें जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक ही होता है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागबन्ध यथास्वासित्व अपनी अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा ये सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धके तीन भङ्ग बन जाते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे अनादि अनन्त भङ्ग अभव्योंके होता है । अनादि-सान्त भङ्ग भव्योंके अपनी अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके पूर्व तक होता है और सादि-सान्त भङ्ग उन भव्योंके होता है जिन्होंने यथायोग्य सम्यक्त्व पूर्वक उपशमश्रेणि आरोहण किया है । इनमेंसे तीसरे भङ्गकी अपेक्षा इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके बाद लौटकर पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर इनका पुनः बन्धव्युच्छित्तिके योग्य अवस्थाके उत्पन्न करनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है । यथा किसी भव्यने अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको उत्पन्नकर मिथ्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति की । पुनः वह मिथ्यात्वमे आकर उसका बन्ध करने लगा तो उसे पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगेगा । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिए । तथा अर्धपुद्गल परावर्तन कालके प्रारम्भमे और अन्तमें इन सब प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति करने पर इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिक दूसरे दण्डकमें जितनी प्रकृतियां कही हैं उनमेंसे कुछका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके और कुछका मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टिके होता है, यतः इनका जघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चार समय तक होता रहता है, क्योंकि

इनके अनुभागवन्धके कारणभूत परिणामोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा चार आयुओंको छोड़कर ये परावर्तमान प्रकृतियां होनेसे इनका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक ही वन्ध होता है। तथा चार आयुओंका यद्यपि एकवार वन्ध अन्तर्मुहूर्त तक ही होता है पर इनका एक समय तक अजघन्य वन्ध होकर दूसरे समयमें जघन्य वन्ध सम्भव है, अतः इन सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। खीवेद आदिके जघन्य अनुभागवन्धका जो स्वामी वतलाया है उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभागवन्धके योग्य परिणाम दो समयसे अधिक काल तक नहीं हो सकते, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। पुरुषवेदका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक अनिवृत्तिकरण जीवके अपनी वन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यह एक तो परावर्तमान प्रकृति है। दूसरे मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्व होकर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरोपम है और ऐसे जीवके एकमात्र पुरुषवेदका ही वन्ध होता है, अतएव इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है। हास्य और रतिका जघन्य अनुभागवन्ध अपूर्वकरण क्षपकके अपनी वन्ध व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें और आहारकद्विक या जघन्य अनुभागवन्ध प्रमत्तसंयतके अभिमुख अप्रमत्तसंयतके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा हास्य और रति ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अब रहीं आहारकद्विक सो इनका उपशेमश्रेणिमें एक समय तक अजघन्य अनुभागवन्ध बन सकता है, क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय इनका एक समय तक वन्ध करके मरा और देव हो गया उसके यह सम्भव है। तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है यह स्पष्ट ही है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तियञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा ये एक तो प्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, दूसरे अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा ये प्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा प्रतिपक्ष प्रकृतियों होनेके साथ सर्वार्थसिद्धिमें इनका निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगतिद्विक भी प्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं और मध्यम परिणामोंसे वधती हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यके इनका निरन्तर वन्ध साधिक तीन पत्य काल तक होता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। पञ्चन्द्रिय ज्ञानि आदिका जघन्य अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संकलेश परिणामोंसे होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका

५१७. गिरएसु ध्रुविगाणं उक्कस्सभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०
वधि०४-तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ०
तेतीसं० । णवरि मिच्छ० अज० ज० अतो० । सादादीणं ओघभंगो । इत्थि-णवुंस०-
चहुणोक०-उज्जो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

खुलासा अनुत्कृष्टके समान है। औदारिकशरीर आदिके अजघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालको छोड़कर शेष सब खुलासा पञ्चन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंके समान कर लेना चाहिए। मात्र इनका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियोंके सदा काल होता रहता है और उनकी कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। वैक्रियिकद्विक भी सप्रतिपत्त प्रकृतियां होनेके साथ सर्व संक्लिष्ट परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्धको प्राप्त होती हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनका देवगतिके साथ मनुष्य सम्यग्दृष्टिके अधिक काल तक बन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका काल देवगतिके अजघन्य अनुभागबन्धके समान कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदि प्रकृतियाँ एक तो सप्रतिपत्त हैं। दूसरे इनका मध्यम परिणामोंसे बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त जीवके इनका निरन्तर बन्ध होता है और ऐसा जीव इस पर्यायके अन्तमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छयासठ सागर काल तक उसके साथ रहा। तथा अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छयासठ सागर काल तक उसके साथ रहा उसके भी इनका निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य अधिक साधिक दो छयासठ सागर कहा है। औदारिकआज्ञोपाङ्ग भी सप्रतिपत्त प्रकृति है और इसका जघन्य अनुभागबन्ध सर्व संक्लिष्ट परिणामोंसे होता है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट ही है। साथ ही जो नारकी इसका तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध करता है और वहाँसे निकल कर अन्तमुहूर्त काल तक इसका और बन्ध करता है इसकी अपेक्षा इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख सम्यग्दृष्टि मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इसका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त काल तक अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, क्योंकि जो जीव अन्तमुहूर्त काल तक इसका बन्ध कर उपशमश्रेणि पर आरोहण करता है उसके अपूर्वकरणमें इसकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है और इसका निरन्तर बन्ध मनुष्य और देवके साधिक तेतीस सागर काल तक होता रहता है, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है।

५१७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्ध का जघन्य काल अन्तमुहूर्त है। सातादि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नौकषाय और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

पुरिस० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० तेतीसं० देसू० ।
 मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० ज०
 ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देसू० । तित्थय०
 ज० अज० उक्कस्सभंगो । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणं-
 ताणु०४-तिरिक्ख०३ [जह० एग० । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेतीसं० ।] मणुसग०३
 ज० एगं० । अज० ज० अंतो०, उक्क० तेतीसं० देसू० । छसु उवरिमासु तिरिक्ख०३
 सादभंगो । सेसाणं णिरयोधं । अप्पणो द्विदीओ कादव्वाओ ।

दो समय हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हैं । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं । मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभनाराचसंहनन, मनुष्यागत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । ऊपरकी छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । मात्र अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां ये हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आगोपाग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय । इनका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके निरन्तर बन्ध होता है । इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पहले वतला आये हैं । वही वहाँ जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल प्राप्त होता है, अतः यह काल उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सन्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक तेतीस सागर तक होता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र जो सन्यगृष्टि नारकी मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्वका बन्ध करने लगता है वह मिथ्यात्वके साथ वहाँ अन्तमुहूर्त काल तक अवश्य रहता है, अतः मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है । सातादिक अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, अतः इनके

५१८. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दुगुच्छ०-ओरालि०-तेजा०-
क०-पसत्थापसत्थवण्ण४-अगु०-उप०-णिमि० पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क०
वेसम० । अज० ज० एग०, उ० अणंतका० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक० ज०
एग०, अज० ज० एग०, मिच्छ० ज० खुदाभव०, उक्क० अणंतका० । सादादिदंडओ
ओघं । इत्थि०--णतुंस०--चदुणोक०--ओरालि०अंगो०--आदाउज्जो० ओघं इत्थिभंगो ।
पुरिस०-वेउन्वि०--वेउन्वि०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० वेस० । अज० ज० एग०,

जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो काल ओघसे कहा है वही यहां प्राप्त होता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है। खीवेद आदि एक तो अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, दूसरे इनमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे और उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त कहा है। पुरुषवेद भी इसी प्रकारकी प्रकृति है पर इसका सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा ये एक तो परिवर्तमान प्रकृतियों हैं, दूसरे इनका सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। सातवीं पृथिवीमें यह काल इसी प्रकार है। मात्र स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियों के कालमें कुछ अन्तर है। बात यह है कि सातवीं पृथिवीमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मरण होता है, इसलिए इसमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और तिर्यञ्जगति-त्रिकके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है। तथा मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है, इसलिए सातवें नरकमें इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यहां सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें मिथ्यात्व गुणस्थानमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका भी बन्ध होता है, इसलिए इनमें तिर्यञ्जगतित्रिक परावर्तमान प्रकृतियाँ हो जाती हैं, अतः यहा इनका काल सातावेदनीयके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

५१८. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्तवर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और आठ कषायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका खुदाभव-ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल सबका अनन्त काल है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है। खीवेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतका भङ्ग ओघसे खीवेदके समान है। पुरुषवेद, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनु-

उक्क० तिण्णिपलि० । तिरिक्ख०३ उक्कस्सभंगो । देवगदि-समचट्टु०-देवाणु०-पसत्थ०-
 सुभग-सुस्सर-आदे-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०,
 उ० तिण्णि पलि० । मणुसग०-मणुसाणु० सादभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४
 ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० अणुकस्सभंगो । एव पंचिदियतिरिक्ख०३ ।
 णवरि धुवियाणं अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पलि० पुव्वकोटिपुध० । तिरिक्ख०३
 सादभंगो । ओरालि० इत्थिभंगो । पुरिस०-वेडव्वि०-वेडव्वि०अंगो जहण्णुकस्सभंगो ।
 अज० अणु०भंगो । देवगदि-समचट्टु०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०
 ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० अणु० भंगो ।

भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग उत्कृष्टके समान है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । औदारिकशरीरका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । पुरुषवेद, वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है और अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—ओघमें हम सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालका तथा अजघन्य अनुभागबन्धके जघन्य कालका खुलासा कर आये हैं । उन कारणोंको पुनः पुनः दुहराना ठीक नहीं है, अतः आगे इनके कालोंकी विशेष चरचा नहीं करेंगे । यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो उसपर अवश्य ही प्रकाश डालेंगे । अब रहा यहां अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है—तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका कायस्थिति कालतक निरन्तर बन्ध होता रहता है इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । यही बात स्त्यानगृद्धि आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके विषयमें भी जाननी चाहिए । मात्र मिथ्यात्व प्रकृतिका अजघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्चोंमें खुदाभवग्रहप्रमाणकाल तक भी सम्भव है, क्योंकि जो जीव अन्य पर्यायसे आकर और खुदाभवग्रहप्रमाण काल तक तिर्यञ्च पर्यायमें रहकर अन्य पर्यायमें चला जाता है उसके इतने काल तक तिर्यञ्च पर्यायमें मिथ्यात्वका अजघन्य अनुभागबन्ध देखा जाता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल खुदाभवग्रहप्रमाण कहा है । ओघसे स्त्रीवेदके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो काल कहा है वह यहां स्त्रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका

५१६. पंचि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--णव-
णोक०--ओरालि०--तेजा०-क०--ओरालि०अंगो०--पसत्थापसत्थवण्ण४--अगु०--उप०-
पर०--उस्सा०--आदाउज्जो०-णिमि०--पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज०
ज० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज०
एग०, उक्क० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सुहुमपज्जत्तापज्ज०--सव्ववादर०-
अपज्ज०--सव्वविगलिंदि० । णवरि एइंदिय-सुहुमाणं च पज्जत्त-अप० वादरअपज्ज०
तिरि०३ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । विगलिंदिएसु धुविगाणं अज० अणुक्कस्सभंगो ।

अविकल बन जाता है इसलिए यह काल ओष ऋग्वेदके समान कहा है। पुरुषवेद आदि चौथे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें तिर्यञ्च सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। तिर्यञ्च-गतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो काल कह आये हैं वही यहां इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका प्राप्त होता है, इसलिए यह उत्कृष्टके समान कहा है। देवगति आदि प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। तिर्यञ्चोंमें मनुष्यद्विकका बन्ध सासादनगुणस्थान तक होनेसे ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ बनी रहती हैं, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है। तिर्यञ्चोंमें पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य घटित करके बतला आये हैं। इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए यह अनुत्कृष्टके समान कहा है। यहां सामान्य तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंका जो काल कहा है वह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें अविकल घटित हो जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके कालमें अन्तर है उसका अलगसे निर्देश किया है। वात यह है कि इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण जानना चाहिए। तथा इनके तिर्यञ्चगतित्रिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हो जाती हैं, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है। यहां औदारिकशरीर भी सप्रतिपक्ष प्रकृति है इसलिए इसका भङ्ग ऋग्वेदके समान कहा है। पुरुषवेद आदि और देवगति आदिका यहां सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन तीन मार्गाणाओंमें इन प्रकृतियोंका जैसा काल उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय घटित करके बतला आये हैं यथायोग्य वैसा बन जानेसे वह मूलमें कही गई विधिसे कहा है।

५१६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, सब वादर अपर्याप्त और सब विकलेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त और वादर अपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा विकलेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली

५२०. मणुस०३ खविगाणं ज० ओघं । अज० सेसाणं वज्ज पंचिदि०तिरि०-
भंगो । अज० सव्वाणं अणुक्कस्सभंगो । तित्थय० ज० अज० उक्कस्सभंगो ।

५२१. देवेसुं पंचणा०--द्वंदसणा०--वारसक०--पुरिस०--भय--दु०--पंचिदि०
ओरालि०-तेजा-क०-ओरालि०अंगो०--पसत्थापसत्थवण्ण४--अगु०४--तस०४--णिमि०-
तित्थ०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० ।
सादासाद०-दोआयु०-तिरिक्ख०--एइदि०--पंचसंठा०--पंचसंध०--तिरिक्खाणु०--अप्प-
सत्थवि०-थावर-थिरोथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस०-णीचा० ज०
ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० । मणुस०--समचदु०-

प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गाणाएँ गिनाई हैं उनमें विकलत्रयोंको छोड़कर सबकी काय-
स्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त कहा है । मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च लब्धपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनु-
भागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है किन्तु एकेन्द्रियोंमें सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता
है, इसलिए इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । विकलत्रयोंकी कायस्थिति अधिक है, इस-
लिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है ।
शेष कथन सुगम है ।

५२०. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका काल और शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्चोंके समान है । तथा शेष सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान
है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन कपाय, हास्य, रति, भय
और जुगुप्सा ये चार नोकपाय और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणिमें जघन्य अनुभाग-
बन्ध होता है और क्षपकश्रेणि मनुष्यत्रिकमें होती है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-
बन्धका काल ओघके समान कहा है । यद्यपि पुरुषवेदका भी जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें
होता है पर इसके अजघन्यानुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है, इसलिए यहां इसकी परिगणना
नहीं की । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५२१. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा,
पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण-
चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्त-
रायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सातावेदनीय,
असातावेदनीय, दो आयु, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानु-
पूर्वा, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशः-
कीर्ति, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

वज्ररि०-मणुसाणु०-पसत्य०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज० एग०, उ०चत्तारि-
सम० । अज० अणुक्क०भंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० एग० ।
अज० अणु०भंगो । णवरि मिच्छ० अज० ज० अंतो० । छण्णोक०-आदाउज्जो०
ज० अज० उक्कस्सभंगो । एवं सन्वदेवाणं जहणं सामित्तं णादूण अप्पणो द्विदी
णादन्वा ।

५२२. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ज० ज० एग०, उक्क०
वेसम० । अज० अणुक्कस्सभंगो । सत्तणोक०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदा-

अन्तमुहूर्त है । मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहतन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त
विहायोगति, सुभग, सुस्वर आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है ।
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता
है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है । छह नोकषाय, आतप
और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार सब
देवोंके जघन्य स्वमित्त्वको जानकर अपनी स्थिति जाननी चाहिए ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियां और
तीसरे दण्डकमें कहीं गई मनुष्यगति आदि सब प्रकृतियों ध्रुवबन्धिनी हैं, इसलिए इनके अजघन्य
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । मनुष्यगति आदिके अजघन्य अनुभागबन्धके
कालका भङ्ग यद्यपि अनुत्कृष्टके समान कहा है पर उसका यही अभिप्राय है । दूसरे दण्डकमें
कही गई सातावेदनीय आदि प्रकृतियां अध्रुवबन्धिनी हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । यद्यपि इनमें दो आयु भी
सन्मिलित हैं पर इससे अजघन्य अनुभागबन्धके जघन्य काल एक समयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ।
खुलासा पहले कर आये हैं । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख
हुए जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर
पहले घटित करके बतला आये हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है,
इसलिए यहां अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वके
अजघन्यबन्धके जघन्य कालमें विशेषता है । कारण कि मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।
इतने काल तक मिथ्यात्वका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है । छह नोकषाय, आतप और उद्योत ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं ।
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय इनका जो काल कहा है वह यहां भी बन जाता है, इसलिये उक्त प्रमाण
कहा है । यहां भवनवासी आदि देवोंमें अलग अलग कालका विचार नहीं किया है सो जहां
जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसका तथा अपनी अपनी स्थिति और स्वामित्त्वका विचार कर
वह घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन स्पष्ट ही है !

५२२. एकेन्द्रियोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और तिर्यङ्गगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्ध
का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग
अनुत्कृष्टके समान है । सात नोकषाय, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और

उज्जो० ज० अज० उक्कस्सभंगो । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । णवरि सव्वत्थं अज०
अप्पप्पणो अणुकस्सभंगो । एवं वादर० वादरपज्जत्तापज्जत्ताणं च सुहुमाणं ।

५२३. पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं जह० ओघं । अज० सव्वाणं अप्प-
प्पणो अणुकस्सभंगो । णवरि अप्पसत्थाणं धुविगाणं अज० ज० अंतो०, उ०
अणु०भंगो ।

उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट अनुयोगद्वारके समान है । शेष प्रकृ-
तियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है सर्वत्र अजघन्य अनुभागबन्धका काल
अपने अपने अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर
एकेन्द्रिय अपर्याप्त और सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्व विशुद्ध परिणामोंसे, ध्रुव-
बन्धवाली प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे और तिर्यञ्चगतित्रिकका सर्वविशुद्ध
परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए यहां जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है
यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनके अनुत्कृष्ट अनुभानबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
असंख्यात लोक प्रमाण बतलाया है वही यहाँ भी प्राप्त होता है । सात नोकषाय और औदारिक
आङ्गोपाङ्ग अध्रुवबन्धिनी और यथासम्भव सप्रतिपत्त प्रकृतियों हैं तथा परघात आदि चार अप्रति-
पत्त प्रकृतियों होकर भी अध्रुवबन्धिनी हैं, इसलिए उत्कृष्ट अनुयोगद्वारमे इनका काल जो अप-
र्याप्तकोंके समान बतलाया है वैसा ही यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । तथा शेष प्रकृतियोंका काल
भी अपर्याप्तकोंके समान घटित कर लेना चाहिए । मात्र एकेन्द्रियोंके अवान्तर भेदोंमे काल कहते
समय अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल जैसा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अलग
अलग कहा है उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए ।

५२३. पञ्चन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके
समान है । तथा सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अपने अपने अनुत्कृष्टके समान है ।
इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल
अन्तमुर्हृत है और उत्कृष्ट काल अपने अपने अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—जघन्य स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन चारों मार्गणाओंमें जघन्य
स्वामित्व ओघके समान बन सकता है, इसलिए इनमें जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल ओघके
समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, अतः उसका निर्देश ओघके समान किया है । अब रहा
अजघन्य अनुभागबन्धका काल सो यहाँ अन्य सब प्रकृतियोंका तो वह अनुत्कृष्टके समान बन जाता
है । मात्र ध्रुवबन्धवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंके कालमे कुछ विशेषता है । वात यह है कि इन प्रकृ-
तियोंका जघन्य अनुभागबन्ध, जिनका क्षपण श्रेणियोंमें बन्ध सम्भव है उनका तो क्षपकश्रेणियोंमें अपनी
अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमे होता है और जिनका क्षपकश्रेणियोंमें बन्ध सम्भव नहीं है उनका
यथास्वामित्व अपनी अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनका अजघन्य
अनुभागबन्ध अन्तमुर्हृत कालसे कम इन मार्गणाओंमें बन ही नहीं सकता । इसलिए यहाँ इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुर्हृत और उत्कृष्ट काल अपने अपने अनुत्कृष्टके
समान कक्षा है ।

५२४. सव्वपुढ०--आउ०-वणप्फदि-पत्ते०--णियोद० जह० अपज्जत्तभंगो ।
अज० सव्वाणं अणुक्कस्सभंगो । एवं चेव तेउ०-वाउ० । णवरि धुविगाणं तिरिक्ख०-
तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० अणु०भंगो ।

५२५. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक० पंच-
णोक०-तिरिक्खगदि०३-आहारदुग-अप्पसत्थ०४ उप०-तित्थय०-पंचंत० ज० एग० ।
अज० ज० एग०, उ० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-पंचिदि०-ओरालि०-
वेउव्वि०-तेजा०-क०-दोअंगो०-पसत्थ०४-आदाउज्जो०-तस०४-णिमि० ज० ज०
एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं सादादीणं ज० ज०
एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० इत्थिभंगो ।

५२४. सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल अपर्याप्तकोंके समान है और सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक और वादर पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी कायस्थिति अपर्याप्तकोंके समान न होकर अलग अलग वतलाई है, इसलिए यहाँ अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें है । मात्र इनमें तिर्यञ्चगतित्रिक ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंकी ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके साथ परिगणना करके कालका निर्देश किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५२५. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगतित्रिक, आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तर्जसशरीर, कार्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष साता आदि प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धके कालका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।

विशेषार्थ—पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व ओघके समान है, इसलिये यहाँ प्रथम दृढकमें पाँच ज्ञानावरणादिक जितनी प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध स्वामित्वको देखते हुए एक समय तक ही हो सकता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इन योगोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त होनेसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । दूसरे दृढकमें जो प्रकृतिपाँच कही गई हैं उनके स्वामित्वको देखते हुए यहाँ उनका जघन्य अनुभागबन्ध एक और

५२६. कायजोगीसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०--अप्प-सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अणंतका० । सादादीणं ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० अणुक्कस्सभंगो । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-पंचिदि०-वेउन्वि०-दोअंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस०--हस्स--रदि-आहारदुग-त्तिथ० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० । ओरालि०-तेजा-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्खगदि०३ ओघं ।

दो समय तक बन जाता है, इसलिए उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल प्रथम दण्डकके समान घटित कर लेना चाहिए । सातादिक तीसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोसे होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल स्त्रीवेदके समान है । इसका अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार स्त्रीवेदके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए ।

५२६. काययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, रति, आहारकट्टिक और तीर्थद्वारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है । तिर्यञ्च-गतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघ के समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ आगेकी मार्गणाओंमे कालका बोध करनेके लिये तीन बातोंका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है । प्रथम—जिन मार्गणाओंमे जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपक-श्रेणिमें या आगेके तत्प्रायोग्य विशुद्धगुणको प्राप्त करनेके सन्मुख हुए या नीचेके तत्प्रायोग्य संक्लेश-गुणको प्राप्त करनेके सन्मुख हुए जीवके अन्तिम समयमे होता है उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होता है, इसलिए उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । द्वितीय—जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोसे होता है उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय होता है । उदाहरणार्थ—यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई साताआदि प्रकृतियोंका जघन्य

५२७. ओरालिका० पंचणा०--णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-
अप्पसत्थव०४-उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० वावीसं वाससह-
स्साणि देसु० । सादादीणं ओषं । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-पंचिदि०-ओरालि०
[अंगो०-] वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-पर०--उस्सा०-आदावुज्जो०--तस०४ मणजोगि-
भंगो । पुरिस०-हस्स-रदि--आहारदुग०-तित्थ० ज० एग० । अज० अणुक्कस्सभंगो० ।

अनुभागबन्ध ऐसे ही परिणामोंमें होता है, अतः उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है । जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध-परिणामोंसे या तत्प्रायोग्य विशुद्धपरिणामोंसे, उत्कृष्ट संक्लिष्टपरिणामोंसे या तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट-परिणामोंसे होता है उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होता है । यथा—यहाँ तीसरे दण्डकमें कही गई स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनु-भागबन्ध ऐसे ही परिणामोंसे होता है, अतः उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । इन सिद्धान्तोंको ध्यानमें रखकर आगे कालका विचार किया जा सकता है, अतः हम केवल अजघन्य अनुभागबन्धके कालका ही विचार करेंगे । उसमें भी अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल कुछ अपवादोंको छोड़कर प्रायः सर्वत्र एक समय ही है, अतः उसका भी बार बार उल्लेख नहीं करेंगे । जहाँ कुछ विशेषता होगी उसका वहाँ अवश्य ही निर्देश कर देंगे । काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्त है । ध्रुवबन्धिनी होनेसे इतने कालतक प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण कहा है । दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदि सप्रति-पक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान अन्तर्मुहूर्त कहा है । तीसरे दण्डकमें कही गई स्त्रीवेद आदि कुछ सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं और परघात आदि चार सप्रतिपक्ष न होकर भी उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्धवाली हैं, इसलिए इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । चतुर्थ आदि गुणस्थानोंमें पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध होता है, पर वहाँ काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । यही बात जिनके तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध होता है उनके विषयमें भी लागू होती है । शेष हास्य, रति और आहारक-द्विकका बन्ध अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं होता यह स्पष्ट ही है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । काययोगमें तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध ओषके समान असंख्यात लोक काल तक होना सम्भव है, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके काययोग रहता ही है और तिर्यञ्चगतित्रिककी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध न होकर केवल इन्हींका बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनका भङ्ग ओषके समान कहा है ।

५२७. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बार्हस हजार वर्ष है । सातादिकका भङ्ग ओषके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । पुरुषवेद, हास्य, रति, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।

तिरिक्खगदितिगं ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णि-
वाससह० देसू० । ओरालिय०-तेजा०-कम्मइगादि०णव-णिमि० ज० ज० एग०, उ०
वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० वावीसं वाससह० देसू० ।

५२८. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-[पुरिस०-
हस्स-रदि-] भय-दु०-देवगदिपंचग०-ओरालि०--तेजा०--क०-पसत्थापसत्थव४-अगु०-
उप०-णिमि०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उक्क० अंतो० । सादासाद०-दोआयु०-

तथा अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभाग-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर
और कार्मणशरीर आदि नौ निर्माणपर्यन्तके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है और प्रथम
दण्डकमें कही गई ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
कुछ कम वाईस हजार वर्ष कहा है । अन्तिम दण्डकमें कही गई औदारिकशरीरआदि नौ और
निर्माण ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं । यद्यपि इनमे सप्रतिपक्ष प्रकृति औदारिकशरीरका भी समावेश
है पर एकेन्द्रिय जीवके यह ध्रुवबन्धिनी ही है, इसलिए इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट-
काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष कहा है । यहाँ नौ प्रकृतियोंमेंसे औदारिकशरीर, तैजसशरीर,
और कार्मणशरीर व निर्माण ये चार प्रकृतियों तो कही ही हैं । शेष पाँच ये हैं—प्रशस्त वर्ण-
चतुष्क और अगुरुलघु । सातादिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका काल ओघके समान यहाँ
भी बन जाता है, अतः वह ओघके समान कहा है । स्त्रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई
प्रकृतियोंमेंसे स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक ये तो सप्रतिपक्ष ही हैं । यद्यपि एकेन्द्रियके
औदारिकआङ्गोपाङ्गका ही बन्ध होता है पर त्रससंयुक्तप्रकृतियोंके बन्धके समय ही इसका बन्ध
होता है, इसलिए औदारिककाययोगमे यह कहीं सप्रतिपक्ष है और कहीं अध्रुवबन्धिनी है ।
परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत इनका निरन्तर बन्ध अन्तमुहूर्त कालतक होता है । अथ रहीं
पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकद्विक और त्रसचतुष्क सो यद्यपि सम्यग्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता है
पर वहाँ औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिये इन स्त्रीवेद
आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान अन्तमुहूर्त कहा है । तिर्यञ्चगति-
त्रिकका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके ही होता है और औदारिककाययोगके
रहते हुए वायुकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है ।

५२८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,
सौलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति पञ्चक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और पाँच
अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, मनुष्य-

मणुसगदि-पंचजादि-छस्संठा०-छस्संघं० -- मणुसाणु० -- दोविहा० -- तसथावरादिदस-
युग०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० अणु०भंगो । इत्थि०-णवुंस०-
अरदि-सोग-ओरालि०अंगो०-[पर०-उस्सा०-]आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उक्क०
वेसम० । अज० अणु०भंगो । तिरिक्ख०३ ज० ज० उ० एग० । अज० ज० एग०,
उ० अंतो^२० ।

५२६, वेउव्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०--णवणोक०--पंचिदि०-
ओरालि०--तेजा०-क०--ओरालि०अंगो०--पसत्थापसत्थव०४-आदाउज्जो०--तस०४-
णिमि०--तित्थि०--पंचंत० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० अणु०भंगो । थीण-

गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर
आदि दस युगल और उच्चगोत्र के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसक-
वेद, अरति, शोक, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनु-
भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका
भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-
मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध परिणामोंसे और
प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे, शरीरपर्याप्ति अगले समयमें ग्रहण करनेवाला है
ऐसे जीवके, यथायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । जिनके उनका जघन्य अनुभागबन्ध होता है उनके एक समय
कम अन्तमुहूर्त काल तक और जिनके उनका जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता उनके पूरे अन्त-
मुहूर्त काल तक इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । दो आयुको छोड़कर सातावेदनीय आदि सप्रतिपक्ष
प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान बन जाता है यह
स्पष्ट ही है । इसी प्रकार स्त्रीवेद आदिके कालका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । तिर्यञ्चगतित्रिकका
जघन्य अनुभागबन्ध बादर अग्निकायिक व वायुकायिक जीवके शरीरपर्याप्तिके ग्रहण करनेके एक समय
पूर्व होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है ।
तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त होता है यह स्पष्ट ही है ।

५२६. वैक्रियिकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, नौ
नोकषाय, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय

१. ता० प्रती पंचजादि छस्संघ० इति पाठः । २. ता० प्रती तिरिक्ख०३ ज० ज० ए० उ० अंतो०,
आए प्रती तिरिक्ख०३ ज० ज० एग० । अज० ज० एग० अंतो० इति पाठः ।

गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-तिरिक्त्वगदि३ ज० एग० । अज० अणु०भंगो । सादादीणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतोमु० ।

५३०. वेडव्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थव०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद०-मणुसग०-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-थावर-थिरादिद्वयुग०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० अणु०भंगो । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० अणु०भंगो । पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्त्व०३-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० ।

है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और तिर्यङ्गगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकयोगमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । वह यहाँ भी प्रथम दण्डक और द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन जाता है, इसलिए वह अनुत्कृष्टके समान कहा है । मात्र द्वितीय दण्डककी प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल वैक्रियिककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा घटित करना चाहिए । सातावेदनीय आदिका काल स्पष्ट ही है ।

५३०. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यङ्गगतित्रिक, पञ्चेंद्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है और प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें ध्रुवबन्धिनी हैं, अतः यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ जिनके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है उनके वह ध्रुवबन्धिनी ही है, अतः उसे ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके साथ परिगणित किया है । दूसरे और तीसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियों सप्रतिपक्ष हैं । उनके

५३१. आहारका० पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--सत्तणोक०--देवगदि-
एगुणतीस-उच्चा०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
अंतो० । सादासाद०--देवायु०--थिरादितिण्णियुग० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि-
सम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

५३२. आहारमि० पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--पुरिस०--भय-दु०--देवगदि-
एगुणतीस-उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद०-थिरादि-
तिण्णियुग० आहारकायजोगिभगो । चत्तारिणोक०--देवाउ० ज० एग० । अज० ज०
एग०, उ० अंतो० ।

अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान बन जाता है, अतः इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । पुरुषवेद आदि सप्रतिपत्त प्रकृतियों हैं । इसलिए इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । मात्र आतप और उद्योत अप्रतिपक्षरूप हैं । पर इनका जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तमुहूर्त होनेसे उनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त काल कहा है ।

५३१. आहारककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, सात नोकषाय, देवगति उनतीस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ आहारककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य बन्धकी अपेक्षा दोनों प्रकारसे सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बन जाता है, इसलिए उक्त प्रमाण कहा है ।

५३२. आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति उनतीस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है । चार नोकषाय और देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—आहारककाययोगी जीवोंके ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डक व चार नोकषायके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है और आहारकमिश्रमे एक समय बतलाया है । इसका कारण यह है कि इनका जघन्य बन्ध सर्वविशुद्ध या सर्वसंक्लेश परिणामोंसे होता है जो आहारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है जैसा कि वैक्रियिकमिश्रमें भी बतलाया है । अर्थात् वैक्रियिककाययोगमें दो समय और वैक्रियिकमिश्रमें एक समय इसी अपेक्षा बतलाया है । देव आयुका जघन्य अनुभागबन्ध भी आहारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है । इसी

गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-तिरिक्खगदि३ ज० एग० । अज० अणु०भंगो । सादादीणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतोमु० ।
 ५३०. वेडच्चियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-
 तेजा०-क०-पसत्थापसत्थव०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० ज०
 एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद०-मणुसग०-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संध०-
 मणुसाणु०-दोविहा०-थावर-थिरादिच्चयुग०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० ।
 अज० अणु०भंगो । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज०
 अणु०भंगो । पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्ख०३-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-
 तस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० ।

है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्ता-
 नुबन्धी चतुष्क और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक
 समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । सातावेदनीय आदिके जघन्य
 अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभाग-
 बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकयोगमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
 समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । वह यहां भी प्रथम दण्डक और द्वितीय दण्डकमें
 कही गई प्रकृतियोंका वन जाता है, इसलिए वह अनुत्कृष्टके समान कहा है । मात्र द्वितीय दण्डककी
 प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल वैक्रियिककाययोगके जघन्य और
 उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा घटित करना चाहिए । सातावेदनीय आदिका काल स्पष्ट ही है ।

५३०. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह
 कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त
 वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य
 अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और
 उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, छह
 संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और
 उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है ।
 अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके
 जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य
 अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यञ्चगतित्रिक, पञ्चेन्द्रिय
 जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और
 उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
 काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है और प्रथम
 दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें ध्रुवबन्धिनी हैं, अतः यहाँ
 इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ जिनके तीर्थङ्कर
 प्रकृतिका बन्ध होता है उनके वह ध्रुवबन्धिनी ही हैं, अतः उसे ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके साथ
 परिगणित किया है । दूसरे और तीसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियों सप्रतिपक्ष हैं । उनके

५३१. आहारका० पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--सत्तणोक०--देवगदि-
एगुणतीस-उच्चा०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
अंतो० । सादासाद०--देवायु०--थिरादितिणियुग० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि-
सम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

५३२. आहारमि० पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--पुरिस०--भय-दु०--देवगदि-
एगुणतीस-उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद०--थिरादि-
तिणियुग० आहारकायजोगिभगो । चत्तारिणोक०--देवाउ० ज० एग० । अज० ज०
एग०, उ० अंतो० ।

अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान बन जाता है, अतः इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । पुरुषवेद आदि सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं । इसलिए इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । मात्र आतप और उद्योत अप्रतिपक्षरूप हैं । पर इनका जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तमुहूर्त होनेसे उनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त काल कहा है ।

५३१. आहारककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, सात नोकषाय, देवगति उनतीस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ आहारककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य बन्धकी अपेक्षा दोनों प्रकारसे सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बन जाता है, इसलिए उक्त प्रमाण कहा है ।

५३२. आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति उनतीस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है । चार नोकषाय और देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—आहारककाययोगी जीवोंके ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डक व चार नोकषायके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है और आहारकमिश्रमे एक समय बतलाया है । इसका कारण यह है कि इनका जघन्य बन्ध सर्वविशुद्ध या सर्वसंक्लेश परिणामोंसे होता है जो आहारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है जैसा कि वैक्रियिकमिश्रमें भी बतलाया है । अर्थात् वैक्रियिककाययोगमें दो समय और वैक्रियिकमिश्रमें एक समय इसी अपेक्षा बतलाया है । देव आयुका जघन्य अनुभागबन्ध भी आहारकमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है । इसी

५३३. कम्मइ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-हस्स-रदि-भय-दु०-
तिरिक्ख०३-ओरालि०--तेजा०-क०--पसत्थापसत्थवण्ण४-अगु०४-आदाउज्जो०-
वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० तिण्णिसम० ।
सादासाद०-एइदि०-हुंड०-थावरादि४-थिराथिर--सुभासुभ-दूभ०--[हस्सर-] अणादे०-
जस०-अजस० ज० अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । इत्थि०-मणुस०--तिण्णि-
जादि-पंचसंठा०-व्वसंध०-मणुसाणु०-दोविहा०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० अज०
ज० एग०, उ० वेसम० । पुरिस०-देवगदिपंचग-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०--तस०
ज० अज० ज० एग०, उ० वेसम० । णवुंस०-अरदि-सोग ज० ज० एग० उ० वेसम० ।
अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । अथवा कम्म० सव्वपगदीणं ज० एग० ।
अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० देवगदिपंचगं वज्ज० ।

कारण आगे अन्तर प्ररूपणामें आहारकमिश्रकाययोगमें देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

५३३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगतित्रिक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्यौत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति, तीन जाति, पाँच संस्थान, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । पुरुषवेद, देवगतिपञ्चक, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अथवा कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । मात्र देवगतिपञ्चकको छोड़कर यह काल जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध परिणामोंसे और प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है । किन्तु अपर्याप्त योग होनेसे यहां ऐसे परिणाम एक समय तक ही हो सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परि-

१. ता० प्रतौ हस्सरदिभ० तिरिक्ख०३ इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः ज० अज० एग० इति पाठः ।

५३४. इत्थिवे० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय०--दु०--अप्प-
सत्थ०४--उप०--पंचंत० ज० एग० । अज० अणु० भंगो । णवरि मिच्छ० अज० ज०
अंतो० । सादासाद०--चदुआयु०--णिरय०--तिरिक्ख०--चदुजादि-पंचसंठा०--पंचसंध०--
दोआणु०--अप्पसत्थ०--थावरादि०४--थिरादितिणियुग०--दूभग०--दुस्सर०--अणादे०-
णीचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० ।
इत्थि०--णवुंस०--अरदि-सोग-आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज०
ज० एग०, उ० अंतो० । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० पणवणं
पलिदो० देसू० । हस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० ।
मणुस०--समचदु०--वज्जरि०--मणुसाणु०--पसत्थवि०--सुभग-सुस्सर-आदे०--उच्चा० ज० ज०

वर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। खीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध उर्द्धी जीवोंके होता है जो अधिक से अधिक दो विग्रहसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। यही बात पुरुषवेद आदि चौथे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके विषयमें जाननी चाहिए। नपुंसकवेद, अरति और शोक का जघन्य अनुभागबन्ध अपने अपने योग्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है यह स्पष्ट ही है। यहां विकल्परूपसे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया है सो आगमसे जानकर उसकी संगति विठलानी चाहिए। इससे ऐसा विदित होता है कि देवगतिपञ्चकका बन्ध तो उसी जीवके सम्भव है जो अधिकसे अधिक दो मोड़ा लेकर उत्पन्न होता है पर अन्य प्रकृतियोंके बन्धके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।

५३४. खीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, तिर्यञ्चगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है। खीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। पुरुषवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। हास्य, रति और आहारकृद्विकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान,

एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० जह० एग०, उ० पणवण्णं पलि० देसू० । देव-
गदि०--देवाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ०
तिण्णिण पलि० देसू० । पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-तस० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।
अज० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० देसू० । ओरालि०-पर०--उस्सा०--वादर-
पज्जत्त-पत्ते० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं
पलि० सादि० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज०
एग०, उ० तिण्णिण पलि० देसू० । तेजा०-क०-पसत्थ०४--अगु०--णिमि० ज० ज०
एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० पलिदोवमसदपुधत्तं । तिथय० ज०
एग० । अज० [ज०] एग०, उ० पुव्वकोडी देसू० ।

वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च-
गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । देवगति
और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय
है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य
है । पञ्चद्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । औदारिकशरीर, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और
प्रत्येकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है ।
वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु
और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है ।
तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—यहां प्रथमदण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध कायस्थिति प्रमाण काल तक
सम्भव है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी यही है । इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य
अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वका निरन्तर बन्ध कमसे कम
अन्तर्मुहूर्त तक अवश्य होता है, क्यों कि मिथ्यात्व गुणस्थानका इससे कम काल नहीं है, इसलिए
इस प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । सातावेदनीय आदि या
तो सप्रतिपत्त प्रकृतियां हैं या उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त काल तक बंधनेवाली प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यही बात स्त्रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें
कही गई प्रकृतियोंके विषयमें जाननी चाहिए । पुरुषवेदका सम्यग्दृष्टि देवियोंके निरन्तर बन्ध होता
है और स्त्रीवेदियोंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है, अतः इसके अजघन्य
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । हास्य और रति ये सप्रतिपत्त प्रकृतियां हैं और
आहारक द्विकका बन्धकाल ही अन्तर्मुहूर्त है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त कहा है । सम्यग्दृष्टि देवियोंके मनुष्यगति आदिका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष

५३५. पुरिसेसु पंचणाणावरणादि याव पंचंतराहगा त्ति ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । सादादिविदियदंडओ इत्थिवेदादितदियदंडओ इथि०भंगो । पुरिस० ओघं । हस्स-रदि-आहारदुगं ओघं । मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सा० । देवगदि-देवाणु० ज० अज० ओघं । पंचि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० तेवट्टिसागरोवमसदं । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० अणु०भंगो० । वेउव्वि०--वेउव्वि०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । [अज०] देवगदिभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०

प्रकृतियोंका नहीं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है । भोगभूमिमें पर्याप्त मनुष्यिनियोंके देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका नियमसे बन्ध होता है और उत्तम भोगभूमिका उत्कृष्ट काल तीन पत्य है । इसमेंसे अपर्याप्त अवस्थाका काल कम कर देने पर कुछ कम तीन पत्य शेष रहता है, अतः इन चार प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है । सम्यग्दृष्टि देवियोंके पञ्चेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है । देवीके पचवन पत्य काल तक तो औदारिकशरीर आदि का बन्ध होगा ही, आगे भी अन्तर्मुहूर्त काल तक वह नियमसे होता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक पचवन पत्य कहा है । तैजसशरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं और इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सौ पत्यप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । कर्मभूमिकी मनुष्यिनी आठ वर्षके बाद सम्यक्त्वका लाभ करके शेष पूर्वकोटि काल तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध कर सकती है, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है ।

५३५. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर पाँच अन्तराय तक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । सातवेदनीय आदि दूसरे दण्डक और स्त्रीवेद आदि तीसरे दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान है । हास्य, रति और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति, वज्रर्पभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एकसौ त्रैसठ सागर है । औदारिकशरीर और औदारिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुकृष्टके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग देवगतिके समान है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण के जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक

ज० ओघं । अज० ज० एग०, उ० कायद्विदी० । समचदु०--पसत्थ०--सुभग-सुस्वर-
आदे०-उच्चा० ज० अज० ओघं । तित्थ० ओघं ।

५३६, णवुंसगे पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय०-दु०--अप्प-
सत्थ०४--उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उं० अणंतकालं० । णवरि
मिच्छ० अज० ज० अंतो० । सादसाद०-चदुआयु०-णिरयगदि०-चदुजादि-पंचसंठां०-
पंचसंघ०--णिरयाणु०-अप्पसत्थवि०--थावरादि०४--थिरादितिणियुग०--दूभग-दुस्सर-
अणादे० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० ओघं । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-

समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदी जीवके पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकोक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध जिस अवस्थामें होता है उसे देखते हुए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त होता है, क्योंकि पुरुषवेदका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है । इनके अजघन्य अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यगतिद्विक और वज्रर्षभनाराचसंहननका नियमसे बन्ध होता है, इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । देवगतिद्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघसे साधिक तीन पत्य घटित करके बतला आये हैं । वह पुरुषवेदी जीवोंके ही सम्भव है, अतः यहाँ यह काल ओघके समान कहा है । देवगतिद्विकका बन्ध करनेवालेके वैक्रियिकद्विकका नियमसे बन्ध होता है, अतः वैक्रियिकद्विकके अनुभागबन्धका काल देवगतिके समान कहा है । पञ्चन्द्रियजाति आदि सात प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका, जो उत्कृष्ट काल एकसौ त्रैसठ सागर कहा है वह एकसौ पचासी सागरमेसे छटे नरकके वाईस सागर कम कर देने पर उपलब्ध होता है । इतने काल तक पुरुषवेदी जीवके इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है । सर्वार्थसिद्धिके देवोंके औदारिकद्विकका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान तेतीस सागर कहा है । तैजसशरीर आदि प्रकृतियां ध्रुवबन्धिनी हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण कहा है । ओघसे समचतुरस्रसंस्थान आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य घटित करके बतला आये हैं । वह पुरुषवेदी जीवोंके ही सम्भव है, अतः यहाँ यह काल ओघके समान कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस वनता है । ओघसे भी यह काल इतना ही है, अतः यह भी ओघके समान कहा है ।

५३६. नपुंसकवेदी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्त काल है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, जार चाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

१. आ० प्रती पंचंत ज० एग० उ० इति पाठ । २. ता० प्रती गिरयगदिपंचसंठा० इति पाठः ।

रदि--सोग--आहारदुग--आदाउज्जोव० ओघं । पुरिस० ज० ए० । अज० ज० एग०,
 उक्क० तेत्तीसं० देसू० । तिरिक्खगदितिगं ओघं । मणुस०--समचदु०--क्जरि०--मणु-
 साणु०--पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदे०--उच्चा० ज० अज० णिरयोघं । देवगदि०-
 देवाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० पुण्वकोडी
 दे० । पंचिं०--ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० ।
 अज० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०--तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-
 णिमि० ज० अज० ओघं । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।
 अज० देवगदिभंगो । तित्थ० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसाग०
 सादि० ।

चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य,
 रति, अरति, शोक, आहारकद्विक, आतप और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेदके
 जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
 काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग ओघके
 समान है । मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त
 विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल
 सामान्य नारकियोंके समान है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
 काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक
 समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । पञ्चन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,
 परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
 काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक
 तेतीस सागर है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्तुधु और
 निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । वैक्रियिकशरीर और
 वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय
 है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग देवगतिके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है
 और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है । प्रथम दण्डकमें कही गई
 पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों होनेसे इनका इतने काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है,
 इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वके
 अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त क्यों है इसका हम पहले स्पष्टीकरण कर आये
 हैं । सातादिकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान अन्तमुहूर्त यहाँ भी बन
 जाता है, क्योंकि ये सप्रतिपन्न प्रकृतियों है, अतः यहाँ यह काल ओघके समान कहा है । कालकी
 दृष्टिसे यही बात स्त्रीवेद आदिके विषयमें जाननी चाहिए । जो नारकी सम्यग्दृष्टि होता है उसके
 निरन्तर पुरुषवेदका बन्ध होता है । इसीसे यहाँ पुरुषवेदके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
 कुछ कम तेतीस सागर कहा है । ओघसे तिर्यञ्चगतित्रिकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल

३. ता० प्रती तिरिक्खगदि० ओघं इति पाठः । ४. आ० प्रती पुण्वकोटि० पंचिं० इति पाठः ।

५३७. अवगदवे० पंचणा०--चदुदंसणा०--सादा०--चदुसंज०--जस०--उच्चा०--
पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

५३८. कोधे पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--भय०--दु०--अप्पसत्थ०४--उप०--
पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । केसिंचि अज० ज० एग० । थीण-
गिद्धि०३--मिच्छ०--वारसक०--पुरिस०--हस्स-रदि--तिरिक्ख०३--आहारदुग-तित्थ० ज०
एग० । अज० [ज०] एग०, उक्क० अंतो० । सादासाद०--चदुआयु०--तिण्णिगदि-

असंख्यात लोकप्रमाण वतलाया है । वह नपुंसकवेदी जीवोंके ही उपलब्ध होता है, क्योंकि अग्नि-
कायिक और वायुकायिक जीव, जिनके इतने काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता है, नपुंसकवेदी ही
होते हैं, अतः यह काल ओघके समान कहा है । सामान्य नारकियोंमें मनुष्यगति आदिके अज-
घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर घटित करके वतला आये हैं । नारकी
नपुंसकवेदी होनेसे यहाँ भी वह वन जाता है, अतः यह काल सामान्य नारकियोंके समान कहा है ।
जो नपुंसकवेदी मनुष्य पर्याप्त जीवन भर सम्यग्दृष्टि रहता है उसके निरन्तर देवगतिद्विकका बन्ध
होता है । यह काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण होनेसे देवगतिद्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका
उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । वैक्रियिकद्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका काल देवगतिके समान
कहनेका यही कारण है । सातवें नरकके नारकीके वहाँ से मर कर नपुंसकवेदी तिर्यञ्च होने पर
अन्तर्मुहूर्त काल तक पञ्चेन्द्रियजाति आदिका नियमसे बन्ध होता रहता है । उत्कृष्टरूपसे यह
काल साधिक तेतीस सागर होनेसे पञ्चेन्द्रिय जाति आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
उक्त प्रमाण कहा है । औदारिकशरीर आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जो काल
ओघमें कहा है वह सबका सब नपुंसकवेदी जीवोंके ही घटित होता है । कारण कि अनन्त काल
प्रमाण कायस्थिति नपुंसकवेदमें ही सम्भव है, अतः यह काल ओघके समान कहा है । तीर्थङ्कर
प्रकृतिका नरकमें साधिक तीन सागर काल तक बन्ध सम्भव है, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्ध-
का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है ।

५३७. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्व-
लन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समय है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-
र्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ--बन्धके प्रकरणमें अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

५३८. क्रोध कषायमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा,
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मात्र
किन्हींके मतसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है । स्त्यानगृद्धि-
त्रिक, मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यञ्चगतित्रिक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर
प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्ध-
का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय,

१. ता० प्रतौ अज० ए० उ०, आ० प्रतौ अज० उ० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः एग० ।
उक्क० अज० इति पाठः ।

चहुजादि-ह्रस्संठा० - ह्रस्संध० - तिण्णआणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिह्रयुग०-
उच्चा० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० मणजोगिभंगो । इत्थि०-णवुंस०-
अरदि-सोग-पंचिदि०-ओरालि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-दोअंगो०-पसत्थ०४-अणु०३-
आदाउज्जो०-तस०४-णिमि० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ०
अंतो० । एवं माण-माया-लोभाणं ।

५३६. मदि०-सुद० पंचणाणावरणादि याव पंचतराइग ति ज० अज० सादादि-
विदियदंडओ इत्थि०-णवुंस०--ह्रस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदितिग-आदाउज्जो०ज०
अज०ओघं । पुं० ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगं०-मणुसाणु० ज०

चार आयु, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायमें जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अपनी स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताके साथ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सम्बन्धमें भी यही बात जाननी चाहिए । अन्यत्र इन सब प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है । किन्तु क्रोध कषायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त होनेसे यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका काल भी इसी प्रकार घटित किया जा सकता है पर वहाँ पहले पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त ही कहा है । सो यहाँ किसी भी कषायके साथ जीव किसी भी गतिमें उत्पन्न हो सकता है और इसलिए क्रोध कषायका एक समय काल नहीं बनता । सम्भवतः इस मतको ध्यानमें रखकर यह विधान किया है । तथा 'केसिचि' इत्यादि द्वारा जो अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है सो क्रोधकषायके साथ नरकगतिमें ही जाता है, अन्य गतिमें जानेवालेके क्रोधकषाय बदल जाता है सम्भवतः इस मतको ध्यानमें रखकर यह निर्देश किया है, क्योंकि इस मतके अनुसार क्रोध कषायका जघन्य काल एक समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है । मात्र मान, माया और लोभ कषायमें काल कहते समय मरण और व्याघात दोनों प्रकारसे इनका जघन्य काल एक समय लेना चाहिए ।

५३९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर अन्तरायतककी प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका तथा सातावेदनीय आदिक दूसरा दण्डक, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यङ्मगतित्रिक, आतप और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल औघके समान है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य

ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० एकतीसं० सादि० । देवग०-
समचदु०--देवाणु०--पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदेज्ज--जस०--उच्चा० ज० ज० एग०,
उ० [चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ०] तिण्णिणपलि० देसू० । पंचिदि०-ओरालि०-
अंगो०-पर०--उस्सा०--तस४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ०
तेतीसं० सा० सादि० । ओरालि०--तेजा०--क०--पसत्थ०४--अगु०--णिमि० ओर्घं ।
वेउन्वि०--वेउन्वि०अंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० देवगदिभंगो ।

५४०. विभंगे पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइग ति ज० एग० । अज० ज०

और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । देवगति, समचतुरस्रस्थान, देवगत्यानु-पूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । पञ्चन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग देवगतिके समान है ।

विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरण दण्डक, सातावेदनीय दण्डक और स्त्रीवेद आदिका जो काल ओघसे कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है । पुरुषवेदका सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये यह जघन्य और उत्कृष्ट एक समय कहा है । तथा परावर्तमान प्रकृति होनेसे इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगतिद्विकका अजघन्य अनुभागबन्ध नौवें ग्रैवेयकमें और वहाँसे आनेके बाद अन्तमुहूर्त काल तक होता है, इसलिए उत्कृष्ट रूपसे यह साधिक इकतीस सागर कहा है । देवगति आदिका भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्था होनेपर नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । पञ्चन्द्रिय जाति आदिका सातवें नरकमें और वहाँसे निकलने बाद अन्तमुहूर्त काल तक नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । ओघ से औदारिकशरीर आदिका जो काल कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है । वैक्रियिकद्विकका बन्ध देवगतिके साथ होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका काल देवगतिके समान कहा है ।

५४०. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदिसे लेकर पाँच अन्तराय तककी प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य

एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । णवरि मिच्छत्त० अज० जं० अंतो० । सादासाद०-
चट्टुआयु०--णिरयगदि--देवगदि--चट्टुजादि--छस्संठा०--छस्संघं०--दोआणु०--दोविहा०-
थावरादि४--थिरादिअयुगल-उच्चा० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० ज०
एग०, उक्क० अंतो० । इत्थि०-णवुंसं०-अरदि-सोग-आदाउज्जो० ओघं । पुरिस०-
हस्स-रदि० ज० ओघं० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० । तिरिक्खगदि३ ज०^२
एग० । अज० णाणा०भंगो । मणुसं०-मणुसाणु० ज० ओघं । अज० ज० एग०, उ०
एक्कत्तीसं० देसू० । पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०--पसत्थं०४-
अगु०३-तसं०४-णिमि० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
तेत्तीसं० देसू० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० इत्थिभंगो ।

काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, देवगति, चार जाति, छह सस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आतप और उद्योत का भङ्ग ओघके समान है। पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। तिर्यञ्चगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम इक्तीस सागर है। पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसवतुष्क और निर्माण के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है।

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः इसमें पाँच ज्ञाना-
वरणादि प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंके तथा तिर्यञ्चगतित्रिक और पञ्चेन्द्रिय जाति आदिके अजघन्य
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मिथ्यात्व गुणस्थानका काल अन्त-
मुहूर्त है और मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागबन्ध समयके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तिम
समयमें होता है। इसका ही यह अर्थ है कि शेष समयमें उसका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है।
इसीसे इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है। सातावेदनीय आदि
सप्रतिपन्न प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है।
यहां कही गई दो आयु यद्यपि सप्रतिपन्न प्रकृतियां नहीं हैं पर उनका उत्कृष्ट बन्ध ही अन्तमुहूर्त
काल तक होता है, अतः उनकी साता आदिके साथ परिगणना कर ली है। स्त्रीवेद आदिके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका काल जो ओघके समान कहा है सो यहां भी अजघन्य अनुभाग-

१. ता० आ० प्रत्यो मिच्छत्त अप्पज्ज० ज० इति पाठ । २. आ० प्रतौ तिरिक्खगदि०४ ज०
इति पाठः । ३. ता० प्रतौ एग० तेत्तीसं० देसू० इति पाठः ।

५४१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-
दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्यापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०,
उक्क० छावट्टि० सादि० । सादासाद०-दोआयु०-थिरादितिणियुग० ज० अज०
ओघं । अपच्चक्खाणावर०४-तित्थ० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं०
सादि० । पच्चक्खाणा०४ जह० एग० । अज० [ज०] अंतो०, उक्क० वादालीसं
सादि० । चदुणोक०-आहारदुगं ओघं । मणुसगदिपंचग० ज० एग० । अज० ज०
अंतो०, उक्क० तेत्तीस० सागं० । देवगदि०४ ज० एग० । अज० ज० एग०, उ०
तिण्णिपलि० सादि० ।

बन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त लिया है। सप्रतिपक्ष प्रकृतियों होनेसे यहां पुरुषवेद आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। यहां मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नौवें प्रैवेयकमें कुछ कम इकतीस सागर तक होता है। इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। वैक्रियिकद्विक यहां सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका भङ्ग स्त्रीवेदके समान कहा है।

५४१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अप्रत्याख्या-नावरण चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। प्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है। चार नोरुपाय और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनु-भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य है।

विशेषार्थ—आभिनिबोधिकज्ञानी आदिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर प्रमाण होनेसे यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर कहा है। सातावेदनीय आदिका काल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। चतुर्थ गुणस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल

४२. मणपज्जवे पंचणा-ब्बदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०--भय०-दु०--देवगदि-
पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०--समचदु०-वेउव्वियत्रंगो'०--पसत्थापसत्थ०४-देवाणु०-
अगु०४-पसत्थवि०--तस०४-सुभग--सुस्सर--आदे०--णिमि०--तित्थ०-उच्चा०--पंचंत०
ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसु० । सेसं ओधिभंगो । एवं
संजद-सामाइ०-छेदो० । एवं चेव परिहार०-संजदासं० । णवरि अज० ज० अंतो० ।
सुहुमसंपरा० अवगदवेदभंगो ।

साधिक तेतीस सागर है, अत यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य अनु-
भागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । चतुर्थ और
पञ्चम गुणस्थानका मिलाकर जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर
है, अतः यहाँ प्रत्याख्यानावरण चारके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और
उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर कहा है । चार नोकषाय और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके
समान है यह स्पष्ट ही है । सम्यग्दृष्टि नारक और देवोंके मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता
है । तथा इनका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और देवोंमें उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है, अतः यहाँ
इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर
कहा है । सम्यग्दृष्टि मनुष्यका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है, और इनके निरन्तर देवगति
चतुष्कका बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है ।

५४२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामाणशरीर, समचतुरस्र-
संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु-
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र
और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । शेष भङ्ग
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत
जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके पाँच ज्ञानावरणादिके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल
अन्तमुहूर्त है । सूक्ष्मसांपरायसंयतका भङ्ग अपगतवेदियोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके पाँच ज्ञानावरणादि तथा जिनके तीर्थङ्कर प्रकृति बँधती
है उनके वह भी ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों है । साथ ही मनःपर्ययज्ञानमें उपशमश्रेणियोंमें 'भरणकी
अपेक्षा इनका एक समय तक भी बन्ध सम्भव है । कारण कि उपशमश्रेणियोंमें इनकी बन्धव्युच्छिन्ति
होनेके बाद पुनः लौटते समय एक समय तक बन्ध होकर मरने पर मनःपर्ययज्ञानमें इनका अज-
घन्य अनुभागबन्ध एक समय तक देखा जाता है । तथा मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम
एक पूर्वकोटि है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । यहाँ शेष प्रकृतियों अप्रधुवबन्धिनी हैं, अतः उनके
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल जिस प्रकार अवधिज्ञानी जीवोंके कह आये हैं उसी
प्रकार यहाँ भी वह वन जाता है, अतः वह अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । संयत, सामायिक-
संयत और छेदोपस्थापनासंयतोंके भी यह व्यवस्था वन जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंके

५४३. असंजदे पंचणाणावरणादिपढमदंडओ ओघं । सादादिविदियदंडओ इत्थिदंडओ हस्म-रदि-तिरिक्खगदि०४-देवगदि४ ओघं । पुरिस० ज० ओघं । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । मणुसगदि०३ ओघं । पंचिदियदंडओ मदि०भंगो । तित्थय० ओघं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं०-सम्मादि० ओधिभंगो ।

५४४. किण्णाए पंच णाणावरणादिपढमदंडओ णिरयभंगो । णवरि अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०--अणंताणुवंधि०४ ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । सादासाद०-चदुआयु०-णिरय--देवगदि--चदुजादि--पंचसंठां०--पंचसंघ०--दोआणु०--अप्पसत्थ०--थावरादि४-थिरादितिणियुग०--दूभग-दुस्सर--अणादे० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० ।

जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है। परिहार-विशुद्धिसंयत और संयतासंयतोंमें भी ऐसे ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, अतः इनमें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है।

५४३. असंयतोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भङ्ग ओघके समान है। सातावेदनीय आदि द्वितीय दण्डक, स्त्रीवेद दण्डक, हास्य, रति, तिर्यञ्चगतिचतुष्क और देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। पुरुषवेदके जघन्य अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगति-त्रिकका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। तीर्थद्वर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रस पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय इन मार्गणाओंका जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है उसे ध्यानमें रखकर तथा ओघ व अन्य जिन मार्गणाओंके समान यहाँ काल कहा है उसे भी ध्यानमें रखकर काल घटित किया जा सकता है, अतः यहाँ हमने अलगसे विचार नहीं किया है।

५४४. कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, देवगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्यावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभाग-

१. ता० प्रती इत्थि० इत्थि (?) दंडओ इति पाठः । २. ता० प्रती देवगदिपंचसंठा० इति पाठः ।

अज० ज० ए०, उक्क० अंतो० । इत्थि०--पुरिस०-णवुंस०-हस्स--रदि--अरदि--सोग-
तिरिक्खगदि०३-मणुस०-समचट्टु-वज्जरि०--मणुसाणु०--आदाउज्जो०--पसत्थ०-सुभग-
सुस्सर-आदे०-उच्चा० णिरयोधं । तित्थि० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । एवं
णील-काऊणं । णवरि तिरिक्ख०३ सादभंगो । णीलाए तित्थय० ज० ज० एग०,
उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । काऊए तित्थि० णिरयोधं ।

बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, तीर्थञ्चरगतित्रिक, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच-संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थञ्चरगतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान है । तथा नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और मिथ्यात्व गुणस्थानमें स्त्यानगृद्धि तीन आदिका निरन्तर बन्ध होता है । तथा कृष्ण लेश्याका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इसमें इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त तो बन जाता है पर ज्ञानावरणादिका यह काल कैसे बनता है यह अवश्य ही विचारणीय है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टिके कहा है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय नारकियोंके समान बन जानेसे इनके अजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । यह नहीं हो सकता कि नरकमें और सातवें नरकमें तो इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय बन जावे और कृष्णलेश्यामें न बने और ऐसी अवस्थामें जब कि कृष्ण लेश्यामें इनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि नारकी होता है । इस समस्त प्रकरण पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ नवरि कह कर जो अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है वहाँ वह एक समय होना चाहिए । इसकी पुष्टि अन्तरपरूवणासे भी होती है । सातावेदनीय आदि अर्ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । स्त्रीवेद आदि हैं तो अर्ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ पर यहाँ सम्यग्दृष्टिके पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका ही बन्ध होता है । नारकियोंमें भी इसी प्रकार व्यवस्था है, अतः इन सब प्रकृतियोंकी कालपरूवणा नारकियोंके समान बन जानेसे वह सामान्य नारकियोंके समान की है । कृष्ण लेश्यामें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्व संक्लिष्ट मनुष्यके तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त कहा है । नील और कापोत लेश्यामें

५४५. तेज ए पंचणा०--छदंसणा०--वारसक०--भय--दु०--अप्पसत्य०४--उप०-
 पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । थीणगिदि०३-
 मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ ज० [एग०] । अज० [ज०] एग० अंतो०, उक्क० णाणा०-
 भंगो । सादासाद०--तिण्णआयु०--तिरिक्खग०--एइंदि०--पंचसंठा०--पंचसंध०--तिरि-
 क्खाणु०-अप्पसत्थ०-थावर-थिरादितिण्णियुग०-दूभग-दुस्सर-आणादे०-णीचा० जे०ज०
 एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-
 सोग-देवगदि०४--आदाउज्जो० ज० ज० ए०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
 अंतो० । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० णाणा०भंगो । हस्स-रदि-
 आहारदुगं ओघं । मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-
 उच्चा० ज० ज० ए०, उक्क० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक्क० वे सागै०
 सादि० । पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४--अणु०३-

और सब काल तो कृष्ण लेश्या के समान है । मात्र दो विशेषताएँ हैं । प्रथम तो यह कि जहाँ कृष्ण लेश्याका उत्कृष्ट काल लिया है वहाँ नील और कापोत लेश्याका काल कहना चाहिए । दूसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिका काल अपने अपने स्वामित्वके अनुसार कहना चाहिए जो मूलमें कहा ही है ।

५४५. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । स्त्यानगृद्धितीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और अन्तमुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है । सातादेदनीय, असातावेदनीय, तीन आयु, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, देवगतिचतुष्क, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान है । हास्य, रति और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त

तस०४-णिमि०-तित्थय० ज० ज० एग०, उक्क० वे समं० । अज० ज०-एग०, उक्क०
वेसाग० सादि० । एवं पम्माए । णवरि पचिदि०-तस० तेजइगभंगो^३ ।

५४६. सुक्काए पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उपघा०-

वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीर्थङ्कर के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसचतुष्कका भङ्ग तैजसशरीरके समान है ।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि का जघन्य अनुभागबन्ध ऐसे सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है जिसके वे परिणाम अन्तमुहूर्तके पूर्व नहीं प्राप्त हो सकते तथा पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है, इसलिए यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है । पीतलेश्याके कालमें एक समय शेष रहने पर जो जीव सासादनसम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके पीतलेश्यामें स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारका अजघन्य अनुभागबन्ध एक समय तरु देखा जाता है । इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है पर इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानमें पीतलेश्याका एक समय काल घटित नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है । यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जीवस्थान कालपरुवणामें पीतादि लेश्याका जघन्य काल एक समय संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके ही घटित करके बतलाया है, नीचेके गुणस्थानोंमें नहीं । फिर भी यहां स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है । इससे हमने यह सम्भावना की है । आगे शुक्ललेश्यामें भी यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । यहां इन स्त्यानगृद्धि आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान साधिक दो सागर है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । यही वात स्त्रीवेद आदि के सम्बन्धमें जाननी चाहिए । यद्यपि सम्यग्दृष्टि मनुष्यके देवगतिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है पर मनुष्य पर्यायमें लेश्या अन्तमुहूर्तके वाद बदलती रहती है इसलिए पीतलेश्यामें इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त उपलब्ध होनेसे इन प्रकृतियोंकी परिगणना स्त्रीवेद आदि के साथ की है । सम्यग्दृष्टि देवके निरन्तर पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान साधिक दो सागर कहा है । हास्यादि चार अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं, स्वामित्वकी अपेक्षा भी ओघसे यहां कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इनका काल ओघके समान कहा है । सम्यग्दृष्टि देवके मनुष्यगति आदिका निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है । यही वात पञ्चेन्द्रियजाति आदिके सम्बन्धमें जाननी चाहिए । पद्मलेश्यामें यह सब व्यवस्था बन जाती है । मात्र यहां एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं होनेसे पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसकी ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों के साथ परिगणना होती है । यही कारण है कि पद्मलेश्यामें इन दो प्रकृतियोंका भङ्ग तैजसशरीरके समान कहा है ।

५४६. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा,

१. ता० प्रती वेसा०, आ० प्रती वे साग० इति पाठः । २. आ० प्रती तस०४ तेजइगभंगो इति पाठः ।

पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० तेतीसं० सादि० । थीणगिद्धि०३-
 मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० एग० । अज० ज० एग० अंतो०, उक्क० एकतीसं० सादि० ।
 सादासाद०--दोआयु०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--थिरादितिणियुगल०--दूभग-
 दुस्सर-अणादे०-णीचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०,
 उक्क० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-देवगदि०४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।
 अज० सादभंगो । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० सादि० ।
 हस्स-रदि-आहारदुगं ओघं । मणुसगदिपंचग० ज० ज० एग०, उक्क० वेस० । अज०
 ज० एग०, उक्क० तेतीसं० । पंचिदि०--तेजा०--क०--पसत्थ०४--अगु०३--तस०४-
 णिमि०-तित्थ०-ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० तेतीसं०
 सादि० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ओघं^१ । अज० ज०
 एग०, उक्क० तेतीसं० सादि० ।

अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और अन्त-मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक और देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । पुरुष-वेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । हास्य, रति और आहारक-द्विकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुन्निक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेख्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ३५ प्रकृतियों, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति आदि १६ प्रकृतियों, और समचतुरस्र आदि ६ प्रकृतियों इन ५८ प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग-बन्धका किन्हींके ध्रुवबन्धिनी होनेसे तथा किन्हींके सन्यक्तीके नियमसे बँधनेवाली होनेसे उत्कृष्ट

१. ता० आ० प्रत्योः पंचंत० ज० एग०, अज० ज० एग०, अज० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः उच्चा० ओघं । ज० ओघं इति पाठः ।

५४७. भवसि० ओघं । अबभवसि० ध्रुवियाणं पसत्थापसत्थ०४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका० । सेसाणं मदि०भंगो । गवरि सव्वाणं ज० अपज्जत्तभंगो^१ । अज० अणु०भंगो ।

५४८. खड्गसम्मा० पंचणा०-द्वदंसणा०-बारसक०--पुरिसं०-भय-दु०-अप्प-सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० तेतीसं० सादि० । सादासाद०--दोआयु०--तिणियुग० ज० अज० ओघं । हस्स-रदि०४-आहारदुगं

काल साधिक तेतीस सागर कहा है। जो द्रव्यलिङ्गी मुनि नौवें त्रैविक्रममें उत्पन्न होता है उसके स्त्यानगृद्धि ३ आदि ८ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। साता आदि २५ और खीवेद आदि ८ ये अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। यहाँ देवगति चतुष्कके विषयमें पीतलेश्यामें किया गया स्पष्टीकरण जान लेना चाहिए। हास्यादि ४ का भंग ओघके समान कहनेका यही अभिप्राय है। मनुष्यगति पञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है।

५४७. भव्यमार्गणाका भङ्ग ओघके समान है। अभव्योंमें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों, तथा प्रशस्त वर्णचतुष्क और अप्रशस्त वर्णचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल अपर्याप्त जीवोंके समान है और अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—ओघसे जो काल कहा है वह भव्यमार्गणामें अविफल बन जाता है, अतः इसे ओघके समान कहा है। अभव्य मार्गणामें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अनन्त काल तक अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ऐसा कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि अभव्य नियमसे मिथ्यादृष्टि होते हैं, इसलिए मत्यज्ञानी जीवोंमें जो काल कहा है वह यहाँ बन जायगा। पर मत्यज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और, अजघन्य अनुभागबन्धका काल यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि मत्यज्ञानी जीव परिणामोंकी विशुद्धि द्वारा क्रमसे सम्यक्त्व आदि गुणोंको भी उत्पन्न करते हैं। यह दूसरी बात कि इन गुणोंके सद्भावमें मत्यज्ञान नहीं होता पर अभव्योंमें ऐसी योग्यता नहीं होती, अतः उनमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पूरी तरह किसके समान होता है यह दिखलाते हुए कहा है कि अपर्याप्तकोंके शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जो काल कहा है वह यहाँ उन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल जानना चाहिए और अजघन्य अनुभागबन्धका काल अपने ही अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालके समान जानना चाहिए।

५४८. त्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और तीन युगलके

१. ता० आ० प्रत्योः ज० अप्पसत्थभंगो इति पाठः । २. ता० प्रतौ बारसक० बारसक० (?) पुरिस० इति पाठः ।

ओघं । मणुसगदिपंचग० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
तेतीसं । देवगदि०४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क०
तिण्णि पलि० सादि० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थवि०-
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम० । अज०
ज० एग०, उक्क० तेतीसं० सादि० । तित्थकरं एवं चेव ।

५४६. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-वारसक० पुरिस० भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-
क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-
णिमि०-उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० छावट्टि० । अपच्च-
क्खाणा०४ तेतीसं सादि० । पच्चक्खाणा०४ वादालीसं० सादि० । सादासाद०-
दोआयु०-तिण्णियुग० ज० अज० ओघं । देवगदि०४ ज० एग० । अज० [ज०]

जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । हास्य, रतिचतुष्क और आहारक-
द्विकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्त्य है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, सम-
चतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग,
सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल साधिक तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग इसी प्रकार है ।

विशेषार्थ—यहां पाँच ज्ञानावरणादि ३६, पञ्चेन्द्रियजाति आदि २१ और जिनके बन्ध
होता है उनके तीर्थङ्कर ये ५८ प्रकृतियों ध्रुवबन्धिनी है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है, क्योंकि संसार अवस्थामे इतने काल तक क्षायिक
सम्यक्त्वकी उपलब्धि होती है । प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके स्वामित्वको देखनेसे विदित
होता है कि उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अतः इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है, क्योंकि क्षायिकसम्यक्त्वका जघन्य
काल ही अन्तमुहूर्त है । दूसरे असंयत और संयमासंयम आदि गुण स्थानोंका जघन्य काल भी
अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके कालका स्पष्टीकरण आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके जैसा किया है
उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए ।

५४६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय पुरुषवेद,
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क,
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय,
निर्माण उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक
समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर
है । किन्तु अप्रत्याख्यानानावरण चारका साधिक तेतीस सागर और प्रत्याख्यानानावरण चारका साधिक
व्यालीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और तीन युगलके जघन्य और

अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि० देसू० । मणुसगदिपंचग० ज० एग० । अज० [ज०]
अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० । तित्थ० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
सेसं ओधिभंगो ।

५५०. उवसम० पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय०-दु०--मणुस०-
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थापसत्थ०४--
मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०--उच्चा०-
पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादादि० ओधिभंगो । एवं हस्स-रदि-
अरदि-सोग-देवगदि०४-आहारदुगं ।

अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । शेष भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर होनेसे यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर कहा है । मात्र वेदक सम्यक्त्वके साथ असयमका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर और असंयम व संयमासंयम दोनोंका मिलाकर उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर होनेसे यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चारके और प्रत्याख्यानावरण चारके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर और साधिक व्यालीस सागर कहा है । सातादि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । मनुष्य या तीर्थङ्करके वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य होनेसे यहाँ देवगति चतुष्कका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । देवोंमें और नारकियोंमें वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और देवोंमें उत्कृष्ट काल तेतीस सागर होनेसे यहाँ मनुष्यगति पञ्चकके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । मनुष्योंमें वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और मनुष्य व देवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवालेका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर होनेसे यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि नरक और देवमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका जिसके बन्ध होता है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होता है, इसलिए यहाँ जघन्य काल अन्तमुहूर्त घटित नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानके समान है यह स्पष्ट ही है ।

५५०. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिक आहोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, प्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, च्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय आदिका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति, शोक, देवगति-

५५१. सासणे पंचणा०--णवदंसणा०--सोलसक०--भय-दु०--तिगदि०--पंचिदि०--
चदुसरीर०--दोअंगो०--पसत्थापसत्थव०४--तिण्णिआणु०--अणु०४--तस०४--णिमि०--
णीचा० पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० छावलिगाओ । सादासाद०--
तिण्णिआयु०--चदुसंठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--थिरादितिण्णियुग०--दूभग--दुस्सर-
अणादे० जह० ओघं । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । इत्थि०--अरदि--सोग०-
उज्जो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० । पुरिस०-
हस्स-रदि० ज० एग० । अज० इत्थि०भंगो । समचदु०--पसत्थ०--सुभग-सुस्सर-आदे०-
उच्चा० ज० ओघं । अज० ज० एग०, उ० छावलिगाओ ।

५५२. सम्मामिच्छे पंचणाणावरणादिधुविगाणं ज० एग० । अज० ज० उ०

चतुष्क और आहारकद्विकका भङ्ग जानना चादिए ।

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५५१. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन आयु, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, अरति, शोक और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है ।

विशेषार्थ--सासादनगुणस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि होनेसे यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि कहा है । यहाँ सातावेदनीय आदिके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहनेका कारण इनका अध्रुववन्धिनी प्रकृतियों होना है । शेष कथन सुगम है ।

५५२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और

अंतो० । सेसं० ओधि०भंगो । मिच्छादिही० मदिय०भंगो । सण्णी० पंचिदिय-
पज्जत्तभंगो ।

५५३. असण्णीसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ज० ज० एग०, उक्क०
बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका० । णवरि तिरिक्खगदि०३ अजै०
असंखेज्जा लोगा । तिण्णिवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग०-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-
दोअंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०-४ ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज०
ज० एग०, उ० अंतो० । णवरि ओरालि० अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका० । सेसाणं
अप्पज्जत्तभंगो ।

उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्स्य-
ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवों पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-
वरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, सम-
चतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और पाँच अन्तराय । तथा देव और नारकियोंके मनुष्यगति-
पञ्चक और मनुष्य व तिर्यञ्चोके देवगतिचतुष्क । इनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके
अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध जीवोंके और प्रशस्त प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्व
संक्लिष्ट जीवोंके जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अन्यथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है और सम्य-
ग्मिथ्यात्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५५३. असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल
एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकके अजघन्य अनु-
भागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति,
औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और त्रस-
चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इतनी
विशेषता है कि औदारिकशरीरके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट अनन्त काल है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंकी कायस्थिति अनन्त काल है । पर इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकका
निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव ही करते हैं और इनकी कायस्थिति असंख्यात
लोक प्रमाण है । इसीसे तिर्यञ्चगति त्रिकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात
लोक कहा है । इसी प्रकार औदारिकशरीरका इनके निरन्तर बन्ध होता रहता है, क्योंकि यहाँ
औदारिक आङ्गोपाङ्गके समान न तो अध्रुवबन्धिनी है और न सप्रतिपक्ष ही । इसीसे यहाँ इसके

१. ता० आ० प्रत्योः ज० एग० उ० अंतो० इति पाठः । २. आ० प्रतौ णवरि विधिगदि०३
अज्ज० इति पाठः ।

५५४. आहारे ध्रुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ज० ओघं । अज० ज० एग०,
उ० अंगुल० असंखे० । सेसं ओघं । णवरि मिच्छ० अज० ज० खुदाभव० तिसमयूणं ।
तित्थ० अज० ज० एग० । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं कालं समत्तं ।

१४ अंतरपरूवणा

५५५. अंतरं दुवि०-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० ।
ओघे० पंचणा-द्धदंसणा०-असादा०-चदुसंज०--सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-
असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० अणुभागबंधंतरं केव० ? ज० एग०, उक्क० अणंतकाल-

अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५५४. आहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल तीन समय कम खुदाभवग्रहण प्रमाण है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवों के समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—ओघसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका और तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक होता है । वह काल यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह ओघ के समान कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध उपशमश्रेणीसे उतरते समय और सासादनमे एक समय तक होकर मरकर जीवके अनाहारक हो जाने पर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय बन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा आहारकोंकी कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । मिथ्यात्व गुणस्थानमे आहारक तीन समय कम जुल्लक भवग्रहण प्रमाण अवश्य रहता है, और इस कालमें मिथ्यात्वका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल उक्त प्रमाण कहा है । उपशमश्रेणीसे उतर कर और एक समय तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्धकर मरणद्वारा जीवका अनाहारक हो जाना सम्भव है । इसीसे यहाँ इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

१४ अन्तरपरूवणा

५५५. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार सञ्चलन, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका कितना अन्तर है । जघन्य अन्तर एक

मसंखेज्जा पोग्गलपरि० । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
अणंतानुबं०४-इत्थि० उ० ज० एग०, उ० अणंतकालं० । अणु० ज० एग०, उ० वे
छावट्टि० देसू० । सादा०-पंचिदिं०-तेजा०-क०-समचट्टु०-पसत्थ०४-अणु०३-पसत्थवि०-
तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-तित्थ० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।
अट्ट० उ० ज० एगं०, उ० अणंतका० । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसू० ।
णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० णाणावरण-
भंगो । अणु० ज० एग०, उ० वेछावट्टि० सादि० तिण्णिणपलि० देसू० । णिरय-
मणुसायु-णिरयगदि-णिरयाणु० उ० अणु० ज० एग०, उ० अणंतका० । तिरिक्खायु०
उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुध० । देवायु० उ० ज० एग०,
उ० अद्धपोग्गल० । अणु० ज० एग०, उ० अणंतकालं० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०
उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० तेवट्टिसागरोवमसदं । मणुस०-मणुसाणु० उ०
ज० एग०, उ० अद्धपोग्गल० । अणु० ज० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । देवगदि०४

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यान-
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति,
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि ब्रह्म, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर
काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति,
दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ
सागर और कुछ कम तीन पल्य है । नरकायु, मनुष्यायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है ।
तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । देवायुके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण
है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है ।
तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है ।
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर
है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर

उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अणंतका० । चदुजादि-आदाव-थाव-
रादि०४ उक्क० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं ।
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० उक्क० मणुसगदिभंगो । अणु० ज० एग०, उक्क०
तिण्णि पलि० सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि० अंतरं । अणु० ज० अंतो०, उ०
अद्धपोगल० । उज्जो० उ० ज० अंतो०, उक्क० अद्धपोगलं० । अणु० ज० एग०,
उक्क० तेवदिसागरोवमसदं । उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उक्क०
असंखेज्जा लोगा ।

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अनंत काल है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर एक सौ पचासी सागर है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच
संहननके उत्कृष्ट अनुभागबंधका अंतर मनुष्यगति के समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-
र्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर है । उच्चगोत्रके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संबन्धी
पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त जीव करता है । इसके ये परिणाम एक समयके अन्तरसे
भी हो सकते हैं और यदि इस पर्यायका त्याग कर निरन्तर एकेन्द्रिय आदि अन्य पर्यायोंमें परि-
भ्रमण करता रहे तो अनन्त कालके अन्तरसे भी हो सकते हैं । इसी प्रकार जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका स्वामी संबन्धी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामवाला जीव है उन सबके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण घटित कर लेना चाहिए । पाँच
ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है । तथा इनकी बन्धव्युच्छिन्नि
होकर पुनः इनका बन्ध करनेमें अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल लगता है । अतः यहाँ इन
प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा
है । स्त्यानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्वका मिथ्यात्वगुणस्थानमें और शेषका
मिथ्यात्व व सासादनगुणस्थानमें होता है और मिथ्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम
दो बार छयासठ सागर है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो बार छयासठ सागर कहा है । सातावेदनीय आदिका
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तर कालका
निषेध किया है । तथा ये अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य

१. छा० प्रती उ० सागरोवमसदं इति पाठः । २. आ० प्रती अंतरं । ज० अंतो० इति पाठः ।

३. छा० प्रती उज्जो० उ० ज० उ० अद्धपोग० इति पाठः ।

अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका यह अन्तर लाते समय तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवको उपशमश्रेणि पर आरोहण कराके और वहाँ क्रमसे एक समय काल तक और अन्तर्मुहूर्त काल तक अबन्धक रख कर यथाविधि पुनः बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। जो जीव संयमासंयम आदिका धारी होता है उसके अप्रत्याख्यानावरण चारका और जो समयका धारी होता है उसके प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता और इन संयमासंयम व समयका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इसके बाद जीव नियमसे असंयमी होता है, अतः यहाँ इन आठ कषायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका द्वितीयादि गुणस्थानोंमें और शेषका तृतीयादि गुणस्थानोंमें बन्ध नहीं होता। साथ ही भोगभूमिमें भी पर्याप्त अवस्थामें इनका बन्ध नहीं होता इसलिए यदि कोई जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कुछ कम दो बार छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पूर्व उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हो जाय तो कुछ कम तीन पल्य अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कालका अन्तर देकर इनका बन्ध होगा। यही कारण है कि यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कहा है। एकेन्द्रिय पर्यायमें परिभ्रमण करते हुए नरकायु और नरकगतिद्विकका तो बन्ध होता ही नहीं। मनुष्यायुका बन्ध सम्भव है पर तिर्यञ्च पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण होनेसे जो जीव इतने काल तक तिर्यञ्च है उसके मनुष्यायुका भी बन्ध नहीं होगा, अतः इन चारों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समान इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है, अतः यहाँ इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व-प्रमाण कहा है। देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाले अप्रमत्तसंयत जीवके होता है और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः यहाँ इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। तथा एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय तकके जीवके देवायुका बन्ध होता ही नहीं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। जो दोवार छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व के साथ रहकर अन्तिम प्रवैयकमें इकतीस सागर कालतक मिथ्यात्वके साथ रहता है उसके तिर्यञ्च-गतिद्विकका इतने काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव नारकीके होता है। यह अवस्था पुनः अधिकसे अधिक कुछ कम अर्ध-पुद्गल परिवर्तनके बाद उपलब्ध होती है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा इनका यदि अधिकसे अधिक काल तक बन्ध ही न हो तो अमिकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता और यह उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा अनन्त काल तक एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यायमें इनका बन्ध ही नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। चार जाति आदिका चाईस सागर तक छठे नरकमें, फिर वहाँसे सम्यक्त्वके साथ निकले हुए जीवके दो बार छयासठ सागर कालके भीतर फिर ३१ सागर आयुके साथ उत्पन्न हुए नौवें प्रवैयकमें बन्ध

५५६, गिरयेसु पंचणा०-छदंसणा०--वारसक०--भय-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-
तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्यापसत्थवण्ण४-अगु०४-तस४-णिमि०-पंचंत० उ०
ज० एग०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम० । थीणगिदि०३-
मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थि०-णयुंस०-तिरिक्खगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-
अप्पसत्थ०-दूभग०-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं०

ही नहीं होता । इस कालका जोड़ एकसौ पचासी सागर है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर कहा है । औदारिक-
शरीर आदि तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी मनुष्यगतिके समान है, अतः इनके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल मनुष्यगतिके समान कहा है । जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्तम भोग-
भूमिमें उत्पन्न होता है उसके सम्यक्त्वके प्रारम्भ कालसे उत्तम भोगभूमिमें रहनेके काल तक इनतीन
प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य कहा है । आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता
है, अतः इनके इसके अन्तरकालका निषेध किया है । अप्रमत्तसंयतका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल कहा है ।
उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध सातवें नरकके नारकीके होता
है और सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है, अतः इसके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल
परिवर्तन कालप्रमाण कहा है । तथा जो जीव दो वार छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्व और
मध्यमें सम्यग्मिध्यात्वके साथ रहकर मिध्यात्वके साथ अन्तिम प्रैवेयकमें उत्पन्न होता है उसके
इतने कालतक इसका बन्ध ही नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर कहा है । उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
क्षपकश्रेणीमें होता है अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके इसका बन्ध ही नहीं होता और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति
असंख्यात लोकप्रमाण है, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । यहाँ सर्वत्र अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय एक समयके अन्तरसे दो वार उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके ले आना चाहिए ।
मात्र जहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है वहाँ उपशमश्रेणिमें एक समयतक उन प्रकृ-
तियोंका बन्ध न कराकर ले आना चाहिए । मात्र ऐसे जीवको उपशमश्रेणिमें एक समयतक उन
प्रकृतियोंका अवन्धक रखकर और दूसरे समयमें मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर उन
प्रकृतियोंका बन्ध कराना चाहिए ।

५५६. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चे-
न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन,
मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और

देसू० । दोआउ० उक० अणु० ज० एग०, उ० छम्मासं देसू० । मणुसग०--मणुसाणु०-
 उच्चा० उक० अणु० ज० एग०, उक० तेतीसं देसू० । उज्जो० उक० ज० अंतो०,
 अणु० ज० एग०, उक० तेतीसं० देसू० । सादासाद०-पंचणो०-समचदु०-वज्जरि०-
 पसत्थ०--थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर--आदेज्ज-जस०--अजस० उ० ज० एग०,
 उक० तेतीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उक० अंतो० । तित्थ० उ० ज० एग०,
 उ० तिण्णिसाग० सादि० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । एवं सत्तमाए पुढवीए ।
 छसु उवरिमासु एसेव भंगो । णवरि मणुस०३ सादभंगो । उज्जो० णवुंसगभंगो । सेसाणं
 अप्पप्पणो ढिदी कादव्वा ।

अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विद्यायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीर्थङ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और अन्तर साधिक तीन सागर है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीमें जानना चाहिए । प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है और उद्योतका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि नारकी और प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी सम्यग्दृष्टि नारकी है । ये एक समय के अन्तरसे या प्रारम्भमें और अन्तमें यदि इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करे और मध्यमें एक समय तक या कुछ कम तेतीस सागर काल तक अनुकृष्ट अनुभागबन्ध करता रहे तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगृद्धि तीन आदिका मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है और सम्यग्दृष्टिके नहीं इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए और प्रारम्भ व अन्तमें अनुकृष्ट अनुभागबन्ध कराके और बीचमें सम्यग्दृष्टि रख कर अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए । तथा दोनों प्रकारक

५५७. तिरिक्खेसु पंचणा०-द्धदंसणा०-अट्टक०--भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणं-
ताणुवं०४-इत्थि० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देसू० । सादा०-

जघन्य अन्तर पूर्ववत् एक समयके अन्तरसे बन्ध कराके ले आना चाहिए । दोनों आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यद्विक और उच्चगोत्रका सम्यग्दृष्टि नारकीके उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करावे । फिर कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्यात्वमें रखकर पुनः अन्तमें सम्यग्दृष्टि बनाकर वैसा ही बन्ध करावे तो इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर आनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यह दोनों प्रकारका जघन्य अन्तर एक समय एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बन्ध कराके ले आवे । उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख नारकीके होता है । अतः यह अवस्था कमसे कम अन्तमुहूर्तका अन्तर देकर और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरका अन्तर देकर प्राप्त होती है, अतः उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तथा उद्योत अध्रुवबन्धिनी प्रकृति होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और कोई मिथ्यादृष्टि नारकी प्रारम्भ और अन्तमें इसका बन्ध करता है और बीचमें कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यग्दृष्टि होकर उसका बन्ध नहीं करता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । सातावेदनीय आदिमेंसे किन्हींका मिथ्यादृष्टि और किन्हींका सम्यग्दृष्टि उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है । यह कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे करता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तथा ये सब सप्रतिपत्त प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरक तक ही होता है । उसमें भी साधिक तीन सागरकी । आयुवाले नारकीसे अधिक स्थितिवालेके नहीं होता, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर कहा है, क्योंकि यहाँ एक समयके अन्तरसे या साधिक तीन सागरके अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है । तथा इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । सातवीं पृथिवीमें यह ओघ नारकप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उसके कथनको सामान्य नारकीके समान कहा है । मात्र यहाँ से चौथी पृथिवी तक तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा कथन नहीं करना चाहिए । शेष छह पृथिवियोंमें भी अपनी अपनी स्थितिके अनुसार यह अन्तर कालप्ररूपणा बन जाती है । इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियोंमें मनुष्यगतित्रिक सप्रतिपत्त प्रकृतियों हैं, अतः इनका अन्तर सातावेदनीयके समान कहना चाहिए । तथा इन पृथिवियोंमें उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि साकार-जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-वालेके होता है, अतः इसका अन्तर काल नपुंसकवेदके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है ।

५५७. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्थान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और बीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके

पंचिदि०-समचदु०-पर०उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व० उ० ज० एग०, उक्क०
 अद्दपोगल० । अणु० ओघं । असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस० उक्क०
 अणु० ओघं । अपच्चक्वाणा०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-चदुजा०-ओरालि०-पंचसंठा०-
 ओरालि०अंगो०-इस्संघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-
 दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसू० ।
 तिण्णिआयु० उ० अणु० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्खायु०
 उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । णिरय०-णिरयाणु० उ०
 अणु० ओघं । मणुस०-मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० । अणु० ओघं ।
 देवगदि०४ उ० ज० एग०, उ० अद्दपोगल० । अणु० ओघं । उच्चा० उ० ज० एग०,
 उक्क० अद्दपोगल० । अणु० ओघं । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० उ० ज०
 [एग०, उ० अद्दपोगल० । अणु० ज० एग०] उँ वेसम० ।

समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम
 तीन पल्य है । सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त
 विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
 और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके
 समान है । असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और
 अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद,
 तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन,
 तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर,
 अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
 बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । तीन आयुके
 उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक
 पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके
 समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
 एक पूर्वकोटि है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर
 ओघके समान है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके
 समान है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
 अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है ।
 उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरि-
 वर्तन है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त
 वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
 उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

१. ता० प्रती उच्चा० अद्दपोग० इति पाठः । २. ता० प्रती उ० ज० ए० उ०, धा० प्रती उ०
 ज० उ० इति पाठः ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल ओघके समान बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे होता है इसलिए यह अन्तर एक समय कहा है। तथा तिर्यञ्चोमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है और इतने काल तक स्त्यानगृद्धि आदिका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। संयतासंयत सर्वविशुद्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है। यह एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त होनेसे वह ओघके समान कहा है। असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त ओघके समान यहाँ भी बन जाता है, अतः वह ओघके समान कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चार आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघ के समान जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है और कर्मभूमिज सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चके इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तिर्यञ्चोमें तीन आयुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध त्रिभागके प्रारम्भमें और अन्तमें सम्भव है तथा कमसे कम एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तर ओघसे घटित करके बतला आये हैं वह यहाँ भी बन जाता है अतः वह ओघके समान कहा है। तथा इसके अनुत्कृष्ट अनुभागका कमसे कम एक समयके अन्तर बन्ध सम्भव है और पिछले भवमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें एक पूर्वकोटि प्रमाण तिर्यञ्चायुका बन्ध करके वर्तमान पर्यायमें अन्तमुहूर्त शेष रहने पर तिर्यञ्चायुका बन्ध करे तो साधिक एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी तिर्यञ्चायुका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि कहा है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका ओघ से जो दोनों प्रकारका अन्तर बतलाया है वह तिर्यञ्चो की मुख्यतासे ही बतलाया है, अतः यह ओघके समान कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और अधिकसे अधिक अनन्त कालके अन्तरसे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है और जो अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालके प्रारम्भ और अन्तमें संयतासंयत हो इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है उसके अधिकसे अधिक इतने कालके अन्तरसे इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है। इसीसे इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण कहा है। इसी प्रकार चण्डोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य

५५८, पंचिदियतिरिक्व०३ पंचणा०-छदंसणा-अट्टक०-भय-दु०-तेजा०-क०-
पसत्थापसत्थ०४-अणु०उप०-णिमि०-पंचंत० उ० जह० एग०, उ० पुव्वकोडिपुधत्तं ।
अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम० । सादासाद०--पंचणोक्क०-देवगदि०४-पंचिदि०-
समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे०-
जस०-अजस०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
अणंताणुवं०४-इत्थि० उ० णाणा०भंगो । अणु० तिरिक्खोघं । अपच्चक्खाणा०४-
णवुंस०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०--पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-उस्संघ०-तिण्णि-
आणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर--अणादे०-णीचा० उ०
णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी देसू० । चदुआयु० तिरिक्खोघं ।
णवरि तिरिक्खायुग० उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

और उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिए । तथा इन पाँचों प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तर काल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । तैजसशरीर आदि का उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्ध संयतासंयतके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है ।

५५८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय,
जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात,
निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, देवगतिचतुष्क,
पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरण के उत्कृष्टके समान है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग
ओघके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग सामान्य
तिर्यञ्चोके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिक-
शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत,
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । चार आयुका भङ्ग सामान्य
तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—अवतक जो अन्तरकालका स्पष्टीकरण किया है उससे यहाँसे लेकर आगेके
अन्तरकालके समझनेमें बहुत कुछ सहायता मिलती है अतः सर्वत्र जो विशेषता होगी उसका ही
निर्देश करेंगे । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चनिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य
प्रमाण है । अतः किसी उत्त तिर्यञ्चके अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके

५५६. पंचिदि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-
दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०,
उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । सेसाणं उ० अणु० जं० एग०, उ०
अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं थावराणं च सुहुमपज्जत्ताणं ।

५६०. मणुस०३ पंचणा०-दंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
पंचंत० उ० ज० एग०, उ० पुव्वकोडिपुध० । अणु० ओघं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-

पूर्व प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेपर उसका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । भोगभूमिमे इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध सम्भव न होनेसे उसकी स्थितिका यहाँ ग्रहण नहीं किया । इसी प्रकार सातावेदनीयदण्डक, स्त्यानगृद्धिदण्डक और अप्रत्याख्यानावरण चार दण्डकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके और इस दण्डकमें कही गई शेष प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि कहा है । यहाँ पर्यायके प्रारम्भमे और अन्तमे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर लाना चाहिए । सब आयुओंके अनुभागबन्धका अन्तर काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान बन जाता है । मात्र तिर्यञ्चायुमें विशेषता है । भोगभूमिको छोड़कर तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । यह सम्भव है कि कोई तिर्यञ्च इसके प्रारम्भ और अन्तमे तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करे और मध्यमे न करे, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है ।

५५६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्तकोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमे कही गई सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । तथा शेष सब अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, अतः उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । स्थावर और त्रस सब अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्तकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है और स्वामित्वकी अपेक्षा भी कोई अन्तर नहीं है, अतः उनका कथन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है यह कहा है ।

५६०. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संवलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर

अणंताणुवं०४-इत्थि० पंचिदियतिरिक्वभंगो । सादा०-देवा०-पंचिदि०-वेउन्वि०-सम-
चदु०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्व०-[उच्चा०]
उ० णत्थि अंतरं । अणु० ओघं । असादा०-पंचणोक०-अथिर-अमुभ-अजस० उ०
णाणा०भंगो । अणु० सादभंगो । अद्वक०-णवुंस-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंच-
संठा०-ओरालि०अंगो०-द्वस्सघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-धावरादि०४-
दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० अणु० जोणिणिभंगो । तिण्णिआयु० उ० अणु०
ज० एगं०, उ० पुव्वकोडितिभागं देसुणं । मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० पुव्वकोडि-
पुध० । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि अंतरं ।
अणु० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडिपुधत्तं । तेजा०-क०-पसत्थव०४-अगुं०-णिमि०-
त्तिथ० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० उक्क० अंतो० ।

श्रोत्रके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदका भङ्ग पञ्चे-
न्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । सातावेदनीय, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्र-
संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तरकाल श्रोत्रके समान है । असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, अस्थिर, अशुभ और
अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर सातावेदनीयके समान है । आठ कषाय, नपुंसकवेद, तीन गति, चार चाति, औदारिक-
शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त
विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनीके समान है । तीन आयुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिके कुछ कम त्रिभाग प्रमाण
है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-
पृथक्त्वप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
साधिक एक पूर्वकोटि है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल जिस प्रकार
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए ।
मनुष्योंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोत्रके
समान बन जानेसे वह वैसा कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनु-
भागबन्ध यहाँ क्षपकश्रेणिके होता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेध किया है । तथा इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके आठ
कषाय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा है वह यहाँ भी बन जाता है,
इसलिए यह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान कहा है । तीन आयु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट

५६१. देवेषु पंचणा०--द्वंदसणा०--वारसक०--भय--दु०--अप्पसत्थ०४--उप०-
 पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अट्टारस० सादि० । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० ।
 धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-
 दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० एकतीसं०
 देसू० । सादा०-मणुस०--पंचिदि०-समचदु०--ओरालि०अंगो--वज्जरि०-मणुसाणु०-
 पसत्थ०-तस०-थिरादिद्धि०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज०
 एग०, उ० अंतो० । असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस० उ० णाणा०भंगो ।
 अणु० सादभंगो । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उ० अणु०
 ज० एग०, उ० अट्टारस० सादि० । एइदि०-आदाव-थावर० उ० अणु० ज० एग०,

अनुभागबन्धका अन्तर भी उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र तिर्यञ्चोंके तीन आयुओंमें तिर्यञ्चायु सम्मिलित न थी सो यहाँ तीन आयुओंसे मनुष्यायु अलग करनी चाहिए । आहारकद्विक और तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा आहारकद्विकका बन्ध न होकर पुनः बन्ध कमसे कम अन्तमुहूर्तके बाद और अधिकसे अधिक पूर्वकोटिप्रथक्त्व कालके बाद ही सम्भव है, क्योंकि सातवेंसे छठेमें आनेपर पुनः सातवें गुणस्थानकी प्राप्ति अन्तमुहूर्तके बाद होती है तथा पूर्वकोटिप्रथक्त्व कालके प्रारम्भ और अन्तमे सातवें गुणस्थानकी प्राप्ति होकर इनका बन्ध हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा तैजसशरीर आदिकी उपशम श्रेणिमें बन्धव्युच्छिन्ति होकर पुनः उत्तरनेपर यदि इनका बन्ध हो तो अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तकालका अन्तर पड़ता है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

५६१. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त चर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चैन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर

१. चा० प्रतौ अप्सत्थ० उप० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः तस०४ धिरादिद्धि० इति पाठः ।

उक्क० वेसाग० सादि० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वाद्-पज्जत्त-
पत्ते०-णिमि०-तित्थ० उ० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उ०
वेसम० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं याव सव्वट्ठ त्ति ।

५६२. एइंदिएसु धुविगाणं उ० ज० एग०, उ० असंखेज्जा लोगा । वादर-
अंगुल० असंखे० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सुहुमे असंखेज्जा लोगा ।

के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धितकके सब देवोंके अपना अपना अन्तर ले आना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका ओच उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक होता है आगे नहीं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । स्त्यानगृद्धि आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके विषयमें यही बात है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकतीस सागर कहा है । यहाँ नौवें प्रवेयकके प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध करा के और मध्यमें उस जीवको सम्यग्दृष्टि रखकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए । देवों में सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्ध देवके होता है । सर्वार्थसिद्धिमें भी यह सम्भव है । अतः सर्वार्थसिद्धिमें प्रारम्भमें और अन्तमें इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करानेसे यह कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । तथा ये सब सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । असातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्त सातावेदनीयके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । तीर्थञ्चगतित्रिक का बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । मात्र उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भ और अन्तमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके और मध्यमें अन्तरकाल तक सम्यग्दृष्टि रखकर यह अन्तर ले आना चाहिए । इसी प्रकार एकेन्द्रियजाति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए । मात्र इनका बन्ध ऐशान कल्प तक होता है, इसलिए यह साधिक दो सागर कहना चाहिए । औदारिकशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सातावेदनीय आदि की तरह घटित कर लेना चाहिए । इसी प्रकार सब देवोंके अपनी अपनी स्थिति आदिको जानकर अन्तर काल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वह अलगसे नहीं कहा ।

५६२. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । वादरोंमें अञ्जुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूद्धमोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है ।

अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । तिरिक्खायु० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ०
 वावीसं वाससहस्साणि सादि० । सुहुमाणं अंतो० । मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०,
 उक्क० सत्तवाससहस्साणि सादि० । सुहुमाणं अंतो० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०
 उ० अणु० ज० एग० उ० असंखेज्जा लोगा । वादरे० अंगुल० असं० । अणु० ज०
 एग०, उक्क० कम्मट्टिदी० । पज्जत्ते उक्क० अणु० ज० एग०, उक्क० संखेज्जाणि
 वाससहस्साणि । सुहुमे असंखेज्जा लोगा । उज्जो० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० ।
 वादरे अंगुल० असं० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्सा० । सुहुमे असंखेज्जा लोगा ।
 सेसाणं उ० णाणा० भंगो । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० ।

तथा इन सबमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । मात्र सूक्ष्मोंमें यह उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । सूक्ष्मोंमें यह उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । वादरोमें अद्भुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा वादरोमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । वादरो में अद्भुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं और एकेन्द्रियोंमें वादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । वादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अद्भुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंकी संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंकी असंख्यात लोकप्रमाण है । अतः यहाँ यह अन्तर कुछ कम अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है । मात्र यहाँ अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भ में और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए । यहाँ यह शंका होती है कि जिस प्रकार इन वादर एकेन्द्रिय आदिमें यह अन्तर काल प्राप्त किया गया है उसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें यह अन्तरकाल अनन्तकाल क्यों नहीं कहा, क्योंकि वादर एकेन्द्रिय आदिके समान एकेन्द्रियोंकी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल लानेमें कोई बाधा नहीं आती । प्रश्न ठीक है पर अनुभागबन्धके योग्य परिणाम असंख्यात लोकरसे अधिक नहीं हैं, अतः इनमें उत्कृष्ट अन्तर बहुत ही अधिक हो तो वह असंख्यात

१. ता० प्रती -सहस्साणि । सादादि० सुहुमाणं, आ० प्रती -सहस्साणि । सादा० सुहुमाणं इति पाठः । २. आ० प्रती अणु० एग० इति पाठः । ३. ता० प्रती उ० संखेज्जाणि, आ० प्रती उक्क० असंखे-
 जाणि इति पाठः ।

५६३. विगलिंदि०-विगलिंदियपज्जत्ते^१ धुविगाणं उ० ज० एग०, उ० संखे-
ज्जाणि वाससहस्साणि । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । तिरिक्खायु० उ० णाणां-
भंगो । अणु० ज० एग०, उ० पगादिअंतरं । मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, उ०

लोकप्रमाण हाता है। यही कारण है कि एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इन सबके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनु-
त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही
है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओषके समान कहा है यह स्पष्ट ही है। इसके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष कहनेका कारण यह है कि
बाईस हजार वर्षकी आयुवाले किसी पृथिवीकायिकने प्रथम त्रिभागमें तिर्यञ्चायुका अनुत्कृष्ट बन्ध
किया। उसके बाद वह बाईस हजार वर्षकी आयुवाला पुनः पृथिवीकायिक हुआ और जब जीवनमें
अन्तमुहूर्त काल शेष रहा तब तिर्यञ्चायुका अनुत्कृष्ट बन्ध किया तो इस प्रकार तिर्यञ्चायुके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष आ जाता है। किन्तु मनुष्यायुके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर एक ही भवमें लाना होगा, अतः बाईस हजार वर्षके
त्रिभागको ध्यानमें रखकर वह दोनों प्रकारका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है। मात्र
सूक्ष्मोंकी दो भवकी आयु मिलाकर और एक भवकी आयु अन्तमुहूर्त ही होती है, अतः इनमें
तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है।
मनुष्यगतिक्रिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर यह दोनों ही असंख्यात लोक-
प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि इनका अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें बन्ध नहीं
होता और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है। मात्र इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट
अन्तर ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान भी लाया जा सकता है। बादरोंकी कायस्थिति अङ्गलके
असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इनमें इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर तो उक्त प्रमाण
घटित हो जाता है पर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण ही प्राप्त होता है,
क्योंकि बादर एकेन्द्रियोंमें अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण
होनेसे इतने अन्तरके बाद इनका नियमसे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध तो होने ही लगता है। इनके
पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजारवर्ष
ले आना चाहिए। अर्थात् संख्यात हजार वर्षप्रमाण कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट
अनुभागबन्ध कराके इसका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए और बीचमें संख्यात हजार वर्षतक
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें परिभ्रमण कराके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट
अन्तर संख्यात हजार वर्ष ले आना चाहिए। सूक्ष्मोंमें भी इसी प्रकार इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ले आना चाहिए। उद्योत अध्रुवबन्धिनी
प्रकृति होनेसे इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोंमें अनन्तकाल बन जानेसे
यह उक्तप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५६३. विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट
अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट

१ आ० प्रती अंतो । विगलिंदियपज्जत्ते इति पाठः । २. आ० प्रती तिरिक्खायु० णाणां इति पाठः ।

पगदिअंतरं । सेसाणं० उ० णाणावभंगो । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० ।

५६४. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-द्वदंसणा०-असाद०-चदुसंज०-सत्तणोक०-अप्प-
सत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० ।
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थि० उ०
णाणा०भंगो । अणु० ओघं । सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अणु०३-
पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-तित्थ० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० ओघं ।
अट्ठक० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । णवुंसग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-
दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । तिण्णिआयु० उ०
णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुध० । मणुसायु० उ० अणु०
ज० एग०, उ० णाणा०भंगो । पज्जत्ते चदुआयु० उ० अणु० ज० एग०, उ० सागरो-

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तर के समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—विकलेन्द्रियोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें मनुष्यायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । मात्र कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए । तथा तिर्यञ्चायुके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है सो प्रकृतिबन्धमें यहाँ इन प्रकृतियोंके अन्तरको देखकर यह खुलासा कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

५६४. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्त एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्थद्वारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तीन आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सो सागर पृथक्त्वप्रमाण है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । पर्याप्तकोंमें

वमसदपुध० । णवरि तसपज्जत्ते तिण्णिआयु० उक्क० सागरोवमसदपुध० । मणुसायु०^१
 उक्कस्समणुक्कस्सं सगट्ठिदी० । णिरय०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदा०-थावरादि०४ उ०
 णाणा०भंगो । अणु० ज० एय०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । तिरिक्खे०-तिरिक्खाणु०-
 उज्जो० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । मणुस०-मणुसाणु० उ० णाणा०भंगो ।
 अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० उ० णाणा०-
 भंगो । अणु० ओघं । आहारदुग० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० ज० अंतो०, उक्क०
 कायट्ठिदी० ।

चार आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि त्रस पर्याप्तकोंमें तीन आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है । तथा मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्क और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, और वज्रर्षभ-नाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आहारकट्टिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें यदि इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो तो यही अन्तर उपलब्ध होता है । तथा इनकी एक बार बन्धव्युच्छिन्ति होने पर पुनः इनका बन्ध हो तो अन्तमुहूर्त काल अवश्य लगता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । स्त्यानगृद्धि आदि तथा आगे और जितनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अर्थात् अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें अन्तमें उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए । तथा स्त्यानगृद्धि आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघसे जो उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह यहीं पर घटित होता है । सात्तावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि

१. ता० आ० प्रत्योः उक्क० वेसागरोवमसहस्ता० । मणुसायु० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः अणु० ज० एयट्ठिदी तिरिक्खे० इति पाठः ।

५६५. पुढवि०-आउ० ध्रुविगाणं उ० ज० एग०, उक्क० अप्पप्पणो कायट्टिदी
कादन्वा । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । तिरिक्खायु० उ० णाणा०भंगो । अणु०

अध्रुववन्धिनी प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त सर्वत्र वन जाता है । देशसंयतके अप्रत्याख्यानावरण चारका और संयत के अप्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चार इन आठोंका वन्ध नहीं होता और समय-संयम व संयम इन दोनोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका अन्तर ओघके समान घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है । नपुंसकवेद आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर भी ओघके समान वन जाता है, क्योंकि वह इन मार्गणाओंमें अविकलरूपसे घटित होता है, इसलिए वह भी ओघके समान कहा है । जीव त्रस और पञ्चेन्द्रिय रहते हुए यदि नारक, तिर्यञ्च या देव नहीं होता तो सौ सागर पृथक्त्व काल तक नहीं होता । इतने कालके बाद उसे यह पर्याय अवश्य ही धारण करना पड़ती है, परन्तु मनुष्यपर्यायके विषयमें यह बात नहीं है, इसलिए यहां तीन आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण कहा है और-मनुष्यायुके अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । मात्र यह अन्तर सामान्य त्रस और सामान्य पञ्चेन्द्रियोंमें सम्भव है । इनके जो पर्याप्त हैं उनमेंसे पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तो चारों आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण ही है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई निरन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त बना रहे तो सौ सागर पृथक्त्व कालके बाद उसे नारकादि विवक्षित पर्याय अवश्य ही धारण करनी पड़ेगी । पर त्रस पर्याप्तकोंमें तो तीन आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर यही रहेगा । मात्र मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी कायस्थितिप्रमाण होगा । नरकगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघसे जो एकसौ पचासी सागर वतलाया है वह इन मार्गणाओंमें ही सम्भव है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तिर्यञ्चगति आदिके अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें इन्हीं मार्गणाओंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए वह ओघके समान कहा है । सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टि नारकीके व उसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक मनुष्यद्विकका वन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्क और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । तथा सातवें नरकके मिथ्यादृष्टि नारकीके और वहाँसे निकलने पर अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका वन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । औदारिकशरीर आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघसे साधिक तीन पल्य वतलाया है वह यहाँ घटित हो जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनकी वन्धव्युच्छिन्ति होने पर इन मार्ग-णाओंमें पुनः वन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्तमें और अधिकसे अधिक अपनी अपनी कायस्थितिका अन्तर देकर सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है ।

५६५. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनु-भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण करना चाहिए । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट

ज० एग०, उ० पगदिअंतरं । मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०, उ० पगदिअंतरं । सेसाणं उ० णाणा० भंगो । अणु० ज० एयसमयं, उ० अंतो० । एवं तेउ०-वाउ० । णवरि मणुसगदि०४ णत्थि । तिरिक्खगदि०४ ध्रुवभंगो । वणप्फदिका० एइंदियभंगो । णवरि तिरिक्खायु० अणु० ज० एग०, उ० दसवस्ससहस्साणि सादि० । मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिवाससहस्साणि सादि० । मणुसगदितिगं सादभंगो । वादरवणप्फदिपत्ते० पुढविभंगो । णियोद० वणप्फदिभंगो । णवरि अप्पप्पणो द्विदी भाणिदन्वा ।

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञाना-वरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके मनुष्यगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता । तथा तिर्यञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग ध्रुव-प्रकृतियोंके समान है । वनस्पतिकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष है । मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है । वादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीवोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । निगोद जीवोंका भङ्ग वनस्पतिकायिक जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो तो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण आता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार अन्य जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है उसे घटित कर लेना चाहिए । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका और मनुष्यायुके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इनके प्रकृति बन्धके अन्तरके समान कहा है सो उसका यही अभिप्राय है कि प्रकृतिबन्धके समय इनका जो अन्तर बतलाया है वह यहाँ उक्त अन्तर जानना चाहिए । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके और सब अन्तरकाल इसी प्रकार बतलाया है । मात्र इनके मनुष्यगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होनेसे तिर्यञ्चगतिचतुष्क ध्रुवप्रकृतियों ही जाती हैं । अर्थात् आयुबन्धके समय इनके तिर्यञ्चायुका ही बन्ध होता है और मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका बन्ध न होकर निरन्तर तिर्यञ्च-गति, तिर्यञ्चानुगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका ही बन्ध होता है । इसलिए यहाँ इन तीन प्रकृतियोंके अन्तरकालकी प्ररूपणा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान करनी चाहिए और मनुष्यायुका अन्तर-काल न कहकर एकमात्र तिर्यञ्चायुका अन्तरकाल कहना चाहिए । वनस्पतिकायिक जीवोंकी काय-स्थिति एकेन्द्रियोंके समान है, इसलिए इनका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा है । मात्र इनकी भवस्थिति दस हजार वर्ष है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दस हजार वर्ष तथा मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष कहा है । तथा इनके तिर्यञ्चगतित्रिकके प्रतिपक्षरूपसे मनुष्यगतित्रिकका भी बन्ध होता रहता है, अतः इनका

५६६. पंचमण०--पंचवचि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०-
 भय-दु०--चदुआयु०--अप्पसत्थ०४-उप०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो० ।
 अणु० ज० एग०, उ० वेसमं० । [सादा०-] देवगदि०४-पंचिदि०-समचदु०-पर०-
 उस्सा०-उज्जो०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज०
 एग०, उ० अंतो० । असादा०-सत्तणोक०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-
 ओरालि०अंगो०-अस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाव०--अप्पसत्थ०--थावरादि०४-अथिरा-
 दिद्व०-णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आहारं०-तेजा०-क०-आहार०-
 अंगो०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०-तित्थ० उ० अणु० णत्थि अंतरं ।

भङ्ग सातावेदनीयके समान जानना चाहिए । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंकी काय-
 स्थिति व सब प्रकृतियोंका बन्ध वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है और निगोद जीवोंकी
 कायस्थिति व सब प्रकृतियोंका बन्ध वनस्पतिकायिक जीवोंके समान है इसलिए यह कथन इनके
 समान किया है ।

५६६. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
 मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच
 अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त
 है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।
 सातावेदनीय, देवगति चार, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, उद्योत,
 प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
 अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, सात नोकपाय, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच
 संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति,
 स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
 जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आहारकशरीर, तैजसशरीर,
 कार्मणशरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थङ्करके
 उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके
 उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनु-
 भागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । तथा उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए
 सातवें नरकके नारकीके होता है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल सम्भव न
 होनेसे उसका निषेध किया है । तथा ये सब अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट
 अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । असातावेदनीय
 आदि भी अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं और इनका एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
 अनुभागबन्ध सम्भव है । तथा उसी योगके रहते हुए अन्तमुहूर्तके बाद पुनः इनका उत्कृष्ट
 अनुभागबन्ध सम्भव है और यदि बीचमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध होने लगे तो इनके अनुत्कृष्ट
 अनुभागबन्धमें भी अन्तमुहूर्तका अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनु-

१. वेसम० इति स्थाने ता० प्रती वेस० सादि०, आ० प्रती वेसाग० इति पाठः । २. ता० प्रती
 पर० उज्जो० इति पाठः । ३. ता० अ० प्रत्योः आहारं० इति पाठः ।

५६७. कायजोगीसु पंचणा०--छदंसणा०--असादा०--चदुसंज०--णवणोक०--
दोगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसठा०--ओरालि०अंगो०--छस्संध०--अप्पसत्थ०४--दो-
आणु०-उप०-आदाव०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४--अथिरादिद्वि०-णीचा०-पंचंत० उ०
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-वारसक०-णिरय-देवायु०
उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । सादा०-देवगदि ४-
पंचिदि०-तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थ०४--अणु०३-उज्जो०--पसत्थवि०--तस०४-
थिरादिद्वि०-णिमि०-तित्थय० उ० गत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० ।
तिरिक्खायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वावीसं वास-
सहस्सा० सादि० । मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ओघं । मणुस०-
मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ओघं । आहारदुग० उ० अणु०
गत्थि अंतरं । उच्चा० उ० गत्थि अंतरं । अणु० ओघं ।

उक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । आहारक शरीर आदिका उक्त अनुभागबन्ध क्षणश्रेणियों में होता है, इसलिए तो इनके उक्त अनुभागबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । तथा इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद उसी योगके रहते हुए पुनः इनका बन्ध सम्भव नहीं है, अतः इनके अनुक्त अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है ।

५६७. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, नौ नोकषाय, दो गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उक्त और अनुक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्वानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नरकायु और देवायुके उक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, देवगतिचतुष्क, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्थङ्करके उक्त अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यञ्चायुके उक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर साधिक वार्स हजार वर्ष है । मनुष्यायुके उक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुक्त अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उक्त अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्त अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुक्त अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आहारकद्विकके उक्त और अनुक्त अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । उच्चगोत्रके उक्त अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अनुक्त अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—काययोगमें पाँच ज्ञानावरणादिका उक्त अनुभागबन्ध संज्ञी पञ्चन्द्रिय पर्याप्त-जीवके होता है और इनके काययोगका उक्त काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए तो इसमें इन प्रकृतियोंके

५६८. ओरालियका० पंचणाणावरणादि० मणजोगिभंगो । णवरि तिरिक्ख-
मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० सत्तवाससह० सादि०।
५६९. ओरालियमि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छत्त--सोलसक०--भय--दु०-

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा उपशमश्रेणिमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका एक समयके लिए और अन्तमुहूर्तके लिए अबन्धक होकर मर कर देव होने पर एक समय या अन्तमुहूर्तके अन्तरसे इनका पुनः बन्ध सम्भव है इसलिए ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा अध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंके बन्धके बाद एक समय तक या अन्तमुहूर्त तक इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है, इस लिए अध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। स्त्यानगृद्धि आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल तो ज्ञानावरणादिके समान ही घटित करना चाहिए। मात्र इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। यहाँ अन्य प्रकारसे अन्तर सम्भव नहीं है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, तथा उद्योतका सम्यक्त्वके अभिमुख सातवें नरकके नारकीके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा इनमें कुछ तो अध्रुववन्धिनी प्रकृतियों है और कुछका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अन्तर सम्भव है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा तिर्यञ्चायुका काययोगके रहते हुए एकेन्द्रियोंमें साधिक चाईस हजार वर्षके अन्तरसे बन्ध सम्भव होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चाईस हजार वर्ष कहा है और मनुष्यायुका ओषके समान साधिक सात हजार वर्षके अन्तरसे अनुभागवन्ध सम्भव है इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओषके समान कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध पञ्चेन्द्रियपर्याप्तके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। और एकेन्द्रियोंमें इनका ओषके समान असंख्यात लोकका अन्तर देकर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओषके समान कहा है। आहारकद्विक का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है तथा इनका एक बार बन्ध होनेके बाद पुनः बन्ध होनेके काल तक योग बदल जाता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है।

५६८. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात हजार वर्ष है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। मात्र औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम चाईस हजार वर्ष होनेसे यहाँ तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सात हजार वर्ष प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है।

५६९. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,

देवगदि०४—[तेजा०-क०-पसत्थापसत्थवण्ण४—] अगु०-उप०-णिमि०-तित्थि०-पंचंत०
 उ० अणु० णत्थि अंतरं । आयु० अपज्जत्तभंगो । सेसाणं उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 ज० एग०, उ० अंतो० । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । णवरि अप्पणो पगदीओ
 भाणिदव्वाओ । आहारमि० देवायु० उ० णत्थि अंतरं । वेउव्वियका०-आहारका०
 मणजोगिभंगो । कम्मइ० सव्वाणं उ० अणु० णत्थि अंतरं । णवरि सादासाद०-
 चदुणोक०-आदाउज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 एग० । एवं अणाहार० ।

सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुर्कर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और अन्तर अनुत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियों कहलवाना चाहिए। तथा आहारकमिश्रकाययोगमे देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगका काल बहुत थोड़ा है। इसमें प्रथम दण्डकमें कही गई व अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाले, सर्वविशुद्ध व तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीवके होता है, अतः दो आयुओंको छोड़कर सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है, क्योंकि ऐसे परिणाम पर्याप्त योगके सन्मुख हुए जीवके अन्तिम समयमें ही सम्भव हैं। तथा प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियों ध्रुवबन्धिनी हैं। यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें देवगतिचतुष्क भी है पर औदारिकमिश्रकाययोगी सन्यगृष्टिके ये ध्रुवबन्धिनी ही हैं। इसी प्रकार जिसके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है उसके वह भी ध्रुवबन्धिनी है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है। औदारिकमिश्रकाययोगमें अपर्याप्तकोंके ही दो आयुओंका बन्ध होता है, अतः इनका कथन अपर्याप्तकोंके समान किया है। अब शेष रही परावर्तमान प्रकृतियों सो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें यह अन्तर इसी प्रकार है सो इसका यह अभिप्राय है कि इन दोनों योगोंमे जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका तो अन्तर है नहीं। हों जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर न होकर मात्र अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। पर इस प्रकार देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर प्राप्त होता है, इसलिए

५७०. इत्थिवे^१० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
 पंचंत० उ० ज० एगं०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । थीण-
 गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि०-णवुंस०--तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंच-
 संघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-दूभगं-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ०
 ज० एग०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ज० ए०, उ० पणवण्णं^२ पलि० देसु० । सादा०-
 पंचिंदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ-तस०४-थिरादिद्ध०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं ।
 अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आसादा०-पंचणोक०-अधिरादि० उ^३० ज० एग०, उ०
 कायट्टिदी० । अणु० सादभंगो । अट्टक० उ० ज० ए०, उ० कायट्टिदी० । अणु०

उसका निषेध किया है। वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है तथा स्वामित्व सम्बन्धी परिणामों की समता भी देखी जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी प्ररूपणा मनोयोगी जीवों के समान बन जानेसे वह उनके समान कही है। कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं बनता यह स्पष्ट ही है। मात्र सातावेदनीय आदि कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका यहाँ पर भी परिवर्तन सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। यहाँ शेष परावर्तमान प्रकृतियाँ बन्धकी विशेषताके कारण परावर्तमान नहीं होती, ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। उदाहरणार्थ यहाँ जिसके त्रससम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता होगा उसके एक साथ वादर स्थावर सम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होगा। कार्मण-काययोगी अनाहारक ही होते हैं, अतः इनका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान कहा है।

५७०. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य हैं। सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असाता-वेदनीय, पाँच नोकपाय और अस्थिर आदि तीन के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

१. ता० शा० प्रत्योः एग० इत्थिवेद० इति पाठः । २. ता० प्रती उ० ए० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः थावर० सुदुमं अप्रजज्ञ साधार० दूभग० इति पाठः । ४. ता० प्रती ज० ए० पणपण्यं इति पाठः । ५. ता० आ० प्रत्योः थिरादिद्ध० उ० इति पाठः ।

ओघं । गिरयायु० उ० अणु० तिरिक्ख०भंगो । दोआयु० उ० अणु० ज० एग०,
 उ० पलिदोवमसदपुध० । देवायु० उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी । अणु० ज० एग०,
 उ० अट्टावण्णं पलि० पुव्वकोट्टिपुधत्तेणभहियाणि । [गिरयग०-तिण्णिजादि-गिरयाणु०-
 सुहुम०-अपज्जत्त-साधार० उ० ज० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । अणु० ज० एग०,
 उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० ।] मणुसगदिपंच० उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी० ।
 अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलिदो० देसू० । देवगदि०४ उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 ज० अंतो०, उ० कायट्टिदी । तेजा० क०-पसत्थ०४-अणु०-णिमि०-तित्थ० उक्क०
 अणु० णत्थि अंतरं ।

कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । नरकायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर तिर्यञ्चोके समान है । दो आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य है । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है । आहारकट्टिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनु-त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है उनका कायस्थितिके प्रारम्भ और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके यह अन्तर-काल ले आना चाहिए । जो देवी सम्यग्दर्शनके साथ कुछ कम पचवन पत्य तक रहती है उसके स्त्यानगृद्धि तीन आदिका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य कहा है । सातावेदनीय आदिका क्षपकश्रेणिमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-र्मुहूर्त कहा है । असातावेदनीय आदि भी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । आठ कषायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघसे कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । तिर्यञ्चोके नरकायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तर कह आये हैं वह यहाँ वन जाता है, अतः यह अन्तर उनके समान कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका किसीने काय-

५७१. पुरिस० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज० पंचंत० उ० ज० एग०, उ०
 कायद्विदी० । अणु० ज० एग०, उ० वेस० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-
 इत्थि० उ० ज० एग०, उ० कायद्विदी० । अणु० ओघं । णिद्दा-पचला०-असादा०-
 सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस० उ० ज० एग०, उ० काय-
 द्विदी० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-
 पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-उच्चा० उ० गत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० ।

स्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया और मध्यमें अन्य आयुओंका बन्ध किया । अर्थात् तिर्यञ्चायुका बन्ध करनेवालेने मनुष्यायु और देवायुका मध्यमें बन्ध किया और मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले ने मध्यमें तिर्यञ्चायु और देवायुका बन्ध किया यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है । कोई देवायुका बन्ध करके पचवन पत्यकी आयुवाली देवी हुई । पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि पृथक्त्व काल तक मनुष्यनी और तिर्यञ्चयोनिनी होकर तीन पत्यकी आयुके साथ उत्पन्न हुई । और वहाँ अन्तमें देवायुका बन्ध किया तो इस प्रकार पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक पचवन पत्य देवायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । नरकगति आदिका देवीपर्यायमें बन्ध नहीं होता और इसमें अन्तमुहूर्त काल मिलाने पर इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । मनुष्यगतिपञ्चकका उत्तम भोगभूमिके पर्याप्त जीवोंके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । देवगतिचतुष्क आहारकद्विक और तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा देवी पर्यायमें और वहाँसे आकर अन्तमुहूर्त काल तक देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य कहा है । कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें आहारकद्विकका बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है । तैजसशरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे इसका भी निषेध किया है ।

५७१. पुरुपवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रेणिके समान हैं । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

अटक० पंचिदियभंगो । गिरणायु० मणुसि०भंगो । तिरिक्ख०-मणुसायु० उ० अणु० पंचिदियपज्जत्तभंगो । देवायु० उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । गिरय०-तिरिक्ख०-चदुजादि-दोआणु०-आदाबुज्जो-थावरादि०४ उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ज० एग०, उ० तेवट्टि-सागरोवमसद० । मणुसगदिपंचग० उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । देवगदि०४ उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । णवुंसग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ज० एग०, उ० कायट्टिदी० । अणु० ओघं । आहारदुगं उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० अंतो, उ० कायट्टिदी० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-णिमि०-तित्थ० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० ।

अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । नरकायुका मनुष्यनीके समान भङ्ग है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । मनुष्यगतिपञ्चके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेद, पौंच सस्थान पौंच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है आहारकट्टिकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है उनका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट वन्ध कराके वह अन्तर ले आना चाहिए । स्यानगृद्धि तीन आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जो उत्कृष्ट अन्तर काल ओघसे कुछ कम दो छयासठ सागर वतलाया है वह पुरुषवेदीके ही सम्भव है, अतः यह ओघके समान कहा है । उपशमश्रेणिये निद्रा और प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति होने पर मरण द्वारा कमके कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तके अन्तरसे पुरुषवेदीके इनका वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा असाता आदि शेष परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके भी अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। असातावेदनीयके समान सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तर कालका निषेध किया है। पञ्चेन्द्रियोंके आठ कपायोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जो अन्तर काल कहा है वह पुरुषवेदीके वन जाता है, अतः यह पञ्चेन्द्रियोंके समान कहा है। पहले मनुष्यनियोंके नरकायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण घटित करके बतला आये हैं। यहाँ पुरुषवेदियोंके भी यह इतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि नारकी पुरुषवेदी न होनेसे एक पर्यायमें त्रिभागकी अपेक्षा ही यह घटित करना पड़ता है, अतः यह मनुष्यनियोंके समान कहा है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण बतला आये हैं। पुरुषवेदियोंके यह अन्तर वन जाता है, क्योंकि पुरुषवेदियोंकी जो कायस्थिति है उसके प्रारम्भमें और अन्तमें दो आयुओंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र देवायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरसे अधिक नहीं वनता, क्योंकि पूर्वकोटिकी आयुवाले किसी मनुष्यने अपने प्रथम त्रिभागमें देवायुका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया। पुनः वह तेतीस सागर काल तक विजयादि देवपर्यायमें रहा और वहाँसे आकर पुनः पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ। तथा आयुके अन्तमें देवायुका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया तो यह साधिक तेतीस सागर ही होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। पुरुषवेदी रहते हुए नरकगति आदिका एकसौ त्रेसठ सागर काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर प्रमाण कहा है। जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें आयुबन्धके बाद क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता है और मरकर तीन पल्य की आयुके साथ मनुष्य हांता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके अन्तर्मुहूर्त बाद मर कर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवपर्यायमें जन्म लेता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। नपुंसकवेद आदिका कुछ कम दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य काल तक बन्ध नहीं होता यह ओघमें घटित करके बतला आये हैं। इनका यह अन्तर यहाँ भी घटित हो जाता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान कहा है। आहारकट्टिकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तर कालका निषेध किया है। इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे बन्ध होता है और यदि कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें अप्रमत्तसंयत गुणस्थान हो तो कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयके अन्तरसे या अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे मरण होकर देवपर्यायमें इनका बन्ध होने लगता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

५७२. णवुंस० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०--अप्पसत्थ०४-उप०-
 पंचंत० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० वेसमं० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणं-
 ताणुवं०४-इत्थि-णवुंस०-तिरिक्ख०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०--अप्पसत्थवि०-
 दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं देसू० ।
 सादा०-पंचिदि०--समचदु०--पर०--उस्सा०--पसत्थ०--तस०४-थिरादिछ० उ० णत्थि
 अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस०
 उ० अणु० ओघं । अट्ठक०--तिण्णिआयु०--वेउन्वियछ०--मणुस०--मणुसाणु०--उच्चा० ।
 [उक्क०] अणु० ओघं । देवायु० मणुसभंगो^३ । चदुजा०-आदाव-थावरादि०४ उक्क०
 ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०
 उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी दे० । आहारदुगं उ० अणु० ओघं ।
 [तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०-णिमि० उक्क० अणुक्क० णत्थि अंतरं ।] उज्जो०
 उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । तित्थ० उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 ज० उ० अंतो० ।

५७२. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है। सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। आठ कषाय, तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। देवायुका भङ्ग मनुष्यके समान है। चार जाति, आतप, और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है। औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आहादकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम

१. ता० प्रती ९० वेसम० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः उच्चा० अणु० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः मणुसादिभंगो इति पाठः ।

तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। यह अन्तर नपुंसकवेदीके बन जाता है और नपुंसकवेदीकी
कायस्थिति अनन्त काल है, अतः यह अन्तर ओघके समान कहा है। इसी प्रकार स्त्यानगुद्धि तीन
आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा जो नारकी कुछ
कम तेतीस सागर काल तक सम्यग्दृष्टि रहता है उसके इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिका
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरका निषेध किया है। इसी प्रकार
आगे जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अन्तरका निषेध किया है उसका यही कारण जानना चाहिए।
तथा इनके परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। कारण कि इनका एक समयके अन्तरसे
और कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करानेसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर ओघके समान बन जाता है और परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर ओघके समान बन जाता है। आठ कषाय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर अलग अलग जैसा ओघसे कहा है उसके अविकलरूपसे यहाँ प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं
आती, अतः यह भी ओघके समान कहा है। यद्यपि नपुंसकवेदीकी कायस्थिति अनन्तकाल है पर
देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीवके होता है और देवायुका पूर्वकोटिके त्रिभागके
प्रारम्भमें उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होनेपर और फिर अन्तमे बन्ध होनेपर मनुष्योंके
समान कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर घटित हो जाता है। इसलिए यहाँ
देवायुके अनुभागबन्धका अन्तर मनुष्योंके समान कहा है। चार जाति आदिके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल ओघसे बतलाया है। वह यहाँ
बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है। तथा नारकीके और नरकमें जानेके पूर्व और
वादमें अन्तमुहूर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
साधिक तेतीस सागर कहा है। औदारिकशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण ओघसे बतलाया है, वह यहाँ भी
बन जाता है। कारण कि इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव नारकीके होता है,
अतः यह ओघके समान कहा है। तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चके इनका बन्ध नहीं होता। पर यहाँ
अन्तर लाना है अतः पूर्वकोटिके आयुवाले तिर्यञ्चको मिथ्यादृष्टि रख कर प्रारम्भमे और अन्तमें
इनका बन्ध करावे और कुछ कम पूर्वकोटि काल तक सम्यग्दृष्टि रखकर अबन्धक रखे तो इस
प्रकार इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त
प्रमाण कहा है। आहारकृदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तरकाल ओघसे कहा
है वह यहाँ भी बन जाता है, अतः ओघके समान कहा है। तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और नपुंसकवेदमे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं
है। कारण कि जो नपुंसकवेदी उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है वह यदि लौटकर
इनका बन्ध करता है तो बीचमें अपगतवेदी होकर फिर नपुंसकवेदी होनेके पूर्व मरकर देव होता
है तो नपुंसकवेदी नहीं रहता, अतः यहाँ इनके दोनों प्रकारके अन्तरका निषेध किया है। जो
तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला नपुंसकवेदी मनुष्य मरकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होता है

५७३. अवगदवे० सन्वपगदीणं उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० उक्क० अंतो० ।

५७४. कोधे' पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--चदुआयु०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । णिहा-पचला-असादा०-णवणोक०-तिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०--ओरालि०अंगो०-छस्संघ०--अप्प-सत्थ०४-तिण्णिआणु०--उप०--आदाव०--अप्पसत्थवि०--थावरादि०४-अथिरादि०--णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । सादा०-देवगदि०४-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-उज्जो०-पसत्थ०-तस०४-थिरादि०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आहारदुग० उ० अणु० णत्थि अंतरं ।

उसके अन्तमुहूर्त काल तक इसका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

५७३. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले अपगतवेदीके अन्तिम समयमें सम्भव है और शेष तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें सम्भव है, अतः सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तर का निषेध किया है । तथा उपशान्तमोहमें इनका बन्ध नहीं होता और इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः यहा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

५७४. क्रोधकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, चार आयु और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, नौ नोकषाय, तीन गति, चार चाति, औदारिक-शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, उपघात, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, देवगतिचतुष्क, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम और द्वितीय दण्डकमें अन्तमुहूर्तके अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध

१. ता० प्रतौ णत्थि । अत० अणु० ज० उ० अंतो० । ॥ अवगद० सन्वपगदीणं० उ० णत्थि अंत० अणु० उ० ज० अंतो० ॥ [॥ एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठोऽधिकः] क्रोधे, आ० प्रतौ णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो०, ज० उक्क० अंतो०, कोधे इति पाठः । २. ता० प्रतौ णोचा० उ० अणु० ज० ए० उ० । अणु० ज० उ० (?) अंतो० इति पाठः । ३. आ० प्रतौ० उ० णत्थि इति पाठः ।

५७५. माणे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-पण्णारसक०-पंचंत० [कोध०भंगो ।]

णवरि कोधसंजल० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । मायाए पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-चोदसक०-पंचंत० [कोध०भंगो ।] णवरि कोध-माणसंज० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । लोभे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-वारसक०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । णवरि चत्तारिसंज० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । सेसाणं कोधभंगो ।

कराके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तमुहूर्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। प्रथम दण्डकमें अन्य सब प्रकृतियों ध्रुवबन्धिनी हैं। मात्र चार आयुका अन्तमुहूर्त कालतक ही बन्ध होता है, फिर भी इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई अन्य सब प्रकृतियों परावर्तमान हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। रहीं निद्रा और प्रचला दो प्रकृतियों सो क्रोध कपायसे उपशमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके इनकी बन्धव्युच्छित्ति कराकर कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्त कालतक उपशमश्रेणिमें रखकर मरण करावे तथा क्रोधकपायके साथ ही देवपर्यायमें उत्पन्न कराकर इनका बन्ध करावे। इस प्रकार यहाँ निद्रा और प्रचलाके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदि तथा आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है और आहारकद्विकका बन्ध करनेवाला अप्रमत्तसंयत प्रमत्तसयत होकर पुनः जवतक अप्रमत्तसयत होकर आहारकद्विकका बन्ध करता है तबतक क्रोधकपाय बदल जाता है, अतः यहाँ आहारकद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है।

५७६. मानकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और पाँच अन्तरायका भङ्ग क्रोधकपायके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्वलनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। मायाकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चौदह कपाय और पाँच अन्तरायका भङ्ग क्रोधकपायके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोध और मानसंज्वलनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। लोककपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधके समान है।

विशेषार्थ—मानकपायमें क्रोधसंज्वलनकी, मायाकपायमें क्रोध और मान संज्वलनकी तथा लोभकपायमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर इन कपायोंका सद्भाव बना रहता है, अतः फोड़े जीव इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयतक उपशमश्रेणिमें रहकर दूसरे समयमें विवक्षित कपायके साथ मरकर देव हो जावे या अन्तमुहूर्तकालतक उपशमश्रेणिमें रहकर

५७६. मदि-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय०-दु०-अप्प-
सत्थ०४-उप०-पचंत० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । सादा०-
पंचिदि०-समचदु०--पर०-उस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ० उ० णत्थि अंतरं ।
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । असादा०-छण्णोक०-अथिर-असुभ-अजस० उ० अणु०
ओघं । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर--अणादे०--णीचा० उ०
ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलि० देसु० । तिण्णिआयु०-णिरयगदि-णिर-
याणु० उक्क० अणु० ज० एग०, उ० अणंतका० । तिरिक्खायु० ओघं । तिरिक्ख-
गदि-तिरिक्खाणु० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि० । मणुस-
गदि०३ उ० णत्थि अंतरं । अणु० ओघं । देवगदि०४ उ० णत्थि० अंतरं । अणु०
ओघं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ [उक्क०] ओघं । अणु० ज० एग०, उ०
तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०--ओरालि०अंगो०--वज्जरि० उ० णत्थि अंतरं । अणु०

विवक्षित कषायके साथ मर कर देव हो जावे तो विवक्षित कषायमें उन उन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन क्रोधकषायके समान है यह स्पष्ट ही है ।

५७६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, छह नोकषाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । तीन आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । मनुष्यगतित्रिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट

१. ता० प्रतौ वेस० सादि० । पंचिं० इति पाठः । २. ता० प्रतौ देवगदि०४ णत्थि इति पाठः ।
३. ता० आ० प्रत्योः थावरादि४ ओघं इति पाठः ।

ज० एग०, उ० तिण्णिपलि० देसू० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० उ० अणु०
णत्थि' अंतरं । उज्जो० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि० ।

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तैजस शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । वह इन दोनों अज्ञानोंमें बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । यहाँ सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । किन्तु ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । असातावेदनीय आदिका एक समयके अन्तरसे और कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो यह सम्भव है, ओघसे भी यह अन्तर इतना ही उपलब्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान कहा है । परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त ओघसे कहा है । यहाँ भी यह बन जाता है, अतः यह भी ओघके समान कहा है । नपुसकवेद आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल ओघसे कहा है । वह यहाँ भी बन जाता है, अतः यह भी ओघके समान कहा है । तथा पर्याप्त भोगभूमियाके इनका बन्ध नहीं होता और यह काल कुछ कम तीन पल्य है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । अनन्त काल तक तिर्यञ्च पर्यायमें रहते हुए तीन आयु आदिका बन्ध प्रारम्भ न भी हो, क्योंकि तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है और ये एक मात्र तिर्यञ्चायुका ही बन्ध करें । तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । इसी प्रकार तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल अनन्त काल घटित करना चाहिए । तथा इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वसे अधिक नहीं प्राप्त होता । कारण कि तिर्यञ्च पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है । ओघसे भी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है, अतः यह प्ररूपणा ओघके समान की है । तिर्यञ्चगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघसे जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । वह यहाँ बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । तथा नीवें त्रैवैयकमें इकतीस सागर काल तक और वहाँ जानेके पूर्व और बादमें अन्तर्मुहूर्त कालतक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए देव नारकीके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । ओघसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी यह बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । संयमके अभिमुख हुए जीवके देवगति चारका उत्कृष्ट अनु-

५७७. विभंगे पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय--दु०--अप्प-
सत्थ०४--उप०--पंचंत०-- उ० ज० एग०, उ० तेतीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उ०
वेस० । सादा०--दुगदि०--पंचिदि०--दोसरीर०--समचदु०--दोअंगो०--वज्जरि०--दोआणु०-
पर०--उस्सा०--उज्जो०--अप्पसत्थ०--तस०४--थिरादिछ०--उच्चा० उ० णत्थि अंतरं ।
अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । असादा०--सत्तणोक०--अथिरादि०३ उँ० ज० एग०, उ०
तेतीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । णिरय-देवायु० मणजोगिभंगो ।
तिरिक्ख-मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० छम्मासं
देसू० । णिरयगदि--तिण्णिजादि--णिरयाणु०--सुहुम-अपज्जत्त-साधा० उ० अणु० ज०

भागवन्ध होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा ओघसे इनके अनुत्कृष्ट अनु-
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । वह यहाँ बन
जानेसे ओघके समान कहा है । ओघसे चार जाति आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जो अन्तर
कहा है, वह यहाँ भी बन जाता है, अतः यह भी ओघके समान कहा है । तथा नरकमें
और नरकमें जानेके पूर्व और निकलनेके बाद अन्तमुहूर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । औदारिकशरीर
आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए देव नारकीके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा पर्याप्त अवस्थामें भोगभूमिमें इनका बन्ध नहीं
होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । संयमके
अभिमुख हुए जीवके तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है तथा ये ध्रुवबन्धिनी
प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है ।
उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है, अतः
इसके अन्तरका निषेध किया है । तथा इसका नौवें प्रवैयकमें और वहाँ जानेसे पूर्व और वादमें
अन्तमुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक
इकतीस सागर कहा है ।

५७७. विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य-
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, दो गति, पञ्चेन्द्रिय
जाति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी,
परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, सात नोकपाय और अस्थिर आदि तीन
के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर
है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।
नरकायु और देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यच्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनु-
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । नरकगति,

१. ता० प्रतौ पंचंत० उ० तेतीसं इति पाठः । २. ता० प्रतौ उ० वेस० सादि० । दुगदि इति पाठः ।
३. आ प्रतौ अथिरादिछ० उ० इति पाठः ।

ए०, उ० अंतो० । तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०--अप्पसत्थ०-दूभग-
दुस्सर-अणादे०-णीचा० असाद०भंगो । एइंदि०-आदाव-थावर० उ० ज० एग०, उ०
वेसा० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०
उ० अणु० गत्थि अंतरं ।

५७८. आभि०-सुद०--ओधि० पंचणा०--छदंसणा०--सादासाद०--चदुसंज०-

तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चगति, पाँच
संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और
नीचगोत्रका भङ्ग असातावेदनीयके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अनुत्कृष्ट
अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तैजसशरीर,
कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध-
का अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है । इसके प्रारम्भमे और
अन्तमे पाँच ज्ञानावरण आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करानेपर इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । आगे जिन
प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है यह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । सातावेदनीय आदिका
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके
अन्तरका निषेध क्रिया है । इसी प्रकार तैजसशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर न
कहनेका कारण जानना चाहिए । मात्र सातादण्डकमे मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए देव नारकीके जानना चाहिए । ये सब प्रकृतियों और असाता आदि
परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्रमसे तत्प्रायोग्य
संक्लेशयुक्त तिर्यञ्च और मनुष्यके तथा सर्वविशुद्ध मनुष्यके होता है और ऐसे जीवोंके विभङ्ग-
ज्ञानका काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल
मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । तियञ्चायु और मनुष्यायुका
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तिर्यञ्चों और मनुष्योंके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध
देव और नारकियोंके भी सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक
समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है । नरकगति आदि परावर्तमान प्रकृतियों
होनेसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तिर्यञ्चगति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर
असातावेदनीयके समान बन जानेसे वह उससे समान कहा है । ऐशान कल्प तक एकेन्द्रियजाति
आदिका वन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

५७८. आभिनिबोधिकजानी, श्रुतजानी और अवधिज्ञानी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह

१. ता० प्रती षिमि० अणु० इति पाठः ।

पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-जस०-अजस०-
णिमि०-तित्थि०-उच्चा०-पंचंत० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।
अदक० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे० । हस्स-रदि० उ०
ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० । [अणुक०] ओघं । मणुसायु० उ० ज० ए०,
उ० छावट्टि० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० । देवायु० उ० ज०
ए०, उ० छावट्टि० देसू० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० । मणुसगदिपंचग०
उ० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी सादि० दोहि
समएहि० । देवगदि०४-आहारदु० णत्थि अंतरं० । अणु० ज० अंतो०, उ०
तेत्तीसं सादि० ।

दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, ष्वगोत्र और पौव अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय अधिक एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके और साता आदिका क्षपकश्रेणिमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकाल निषेध किया है। तथा इनमें जो परावर्तमान प्रकृतियों हैं उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट ही है। शेष रहीं यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों से उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति होनेके बाद एक समय या अन्तर्मुहूर्त काल तक इन्हें उपशमश्रेणिमें रख कर एक समयवालेका मरण

१. ता० प्रती ए० छावट्टि० इति पाठः । २. ता० प्रती उ० ज० ए० छावट्टि, आ० प्रती उ० ए०, उ० छावट्टि० इति पा ।

५७६. मणपञ्ज० पंचणा०--द्वंदंसणा०--चदुसंज०--पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-
पंचिदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-पसस्थापसत्य०४-देवाणु०-अगु०४-पसस्थवि०-
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ० गत्थि अंतरं । अणु०

कराके और अन्तमुहूर्तवालेको नीचे उतार कर और उनका बन्ध कराके इनके अनुत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त ले आना चाहिए । आठ
कषार्योंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा संयतासंयत और संयतका जघन्य
काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । इन ज्ञानोंकी काय-
स्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो यह सम्भव है, अतः
इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा है । अन्य जिन
प्रकृतियोंका यह अन्तर हो वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा परावर्तमान प्रकृतियों
होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघके समान जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तमुहूर्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । देवके मनुष्यायुका अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्ध करके, पूर्वकोटिके आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अनन्तर तेतीस सागरकी आयुवाला
देव होकर आयुके अन्तमें पुनः मनुष्यायुका बन्ध करने पर मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभाग
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । देवायुके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है सो इसका कारण यह है
कि सम्यक्त्वकी छयासठ सागरसे अधिक जो कायस्थिति बतलाई है उससे कुछ पूर्वकोटियों
ही ली गई हैं और ऐसा जीव नियमसे ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि होता है, अतः उसका अन्तिम भव
देव न होकर मनुष्य ही होगा । किन्तु इस भवमें आयुबन्ध सम्भव नहीं है, अतः इससे देव
भवका अन्तर देकर पिछले मनुष्यभवमें देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराना होगा । विचार
कर देखने पर यह काल छयासठ सागरसे कम होता है, अतः यहाँ देवायुके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । कारण कि प्रथम और तीसरे मनुष्य भवमें देवायुका
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करानेसे और बीचमें तेतीस सागर काल तक देव पर्यायमें रखनेसे यह
अन्तरकाल आ जाता है । एक पूर्वकोटि मनुष्य भवका और दो समय उत्कृष्ट अनुभागबन्धके
इस प्रकार मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय अधिक एक पूर्व-
कोटि कहा है । देवगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होनेसे इसके अन्तरका
निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाने पर उत्तरते समय पुनः
इनका बन्ध अन्तमुहूर्तके अन्तरसे होता है और यदि इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जीव मर
कर तेतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हो जावे तो वहांसे आने पर देवगतिचतुष्कका और
संयम प्रदण करने पर आढारकट्टिकका बन्ध सम्भव है, मध्यमें नहीं, अतः इनके अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है ।

५७६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आद्गोपाद्ग, प्रशस्त
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी अगुस्तबुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थद्वार, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-

ज० उ० अंतो'० । सादासाद०--अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ--जस०--अजस०
णत्थि उ० अंतरं' । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । हस्स-रदि० उ० ज० ए०, उ०
पुव्वकोढी देसु० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । देवायु० उ० अणु० ज० ए०, उ०
पगदि० अंतरं । एवं संजदा० ।

५८०. सामाइ०-छेदो० धुविगाणं उ० अणु० णत्थि अंतरं । सेसाणं मणपज्जव-
भंगो । परिहार० सामाइगच्छेदा० भंगो । सुहुमसंप० सव्वाणं उ० अणु० णत्थि
अंतरं । संजदासंजदे परिहार० भंगो । णवरि अप्पणो पगदीओ णादव्वाओ ।

मुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति
और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । देवायुके उत्कृष्ट और अनु-
त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान
है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
असंयमके अभिमुख हुए जीवके और सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें
होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनका उपशमश्रेणिसे उतरते समय अन्त-
मुहूर्तके अन्तरसे बन्ध कराने पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और असातावेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध असंयमके अभिमुख जीवके होता है, अतः इनके भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धके
अन्तरकालका निषेध किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । कुछ कम पूर्वकाटिके
प्रारम्भमें और अन्तमें हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव होनेसे इसका उत्कृष्ट अन्तर
उक्त प्रमाण कहा है । तथा ये भी परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
अनुभागबन्धका अन्तर एक भवकी अपेक्षा ही घटित किया जा सकता है और प्रकृतिबन्धमें इसका
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण बतलाया है । वही
यहाँ दोनों बन्धोंका वन जाता है, अतः यह प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कहा है । संयत जीवोंमें
मनःपर्ययज्ञानी जीवोंसे इस अन्तर प्ररूपणामें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए वह उनके समान
कही है ।

५८०. सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानके समान है ।
परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थानासंयत जीवोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्म-
साधारणसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं
है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए ।

१. ता० आ० प्रत्योः ज० ए०, उ० अंतो० इति पाठः । २. आ० प्रती णत्थि अंतरं इति पाठः ।

५८१. असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
 पंचंत० उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-
 इत्थिदंडओ णवुंसगर्भगो । सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तसं०४-
 थिरादिद्ध० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ओघं । असादा०-पंचणोक०-अथिर--असुभ-
 अजस०-उ० अणु० ओघं । तिण्णिआयु०-वेउन्वियद्ध०-मणुसगदिपंचग० उं० अणु०
 ओघं । देवायु० उ० अणु० ज० ए०, उ० अणंतका० । चदुजादि-आदाव-यावरादि४
 उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तेतीसं० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थव०४-अणु०-
 णिमि० उ० अणु० णत्थि अंतरं । उज्जो० उ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तेतीसं०
 देसु० । [तित्थय० उ० ओघं । अणु० ज० उ० अंतो० ।] उच्चा० उ० अणु० ओघं ।

विशेषार्थ—जो सामायिक और छेदोपस्थानासंयमके साथ उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके नौवेंके आगे संयम बदल जाता है, अतः यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसका अन्तर काल सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो भङ्ग मनःपर्ययज्ञानीके कहा है वह यहाँ सम्भव है, अतः यह मनःपर्ययज्ञानके समान कहा है। सूक्ष्म-साम्परायसंयममें प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणिमें और अप्रशस्त प्रकृतियोंका उतरते समय अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। परिहारविशुद्धिसंयतोंके सामायिक छेदोपस्थापना संयतोंके समान और संयतासंयतोंके परिहारविशुद्धिसंयतोंके समान अपने अपने स्वामित्वके अनुसार सब व्यवस्था बन जाती है, अतः यह कथन उनके समान कहा है। मात्र जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसे ध्यानमें लेकर यह व्यवस्था बनानी चाहिए।

५८१. असंयतोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यान-गुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेददण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है। असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। तीन आयु, वैक्यिक छह और मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्त्वु और निर्माण के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुद्द कम तेतीस सागर है। तीर्थद्वार प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान

१. ता० प्रथी मणुसगदि० (?) उ० इति पाठः । २. ता० आ० प्रथोः षट्संघ० इति पाठः ।

५८२. चक्खुदं० तसपज्जतभंगो । अचक्खु० ओघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानाचरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । असंयतोंकी कायस्थिति अनन्त काल होनेसे उनके यह अन्तर बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । परन्तु असंयतोंके इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । यहाँ स्त्रीवेददण्डकसे स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र ये १६ प्रकृतियाँ ली गई हैं । इनके तथा स्थानगृद्धि तीन आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर नपुंसकवेदी जीवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, अतः यह उनके समान कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध यहाँ समयके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः यहाँ इसके अन्तर कालका निषेध किया है । तथा ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघके समान जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बन जानेसे वह ओघके समान कहा है । ओघसे असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । यह यहाँ भी सम्भव है, अतः यह ओघके समान कहा है । इसी प्रकार आगे जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट या दोनोंका अन्तर ओघके समान कहा है वह देखकर घटित कर लेना चाहिए । देवायुका असंयतोंके एक समयके अन्तरसे और अनन्त कालके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः इसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । असंयतोंमें तेतीस सागर काल तक नारक पर्यायमें रहते हुए और वहाँसे आकर तथा जानेके पूर्व अन्तमुहूर्त काल तक चार जाति आदिका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तैजस-शरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । नारक सम्यग्दृष्टिके कुछ कम तेतीस सागर काल तक उद्योतका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । संयमके अभिमुख हुए जीवके तीर्थ-ङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः ओघके समान इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा द्वितीय और तृतीय नरकमें जानेवाला जीव मिथ्यादृष्टि होकर इसका अन्तमुहूर्त काल तक बन्ध नहीं करता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

५८२. च्छुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अच्छुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है और अवधिदर्शनी जीवोंमें अचधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—त्रसपर्याप्त प्रायः च्छुदर्शनी होते हैं । मात्र द्विन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीव च्छुदर्शनी नहीं होते । अच्छुदर्शन व्यापक मार्गणा है । इसमें एकेन्द्रियादि सभी जीव सम्मिलित हैं और अवधिदर्शन अवधिज्ञानका सहचर है, अतः च्छुदर्शनी जीवोंका त्रसपर्याप्तकोंके समान, अच्छुदर्शनी जीवोंका ओघके समान और अवधिदर्शनी जीवोंका अचधिज्ञानी जीवोंके समान

५८३. किण्णाए पंचगा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
 पंचंत० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । थीण-
 गिद्धि०३-मिच्छ०---अणंताणुवं०४-णवुंस०--हुंडसंठा०--अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर--
 अणादे०-णीचा० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, अंतोमुहुत्तं लभदि पवि-
 संतस्स । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । सादा०-पुरिस०--हस्स-रदि--पंचि०-
 ओरालि०--समचदु०--ओरालि०अंगो०--वज्जरि०--पर०--उस्सा०--पसत्थ०--तस०४-
 थिरादिद्ध० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।
 असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ०-अजस० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अणु०
 सादभंगो० । इत्थि०--तिरिक्ख-मणुस०-चदुसंठा०-पंचसंघं०-दोआणु०-उच्चा० उ० अणु०
 ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । णिरय-देवायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु०
 ज० ए०, उ० वेस० । तिरिक्ख-मणुसायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज०
 ए०, उ० छम्मासं० देसू० । णिरयग०-देवगदि-चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि४

भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

५८३. कृष्यलेख्यामं पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्र-
 शस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
 है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, नपु-
 सकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है, क्योंकि
 प्रवेश करनेवालेके अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
 है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, पञ्चेन्द्रिय
 जाति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन परघात,
 उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर,
 अशुभ और अयराःकीतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 साधिक तेत्तीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । स्त्रीवेद, तियञ्च-
 गति, मनुष्यगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है । नरकायु
 और देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।
 अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तियञ्चायु
 और मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त
 है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना
 है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट और

उ० अणु० ज० ए०, उ० अंतो०। वेउन्वि०-वेउन्विअंगो० उ० ज० ए०, उ० अंतो० ।
अणु० ज० ए०, उ० वावीसं साग० । [तेजा०-क०-पसत्थवण्ण ४-अणु०-णिमि० उ०
ज० एग०, उक्क० तेतीस देसू० । अणु० ज० एग०, उक्क० वेसम० ।] उज्जो० उ०
ज० अंतो०, उ० तेतीसं देसू० । अणु० ज० एग०, उ० तेतीसं देसू० । तित्थय०
णिरयायुभंगो ।

अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नरकायुके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, अतः यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । कारण कि कृष्णलेश्याके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके इतना अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका अविरत सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता है । अब किसी कृष्णलेश्यावालेने इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके सम्यक्त्व प्राप्त किया और अन्तमु हूतमें पुनः मिथ्यादृष्टि होकर इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत उपलब्ध होता है । यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करनेवालेके अन्तमु हूत प्राप्त होता है यह वचन कहा है । कृष्णलेश्यामें सम्यक्त्वका काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहनेका यही कारण है । मात्र यहाँ सम्यग्दृष्टिके प्रारम्भमें और अन्तमें ही इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तरकाल लाना चाहिए । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा है । और इसा कारण असातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत होनेसे वह सातावेदनीयके समान कहा है । स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपने स्वामित्वके अनुसार नरकमें ही होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यद्यपि स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं पर नरकके सन्मुख कृष्णलेश्यावालेके इनका बन्ध नहीं होता, अतः यह कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तथा सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके मनुष्यद्विक और उच्चगोत्रका और सम्यग्दृष्टिके शेषका बन्ध न होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें कृष्णलेश्याका काल अन्तमु हूत है, अतः यहाँ नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और

५८४. णील-काङ्गणं पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०भय-दु०-तेजा०-क०-पसत्या-
 पसत्य०४-अगु०-उप०णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० ।
 अणु० ज० ए०, उ० वेस० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थिवे०-णवुंस०-
 तिरिक्ख०-पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०--अप्पसत्थ०--दूभग०--सुस्सर-
 अणादे०-णीचा० उ० अणु० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० । सादासाद०-
 पंचणोक०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-
 पर०-उस्सा०--पसत्थवि०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर--आदे०-जस०-

मनुष्यके ही होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। मात्र इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध नरकमें भी होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है। नरकगति आदिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्यके होता है, तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। इसी प्रकार वैक्रियिकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त घटित कर लेना चाहिए। जो जीव सातवें नरकसे निकलेगा वह नियमसे मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च होता है अतः वह पहिले अन्तमुहूर्तमें वैक्रियिकद्विकका वन्ध नहीं कर सकता है और उसके बाद उसके लेश्या बदल जायेगी। किन्तु छठे नरकसे सम्यक्त्व सहित भी निकल सकता है और सम्यक्त्व सहित मनुष्य अपर्याप्त कालमें भी वैक्रियिकद्विकका वन्ध करेगा, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर वार्हस सागर कहा है। तैजसशरीर आदिका सम्यग्दृष्टि नारकीक उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है और ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है और इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा सम्यग्दृष्टिके इसका वन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। कृष्णलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके ही होता है, अतः इसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नरकायुके सनान घटित हो जानेसे वह उसके समान कहा है।

५८४. नील और कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, यज्ञर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परधान, उच्छ्वास, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रयचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग,

अजस०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । चदुआयु०-वेउक्विय-
द्व०-चदुजादि-आदाव-थावरादि०४-तित्थ० किण्णभंगो । णवरि काउ० तित्थ०
णिरयोघं ।

५८५. तेऊए पंचणा०-द्वदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पसत्थ०४-
उप०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वे साग० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० वेसमं० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि०-णडुंस-तिरिक्ख-एइदि०-पंचसंठां०-पंच-
संघ०-तिरिक्खाणु०-आदावुज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ०
अणु० ज० ए०, उ० वे साग० सादि० । सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस०-
थिरादिद्व०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । असादा०पंच-

सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । चार आयु, वैक्रियिक छह, चार जाति, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि कापोतलेश्यामें तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकीके होता है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर कहा है । तथा दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही कहा है । यद्यपि उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तीन गतिके जीवके होता है पर नरकके सन्मुख जीवके नहीं होता । अतः इसे भी दूसरे दण्डकमें परिगणित किया है । साता आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकीके ही होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है और ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । चार आयु आदिका कृष्णलेश्यामें जैसा स्पष्टीकरण किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, अतः यह कृष्णलेश्याके समान कहा है । मात्र सामान्य नारकियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा है वह कापोतलेश्यामें ही घटित होता है, अतः कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान कहा है ।

५८६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदा-
रिकशरीर, अप्रशस्त वर्ण चार, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । सातावेदनीय, पञ्चोन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, पाँच नोकपाय,

णोक०-मणुस०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-अथिर-असुभ-अजस० उ० ज० ए०,
 उ० वे साग० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । तिरिक्व-मणुसायु० देवभंगो ।
 देवायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । देवगदि०४ उ०
 णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । तेजा०-कं०-आहार०दुग-
 पसत्थि०४-अणु०३-वादर--पज्जत्त--पत्ते०--णिमि०--तित्थि० उ० णत्थि अंतरं । अणु०
 एग० । पम्माए पढमदंडए^१ ओरालियअंगोवंगो भाणिद्वो । पंचिदि०-तस० वेउन्वि०
 भंगो^२ । सेसं तेउ०भंगो ।

मनुष्यगति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रवभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अस्थिर, अशुभ
 और अयशःकार्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
 दो सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त
 है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर-
 काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
 दो सागर है । तैजसशरीर, कामणशरीर, आहारकद्विक, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर,
 पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थद्वारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनु-
 भागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक-समय है । पद्मलेश्यामें प्रथम दण्डकमें औदारिक
 आङ्गोपाङ्ग कहलाना चाहिए । पञ्चन्द्रिय जाति और त्रसका भङ्ग वैक्रियिकशरीरके समान है । तथा
 शेष भङ्ग पीतलेश्याके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डक और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
 पीतलेश्याके प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनु-
 भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है, तथा स्त्यानगृद्धि आदिका वन्ध सम्यग्दृष्टिके
 नहीं होता, अतः आदिमें और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर इनका वन्ध करानेसे इनके अनुत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका भी उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर बन जाता है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट
 अनुभागवन्ध ऐसे अप्रमत्तसंयतके होता है जो आगे बढ़ रहा है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभाग-
 वन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनु-
 भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । इसी प्रकार असाता-
 वेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल घाटत कर लेना चाहिए । तथा इनके उत्कृष्ट
 अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए ।
 देवोंके तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
 और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना घटित करके बतला आये हैं । वह यहाँ भी बन
 जाता है, अतः देवोंके समान कहा है । देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयतके होता
 है, और यहाँ पीतलेश्याका काल अन्तमुहूर्त है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट
 अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । देवगतिचारक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी सातावेदनीयके समान
 है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यके साधिक

१. आ० प्रती उ० घेस० साग० तेजाक० इति पाठः । २. आ० प्रती पदमदंडयो इति पाठः ।

३. ता० प्रती उ०कभंगो इति पाठः ।

५८६. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-वारसक०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-
उप०--अथिर--अमुभ--अजस०--पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अट्टारससा० सादि० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-
पंचसंठा०-पचसंध०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे०--णीचा० उ० ज० ए०, उ०
अट्टारससा० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० । सादा०--पंचिदि०-
तेजा०--क०--समचट्टु०--पसत्थ०४-अणु०३-पसत्थवि०--तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-
त्थि०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसायु० उ० अणु०
ज० ए०, उ० छम्मासं देसू० । देवायु० उ० ज० ए०, उ० उक्क० अंतो० । अणु० ज० ए०,
उ० वेसम० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-मणुसायु० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं
देसू० । अणु० ज० ए०, उ० वेस० । देवगदि०४ उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० अंतो०,

दो सागरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । देवगतिके समान तैजसशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है, अतः इनके भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह काल एक समय है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । पद्मलेश्यामे औदारिकशरीरके साथ औदारिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध होता है, क्योंकि इसके एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं होता, अतः यहां औदारिक आङ्गोपाङ्गको प्रथम दण्डकमें परिगणित करनेको कहा है । तथा पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसका भी नियमसे बन्ध होता है, अतः इनका अन्तर वैक्रियिकशरीरके समान प्राप्त होनेसे उसके साथ इनकी परिगणना की है । शेष स्पष्ट ही है ।

५८६. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । मनुष्यगति औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और मनुष्यगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका

उ० तेतीसं० सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० उ० अंतो० ।
वज्जरि० उ० ज० ए०, उ० तेतीसं [देसू०] । [अणु०] ज० ए०, उ० अंतो० ।

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । वज्रर्षभनाराच संहननके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर
है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अन्त-
मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेख्यामें पाँच ज्ञानावरणादिका व स्त्यानगृद्धि तीन आदिका उत्कृष्ट
अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
साधिक अठारह सागर कहा है । तथा प्रथम दण्डकोक्त पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्रेणिकी
अपेक्षा और असातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके परावर्तमान होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तथा दूसरे
दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अन्तिम प्रवेयक तक ही बन्ध होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध कराके
और मध्यमें अबन्धक रखकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । सातावेदनीय आदिका क्षपक
श्रेणिके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसके अन्तरका निषेध किया है । तथा इन सब
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिके अपनी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरणकी अपेक्षा एक समय और
वैसे अन्तमुहूर्त अन्तरकाल उपलब्ध होना सम्भव होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध
देवोंके होता है और वहाँ आयुबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है, अतः यहाँ
मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम छह महीना कहा है । देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मनुष्योंके होता है, अतः इसके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । सर्वार्थसिद्धिके देवके मनुष्यगति
आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध आयुके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्क और
आहारकद्विकका क्षपकश्रेणिके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध
किया है । तथा यहाँ मनुष्योंमें अन्तमुहूर्त और अधिकसे अधिक साधिक
सागरके अन्तरसे इनका अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तके बाद वन्ध कहा है, अतः
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकका क्षपकश्रेणिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और
संहनन सप्त और उत्कृष्ट अन्तर एक समय

५८७. भवसिद्धि० ओघं० । अबभवसि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-
सोलसक०--भय-दु०--तेजा०-क०--पसत्थापसत्थ०४--अगु०-उप०-णिमि०--पंचंत० उ०
ज० ए०, उ० अणतका० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । सादासाद०-छण्णोर्क०-
पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४--थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर-
आदे०-जस०-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । णवुंस०-
ओरालि०--पंचसंठा०--ओरालि०अंगो०--छस्संध०--अप्पस०--दूभग--दुस्सर--अणादे०--
णीचा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । तिण्णिआयु०-
वेउन्वियछ० उक्क० अणु० ज० ए०, उ० अणतका० । तिरिक्खायु० उ० अणु० ओघं ।
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उ णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० एकतीसं
सादि० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ०
असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो । अणु० ज०
ए०, उ० तेतीसं सादि० ।

५८७. भव्योंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, ऋह नोकषाय, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । तीन आयु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—भव्योंमें ओघके समान व्यवस्था बन जाती है, अतः यह ओघके समान कहा है । अभव्योंमें ओघके समान अनन्त कालके अन्तरसे ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध

उ० तेतीसं० सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० उ० अंतो० ।
वज्जरि० उ० ज० ए०, उ० तेतीसं [देसू०] । [अणु०] ज० ए०, उ० अंतो० ।

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है ।
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । वज्रर्षभनाराच संहननके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर
है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अन्त-
मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादिका व स्त्यानगृद्धि तीन आदिका उत्कृष्ट
अनुभागवन्ध सहस्रार कल्प तक होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर
साधिक अठारह सागर कहा है । तथा प्रथम दण्डकोक्त पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्रेणिकी
अपेक्षा और असातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके परावर्तमान होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट अनु-
भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तथा दूसरे
दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अन्तिम प्रवेयक तक ही बन्ध होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-
वन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भमे और अन्तमें बन्ध कराके
और मध्यमें अबन्धक रखकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । सातावेदनीय आदिका क्षपक
श्रेणिमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इसके अन्तरका निषेध किया है । तथा इन सत्र
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिमें अपनी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरणकी अपेक्षा एक समय और
वैसे अन्तमुहूर्त अन्तरकाल उपलब्ध होना सम्भव होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
देवोंके होता है और वहाँ आयुवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है अतः यहाँ
मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम छह महीना कहा है । देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मनुष्योंके होता है, अतः इसके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । सर्वार्थसिद्धिके देवके मनुष्यगति
आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध आयुके प्रारम्भमें और अन्तमे हो यह सम्भव है, इसलिए इनके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्क और
आहारकद्विकका क्षपकश्रेणिमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इसके अन्तरकालका निषेध
किया है । तथा यहाँ मनुष्योंमें कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक साधिक
तेतीस सागरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । किन्तु यहाँ आहारकद्विकका
अन्तमुहूर्तके बाद ही पुनः बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगतिके समान वज्रर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट अनु-
भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए । तथा वज्रर्षभनाराच-
संहनन सप्रतिपक्ष प्रकृति है, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

१. धा० प्रती ज० ए० उ० अंतो० इति पाठः । २. ता० प्रती तेतीसं । दोश्र (धा) गु०
ज० ए० उ० अंतो०, धा० प्रती तेतीसं दोश्राणु० उ० ज० ए० अंतो० इति पाठ ।

५८७. भवसिद्धि० ओघं० । अबभवसि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-
 सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि०--पंचंत० उ०
 ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । सादासाद०-छण्णोक्क०-
 पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-
 आदे०-जस०-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० अंतो । णवुंस०-
 ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-अप्पस०--दूभग-दुस्सर-अणादे०--
 णीचा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । तिण्णिआयु०-
 वेउन्वियछ० उक्क० अणु० ज० ए०, उ० अणतका० । तिरिक्खायु० उ० अणु० ओघं ।
 तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उ णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं०
 सादि० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ०
 असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो । अणु० ज०
 ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

५८७. भव्योमे ओघके समान भङ्ग है । अभव्योमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकषाय, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । तीन आयु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—भव्योमे ओघके समान व्यवस्था बन जाती है, अतः यह ओघके समान कहा है । अभव्योमे ओघके समान अनन्त कालके अन्तरसे ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध

५८८, खड्ग० पंचणा०--छदंसणा०--असादा०--चदुसंज०--पंचणोक०--अप-
सत्थ०४--उप०--अथिर-असुभ-अजस०--पंचंत० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सादादिदंडओ ओघो । अट्टक० उ० णाणा०भंगो ।
अणु० ओघो । मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, उ० छम्मासं देसू० । देवायु० उ०
अणु० ज० ए०, उ० पुव्वकोडितिभागा देसू० । मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ०
तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । देवगदि०४--आहारदु० उ० णत्थि
अंतरं । अणु० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । एक तिर्य-
ञ्चायुको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर प्राप्त होता है, अतः वह
ज्ञानावरणके समान कहा है । सातावेदनीय आदि सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मनु-
सकवेद आदिका भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्थामें बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध
का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । एकेन्द्रिय अवस्थामें अनन्तकाल तक तीन आयु
और वैक्रियिक छहका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त
काल कहा है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
अनन्तकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सौ
सागर पृथक्त्वप्रमाण ओघसे कह आये हैं । वह यहाँ सम्भव होनेसे ओघके समान कहा है । नौवें
त्रैवैयकमे और अन्तर्मुहूर्त काल तक आगे पीछे तिर्यञ्जगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, अतः इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । अग्निकायिक और वायु-
कायिक जीवोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध कहीं होता और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात
लोकप्रमाण है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा
है । चार जाति आदिका नरकमे और अन्तर्मुहूर्त तक आगे पीछे बन्ध नहीं होता, अतः इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है ।

५८८. क्षायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार
संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । सातादिदण्डका भङ्ग ओघके समान है । आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका
अन्तर ज्ञानावरणके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह
महीना है । देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगति चतुष्क और आहारकद्विकके
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—क्षायिकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इसके प्रारम्भमें

५८६. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०--पुरिस०--भय-दु०-अप्पसत्थ०४-
उप०-पंचंत० उ० अणु० णत्थि अंतरं । सादा०-थिर-सुभ-जस० उ० ज० ए०, उ०
छावट्टि० देसू० सत्थाणे । अथवा णत्थि अंतरं । यदि दंसणमोहक्खवगस्स उक्कस्स-
सामित्ते^१ णत्थि अंतरं । अथापवत्तसंजदस्स कीरदि तदो छावट्टि सा० देसू० । अणु०
ज० ए०, उ० अंतो० । असादा०-अरदि०-सोग०-अथिर-असुभ-अजस० उ० णत्थि
अंतरं । अणु० सादभंगो । अट्टक० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ओघं । णवरि ज०

और अन्तमें यथा सम्भव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और बीचमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र देवगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर लाते समय बीचमें उनका बन्ध न करावे। उसमें भी देवगतिचतुष्क और आहारकद्विककी उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्ति करावे और अन्तर्मुहूर्तकालतक वहाँ रखकर इनका बन्ध होनेके पहले सरण करावे। तथा तेतीस सागर आयु तक देवपर्यायमें रखकर देवगतिचतुष्कका तो मनुष्य होनेके प्रथम समयसे बन्ध करावे और आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत होनेपर बन्ध करावे। यहाँ भी अधिकसे अधिक काल बाद संयम धारण करावे। पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्रेणिमें कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तकालतक बन्ध न होनेसे तथा असातावेदनीय आदिका इसके पूर्व बन्ध न होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। किन्तु जिसने असातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंकी छठे गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति की है उसे अप्रमत्तसंयत होनेके बाद उपशमश्रेणिमें ले जाकर पुनः उतारकर इनका बन्ध करावे और जघन्य अन्तर एक समय परावर्तन द्वारा प्राप्त करे। सातादण्डकमें सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्थङ्कर ये प्रकृतियों ली गई हैं। इनका ओघसे जो अन्तर कहा है वह यहाँ वन जानेसे यह ओघके समान कहा है। आठ कषायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका ओघसे जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। वह यहाँ भी घटित होता है, अतः यह ओघके समान कहा है। यहाँ मनुष्यायुका देवोंके और देवायुका मनुष्योंके बन्ध होता है। अतः मूलमें जो अन्तर कहा है उसकी स्वामित्वके अनुसार संगति विठा लेनी चाहिए। सर्वार्थसिद्धिमें प्रारम्भमें और अन्तमें मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है।

५८६. वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्रलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचार, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर स्वस्थानमें कुछ कम छयासठ सागर है। अथवा अन्तर काल नहीं है। यदि दर्शनमोहनीयके क्षपकके उत्कृष्ट स्वामित्व करते हैं तो अन्तरकाल नहीं है। और अधःप्रवृत्तके करते हैं तो कुछ कम छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का भङ्ग सातावेदनीयके समान है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

अंतो० । हस्स-रदि उ० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।
 दोआयु० उ० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
 मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । अणु० ज० ए०, उ० पुण्वकोडी
 सादि० । देवगदि०४—आहारदु० उ० मणुसगदिभंगो । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं
 सां० । णवरि आहारदुगं तेत्तीसं सादि० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४—
 अगु०३-पसत्थ०-तस०४—सुभग—सुस्सर--आदे०--णिमि०--तित्थ०--उच्चा० उ० णत्थि
 अंतरं । अथवा तेत्तीसं० सादि०, छावट्टि० देसू० । अणु० ए० । अथवा ज० ए०,
 उ० वेसम० ।

अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्त-
 मुं हूर्त है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
 अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
 उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है । दो आयुओके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
 है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभाग-
 बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । अनुत्कृष्ट
 अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि
 है । देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है ।
 अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है ।
 इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति,
 तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायो-
 गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभाग-
 बन्धका अन्तरकाल नहीं है । अथवा साधिक तेतीस सागर और कुछ कम छयासठ सागर है ।
 अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । अथवा जघन्य अन्तर एक
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वमे ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख
 हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया
 है । वेदकसम्यक्त्वके प्रारम्भमें और अन्तमें सातादिकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें
 न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर
 कहा है । अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह भी इसी प्रकार घटित करना चाहिए ।
 किन्तु यह अन्तर स्वस्थान की अपेक्षा कहा है । अर्थात् स्वस्थान अधःप्रवृत्तसंयत यदि उत्कृष्ट
 अनुभागबन्ध करता है तो ही जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ
 सागर बनता है । और यदि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो
 इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः
 इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त कहा
 है । असातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम
 समयमें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा परा-

५६०. उवसम० अदक०-देवगदि०४-आहारदु० उ० गत्थि० अंतरं । [अणु० ज० उ० अंतो० । हस्स-रदि० उ०] अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । सेसाणं उ० गत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

वर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरके निषेधका यही कारण है जो असातावेदनीयका कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान देखकर यह ओघके समान कहा है । मात्र यहाँ आठ कषायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय सम्भव न होकर अन्तमुहूर्त है, अतः यह अलगसे कहा है । इसका कारण यह है कि ओघसे इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव होनेसे ध्रुवबन्धिनी होने पर भी इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय बन गया था पर यहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं है, इसलिए संयतासंयत और संयत गुणस्थानका जघन्य काल ही यहाँ जघन्य अन्तर समझना चाहिए । हास्य और रति परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । देवायुका मनुष्योंके और मनुष्यायुका देवोंके बन्ध होता है और दोबार प्रत्येक आयुके बन्धमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है, अतः दोनों आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण हम आभिनिबोधिक मार्गणामे कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार साधिक पूर्वकोटि अन्तरकाल घटित हो वैसा करना चाहिए । देवगति चतुष्क और आहारकद्विकका देवोंके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर कहा है । परन्तु आहारकद्विकका संयम की प्राप्तिके पूर्व मनुष्योंके भी बन्ध नहीं होता, अतः यह साधिक तेतीस सागर कहा है । दर्शनमोहनीयकी क्षणिके अभिमुख हुए जीवके पञ्चन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । और यदि स्वस्थानमें इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मानते हैं तो उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पञ्चन्द्रियजाति आदिका कुछ कम छयासठ सागर और तीर्थङ्कर प्रकृतिका साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल एक समय मानने पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर एक समय प्राप्त होता है और जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय मानने पर जघन्य अन्तर एक समय उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता है सो विचार कर आगमके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए ।

५९०. उपशमसम्यक्त्वमे आठ कषाय, देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । हास्य व रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वमे मनुष्यगतिपञ्चकका सर्वविशुद्ध देव नारकीके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बन जाता है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं बनता । कारण स्वाभित्वको देखकर

५६१. सासणे पंचणा०--णवदंसणा०--सोलसक०--भय-दु०-तिगदि-पंचिदि०-
चदुसरीर०--समदु०--दोअंगो०--वज्जरि०--पसत्थापसत्थ०४--तिण्णिआणु०--अगु०४--
पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-णीचुच्चा०-पंचंत० उ० अणु० णत्थि
अंतरं । तिण्णिआउ० उ० ज० ए०, [उ० अंतो० । अणु० ज० ए०] उ० वेसम० ।
हस्स-रदि० उ० अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज०
ए०, उ० अंतो० । अथवा सासणे पंचणा०-णवदंसणा०--सोलसक०-भय-दु०-तिण्णि-
आउ०-पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४--अगु०४--तस०४--णिमि०-पंचंत० उ०
ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । सेसाणं उ० अणु० ज० ए०,
उ० अंतो० ।

५६२. सम्मामि० धुविगाणं उ० अणु० णत्थि अंतरं । सेसाणं सासण०भंगो ।

जान लेना चाहिए । तथा प्रथम दण्डक व मनुष्यगतिपञ्चकको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त अलग अलग कारणसे बन जाता है । कारणका खुलासा प्रकृतिको देखकर कर लेना चाहिए ।

५६२. सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहतन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अथवा सासादनमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन आयु, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ सासादनमें पहले तीन आयु और हास्य-रतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध ऐसे परिणामोंसे और ऐसे समयमें मानकर अन्तरका निर्देश किया है जिससे उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ही सम्भव नहीं । ऐसी अवस्थामें जो ध्रुवबन्धिनी हैं उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका तो अन्तर बनता ही नहीं । हों जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका इस कारणसे अवश्य ही अन्तर बन जाता है अतः वह जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त होनेसे उक्त प्रमाण बतलाया है । इसके बाद विकल्परूपसे सब प्रकृतियोंका जो अन्तर कहा है वह पहले निर्दिष्ट स्वामित्वको ध्यानमें रख कर कहा है । शेष स्पष्ट ही है ।

५६२. सम्यग्मिथ्यात्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । मिथ्यादृष्टि

मिच्छादिद्वी० मदिभंगो^१ । सण्णी० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णी० धुविगाणं उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । चटुआउ०-वेउन्वियछ०-मणुस०३ तिरिक्वोघो । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

५६३. आहारगे पंचणा०-छदंसणा०--असादा०--चदुसंज०--सत्तणोक०-अप्प-सत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । अणु० ओघं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०---अणंताणुवं०४-इत्थि० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । सादादिदंडओ ओघो । अट्टकसा० उ० णाणा०भंगो । अणुकस्सं ओघं । णवुंसगदंडओ उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । तिण्णिआयु^२०-णिरय-मणुस०-

जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । संज्ञी जीवोंका पञ्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-सुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ अप्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके और प्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका जैसा सासादनमे अन्तरकाल कहा है वैसा यहाँ भी बन जाता है, अतः यह उसके समान कहा है । मत्यज्ञानी मुख्यरूपसे मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, अतः मिथ्यादृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान बन जानेसे उनके समान कहा है । संज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी मुख्यता है, अतः संज्ञियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान कहा है । असंज्ञियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । मात्र चार आयु आदिके भङ्गको सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहनेका कारण भिन्न है सो जान कर समझ लेना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५६३. आहारकोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्त-सयके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीय आदि दण्डक ओघके समान है । आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेददण्डकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तीन आयु, नरकगति, मनुष्यगति और दो

१. ता० प्रतौ सेसाणं मिच्छादिद्विमदिभंगो इति पाठः । २. ता० प्रतौ भंगो तिरिय्यायु० इति पाठः ।

दोआणु० उ० अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । तिरिक्वाउ० उ० णाणा०-
 भंगो । अणु० ओघं । देवगदि०४ उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंगुल०
 असंखे० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं ।
 चट्टुजादि-आदाव-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । उज्जो० उ० ज० अंतो०,
 उ० अंगुल० असं० । अणु० ओघं ।

एवमुक्त्स्समंतरं समत्तं ।

आनुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । देवगति चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्षभ-
 नाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का अन्तर ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावरःआदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है ।

विशेषार्थ—आहारकोंकी कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसके प्रारम्भमें और अन्तमें ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आगे जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । स्त्रीवेद आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर यहाँ भी बन जाता है, अतः यह ओघके समान कहा है । सातादिदण्डक, आठ कषाय और नपुंसकवेददण्डकका भी जो अन्तर ओघके समान कहा है वह इसी प्रकार ओघके अनुसार घटित कर लेना चाहिए । तिर्यञ्चायु का अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक सौ सागर-
 प्रथक्त्वके अन्तरसे आहारकके अवश्य ही होता है । ओघसे यह अन्तर इतना ही है, अतः यह भी ओघके समान कहा है । देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरका निषेध किया है । तथा आहारकके इनका बन्ध अङ्गुलके असंख्यातवें भाग काल तक न हो यह सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । आहारकके औदारिकशरीर आदिका ओघके समान उत्कृष्टसे साधिक तीन पल्य तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान कहा है । इसी प्रकार यहाँ चार जाति आदिका ओघके समान अधिकसे अधिक एकसौ पचासी सागर तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान कहा है । उद्योतका सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है और इसका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इसका अधिकसे अधिक एक सौ त्रेसठ सागर तक बन्ध नहीं होता । ओघसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है । अतः यह भी ओघके समान कहा है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर समाप्त हुआ ।

५६४. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-
 पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० अणुभागं० केवचि० ? णत्थि
 अंतरं । अज० ज० एग०, णिहा-पचला० ज० अंतो०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि०३-
 मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० अद्धपोग्गल० । अज० ज० अंतो०, उ०
 वेद्धावट्ठि० देसू० । सादासाद०-समचदु०-पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-
 आदे०-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ०
 अंतो० । अट्ठक० ज० ज० अंतो०, उ० अद्धपोग्गल० । अज० ज० अंतो०, उ०
 पुव्वकोढी देसू० । इत्थिवे० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ०
 वेद्धावट्ठि० देसू० । णवुंस० ज० इत्थि०भंगो । अज० अणु०भंगो । अरदि-सोग० ज०
 ज० ए०, उ० अद्धपोग्गल० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । तिण्णिआयु०-वेउव्वि०३०
 ज० अज० ज० ए०, उ० अणंतका० । तिरिक्खाउ० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा
 लोगा । अज० ज० ए०, उ० सागरोवमंसदपुधत्तं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुं० ज० ज०

५६४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका कितना अन्तर है ? अन्तर नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, निद्रा और प्रचलाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । नपुसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीन आयु और वैक्रियिक छहके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य

१. ता० प्रती पंचंत० अणुभाग० इति पाठः । २. आ० प्रती अज० ज० सागरो० इति पाठः ।

३. ता० प्रती पुधत्तं । तिरिक्खाणु० इति पाठः ।

अंतो०, उ० अद्भुतगल० । अज० ज० ए०, उ० तेवदिसागरोवमसदं । मणुसाण०-
मणुसाणु०-उच्चा० ज० अज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-थावरादि०४
ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं ।
पंचिदि०--तेजा०-क०--पसत्थवण्ण०४--अगु०३--तस०४--णिमि० ज० ज० ए०, उ०
अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज०
ए०, उ० अणंतकाल० । अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० । आहारदुग०
ज० अज० ज० अंतो०, उ० अद्भुतगल० । पंचसंठा०--पंचसंघ०-अप्पस०-दुभग-
दुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० अणु०भंगो । वज्जरि०
ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० ।
आदाव० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरो-
वमसदं० । उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० तेवदि-

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्च-
गत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल
परिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
एकसौ त्रैसठ सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार
जाति और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । औदारिकशरीर और औदारिक आज्ञोपाङ्गके जघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनु-
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । आहारकद्विकके
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल
परिवर्तन प्रमाण है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और
अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात
लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । वज्रर्पभनाराचसंहननके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य
है । आतपके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल
है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी
सागर है । उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त
काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ

१. ता० प्रती थावरादि० ज० ए० इति पाठः । २. आ० प्रती अंगो० ज० ज० ए०, उ० तिर्यिण
इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः साग० पंचसदं इति पाठः ।

सागरोवमसदं । णीचा० ज० ज० अंतो०, उ० अद्दपोगल० । अज० ज० ए०, उ०
वेद्यावद्वि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० ।

सागर है । नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर है ।

विशेषार्थ—तीर्थङ्करके सिवा यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयके लिए इनका अबन्धक होकर मरकर देव होनेपर पुनः इनका बन्ध होने लगता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । मात्र निद्रा और प्रचलाकी उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्ति होने पर अन्तमुहूर्तकालतक मरण नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । उपशम-श्रेणिकी अपेक्षा इन सबके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । संयमके अभिमुख हुए मनुष्यके मिथ्यात्व आदिका जघन्य अनुभागबन्ध होता है और संयमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा मिथ्यात्वका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है और ऐसे परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे होते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । आगे भी श्लोच और आदेशसे जहाँ जो प्रकृतियों हों उनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए । क्योंकि परावर्तमान प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तकालके अन्तरसे नियमसे बन्ध होता है । यद्यपि समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, सुस्वर और आदेयका मिश्रगुण-स्थानसे आगे नियमसे बन्ध होता है और वहाँ ये परावर्तमान नहीं रहतीं, फिर भी उपशम-श्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति होने पर वहाँ भी मरणकी अपेक्षा एक समय और आरोहण-अचरोहणकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त तक इनका बन्धाभाव देखा जाता है, इसलिए इस दृष्टिसे भी इनका यही अन्तर प्राप्त होता है । संयमके अभिमुख हुए जीवके अपनी अपनी व्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें मध्यकी आठ कषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है और संयमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । तथा संयमासंयम और संयमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । ऋग्वेदका जघन्य अनुभागबन्ध संज्ञी पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है और इस पर्यायका

उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है, अतः स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। यहाँ जघन्य अनुभागवन्धके वाद एक समयतक अजघन्य अनुभागवन्ध हो कर पुनः जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है इतना विशेष जानना चाहिए। तथा आगे भी जहाँ जिस प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार अजघन्य अनुभागवन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय ले आना चाहिए। मात्र जहाँ कुछ विशेषता होगी उसका हम स्वयं स्पष्टीकरण करेंगे। जहाँ विशेषता न होगी उसे स्पष्टीकरण किये बिना छोड़ते जावेंगे। स्त्रीवेदके अजघन्य अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा स्त्यानगृद्धि तीनके समान है। नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी स्त्रीवेदके समान है, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर स्त्रीवेदके समान कहा है। तथा नपुंसकवेदका अधिकसे अधिक बन्ध तीन पत्य अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण बतला आये हैं। यह अन्तर यहाँ भी बन जाता है, अतः यह अनुत्कृष्टके समान कहा है। अरति और शोकका जघन्य अनुभागवन्ध प्रमत्तसंयत जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। एकेन्द्रिय पर्यायमें निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्त है। इतने काल तक इस जीवके तीन आयु और वैक्रियिकषट्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। तिर्यञ्चायुका जघन्य अनुभागवन्ध अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे नियमसे होता है, क्योंकि अनुभागवन्धके योग्य परिणाम ही इतने हैं, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है और तिर्यञ्चायुका बन्ध अधिकसे अधिक सौ सागर पृथक्त्व कालके अन्तरसे नियमसे होता है, क्योंकि यदि कोई जीव निरन्तर अन्य तीन गतियोंमें परिभ्रमण करता है तो वह उन गतियोंमें अधिकसे अधिक इतने काल तक ही रहता है उसके वाद वह नियम से तिर्यञ्च होता है ऐसा नियम है, अतः तिर्यञ्चायुके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवीं पृथिवी का नारकी करता है, यतः पुनः इस अवस्थाके उत्पन्न होनेमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और उस अवस्थाके पुनः उत्पन्न होनेमें अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल लगता है अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा अधिकसे अधिक एक सौ त्रेसठ सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अग्नि और वायुकायिक जीवोंके इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनके जघन्य अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण पाँच संस्थान आदिके अन्तरके स्पष्टीकरणके समय करेंगे। चार जाति और स्थावर आदि चारका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है और ऐसे परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे होते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इनका बन्ध अधिकसे अधिक एकसौ पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। पञ्चन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनु-

भागवन्ध चारों गतिके जीव संक्लेश परिणामोंसे करते हैं। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और अनन्त कालके अन्तरसे भी ही सकते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इसी प्रकार औदारिक शरीरद्विकके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए। इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक समय तक बन्ध नहीं होता और जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य भर कर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके साधिक तीन पत्य तक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पत्य कहा है। आहारकद्विक का कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनके अन्तरसे बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। पाँच संस्थान आदि प्रकृतियोंका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण काल तक जघन्य अनुभागवन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। यहाँ एक बात अवश्य ही विचारणीय है कि पाँच संस्थान आदिका जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतिका संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करता है। ऐसा स्वामित्व परूपणासे ज्ञात होता है और पञ्चेन्द्रिय पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल अर्थात् असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण क्यों नहीं कहा है? जो प्रश्न इन प्रकृतियोंके इस अन्तरके विषयमें उठता है वही प्रश्न मनुष्यगतिद्विक, वज्रर्षभनाराच संहनन और उच्चगोत्रके विषयमें भी उठता है। साधारणतः यह समाधान किया जा सकता है कि अनुभागवन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं, इसलिए यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु यह उत्तर तो तब सम्भव था जब इस अन्तरमें पर्यायकी मुख्यता न होती और परिणामोंकी मुख्यता होती। ऐसा विदित होता है कि इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामित्वके निर्देशमे या तो कुछ गड़बड़ है या फिर इस विषयमे दो सम्प्रदाय रहे हैं, अतएव एक सम्प्रदायका संग्रह स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया है और दूसरा यहाँ अन्तर प्रकारणमें उल्लिखित किया है। आगे इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त बतलाया है। यह तभी सम्भव है जब एकेन्द्रियोंको भी इनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी माना जावे। इससे भी हमारे कथनकी पुष्टि होती है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल अनुकृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। वज्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य अनुभागवन्ध का अन्तर पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा इसके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर जिस प्रकार औदारिकशरीरके अजघन्य अनुभागवन्ध का अन्तर घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। आतपका जघन्य अनुभागवन्ध देव और उद्योतका जघन्य अनुभागवन्ध देव और नारकी करते हैं। इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तथा आतपका १८५ सागर तक और उद्योतका १६३ सागर तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे १८५ और १६३ सागर कहा है। नीचगोत्रका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी करता है। यह अवस्था कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके अन्तरसे प्राप्त होती है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा जो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ कुछ कम तीन पत्य तक और दो छयासठ

५६५. गिरएसु ध्रुविगणं ज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं० देसू० । सादासाद०--पंचणोक०--समचदु०-वज्जरि०--पसत्थवि०-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० [ज०] ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० छम्मासं देसू० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं देसू० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वावीसं सा० देसू० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । तित्थि० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिसाग० सादि० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-दोगदि०-दोआणु०-दोगोद० ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं [देसू०] । इसु उवरिमासु गिरयोघं ।

सागर काल तक मध्यमे सम्यग्मिथ्यात्व होकर सम्यक्त्वके साथ रहने पर इतने काल तक नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है ।

५६५. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । खीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, दोगति, दो आयुपूर्वी और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य

णवरि तिरिक्खग०३ णवुंसगभंगो । मणुसग०३ पुरिसभंगो ।

५६६. तिरिक्खेसु पंचणा०-द्धंसणा०--अट्टक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
पंचंत० ज० ज० ए०, उ० अद्धपोगल० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । थीण-
गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ओघं । अज० ज० अंतो०, उ० तिण्णिपलि०
दे० । साददंडओ ओघो । अप्पच्चक्खा०४ ओघं । इत्थि० ज० ओघं । अज० ज०
ए०, उ० तिण्णिपलि० दे० । णवुंस०-तिरिक्खग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-तिरि-

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पहलेकी छह पृथिवियोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेद प्रकृतिके समान है और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग पुरुषवेद प्रकृतिके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ अन्य सब खुलासा स्वामित्वको देखकर जान लेना चाहिए । जो विशेषताएँ कही हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं । सातवें नरकमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका जघन्य अनुभाग-बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है । सामान्य नारकियोंमें यही अन्तर स्त्यानगृद्धि आदि व तिर्यञ्चगति आदि कुल ग्यारह प्रकृतियोंका कहा है । यहाँ यह सब अन्तर एक समान होनेसे इसको एक साथ कहा है । मात्र स्त्यानगृद्धि आदि ११ का मिथ्यात्वमें बन्ध कराते हुए और मनुष्यगति आदि तीनका सम्यक्त्वमें बन्ध कराते हुए क्रमशः सम्यक्त्व और मिथ्यात्वमें जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तक रखकर यह अन्तर लाना चाहिए । तथा प्रारम्भ की छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका मिथ्यात्व और सासादनमें तथा मनुष्यगतित्रिकका चतुर्थ गुणस्थान तक बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका सामान्य नारकियोंके जो अन्तर कहा है उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, क्योंकि वहाँ वह सातवें नरककी मुख्यतासे कहा गया है । विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है । बात यह है कि सम्यक्त्वके होने पर मनुष्यगतित्रिकका ही बन्ध होता है, अतः पुरुषवेदके समान इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने नरककी कुछ कम आयुप्रमाण और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त बन जाता है । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता । यही हाल नपुंसक-वेदका है, अतः इनका नपुंसकवेदके समान अन्तर कहा है । प्रत्येक पृथिवीमें अन्तरकाल कहते समय जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए यहाँ इतनी और विशेषता जाननी चाहिए ।

५६६. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । सातादण्डकका भङ्ग ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिक

५६५. गिरएसु ध्रुविगाणं ज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं० देसू० । सादासाद०--पंचणोक०--समचदु०-वज्जरि०--पसत्थवि०-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० [ज०] ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० छम्मासं देसू० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं देसू० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वावीसं सा० देसू० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । तित्थि० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिसाग० सादि० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-दोगदि०-दोआणु०-दोगोद० ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेतीसं [देसू०] ।

सागर काल तक मध्यमे सम्यग्मिथ्यात्व होकर सम्यक्त्वके साथ रहने पर इतने काल तक नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है ।

५६५. नारकियोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, बज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, चशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थह्वर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, दोगति, दो आयुपूर्वी और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य

णवरि तिरिक्खग०३ णवुंसगभंगो । मणुसग०३ पुरिसभंगो ।

५६६. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०--अट्टक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
पंचंत० ज० ज० ए०, उ० अद्धपोगल० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । थीण-
गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ओघं । अज० ज० अंतो०, उ० तिण्णिपलि०
दे० । साददंडओ ओघो । अप्पच्चक्खा०४ ओघं । इत्थि० ज० ओघं । अज० ज०
ए०, उ० तिण्णिपलि० दे० । णवुंस०-तिरिक्खग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-तिरि-

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पहलेकी छह पृथिवियोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेद प्रकृतिके समान है और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग पुरुषवेद प्रकृतिके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ अन्य सब खुलासा स्वामित्वको देखकर जान लेना चाहिए । जो विशेषताएँ कही हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं । सातवें नरकमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका जघन्य अनुभाग-बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है । सामान्य नारकियोंमें यही अन्तर स्त्यानगृद्धि आदि व तिर्यञ्चगति आदि कुल ग्यारह प्रकृतियोंका कहा है । यहाँ यह सब अन्तर एक समान होनेसे इसको एक साथ कहा है । मात्र स्त्यानगृद्धि आदि ११ का मिथ्यात्वमें बन्ध कराते हुए और मनुष्यगति आदि तीनका सम्यक्त्वमें बन्ध कराते हुए क्रमशः सम्यक्त्व और मिथ्यात्वमें जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तक रखकर यह अन्तर लाना चाहिए । तथा प्रारम्भ की छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका मिथ्यात्व और सासादनमें तथा मनुष्यगतित्रिकका चतुर्थ गुणस्थान तक बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका सामान्य नारकियोंके जो अन्तर कहा है उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, क्योंकि वहाँ वह सातवें नरककी मुख्यतासे कहा गया है । विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है । बात यह है कि सम्यक्त्वके होने पर मनुष्यगतित्रिकका ही बन्ध होता है, अतः पुरुषवेदके समान इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अपने अपने नरककी कुछ कम आयुप्रमाण और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त बन जाता है । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता । यही हाल नपुंसक-वेदका है, अतः इनका नपुंसकवेदके समान अन्तर कहा है । प्रत्येक पृथिवीमें अन्तरकाल कहते समय जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए यहाँ इतनी और विशेषता जाननी चाहिए ।

१६६. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । सातादण्डकका भङ्ग ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिक

क्त्वाणु०-आदावुज्जो०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०,
 उ० पुव्वकोडी दे० । पंचणोक० ज० ज० ए०, उ० अद्दपोगल० । अज० साद-
 भंगो । तिण्णिआउ० ज० अज० उक्कस्सभंगो । तिरिक्त्वाउ० ज० ओघं । अज०
 ज० ए०, उ० पुव्वकोडी सादिं० । वेउव्वियद्ध०-मणुस०३ ज० अज० ओघं । चदुजादि-
 पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज०
 ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ओघं । अज०
 सादभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०-णिमि० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ०
 वेसम० ।

आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । पाँच नोकपायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । तीन आयुके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्ट प्ररूपणके समान है । तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयतासंयतके होता है । और संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । तथा एक समयके अन्तरसे इनका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए वह एक समय कहा है । इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । आगे सर्वत्र चौदह मार्गणाओ और उनके अवान्तर भेदोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध का जघन्य अन्तर एक समय कहा हो और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा हो वहाँ कालका विचार कर यह अन्तर ले आना चाहिए । यदि कहीं इससे भिन्न कोई विशेषता होगी तो हम उसका अलगसे निर्देश करेंगे । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका सम्यग्दृष्टिके वन्ध नहीं होता और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, अतः यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य कहा है । मात्र यहाँ तिर्यञ्च

१. ता० प्रती ज० ज० ए० अणंतका० इति पाठः । २. आ० प्रती पुव्वकोटिदे० इति पाठः ।

३. ता० आ० प्रयोः ज० ज० ओघं इति पाठः ।

५६७. पचि०तिरि०३ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०,
 उ० पुव्वकोडिपुधत्तं० । अज० तिरिक्खोघं । सादासाद०-थिरादितिण्णियुग० ज०
 ज० ए०, उ० तिण्णि० पलि० पुव्वकोडिपुधत्ते० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
 अपच्चक्खाणा०४ ज० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडिपुधत्तं० । अज० ज० अंतो०; उ०
 पुव्वकोडी देसू० । इत्थि० ज० सादभंगो । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देसू० ।
 सेसं उक्क०भंगो ।

पर्यायमें ही सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें ले जाकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रीवेदके अजघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति अनन्त काल होनेसे यहाँ नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुभागबन्ध करा कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा कर्मभूमिमें तिर्यञ्चके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है और ऐसे तिर्यञ्चके नपुंसकवेद आदिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तिर्यञ्च अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें संयतासंयत होकर पाँच नोकषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध करे यह सम्भव है अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है यह स्पष्ट ही है। उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तर बतला आये हैं वही यहाँ क्रमसे जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर प्राप्त होता है, अतः यह प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान कही है। ओघसे तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही कहा है, अतः इसे जिस प्रकार वहाँ घटित करके बतला आये हैं उसप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। जो तिर्यञ्च पूर्वकोटिके त्रिभागमें तिर्यञ्चायुका बन्ध करके मरता है और पुनः तिर्यञ्च होकर पूर्वकोटिमें अन्तमुहूर्त शेष रहने पर तिर्यञ्चायुका बन्ध करता है उसके साधिक एक पूर्वकोटि काल तक तिर्यञ्चायुका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट है। यह देख कर यहाँ तिर्यञ्चायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चके चार जाति आदिका बन्ध नहीं होने से इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि ओघ प्ररूपणामें उसका स्पष्टीकरण कर आये हैं। इस लिए वहाँ देख कर यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए।

५६७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। शेष भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें संयमासंयमके अभिमुख तिर्यञ्चके ही स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य

५६८. पंचि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०-भय-दु०-
ओरालि०-तेजा०-क०-ध्रुविगाणं ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ०
वेसम० । सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उक्क० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणं ।

अनुभागबन्ध होता है, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व-प्रमाण कहा है । तथा सामान्य तिर्यञ्चोमे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च-त्रिककी मुख्यतासे ही प्राप्त होता है, अतः यह सामान्य तिर्यञ्चोके समान कहा है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थितिकी देखकर इनमें सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है और कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें यह बन्ध हो यह सम्भव है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । जिस तिर्यञ्चने संयमासंयमके अभिमुख होकर अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध किया है और अन्तमुहूर्तके बाद पुनः नीचे आकर अति शीघ्र संयमासंयमको ग्रहण करनेके पूर्व पुनः जघन्य अनुभागबन्ध किया है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर उपलब्ध होता है, और जो कायस्थितिके प्रारम्भ में और अन्तमें संयमासंयमको ग्रहण करते हुए जघन्य अनुभागबन्ध करता है उसके इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध होता है, अतः यहां इनके जघन्य अनुभागबन्ध का जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण कहा है । तथा संयमासंयमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागबन्ध अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है । सातावेदनीयका भी यह जघन्य अनुभागबन्ध इसी प्रकार सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । तथा उत्तम भोगभूमिमें प्रारम्भमें और अन्त में जो मिथ्यादृष्टि है और मध्यमे कुछ कम तीन पल्य तक जो सम्यग्दृष्टि है उसके इतने काल तक स्त्रीवेदका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । यहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर कहा है उनके सिवा जो शेष प्रकृतियाँ बचती हैं उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरमें उत्कृष्ट प्ररूपणा के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरसे कोई विशेषता नहीं है, अतः यह उत्कृष्ट प्ररूपणाके समान कहा है ।

५६८. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर और कामणशरीर आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सब अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तमुहूर्त है, अतः यहां ध्रुव प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरको छोड़कर शेष सब उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मात्र ध्रुव प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः यहां अजघन्य अनु-

५६६. मणुस०३ खविगोणं ज० णत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । आहार-
दु० ज० अज० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटिपुथ० । तित्थय० ज० णत्थि अंतरं ।
अज० ज० उ० अंतो० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खिभंगो । णवरि तेजा०-क०-पसत्थ-
वण्ण०४-अगु०-णिमि० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६००. देवेषु पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसंक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत०
ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । थीणागिद्धि०३-

भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५६६. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है । तथा अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके समान है । आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है वे क्षपक प्रकृतियाँ हैं । उनके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही है । तथा प्रकृतिवन्धमें इनके वन्धका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है वही यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए । इसलिए यह अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान कहा है । क्षपक प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संबलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघात । इनमेंसे पुरुषवेद, हास्य और रतिको छोड़कर शेष सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और इनका उपशमश्रेणिमें अन्तमुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान अन्तमुहूर्त जानना चाहिए । तथा शेष तीन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त जानना चाहिए । स्वामित्वको देखते हुए आहारकद्विकका कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक पूर्वकोटिपृथक्त्वके अन्तरसे जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है और ऐसा जीव मनुष्यगतियों पुनः सम्यक्त्वका सम्पादन नहीं करता, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशम-श्रेणिमें अन्तमुहूर्त काल तक इसका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र तैजसशरीर आदिके अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि मनुष्यत्रिकमें उपशमश्रेणिमें इन तैजसशरीर आदिका अन्तमुहूर्तकाल तक बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंसे यहाँ यही विशेषता है ।

६००. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है

मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० अंतो०, उ० एकतीसं० देसू० । सादासाद०-
 पंचणोक०-थिरादितिणियुग० ज० ज० एग०, उ० तेतीसं० देसू० । अज० ज० ए०,
 उ० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पस०-दूभग-दुस्सर-अपादे०-
 णीचा० ज० अज० ज० ए०, उ० एकतीसं० देसू० । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्ख०-
 तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० अट्टारस० सादि० । मणुस०-पंचिदि०-
 ओरालि०अंगो०-मणुसाणु०-तस० ज० ज० ए०, उ० अट्टारस० सादि० । अज०
 सादभंगो । एइंदि०-आदाव-थावर० ज० अज० ज० ए०, उ० वेसागरो० सादि० ।
 ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ० ज० ज०
 ए०, उ० अट्टारस० सादि० । अज० ज० ए०, उ० वेस० । समचदु०-वज्जरि०-
 पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० एकतीसं० देसू० । अज०
 सादभंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो पगदिअंतरं णेदव्वं ।

और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार सब देवोंमें जिनके जिन प्रकृतियों का बन्ध होता है उनका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्व विशुद्ध किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका बन्ध अन्तिम प्रवेयक तक ही होता है, इसलिए इनके बन्धकी चरमावधि ११ सागर है । उसमें भी सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता और नौवें प्रवेयक

६०१. एंडिएसु धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । वादरे
अंगुल० असंखे० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वाससह० । सुहुमे असंखेज्जा लोगा ।
अज० ज० ए०, उ० वेस० । तिरिक्खाउ० [ज०] णाणा०भंगो । अज०
ज० एग०, [उक्क०] पगदिअंतरं । मणुसायु० ज० अज० उक्कस्सभंगो ।

में सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल ३१ सागर हैं । उसमें भी यहाँ कुछ कम ३१ सागर विवक्षित है, क्योंकि प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रख कर इन प्रकृतियोंका बन्ध कराना है । इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । मात्र इनका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख जीवके होता है, इतना समझ कर अन्तर काल लाना चाहिए । यह सम्भव है कि साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध भवके प्रारम्भमें और अन्तमें हो मध्यमें न हो, अतएव इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तथा परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनका अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्त्रीवेद आदिका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यहाँ मध्यमे कुछ कम इकतीस सागर काल तक सम्यग्दृष्टि रख कर यह अन्तर लाना चाहिए । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । मात्र अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय मध्यके कालमें सम्यग्दृष्टि रखना चाहिए और जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर लाते समय मध्यमे जघन्य अनुभागबन्धके योग्य परिणाम नहीं कराने चाहिए । मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है और परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सातावेदनीयके समान अन्तर्मुहूर्त कहा है । एकेन्द्रियजाति आदिका बन्ध ऐशान कल्प तक होता है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । मात्र जघन्य अनुभागबन्धकी दृष्टिसे इतने काल तक बीचमें जघन्य अनुभागबन्धके योग्य परिणाम न करावे और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर लानेके लिए मध्यमे उसे सम्यग्दृष्टि रखे । औदारिकशरीर आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वसंक्लिष्ट परिणामोंसे होता है और ये परिणाम सहस्रार कल्प तक ही सम्भव हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टिके होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यह अन्तर काल सामान्य देवोंकी अपेक्षा कहा है । भवनवासी आदि प्रत्येक देवनिकायमें और विमानवासी देवोंके अवान्तर भेदोंमें कहीं कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और स्वामित्वसम्बन्धी क्या विशेषता है इसे जानकर अन्तरकाल साध लेना चाहिए ।

६०१. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । वादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । पर्याप्तिकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और

तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु^१०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० सादभंगो । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० अज० ओघं । वादर०-ज०, णाणा०भंगो । अज० ज० ए०, उ० कम्मट्टिदी० । पज्जत्ते ज० अज० ज० ए०, उ० संखेज्जाणि वास० । सुहुमे असंखेज्जा लोगा । एदेसिं तिरिक्खगदितिगं मणुसगदिभंगो । णवरि अज० सादभंगो । सेसं ज० णाणा०भंगो । अज० सादभंगो । सन्वविगलिंदिय-पज्जत्त० धुविगाणं ज० अज० उ०भंगो । सेसाणं पि तं चेव ।

उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । बादरोंमें जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है । पर्याप्तकोंमें जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सख्यात हजार वर्ष है । सृद्धोंमें असख्यात लोकप्रमाण है । इनके तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग मनुष्यगतिके अन्तरके समान है । इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । सब विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भी उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध बादर एकेन्द्रिय जीव करते हैं और इनकी कायस्थितिका अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, अतः इनमें प्रायः सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । यह जो विशेषता है उसका अलगसे स्पष्टीकरण किया है । शेष बादर एकेन्द्रिय आदिके उनकी कायस्थितिके अनुसार यह अन्तर कहा है । यहाँ तिर्यञ्चायुका यदि बन्ध न हो तो साधिक वाईस हजार वर्ष तक नहीं होता, क्योंकि जिस एकेन्द्रियने पृथिवीकायिक होकर २२ हजार वर्षके प्रथम त्रिभागमे आयु बन्ध किया । बादमे मरकर वह पुनः २२ हजार वर्षकी आयुवाला पृथिवीकायिक हुआ और वहाँ आयुमें अन्तमुहूर्त शेष रहने पर उसने आगामी तिर्यञ्चायुका बन्ध किया तो उसके साधिक वाईस हजार वर्ष तक तिर्यञ्चायुका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कहा है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्ररूपणके समय स्पष्ट कर आये हैं उस प्रकार जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव करते हैं और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सातावेदनीयके समान अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नहीं करते, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर

६०२. पंचिदि० तेसिं पज्ज० पंचणा०-छदंसणा०--चदुसंज०-पंचणो०-अप्प-
सत्थ०४-उप०-तित्थ०-[पंचंत०] ज० णत्थि अंतर । अज० ओघं । थीणगिद्धि०३-
मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० कायट्ठिदी० । अज० ओघं । सादासाद०-
अरदि-सोग०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-
थिराथिर०-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
कायट्ठिदी० । अज० ओघं । अट्ठक० ज० ज० अंतो०, उ० कायट्ठिदी० । अज०
ओघं । इत्थि० ज० अज० उक्क०भंगो० । णयुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-
दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० ज० अज० उक्क०भंगो । णवरि णीचागो० ज० ज०
अंतो० । चदुआयु० ज० अज० उ०भंगो । णिरयग०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-
थावरादि०४ ज० अज० उ०भंगो । तिरिक्खगदितिगं ज० ज० अंतो०, उ० काय-

ओघके समान असंख्यात लोक कहा है । मात्र वादर एकेन्द्रिय आदिमें यह अन्तर उनकी काय-
स्थितिके अनुसार होनेसे तत्प्रमाण कहा है । इसी प्रकार इनके तिर्यञ्चगतित्रिकके सम्बन्धमें भी
जानना चाहिए । मात्र तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, अतः इनके अजघन्य
अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । यहाँ अन्य जितनी परावर्तमान प्रकृतियों हैं
उनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर भी इसी प्रकार जानना चाहिए । सब विकलेन्द्रिय और
उनके पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अन्तरका विचार जिस प्रकार उत्कृष्ट प्ररूपणामे कर आये हैं
उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । उससे इसमें कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसके अनुसार
जानने मात्रकी सूचना की है ।

६०२. पञ्चेन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार
संज्वलन, पाँच नोकपाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य
अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर
ओघके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर,
कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-
चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और
निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-
प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कषायोंके जघन्य अनुभाग-
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य
अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । स्त्रीवेदके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका
अन्तर उत्कृष्टके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति,
दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर
उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । चार आयुओंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान
है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य और
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका

द्विदी० । अज० ओघं । मणुस०३-देवगदि०४ ज० ज० ए०, उ० कायद्विदी० ।
 अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० ज०
 अज० उ०भंगो । आहारदुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ० कायद्विदी० ।

अन्तर ओघके समान है । मनुष्यगतित्रिक और देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है, अतः यह सब अवस्था पुनः सम्भव नहीं है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । स्त्यानगृद्धि आदिका वन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता । एक तो सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, दूसरे इसकी प्राप्ति कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमे होना सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागवन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे हो यह सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । आठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके सन्मुख हुए क्रमशः सम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके होता है । यह अवस्था अन्तमुहूर्त और कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । यद्यपि स्वामित्वको देखते हुए नपुंसकवेद आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर काल उत्कृष्ट प्ररूपणके समान बन जाता है परन्तु नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातवें नरकके नारकीके होने के कारण यहाँ इसके जघन्य अनुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है, क्योंकि इतने अन्तरके बिना पुनः उस अवस्थाकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । तिर्यञ्चगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए नारकीके और उद्योतका जघन्य अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले देव नारकीके होता है । यह स्वामित्व कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तर से प्राप्त होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है । मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे हो सकते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है । तथा सातवें नरकमें और वहाँ से निकलने और प्रवेश करनेके समय अन्तमुहूर्त तक इनका वन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर कहा है । आहारकद्विकका वन्ध अन्तमुहूर्त और कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । शेष विवेचन जो ओघके समान हो उसे ओघ प्ररूपणा देखकर और जो उत्कृष्टके समान हो उसे उत्कृष्ट प्ररूपणा देखकर घटित कर लेना चाहिए ।

६०३. पुढवि०-आउ० ध्रुविगणं ज० ज० ए०, उ० सव्वेसिं अप्पणो
 कायट्टिदी० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । सेसाणं ज० णाणा०भंगो । अज० ज०
 ए०, उ० अंतो० । दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० पगदिअंतरं । एवं तेउ०-
 वाउ० । णवरि तिरिक्खगदि०३ ध्रुवभंगो । वणप्फदि० ध्रुवियाणं ज० ज० ए०, उ०
 असंखेज्जा लोगा, अंगुल० असं०, सखेज्जाणि वाससह०, असंखेज्जा लोगा । अज०
 ज० ज० ए०, उ० वेसम० । सेसाणं ज० णाणाभंगो । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
 तिरिक्खायु० ज० णाणा०भंगो । अज० पगदिअंतरं । मणुसाउ० ज० अजं० उक्कस्स-
 भंगो । वादरपत्तेय० पुढवि०भंगो । णियोदे ध्रुवियाणं सेसाणं पुढविभंगो । णवरि
 दोआयु० ज० अज० अपज्जत्तभंगो ।

६०३. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-
 बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सबके अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण
 है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष
 प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है और अजघन्य अनुभागबन्धका
 जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । दो आयुओंके जघन्य और
 अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके
 समान है । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता
 है कि इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकला भङ्ग ध्रुव प्रकृतियोंके समान कहना चाहिए । वनस्पतिकायिक
 जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
 अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । वादरोंमें अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वादर पर्याप्तकोंमें
 संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका
 अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
 अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है ।
 अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके जघन्य और
 अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्ट पररूपणके समान है । वादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवों
 का भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । वादर निगोद जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और शेष प्रकृ-
 तियोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंके जघन्य और
 अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर अपर्याप्त जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंकी और उनके अवान्तर भेदोंकी जो
 कायस्थिति है उसके आदिमें और अन्तमें दो आयुको छोड़कर सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग-
 बन्ध हो यह सम्भव है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी
 अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है । ध्रुवबन्धनेवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर
 जघन्य अनुभागबन्धके काल की अपेक्षा कहा है और शेष प्रकृतियों परिवर्तमान होनेके कारण उनके
 अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर एक समय व अन्तमुहूर्त घटित हो जाता है । अग्निकायिक व
 वायुकायिक जीवोंमें भी यही भङ्ग अधिकल रूपसे घटित हो जाता है । मात्र उनमें यह विशेषता है

६०४. तस-तसपज्जत्त० पंचिदियभंगो । णवरि अप्पप्पणो कायट्टिदी भाणिदब्बा ।

६०५. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-
अप्पसत्थ०४-आहारदुग०-उप०--तित्थ०--पंचंत० ज० अज० णत्थि० अंतरं । सादा-
साद०-चदुणोक०-तिगदि--पंचजादि--दोसरीर--छस्संठा०--दोअंगो०--छस्संध०-तिण्णि-
आणु०--पर०-उस्सा०-आदावुज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-उच्चा० ज० अज०
ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०--हस्स-रदि--तिरिक्ख०३ ज० णत्थि अंतरं । अज०
ज० ए०, उ० अंतो० । चदुआउ० ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ०
चदुसमयं । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
अज० ज० ए०, उ० वेस० ।

कि उनके मनुष्यगतिद्विक व ऊँचगोत्रका बन्ध नहीं होता है। इस कारण उनके तिर्यञ्चगतिद्विक व नीचगोत्र ध्रुवबन्धिनी हैं। सामान्य वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग-बन्ध वादरोंके होता है और उनका उत्कृष्ट अन्तर असख्यात लोकप्रमाण है और शेष अवान्तर भेदोंमें अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण अन्तर उपरोक्त रूपसे होता है अतः जघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर घटित हो जाता है। अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके सम्बन्ध जो पूर्वमें लिखा है वही यहाँ पर भी विचार कर लेना चाहिये। वनस्पतिकायिक जीवोंके पूर्वके कथनमें वादर प्रत्येक व वादर निगोदका भङ्ग नहीं आया था वह अधिकल रूपसे पृथिवीकायिक जीवोंके समान घटित हो जाता है। जो विशेषता है वह मूल में खोल दी गई है।

६०४. त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी कायस्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ—पहले पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल कह आये हैं। यहाँ भी वह उसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र वहाँ जो अन्तर उनकी कायस्थिति प्रमाण कहा हो उसे यहाँ इनकी कायस्थितिप्रमाण जानना चाहिए।

६०५. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कृपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, आहारकद्विक, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर दस युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, हास्य, रति और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्ध का अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। चार आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है।

६०६. कायजोगीसु पंचणा०--छदंसर्णा०--चदुसंज०--पंचणोक०--तिरिक्ख०--
अप्पसत्थ०४--तिरिक्खाणु०--उप०--तित्थ०--णीचा०--पंचंत० ज० गत्थि अंतरं । अज०
ज० ए०, उ० अंतो० । थीणगिद्धि०३--मिच्छ०--वारसकै०--आहारदुगं ज० अज०
गत्थि अंतरं । सादासाद०--चदुजादि--छस्संठा०--छस्संघ०--दोविहा०--थावरादि४--
थिरादिद्वयुग० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
इत्थि०--णवुंस०--अरदि--सोग--णिरय--देवगदि--पंचिदि०--ओरालि०--वेउव्वि०--तेजा०--क०--
दोअंगो०--पसत्थ०४--दोआणु०--अगु०३--आदावुज्जो०--तस४--णिमि० ज० अज०
ज० ए०, उ० अंतो० । णिरय-देवायु० ज० अज० मण०भंगो । तिरिक्खाउ० ज० ज०
ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० बावीसं वाससह० सादि० । मणुसायु०

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व देखनेसे विदित होता है कि यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ उसका निषेध किया है । सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान प्रकृतियों हैं और दूसरे इन योगोंका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । पुरुषवेद, हास्य और रतिका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके सम्मुख हुए सातवें नरकके जीवके होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए दो त्रिभागोंकी यहाँ प्राप्ति सम्भव नहीं है, अतः यहाँ चारो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय कहा है । तैजसशरीर आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त होनेका कारण इन योगोंका उत्कृष्ट काल ही है ।

६०६. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, वारह कषाय और आहारक द्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु-त्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नरकायु और देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका

१. चा० आ० प्रत्योः चदुदंसणा इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः वारसकसाय३ इति पाठः ।

३. ता० आ० प्रत्योः ज० अज० ए० इति पाठः ।

ज० अज० ज० ए०, उ० अणंतका० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ज०-अज० ज०
ए०, उ० असंखेज्जा लोगा ।

६०७. ओरालियका० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय--दु०-
आहारदुग--अपप्पसत्थ०४--उप०--तित्थ०--पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । सादा-
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है । मनुष्यायुके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है ।
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पांच ज्ञानावरणादि ३० प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग-
बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । तिर्यञ्चगतित्रिका सातवें नरकमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके
होता है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका मनुष्यके मिथ्यात्वके अभिमुख होनेपर होता है, इसलिए यहाँ
इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । यद्यपि तिर्यञ्चगतित्रिकका अन्त-
मुर्त कालके बाद पुनः जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है पर उस समय तक योग बदल जाता है ।
तथा जो उपशमश्रेणिमें काययोगके रहते हुए एक समय या अन्तमुर्तके लिए इनका अबन्धक होकर
और भरकर देव होने पर इनका बन्ध करता है उनकी अपेक्षा इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्त कहा है । मात्र तिर्यञ्चगतित्रिकका यह
अन्तर परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे प्राप्त होता है । तथा पुरुषवेद, हास्य और रतिका भी यह अन्तर
इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है । काययोगके रहते हुए स्त्यानगृद्धि आदि प्रकृतियोंका दो बार
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध उपलब्ध नहीं होता, अतः इनके अन्तरका निषेध किया है ।
यद्यपि काययोगकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है पर ओघसे इनके जघन्य अनुभाग-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण ही बतलाया है । इसलिए इन प्रकृतियोंके स्वामित्वको
जानकर यह घटित कर लेना चाहिए । विशेषताका निर्देश हम ओघ पररूपणाके समय कर आये हैं ।
तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्त
कहा है । स्त्रीवेद आदि सब परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्त कहा है । जहाँ इनमेसे कुछ प्रकृतियोंका दीर्घकाल तक निरन्तर
बन्ध भी होता है वहाँ काययोग अन्तमुर्तसे अधिक काल तक उपलब्ध नहीं होता, इसलिए भी
यहाँ वही अन्तर प्राप्त होता है । नरकायु और देवायुका पञ्चेन्द्रियके बन्ध होता है और वहाँ काय-
योगका काल मनोयोगके समान है, इसलिए इन दो आयुओंका भङ्ग मनोयोगियोंके समान कहा
है । ओघसे तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक कह आये हैं ।
वही यहाँ जानना चाहिए । मात्र मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
अनन्तकाल इसलिए कहा है कि मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध करके लब्धपर्याप्तक मनुष्य हुआ
फिर अनन्तकाल तक तिर्यञ्च रहा और अन्तमे मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध किया । इस प्रकार
मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त हो जाता है ।
तिर्यञ्चायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है यह स्पष्ट ही है ।
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, अतः इनके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है ।

६०७. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह-
कषाय, भय, जुगुप्सा, आहारकट्टिक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके

साद०--मणुसगदि--चदुजादि-छस्संठा०--छस्संघं०-मणुसाणु०-दोविहा०--थावरादि० ४--
थिरादिछयुग०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वावीसं वाससह० दे० । अज० ज० ए०,
उं० अंतो० । इत्थि०-णवुंस०--अरदि--सोग--णिरयगदि-देवगदि--पंचिंदि०--ओरालि०-
वेउच्चि०-दोअंगो०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस४ ज० अज० ज० ए०,
उ० अंतो० । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतरं । अज० सादभंगो । णिरय-देवायु०
मणजोगिभंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० ज० अज० ज० ए०, उ० सत्तवाससह० सादि० ।
तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु०--णीचा० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिवाससह० दे० । अज०
ज० ए०, उ० अंतो० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
अंतो० । अज० ज० ए०, उ० वेस० ।

जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्य-
गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि
चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्ष है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, देवगति,
पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास,
आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल
नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । नरकायु और देवायुका भङ्ग
मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम तीन हजार वर्ष है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तमुहूर्त है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगमें पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध
क्षपकश्रेणिमे होता है और जिनका अन्यत्र होता है उनका यदि पुनः जघन्य अनुभागबन्ध प्राप्त
होता है तो तब तक योग बदल जाता है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर
कालका निषेध किया है । औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है । यह
सम्भव है कि सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध इसके आदिमें और अन्तमे हो, अतः
इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्ष कहा है ; तथा ये परावर्त-
मान-प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । स्त्रीवेद
आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त दो कारणसे कहा है ।
एक तो जहाँ इनका जघन्य अनुभागबन्ध होता है वहाँ औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल अन्त-
मुहूर्त है । दूसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं । पुरुषवेद, हास्य और रतिका जघन्य अनुभागबन्ध

६०८. ओरालियमि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-
 देवग०-ओरालि०-वेडव्वि०-तेजा०-क०--वेडव्वि० अंगो०-पसस्थापसस्थ०४-देवाणुपु०-
 अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । पुरिस०-हस्स-रदि-
 तिरिक्ख०४-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०,
 उ० अंतो० । सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

क्षपकश्रेणिमे होता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है। नरकायु और देवायुका स्पष्टीकरण जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके कर आये हैं उस प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। कुछ कम बाईस हजार वर्ष का त्रिभाग साधिक सात हजार वर्ष होता है, इसलिए तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है। तात्पर्य यह है कि त्रिभागके प्रारम्भमें और आयुमें अन्तमुहूर्त शेष रहने पर आयु बन्ध कराने पर यह अन्तर उपलब्ध होता है। औदारिककाययोगमें तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध अग्निकायिक और वायु-कायिक जीव करते हैं और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष है, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। तथा परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तैजसशरीर आदि का जघन्य अनुभागबन्ध संज्ञी जीव करते हैं और इनके औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६०८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यञ्चगतिचतुष्क, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात और उच्छ्वासके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ—स्वामित्वके अनुसार प्रथम दण्डकमें कही गई और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए अन्तर देकर दो वार सम्भव नहीं इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। इसी प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागबन्ध भी अन्तर देकर दो वार सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्ति पूर्ण कर अन्य योगवाला होगा उसके पहले समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका भी निषेध किया है। मात्र दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके औदारिकमिश्रयोग रहता है, अतः परावर्तमान होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा शेष प्रकृतियों भी परावर्तमान हैं और उनके जघन्य अनुभागबन्धके लिए शरीर पर्याप्ति प्राप्त होनेमें एक समय पूर्वका कोई नियम नहीं है, अतः उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है।

६०६. वेउन्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसस्थापसत्थवण्ण४-अगु०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० अज० णत्थि अंतरं । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० । तिरिक्ख०३ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । दोआउ० मणजोगि-भंगो । सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६१०. वेउन्वियमि० पंचणाणावरणादिधुवियाणं तित्थ० ज० अज० णत्थि अंतरं । पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्खगदि३-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-आदाउज्जोव-तस्-णीचा० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं सादादीणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६०६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । दो आयुओंका भङ्ग मनो-योगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानाव-रणादिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर तिर्यञ्चगतित्रिकका नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके अन्तरका निषेध किया है । पुरुषवेद, हास्य और रतिका यद्यपि सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव और नारकीके जघन्य अनुभागबन्ध होता है पर इनका जघन्य अनुभाग-बन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । दो आयुका स्पष्टीकरण मनो-योगियोंके समान कर लेना चाहिए । शेष प्रकृतियों अधु वचन्धिनी हैं यह स्पष्ट ही है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

६१०. वैक्रियिकमिश्रकायोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्य-ञ्चगतित्रिक, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत, त्रस और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष सातावेदनीय आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका

६११. आहारका० पंचणाणावरणादिध्रुवियाणं ज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सेसाणं मणजोगिभंगो । आहारमि० ध्रुवियाणं देवायु०-
तित्थय० ज० अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं आहारकायजोगिभंगो । कम्मइगे सव्वाणं
उक्कस्सभंगो ।

६१२. इत्थिवेदेसु पंचणा०-द्वंदसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-
उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु०४
ज० ज० अंतो०, उ० कायट्ठिदी० । अज० ज० अंतो०, उ० पणवणं पत्ति० दे० ।
सादासाद०-अरदि-सोग-पंचि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस४-थिराथिर-
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० कायट्ठिदी० ।

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ध्रुवबन्धवाली और तीर्थङ्कर प्रकृति इनका जघन्य अनुभागबन्ध वैक्रियिकमिश्र-
काययोगके अन्तमें होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका
निषेध किया है और इसी कारण पुरुषवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका भी निषेध
किया है । किन्तु ये पुरुषवेद आदि परावर्तमान और अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । और
इसी कारण शेष सातादि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उक्त प्रकारसे अन्तर
कहा है ।

६११. आहारककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके
समान है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली, देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आहारककाययोगी
जीवोंके समान है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है ।

विशेषार्थ—आहारककाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका बन्ध स्वामित्वको देखते
हुए इस योगके कालमें दो बार बन्ध सम्भव है और इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः
यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । शेष प्रकृतियोंकी सब
विशेषताएँ मनोयोगके समान होनेसे उनका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान कहा है । आहारकमिश्र-
काययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका, देवायु और तीर्थङ्करका अपने अपने परिणामोंके अनुसार
जघन्य अनुभागबन्ध अन्तिम समयमें होता है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-
बन्धका निषेध किया है । शेष कपन स्सष्ट ही है ।

६१२. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा,
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है ।
सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,

अज० ज० ए०, उ० अंतो० । अटक० ज० ज० अंतो०, उ० कायट्टिदी० । अज० ओघं । इत्थि०--णवुंस०--तिरिक्ख०--एइंदि०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--आदा-
 वुज्जी०--अप्पसत्थ०--थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०--णीचां० ज० ज० ए०, उ० कायट्टि० ।
 अज० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलिदो० देसू० । पुरिस०--हस्स-रदि० ज० णत्थि
 अंतरं । अज० सादभंगो । णिरयाणु० मणुसिभंगो । तिरिक्ख०--मणुसायु० ज०
 अज० ज० ए०, उ० कायट्टिदी० । देवायु० ज० ज० ए०, उ० कायट्टि० । अज०
 ज० ए०, उ० अट्टा०वण्णं पलि० पुव्वकोडिपु० । णिरय-देवगदि-तिण्णिजादि-
 [वेउन्वि०-] वेउन्वि०अंगो०--दोआणु०--सुहुम-अपज्ज०--साधार० ज० ज० ए०, उ०
 कायट्टिदी० । अज० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलिदो० सादि० । मणुसगदिपंचग०
 ज० ज० ए०, उ० कायट्टिदी० । अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० देसू० । आहार-
 दुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ० कायट्टिदी० । [तेजा०--क०--पसत्थवण्ण४--अगुरु०-
 णिमि० ज० ज० ए०, उ० कायट्टिदी० । अज० ज० ज० ए०, उ० वेसम० ।]

यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । नरकायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य है । नरकगति, देवगति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । आहारकट्टिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो सभय है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है। इस अवस्था को प्राप्ति कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तरसे सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। तथा यहाँ सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है, अतः उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य कहा है। सातादिकका जिन परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है वे एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तरसे सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। आठ कषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए यथायोग्य जीवके होता है यह अवस्था अन्तमुहूर्तके अन्तरसे भी सम्भव है और कायस्थिति के अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओषधके समान है यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेद आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर का खुलासा सातादण्डके समान कर लेना चाहिए। पुरुषवेद, हास्य और रतिका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। नरकायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका खुलासा जिस प्रकार मनुष्यनियोंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए। यह सम्भव है कि कोई स्त्रीवेदी जीव कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें तिर्यञ्चायु या मनुष्यायुका बन्ध करे, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। किसी स्त्रीवेदी जीवने देवायुका पचवन पत्य प्रमाण आयुबन्ध किया। फिर वहाँ से आकर-पूर्वकोटिपृथक्त्व काल तक परिभ्रमण कर तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें स्त्रीवेदी हुआ और भवके अन्तमें देवायुका बन्ध किया। इस प्रकार स्त्रीवेदी जीवोंमें देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। नरकगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। तथा देवीके और वहाँ उत्पन्न होने के पूर्व और बादमें अन्तमुहूर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है। मनुष्यगतिपञ्चक और तैजसशरीर आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर नरकगति दण्डके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्थामें मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६१३. पुरिसेसु पंचणा०--चदुदसणा०--चदुसंज०--पंचंत० ज० अज० णत्थि
 अंतरं । थीणगि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० कायट्ठिदी० । अज०
 ओघं । णिद्दा-पचला०-पंचणोक०-अप्पसत्थव०४-उप०-तित्थ० ज० णत्थि अंतरं ।
 अज० ज० ए०, णिद्दा-पचला० अंतो०, उ० अंतो० । सादासाद०-अरदि-सोग-
 पंचिदि०--तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थ०४--अगु०३-पसत्थवि०--तस०४--थिराथिर-
 सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ०
 कायट्ठि० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । अट्ठक० ज० ज० अंतो०, उ० कायट्ठि० ।
 अज० ओघं । इत्थि० ज० ज० ए०, उ० कायट्ठि० । अज० ओघं । णवुंस०-पंच-
 संठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे०--णीचा० ज० ज० ए०, उ०
 कायट्ठि० । अज० ओघं । णिरयाणु० इत्थिभंगो । दोआउ० ज० अज० ज० ए०,
 उ० कायट्ठि० । देवाउ० ज० ज० ए०, उ० कायट्ठि० । अज० ज० ए०, उ०
 तेत्तीसं० सादि० । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव०-थावरादि०४ ज० ज०
 ए०, उ० कायट्ठि० । अज० अणु०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० ज०

६१३. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्चलन और पाँच
 अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व
 और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट
 अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तथा अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । निद्रा,
 प्रचला, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्ध-
 का अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, निद्रा और
 प्रचलाका अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय,
 अरति, शोक, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क,
 अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्सर, आदेय,
 यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय
 है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
 और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्त-
 मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तथा अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके
 समान है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर-
 कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच
 संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य
 अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य
 अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । नरकायुका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । दो आयुओंके
 जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-
 प्रमाण है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 साधिक तेतीस सागर है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि
 चारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण

ए०, उ० कायट्टि० । अज० ओघं । मणुसगदिपंच० ज० ज० ए०, उ० कायट्टि० ।
 अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० । देवगदि०४ ज० ज० ए०, उ० कायट्टि० ।
 अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि० । आहारदुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ०
 कायट्टिदी० ।

६१४. णवुंसगेसु पंचणाणावरणादिदंडओ इत्थिभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
 अणंताणु०४ ज० ओघं । अज० गिर्यभंगो । सादादिदंडओ तिण्णिआउ०-अट्टक०-
 वेउन्वियछ०-मणुस०३ ज० अज० ओघं । इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ०
 अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । पुस०-हस्स-रदि० । ज० णत्थि
 अंतरं । अज० सादभंगो । अरदि-सोग० ज० ज० ए०, उ० अद्धपोगल० । अज०

है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और
 उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-
 प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य
 अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य
 अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्त्य है । देवगति
 चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण
 है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस
 सागर है । आहारकट्टिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और
 उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब अन्तरकाल पर प्रकाश न डाल कर जो विशेषता है उसीका निर्देश
 करेंगे । कारण कि अब तक ओघ व आदेशसे सब प्रकृतियोंके अन्तरका जो स्पष्टीकरण किया है
 उसीसे इसका बोध हो जाता है । यहाँ निद्रा और प्रचलाके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
 अन्तर अन्तमुहूर्त कहनेका कारण यह है कि जो अपूर्वकरण उपशामक इनकी व्युच्छिन्ति कर
 और अन्तमुहूर्तमें सवेदभागमें ही मर कर देव हो जाता है उसके इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभाग-
 बन्धका अन्तमुहूर्त अन्तरकाल देखा जाता है । देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
 साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य प्रथम त्रिभागसे
 देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध करके तेतीस सागरकी आयुवाला विजयादिक चार अनुत्तर विमानोंमें
 उत्पन्न होता है और वहाँसे च्युत होकर पुनः पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर अपने भवके
 अन्तमें अन्तमुहूर्त काल शेष रहने पर देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध करता है उसके देवायुके
 अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण ही देखा जाता है ।

६१४. नपुसकवेदी जीवोमे पौंच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।
 स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके
 समान है और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नारकियोंके समान है । सातावेदनीय आदि
 दण्डक, तीन आयु, आठ कपाय, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य
 अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्ध
 का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका
 जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पुरुषवेद, हास्य और
 रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर साता-

सादभंगो । देवा० मणुसि०भंगो । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ओघं ।
 अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं ।
 अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज०
 ए०, उ० अणंतका० । अज० सादभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० ए०,
 उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी देसू० । आहार०२ ज० अज०
 ओघं । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज० ज०
 ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ओघं । अज०
 ज० ए०, उ० वेस० । तित्थ० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

वेदनीयके समान है । अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीय के समान है । देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच-गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, पर-घात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । औदारिकशरीर और औदारिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आहारकट्टिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदी जीवोंमें भी अन्य सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर पिछले कहे गये अन्तर को ध्यानमें रखकर घटित कर लेना चाहिए । जो अन्तर विशेषताको लिए हुए है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि नारकियोंके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । अरति और शोकका जघन्य अनुभागबन्ध छूटे गुणस्थानमें होता है और नपुंसक-वेदमें इसका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है । तिर्यञ्चगति आदिका बन्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके नहीं होता । इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । चार जाति आदिका बन्ध नरकमें तथा अन्तमुहूर्त काल तक नरकके पूर्व और बादमें नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका

६१५. अवगदवेदेसु सव्वाणं ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० उ० अंतो० ।

६१६. क्रोधकसा० पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-आहारदुग-पंचंत०
ज० अज० णत्थि अंतरं । गिद्धा-पचला०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ० ज०
णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं तिरिक्ख०३ । णवरि गिद्धा-पचला०
अज० ज० उ० अंतो० । चदुआउ० मणजोगिभगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-
णिमि० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० । सैसाणं सादादीणं ज० अज० ज० ए०,
उ० अंतो० ।

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध
जिन परिणामोंसे होता है उनका अनन्त कालके अन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । औदारिकद्विकके विषयमें भी इसी प्रकार जानना
चाहिए, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागबन्ध नारकीके होता है और नरक पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर
अनन्त काल है । तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्चके इनका बन्ध नहीं होता और नपुंसकवेदके
साथ इनमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । उसमें भी सम्यक्त्व प्राप्त कराकर
अन्तमें बन्ध करानेके लिए मिथ्यात्वमें ले जाना है, क्योंकि ऐसा किये बिना अन्तर नहीं प्राप्त होता
अतः यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । पाँच
संस्थान आदिका बन्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६१५. अपगतवेदी जीवोमे सव प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदमे पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध
क्षपकश्रेणिमें होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिमें गिरते समय अपगतवेदके अन्तिम
समयमें होता है, अतः सव प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है ।
तथा अपगतवेदी जीव इन प्रकृतियोंका अबन्धक होकर उपशमश्रेणिसे उतरते हुए पुनः इनका
बन्ध करता है । अतः अबन्ध अवस्थाका काल अन्तमुहूर्त है अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्ध
का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

६१६. क्रोधकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आहारक-
द्विक और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा,
प्रचला, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतित्रिकके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
निद्रा और प्रचलाके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । चार
आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,
अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष साता आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका जघन्य

६१७. माणे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०--पण्णारसक०-आहारदुग-पंचंत०
ज० अज० णत्थि अंतरं । णवरि कोधसंजल० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६१८. मायाए पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-चौदसक०-आहारदुग-पंचंत०
ज० अज० णत्थि अंतरं । णवरि कोध-माणसंज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर कालका प्रश्न ही नहीं। अब रही प्रथम दण्डककी शेष प्रकृतियाँ सो उनमें से स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, आठ कषायोंका संयमके अभिमुख हुए जीवके जघन्य अनुभागबन्ध होता है और आहारक-द्विकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसंयतके अभिमुख हुए जीवके होता है, यतः इन प्रकृतियोंका क्रोध कषायके रहते हुए दूसरी बार जघन्य अनुभागबन्ध प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रोध कषायका काल थोड़ा है, इसलिए यहाँ इनके भी जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकाल का निषेध किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा निद्रादिक प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध भी क्षपक-श्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। रही तीर्थङ्कर प्रकृति सो इसके जघन्य स्वामित्वको देखते हुए उसका अन्तरकाल भी सम्भव नहीं है, अतः इसके भी जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें इनका एक समय या अन्तर्मुहूर्त तक अबन्धक होकर और मरकर देव पर्यायमें इनका बन्ध सम्भव है। अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र निद्रा और प्रचला की बन्धव्युच्छित्ति होनेपर अन्तर्मुहूर्त काल तक मरण नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर भी अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिए। तिर्यङ्गतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातवें नरकके नारकीके होता है। यतः यह जघन्य अनुभागबन्ध क्रोधकषायमें दो बार सम्भव नहीं और ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका अन्तर कथन पाँच नोकषाय आदिके समान होनेसे उनके समान कहा है। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियाँ एक तो परावर्तमान हैं और दूसरे इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

६१७. मानकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय, आहारक-द्विक और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्वलनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—उपशमश्रेणिमें मानकषायके उदयमें क्रोध संज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए इसमें क्रोध संज्वलनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। शेष कथन क्रोधकषायके समान है।

६१८. मायाकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चौदह कषाय, आहारक-द्विक और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि क्रोध और मान संज्वलनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—माया कषायके उदयमें क्रोध और मान कषायकी बन्धव्युच्छित्ति होकर एक समयके अन्तरसे या अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे मरकर इसके देव होने पर पुनः इनका बन्ध होने

६१६. लोभे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-वारसक०--आहारदुग-पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । णवरि चदुसंजलणाणं अज० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं सव्वपगदीणं कोधभंगो ।

६२०. मदि-सुद० पंचणाणावरणादिधुविगाणं ज० अज० णत्थि अंतरं । सादादि-दंडओ ओघो । इत्थि०-अरदि-सोग--पंचि०-पर०-उस्सा--तस०४ ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतरं । अज० सादभंगो । चदुआउ०-वेउव्वियछ०-मणुस०३ ज० अज० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । णवुंस० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि०दे० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं । अज० णवुंसगभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अणु०-

लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६१६. लोभकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, आहारकद्विक और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग क्रोधकषायके समान है ।

विशेषार्थ—लोभकषायके उदयकालमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर एक समय या अन्तमुहूर्तके अन्तरसे मर कर इस कषायवाले जीवके देव होने पर पुनः बन्ध होने लगता है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६२०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेद, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्र्वास और व्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तिर्यग्गति और तिर्यग्गत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तथा अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । औदारिकशरीर और औदारिक आहोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर,

णियि० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० वेस० । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-
दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देसू० । उज्जो०
ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । णीचा० ज० णत्थि अंतरं ।
अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० देसू० ।

६२१. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-अप्पसत्थ०४-
उप०-पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । सादासाद०-चदुणोक०-पंचिदि०-ओरालि०-

प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली जिन प्रकृतियोंका प्रथम दण्डकमें ग्रहण किया है उनका जघन्य अनुभागबन्ध यहाँ संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है अतः उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । स्त्रीवेद आदिका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और यदि ऐसा जीव अनन्तकाल तक एकेन्द्रिय पर्यायमें परिभ्रमण करता रहे तो उतने कालके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । पुरुषवेद आदिका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातवें नरकमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । मात्र तिर्यञ्जगतिद्विकका नौवें भ्रैवैयक में इकतीस सागर तक और आगे पीछे अन्तमुहूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इन दोके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । तथा नीचगोत्रका बन्ध उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पल्य तक नहीं होता, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । इसी प्रकार नपुसकवेद, चार जाति आदि, औदारिकद्विक और पाँच संस्थान आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य घटित कर लेना चाहिए । तथा उद्योतके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर तिर्यञ्जगतिद्विकके समान घटित कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

६२१. विभङ्गज्ञानो जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, पञ्चन्द्रियजाति,

छस्संठा०--ओरालि०अंगो०--छस्संध०--पर०--उस्सा०--उज्जो०--दोविहा०--तस०४--
थिरादिछयु० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्व०३ ज० णत्थि अंतरं । अज० सादभंगो । णिरय-देवायु०
मणजोगिभंगो । दोआउ० ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० छम्मासं
देसू० । दोगदि-तिण्णिजादि-दोआणु०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० ज० अज० ज० ए०,
उ० अंतो० । मणुस०-मणुसाणु० ज० ज० ए०, उ० वावीसं० । अज० सादभंगो ।
एइंदि०-आदाव-थावर० ज० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । अज० ज० ए०, उ०
अंतो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० देवगदिभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०
ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० वेस० । उच्चा० ज० ज०
ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० । अज० सादभंगो ।

औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो
विहायोगति, त्रसचतुष्क और स्थिर आदि छह युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, रति और तिर्यञ्चगतित्रिकके
जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान
है । नरकायु और देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुत्रोंके जघन्य अनुभाग-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । दो गति, तीन जाति,
दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर है । अजघन्य
अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त है । वैक्रियिकशरीर
और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग देवगतिके समान है । तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्ण-
चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके
समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख होने पर होता
है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । विभङ्गज्ञानके
प्रारम्भमे और अन्तमे सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य
अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तैजसशरीर आदिके जघन्य अनु-

१. ता० प्रतौ वावीसं । [दोआ० जह०] सादभंगो, आ० प्रतौ वावीसं । दोआउ० ज० सादभंगो
इति पाठः ।

६२२. आभि०--सुद०--ओधि० पंचगा०--छदंसणा०--चदुसंज०--पंचणोक०--
पंचिदि०--तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थापसत्थ०४--अगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग-
सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०,
[णिह-पचला० ज० अंतो०] उ० अंतो० । सादासाद०--अरदि-सोग-थिराथिर-
सुभासुभ-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० । अज० ज० ए०,
उ० अंतो० । अट्टक० ज० ज० अंतो०, उ० छावट्टि० सादि० । अज० ओघं ।
मणुसाउ० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०
सादि० । देवाउ० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० देसू० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०

भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । पुरुषवेद आदिका जघन्य अनुभागवन्ध यथायोग्य संयम और सम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है । दो गति आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं और इनका जघन्य अनुभागवन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सातवें नरकमें नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस सागर कहा है, क्योंकि छठे नरकमें विभङ्ग-ज्ञानका उत्कृष्ट काल इतना ही है । एकेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सोर्धम-पेशान कल्पमें होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । उच्चगोत्रका जघन्य अनुभागवन्ध नौवें प्रवैयकमें सम्भव है, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६२२. आभिनिबोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है किन्तु निद्रा, प्रचलाका अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कपायोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर

सादि० । मणुसगदिपंचग० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० वासपुथ०, उ० पुव्वकोटि० ।
देवगदि०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुगं
ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रमाण है । देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका क्षपकश्रेणिमें तथा शेषका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें एक समय तक इनका अबन्धक होकर और दूसरे समयमें मरकर देव होने पर इनका पुनः बन्ध होने लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उपशमश्रेणिमें अन्तमुहूर्तकाल तक इनका बन्ध न होकर पुनः उतरते समय बन्ध होने पर इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मात्र निद्रा और प्रचलाके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त जैसा पहले घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । इन मार्गाणाओका उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है । यह सम्भव है कि सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध इसके प्रारम्भमें और अन्तमें हो मध्यमे न हो, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा है । इसी प्रकार आठ कषाय और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर घटित कर लेना चाहिए । मात्र देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर न होकर कुछ कम छयासठ सागर कहा है, क्योंकि यहाँ साधिकसे चार पूर्वकोटियों ली गई हैं परन्तु जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य अन्तमें देवायुका बन्ध करेगा वह पत्थोपमसे कम नहीं हो सकती और फिर देव होनेके बाद मनुष्य भवका काल भी सम्मिलित करना है, इसलिए यह साधिक छयासठ सागर न होकर कुछ कम छयासठ सागर ही हो सकता है । जो देव छह महीना शेष रहने पर मनुष्यायुका अजघन्य अनुभागबन्ध करके मनुष्य हुआ और इसके बाद तेतीस सागरकी आयुवाला देव होकर अन्तमें उसने पुन मनुष्यायुका अजघन्य अनुभागबन्ध किया उसके मनुष्यायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ले आना चाहिए । मात्र मनुष्य द्वारा देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध कराके और तेतीस सागरकी आयुवाले विजयादिक में उत्पन्न कराकर पुनः मनुष्य होने पर देवायुका अजघन्य अनुभागबन्ध कराना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए देव और नारकी करते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा सम्यग्दृष्टि देवका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए मनुष्य और तिर्यञ्च करते हैं इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें देवगति-

६२३. मणपज्जवे पंचणा०--छदंसणा०--चदुसंज०--पुरिस०--भय-दु०--देवगदि-
पंचिदि०--वेउन्वि--तेजा०--क०--समचदु०--वेउन्वि०अंगो०--पसत्थापसत्थ०४--देवाणु०-
अगु०४--पसत्थ०--तस०४--सुभग--सुस्सर-आदे०--णिभि०--तित्थ०--उच्चा०--पंचंत० ज०
णत्थि० अतरं । अज० ज० उं० अंतो० । सादासाद०--अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-
जस०--अजस० ज० ज० ए०, उ० पुव्वकोढी देसू० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतरं । अज० सादभंगो । देवाउ० ज० अज० ज० ए०, उ०
पुव्वकोढी तिभागा देसू० । आहारदुग० ज० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोढी दे० । अज०
ज० उ० अंतो० । एवं संजदा० ।

चतुष्ककी बन्ध व्युच्छित्तिकर उतरते समय पुनः उनका बन्ध होनेमें अन्तमुर्हृतकाल लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हृत कहा है और उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति कर और उतरते समय इनका बन्ध होनेके पूर्व मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देव होने पर इनका साधिक तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । आहारकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः यह अवस्था अन्तमुर्हृतके बाद पुनः प्राप्त हो सकती है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हृत कहा है और यदि आहारकद्विकका बन्ध करनेवाला जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ । तथा वहाँ से च्युत होकर जब संयमको ग्रहण कर पुनः आहारकद्विकका बन्ध करता है तब इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । यतः यह काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

६२३. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । आहारकद्विकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हृत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । इसी प्रकार संयतोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें और शेषका असंयमके अभिमुख होने पर जघन्य अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनका उपशमश्रेणिमें अन्तमुर्हृत काल तक बन्ध

६२४. सामा०-छेदोव० ध्रुविगाणं० ज० अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं मणपज्जवभंगो । परिहारे पंचणा०-द्धंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० णत्थि अंतरं । अज० ए० । अथवा ज० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । देवगदिपसत्थपणुवीसं ज० अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं मणपज्जव०भंगो । सुहुमे सव्वाणं ज० अज० णत्थि अंतरं । संजदा-संजदे ध्रुविगाणं ज० अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं परिहार०भंगो ।

नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। यह सम्भव है कि सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध प्रारम्भमे और अन्तमें हो, मध्यमें न हो, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। हास्य और रतिका क्षपकश्रेणिमे जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्ध के अन्तरका निषेध किया है। इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। यह स्पष्ट ही है। देवायुका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध त्रिभागके प्रारम्भमें और अन्तिम अन्तमुहूर्त काल शेष रहने पर हो यह सम्भव है, अतः इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा है। आहारकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध अन्तमुहूर्तके अन्तरसे ही होता है, क्योंकि सातवेंसे छठेमें आने पर पुनः सातवाँ गुणस्थान एक अन्तमुहूर्तके बाद प्राप्त होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। संयत जीवोंके अन्तर प्ररूपणामें इस प्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उनके कथनको मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है।

६२४. सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। अथवा जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगति और प्रशस्त पच्चीस प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। संयतासंयत जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थानासंयम नौवें गुणस्थानतक होते हैं। आगे संयम बदल जाता है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके समान अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके पाँच

६२५. असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०--भय--दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
 पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज०
 णत्थिं० अंतरं । अज० णिरयभंगो । सादादिदंडओ चदुआउ०-वेउव्वियद्ध०-मणुस०३
 ज० अज० ओघं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ओघं । अज० [ज०]
 एग०, उ० तेत्तीसं० दे० । इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज०
 ज० एग०, उ० तेत्तीसं० देसु० । पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० ज० अज० ओघं ।
 चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
 ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० ज० अज० ओघं । तित्थ० ज० णत्थि अंतरं ।

ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है। यह तो स्पष्ट है पर वे सर्वविशुद्ध परिणाम कब होते हैं इस विषयमें विकल्प है। यदि जो अन्तर्मुहूर्तमें क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेवाला है उसके होते हैं इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो इस संयममें पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं प्राप्त होता और इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय बनता है। और यदि ये सर्वविशुद्ध परिणाम क्षपकश्रेणिपर आरोहण न करनेवालेके भी होते हैं इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो इसके अनुसार इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ दो प्रकारसे अन्तर पररूपणा की है। तथा इस संयममें देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध असंयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। देशसंयतके अप्रशस्त ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होनेपर तथा तीर्थङ्करके सिवा शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होनेपर और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध असंयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६२५. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर-काल नहीं है। स्थानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग नारकियोंके समान है। सातावेदनीय आदि दण्डक, चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्ध का अन्तर ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीर,

अज० ज० उ० अंतो० ।

६२६. चक्रवुदं० तस०पज्जतभंगो । अचक्रवुदं० ओघं । ओधिदं० ओधि-
णाणिभंगो ।

६२७. किण्णाए पंचणा०-छदंसणा०--वारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-
पंचंत० ज० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० दे० । अज० ज० ए०, उ० वेस० । थीणगिद्धि०३
मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० देसु० । सादा०-समचदु०-
वज्जरि०-पसत्थ०--थिरादिद्ध० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, एककेण अंतो-
ग्रुहुत्तेण सादिरेयं णिरयादो णिग्गदस्स । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । असादावेद०-

औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। स्त्यानगृद्धितीन आदिके जघन्य अनुभागका बन्ध संयमके सन्मुख होने पर होता है, इसलिए इनके भी जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है! असंयतके नरकमें कुछ कम तेतीस सागर तक सम्यग्दर्शनके साथ रहते हुए तीर्थङ्कगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण कहा है। स्त्रीवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालका स्पष्टीकरण ओघके समान यहाँ भी कर लेना चाहिए। तथा इनका सम्यग्दृष्टि नारकीके कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नारकी जीव नरकमें और वहाँ जानेके पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक और निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक चार जाति आदिका बन्ध नहीं करता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभाग बन्ध करता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि होकर अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्वके साथ रहता हुआ उसका बन्ध नहीं करता, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६२६. चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तिकोंके समान भङ्ग है। अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। तथा अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

६२७. कृष्णालेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदि छहके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकसे निकलनेवाले जीवके यह अन्तर एक अन्तर्मुहूर्त अधिक है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

अधिर-असुभ-अजस० ज० ज० ए०, उ० तेतीसं सादि०, दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादि-
 रेयं । अज० सादभंगो । इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं०
 देसू० । पंचणोक०-ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० तेतीसं साग०
 देसू० । अज० सादभंगो । दोआउ० मणजोगिभंगो । दोआउ० ज० ज० ए०, उ०
 अंतो० । अज० ज० ए०, उ० छम्मासं० देसू० । गिरय-देवगदि-चहुजादि-दोआणु०-
 आदाव-थावरादि०४ ज० अज० [ज०] ए०, उ० अंतो० । तिरिक्ख०३ ज० ज०
 अंतो०, अज० ज० ए०, उ० दोण्णं पि तेतीसं० देसू० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा०
 ज० ज० ए०, उ० वावीसं० सादि० अंतोमुहुत्तेण णिग्गदस्स । अज० ज०
 ए०, उ० तेतीसं देसू० । पंचि०-पर-उस्सा०-तस४ ज० ज० ए०, उ० तेतीसं
 साग सादि०, पविसंतस्स मुहुत्तं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । वेउव्वि०-
 वेउव्वि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० ववीसं० सा० ।
 तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० पंचिदियभंगो । अज० ज० ए०, उ० वेस० ।

असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पाँच नोकषाय, औदारिकशरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । दो आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यङ्गगतित्रिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका कुछ कम तेतीस सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और सच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निकलनेवाले जीवकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त अधिक वाईस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । पञ्चन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और प्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । यह प्रवेश करनेवाले जीवके एक अन्तमुहूर्त अधिक होता है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

१. ता० आ० प्रत्योः साग० सादि० देसू० इति पाठः । २. ता० आ प्रत्योः सादि० दे० पंचि-
 संतस्स मुहुत्तं इति पाठः ।

चदुसंठा०-पंचसंघ० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, णिग्गदस्स सादि० ।
 अज० णवुंसगभंगो । हुंड०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे० ज० ज० ए०, उ०
 तेत्तीसं० सादि० दोहि मुहुत्ते० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दे० । तित्थ० ज०
 अज० णत्थि अंतरं ।

अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर पञ्चन्द्रियजातिके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । चार संस्थान और पाँच संहननके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । यह साधिक निकले हुए जीवके होता है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है । ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तथा इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागका जघन्य बन्ध काल एक समय और उत्कृष्ट बन्धकाल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । स्त्यानगृद्धि आदि तीन का जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख नारकीके होता है । तथा इसके सम्यक्त्व का जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । मात्र जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर लाते समय मिथ्यात्वमें ले जाकर विवक्षित कालके भीतर पुनः सम्यक्त्वके सन्मुख ले जाकर यह अन्तर कहना चाहिए । सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीवोंके परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और जो कृष्णलेश्याके सद्भावमें सातवें नरकमें जाता है उसके नरकमें प्रवेश करने पर प्रारम्भमें सम्भव हैं और नरकसे निकलने पर अन्तमुहूर्तके वाद भी सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । असातावेदनीय आदिका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र यहाँ दो अन्तमुहूर्त अधिक कहना चाहिए । एक प्रवेशके पूर्वका और एक निर्गमके वादका । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे और उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध संक्लिष्ट परिणामोंसे होता है । ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और नारकीके प्रारम्भमें होकर मध्यमें न हों और अन्तमें हों यह भी सम्भव है । तथा सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । पाँच नोकपायोंका सर्वविशुद्ध परिणामोंसे और औदारिकद्विकका सर्वसक्लिष्ट परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । नारकीके ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे होते हैं, अतः यहाँ इनके

जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है। नरकायु और देवायुका बन्ध मनुष्य और तिर्यञ्चके होता है और इनके कृष्णलेखका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनके दो आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान कहा है। शेष दो आयुओंका जघन्य अनुभागबन्ध भी मनुष्य और तिर्यञ्चके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और नारकियोंमें उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है यह स्पष्ट ही है। नरकगति आदिका बन्ध मनुष्य और तिर्यञ्चके ही होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख नारकीके होता है और ऐसा जीव सम्यक्त्वसे च्युत होकर पुनः सम्यक्त्वके सन्मुख अन्तमुहूर्तसे पहले नहीं हो सकता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा मनुष्य और तिर्यञ्चके ये परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और नरकमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतने काल तक इनका बन्ध नहीं होता। इसके बाद मिथ्यात्वमें इनका अजघन्य अनुभागबन्ध या मिथ्यात्वसे पुनः सम्यक्त्वके सन्मुख होने पर जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका तीनों गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी होते हैं और छठे नरकमें प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँसे निकलने पर अन्तमुहूर्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एक अन्तमुहूर्त अधिक वाईस सागर कहा है। यद्यपि मनुष्यगति आदिका सातवें नरकमें भी बन्ध होता है, पर वहाँ यह सम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए वहाँ जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव न होने से यह छठे नरककी अपेक्षा कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जो सातवें नरकका नारकी प्रारम्भमें और अन्तमें अन्तमुहूर्त कालके लिए सम्यग्दृष्टि होता है और मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्यादृष्टि रहता है उसके इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्व संकिल्ट तीन गतिके जीव करते हैं। यह एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और नरकमें प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँ से निकलने पर अन्तमुहूर्तके बाद भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा नरकमें जानेके पूर्व किसीने इनका बन्ध किया और छठे नरकसे सम्यक्त्वके साथ निकलकर इनका पुनः बन्ध करने लगा यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस सागर कहा है यहाँ एक समय अन्तर परावर्तमान प्रकृति होनेसे प्राप्त करना चाहिए। तैजसशरीर आदिका जघन्य स्वामित्व पञ्चेन्द्रियजातिके समान है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय जातिके समान कहा है। तथा इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट

६२८. नील-काऊर्णं पंचणाणावरणादिध्रुविगणं पसत्थापसत्थ०४-अणु०-णिमि०-
 उप०-पंचंत० ज० ज० ए०, [उक्क० देसू० सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि । अज० ज० ए०]
 उ० वेस० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४दंडओ णिरयभंगो । साददंडओ
 किण्णभंगो । असाददंडओ किण्णभंगो । णवरि सगट्टिदी भाणिदन्वा । इत्थि०-णवुंस०-
 उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० । पंचणोक०-पंचि०-
 ओरालि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०--तस०४ ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्त-
 साग० देसू० । अज० सादभंगो । चदुआउ०--दोगदि-चदुजादि--दोआणु०-आदाव-
 थावरादि०४ किण्णभंगो । तिरिक्खग०३ ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज०
 ए०, उ० सत्तारस-सत्तसारोवमाणि दे० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए०,

अन्तर दो समय कहा है । चार सस्थान और पाँच संहननका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं । ये एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और नरकमें प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँसे निकलने पर भी सम्भव हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है तथा ये एक तो परावर्तमान प्रकृतियों हैं । दूसरे नरकमें सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है । हुण्डसंस्थान आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर चार संस्थानोंके समान ही घटित करना चाहिए । मात्र यहाँ जघन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरमें दो अन्तर्मुहूर्त अधिक कहने चाहिए । एक प्रवेशके पूर्वका और एक निर्गमके बादका । तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मनुष्यके मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है ।

६२८. नील और कापोत लेश्यामे पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर व कुछ कम सात सागर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार दण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान है । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग कृष्ण-लेश्याके समान है । असातावेदनीय दण्डकका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । पाँच नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । चार आयु, दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । तिर्यञ्चगति तीनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके

उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि० णिग्गदस्स मुहु० । अज० सादभंगो । वेउच्चि०-
वेउच्चि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग०
सादि० । चदुसंठा०-पंचसंध० ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि० ।
अज० णवुंसकभंगो । हुंड०-अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ०
सत्तारस-सत्तसाग० सादि० । अज० इत्थिभंगो । णीलाए तित्थय० ज० ज० ए०,
उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० बेसम० । काऊए तित्थ० णिरयभंगो ।

जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । यहां साधिकसे निकलनेवालेका एक अन्तमुहूर्त लिया है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । चार संस्थान और पाँच संहननके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्त्रीवेदके समान है । नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—नील लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक सत्रह सागर है और कापोत लेश्याका साधिक सात सागर है । इस हिसाबसे यहाँ अन्तरकाल ले आना चाहिए । उसमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का जघन्य अनुभागबन्ध नारकी जीव करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर कहा है । स्त्रीवेद आदि तीन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त प्रमाण कहनेका यही कारण है । मात्र जघन्य अनुभागबन्धका यह अन्तर प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुभागबन्ध कराके ले आना चाहिए और अजघन्य अनुभागबन्धका यह अन्तर मध्यमें उतने काल तक सम्यग्दृष्टि रख कर ले आना चाहिए । इसी प्रकार पाँच नोकपाय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए । तिर्यङ्गगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध वादर अग्नि कायिक और वायुकायिक जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तथा सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता और इन लेश्याओंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर कहा है । कारणका निर्देश मूल्यमें ही किया है । वैक्रियिकद्विक, चार संस्थान आदि व हुण्डसंस्थान आदिके अन्तरका खुलासा जिस प्रकार

६२६. तेजए पंचणाणावरणादिध्रुविगाणं अप्पसस्थ०४-उप०--पंचंत० ज०
णत्थि अंतरं । अज० ए० । अथवा ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ०
वेस० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतो०,
उ० वेसाग० सादि० । सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ०
वेसाग० सादि० दोहि मुहुत्ते० । अज० ज० ए०, उक्क० अंतो० । अट्ठक०-आहारदु०
ज० अज० णत्थि अंतरं । इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-
तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०--अप्पसत्थवि०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० ज०
अज० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतरं ।
अज० सादभंगो । अरदि-सोग० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० । देवाउ० ज०
ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । दोआउ० देवभगो । मणुस०-

कृष्णलेश्यामे कर आये हैं उस प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए । नील लेश्यामें तत्प्रायोग्य संक्लेश
परिणामवाला मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध करता है, इसलिए इसमें इसके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय बन जाता है । तथा कापोत
लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व सामान्य नारकियोंके समान होनेसे उसके जघन्य और
अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नारकियोंके समान कहा है । शेष अन्तर कृष्णलेश्याके अन्तरको
देखकर घटित कर लेना चाहिए ।

६२६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,
उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभाग-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है अथवा जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार
के जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-
र्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक दो सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषाय और आहार रुद्धिके जघन्य
और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-
जाति, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति,
स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । पुरुषवेद, हास्य और रतिके जघन्य
अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयसे समान है ।
अरति और शोकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
दो समय है । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र

पंचि०-समचंद्र०-ओरालि०अंगो०--वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०--तस-सुभग-सुस्सर-
आदेज्ज०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० । अज० सादभंगो । देवगदि०४
ज० ज० ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० । अथवा ज०
णत्थि० अंतरं यदि लेस्ससंकमणं कीरदि । अज० ज० पत्ति० सादि०, उ० बेसाग०
सादि० । ओरालि०-तेजा०-क०--पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त--पत्ते०-णिमि०-
त्तित्थि० ज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० । अज० ज० ए०, उ० बेस० । एवं
पम्माए वि । णवरि पंचि०-ओरालि०अंगो०-तस० तेजइगादीहि सह धुवं भाणिदव्वा ।

संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, वष्षर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस,
सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है ।
देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-
मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो
सागर है । अथवा जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है यदि लेश्या संक्रमण कर लेता है तो ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो
सागर है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर,
पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ
पञ्चैन्द्रियजाति, औदारिकआङ्गोपाङ्ग और त्रस इन प्रकृतियोंको तैजसशरीर आदिके साथ ध्रुव
कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पीतलेश्यामें सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य
अनुभागबन्ध करता है ऐसा स्वामित्वमें कहा है । इसके दो विकल्प होते हैं—एक अन्तमुहूर्तके
वाद क्षपकश्रेणि पर चढ़नेवाला और दूसरा स्वस्थान अप्रमत्त । प्रथम विकल्प ग्रहण करने पर इन
प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता है और अजघन्य अनुभागबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा दूसरा विकल्प ग्रहण करने पर
इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त
तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता
है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुआ मनुष्य करता है किन्तु
अन्तमुहूर्तमें लौटकर और मिथ्यात्वमें ठहरकर यदि पुनः संयमके अभिमुख होता है तो उसके
लेश्या बदल जाती है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा इनके
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है यह स्पष्ट
ही है । यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर मनुष्योंके और उत्कृष्ट अन्तर देवोंके घटित
करना चाहिए । साता आदिका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं पर जब इसका उत्कृष्ट
अन्तर लाना हो तब मनुष्यगतिमें अन्तिम अन्तमुहूर्तमें जघन्य अनुभागबन्ध करावे और साधिक दो
सागर तक देव पर्यायमें रखकर पुनः मनुष्य होनेपर जघन्य अनुभागबन्ध करावे । इससे इन प्रकृतियों
के जघन्य अनुभागबन्धका जो दो अन्तमुहूर्त अधिक साधिक दो सागर उत्कृष्ट अन्तर कहा है वह

६३०. सुक्काए पंचणाणावरणादिध्रुवियाणं पद्मदंडओ ओघो । णवरि तित्थय०

आ जाता है । ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । आठ कषाय और आहारकद्विकके जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वको देखते हुए यहाँ उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका निषेध किया है । स्त्रीवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जो स्वामित्व बतलाया है उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । जो पीतलेश्याके अपने उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुभागबन्ध करानेसे उपलब्ध होता है । तथा मध्यमें इतने काल तक सम्यग्दृष्टि रखनेसे इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक दो सागर कहा है । पुरुषवेद, हास्य और रतिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वैविशुद्ध अप्रमत्तसंयत करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकाल का निषेध किया है । यहाँ जो पीतलेश्यावाला अप्रमत्तसंयत अन्तमुहूर्तके बाद लेश्या बदलकर क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला है उसीकी अपेक्षा जघन्य अन्तरका निषेध किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । अरति और शोक भी परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका दोनों प्रकार का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त कहा है । देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं और इनके पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगति आदिके स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है; क्योंकि पीतलेश्याके उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें और अन्तमें यथायोग्य इनका जघन्य अनुभागबन्ध हो यह सम्भव है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान कहा है । देवगति चतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वसंक्लिष्ट तिर्यञ्च और मनुष्य करता है । इनमें पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । और ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । तथा देव पर्यायमें इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । यहाँ पर यह मानकर कि पीतलेश्यामें जघन्य अनुभागबन्ध होनेके बाद यदि लेश्या बदल जाती है तो इनके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होता है, क्योंकि जब मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं बना तो अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर देवोंमें उत्पन्न करा कर लाना चाहिए, इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर यह अन्तर कहा है । देवगतिके समान औदारिकशरीर आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर जानना चाहिए । मात्र इनका जघन्य अनुभागबन्ध सौधर्म-ऐशान कल्पमें कराकर यह अन्तर लाना चाहिए । पद्मलेश्या में इसी प्रकार अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए । मात्र इसका काल साधिक अठारह सागर होनेसे इसे ध्यानमें रखकर यह अन्तरकाल लाना चाहिए । तथा इस लेश्यामें पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रस इन प्रकृतियोंको ध्रुव मानकर अन्तरकाल लाना चाहिए, क्योंकि एक तो पद्मलेश्यामें एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध न होनेसे ये दोनों प्रकृतियों ध्रुव हैं दूसरे पद्मलेश्यामें औदारिक आङ्गोपाङ्गका बन्ध देवोंके ही होता है तथा इनके एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं होता इसलिए यह भी ध्रुव है ।

६३०. शुक्ल लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका प्रथम दण्डक ओघके

वज्ज० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० उवरिमगेवज्ज-
भंगो । सादादिचदुयुग० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अज० ओघं ।
इत्थि-णकुंसगदंडओ उवरिमगेवज्जभंगो । अट्ठक०-पंचणोक०-दोआउ० तेउभंगो । मणुस-
गदि०४ ज० ज० ए०, उ० अट्टारस० सादि० । अज० ज० ए०, उ० वेस० ।
देवगदि०४ ज० [ज०] ए०, उ० अंतो० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि०-तित्थ० ज० ज० ए०,
उ० अट्टारस सा० सादि० । अज० ज० एग०, उ० वेस० । आहारदु० ज० णत्थि
अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-
आदे०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० । अज० सादभंगो ।

६३१. भवसिद्धि० ओघं । अबभवसिद्धि० धुवियाणं ज० ज० ए०, उ०

समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर कहना चाहिए । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उपरिम प्रैवेयकके समान है । सातावेदनीय आदि चार युगलके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दण्डकका भङ्ग उपरिम प्रैवेयकके समान है । आठ कषाय, पाँच नोकषाय और दो आयुश्रौंका भङ्ग पीतलेश्यके समान है । मनुष्यगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आहारकद्विकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर-काल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है । समचतुरस्रसंस्थान, वज्रभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदिका और स्त्रीवेद आदिका बन्ध उपरिम प्रैवेयक तक ही होता है, इसलिए इनका विचार इसी दृष्टिसे किया है । मनुष्यगति आदि चारका और पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

६३१. भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्योंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य

अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । सादासाद०-समचदु०-पसत्थ०-थिराथिर-
 सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा ।
 अज० ओघं । छण्णोक० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ०
 अंतो० । णवुंस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० ।
 अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० देसु० । चदुआयु०-वेउव्वियद्ध०-मणुसग०३ ज०
 अज० ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० ।
 अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं ।
 अज० णवुंसगभंगो । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज०
 ओघं । अज० मदि०भंगो ।

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर मत्यज्ञानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—अमन्यो पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध संज्ञी जीव करता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि और पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जिस प्रकार ओघमें स्पष्ट करके कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । छह नोकपायोंके जघन्य स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए । तथा नपुंसकवेद आदिका बन्ध उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पल्य तक नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सातवें नरकका नारकी करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । तथा नौवें त्रैवेयकमें इनका बन्ध नहीं होता,

६३२. सम्मादिद्वी० ओधिभंगो^१ । खड्गसम्मादिद्वी० पंचणाणावरणादि-
दंडओ ओधो तित्थयरं वज्ज । सादासाद०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थव०४-
अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-
उच्चो० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । अट्टक०
ज० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अज० ओघं । मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ०
[ज० अज० ज० ए०, उ० पुव्वकोडितिभागा देसूणा ।] मणुसगदिपंचग० ज० ज०
ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अज० ज० ए०, उ० वेस० । देवगदि०४ ज० अज०
ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सा० सादि० । आहारदुग० ज० अज० ज० अंतो०, उ०
तेत्तीसं० सादि० ।

इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है । यहाँ साधिकसे नौवें प्रवेयकमें जानेसे पूर्वका और आनेके बादका अन्तमुहूर्त काल लेना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६३२. सम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है । क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर कहना चाहिए । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदिय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । देवगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब परूपणा आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है । क्षायिकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध इसके प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा उपशमश्रेणामे बन्धव्युच्छित्तिके बाद अन्तमुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता और असातावेदनीय परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । आठ कषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध होनेके बाद पुनः जघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम अन्तमुहूर्तके पूर्व सम्भव नहीं है और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर कालके बाद सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य

६३३. वेदगे धुविगाणं ज० गत्थि अंतरं । अज० एग० । सादादिचदुयुग०-
 अरदि-सोग० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० देसू० । अज० ओघं । अट्टक० ज० ज० अंतो०,
 उ० छावट्टि० दे० । अज० [ओघं ।] हस्स-रदि० ज० गत्थि अंतरं । अज० ओघं ।
 दोआउ० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
 मणुसगदिपंचग० ज० गत्थि अंतरं । अज० ज० वासपुध०, उ० पुव्वकोडी० । देव-
 गदि०४ ज० गत्थि अंतरं । अज० ज० पलिदो० सादि०, उ० तेत्तीसं । पंचिदि०-
 तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-
 उच्चा० ज० अज० गत्थि अंतरं ।

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । जो पूर्वकोटिकी आयुवाला त्रिभागके प्रारम्भमें देवायुका बन्ध करके पुनः अन्तमें अन्तमुहूर्त आयु शेष रहने पर उसका बन्ध करता है उसके देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण दिखाई देता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य अनुभागबन्ध देव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध करके कोई मनुष्य सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ । पुनः वहाँसे आकर मनुष्य होने पर उसने इनका जघन्य अनुभागबन्ध किया, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध करके कोई प्रमत्तसंयत हो गया । पुनः उसके अप्रमत्तसंयत होकर आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध करनेमें अन्तमुहूर्त काल लगता है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । और यदि ऐसा जीव देवोंमें उत्पन्न हो जावे तो साधिक तेतीस सागर अन्तर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६३३. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सातावेदनीय आदि चार युगल, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि है । देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है । पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थद्वार और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

६३४. उवसम० पंचणा०-द्वंदसणा०--चदुसंज०--पंचणोक०--पंचिदि०-तेजा०-
क०-समचदु०-पसस्थापसत्थ०४-अगु० [४-] पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्वर-
आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
सादासाद०--अरदि-सोग०-तिण्णियुग०-तित्थ० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
मणुसगदिपंचग० ज० अज० णत्थि अंतरं । अट्ठक०-आहारदुगं० ज० अज० ज० उ०
अंतो० । देवगदि०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० उ० अंतो० ।

विशेषार्थ—जो अप्रमत्तसंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्तमें क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेवाला है वह सर्वविशुद्ध होकर पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। यह अवस्था पुनः प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। और इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर कहा है। इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर घटित कर लेना चाहिये। हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके निषेधका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादि के कह आये हैं। दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम छयासठ सागर कहा है सो इसका कारण यह है कि जो देव या मनुष्य क्रमसे वेदकसम्यक्त्वके आरम्भ होनेपर मनुष्यायु और देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। पुनः उसकी समाप्तिके पूर्व इनका जघन्य अनुभागबन्ध करता है उसके इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण ही देखा जाता है। तथा इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार आभिनिवोधिक ज्ञानीके स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। मनुष्यगति पञ्चक और देवगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर भी आभिनिवोधिक ज्ञानियोंके समान यहाँ घटित कर लेना चाहिए। मात्र वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण नहीं करते, इसलिए इनके देवगतिचतुष्कके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त न होकर साधिक एक पल्य जानना चाहिए। और उत्कृष्ट अन्तर पूरा तेतीस सागर जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

६३४. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रमचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, तीन युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। आठ कषाय और आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर

६३३. वेदगे धुविगाणं ज० णत्थि अंतरं । अज० एग० । सादादिचदुयुग०-
 अरदि-सोग० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० देसू० । अज० ओघं । अट्टक० ज० ज० अंतो०,
 उ० छावट्टि० दे० । अज० [ओघं ।] हस्स-रदि० ज० णत्थि अंतरं । अज० ओघं ।
 दोआउ० ज० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
 मणुसगदिपंचग० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० वासपुध०, उ० पुव्वकोडी० । देव-
 गदि०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० पलिदो० सादि०, उ० तेत्तीसं० । पंचिदि०-
 तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-
 उच्चा० ज० अज० णत्थि अंतरं ।

अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । जो पूर्वकोटिकी आयुवाला त्रिभागके प्रारम्भमें देवायुका बन्ध करके पुनः अन्तमे अन्तमुहूर्त आयु शेष रहने पर उसका बन्ध करता है उसके देवायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण दिखाई देता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य अनुभागबन्ध देव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध करके कोई मनुष्य सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ । पुनः वहाँसे आकर मनुष्य होने पर उसने इनका जघन्य अनुभागबन्ध किया, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध करके कोई प्रमत्तसंयत हो गया । पुनः उसके अप्रमत्तसंयत होकर आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध करनेमें अन्तमुहूर्त काल लगता है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । और यदि ऐसा जीव देवोंमें उत्पन्न हो जावे तो साधिक तेतीस सागर अन्तर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

६३३. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सातावेदनीय आदि चार युगल, अरति और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्वासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कपायोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्वासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है । हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्वासठ सागर है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि है । देवगतिचतुष्क के जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्त्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

६३४. उवसम० पंचणा०-छर्दसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-पंचिदि०-तेजा०-
क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु० [४-] पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-
आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचत० ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
सादासाद०--अरदि-सोग०-तिण्णियुग०-तित्थ० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
मणुसगदिपंचग० ज० अज० णत्थि अंतरं । अट्ठक०-आहारदुगं० ज० अज० ज० उ०
अंतो० । देवगदि०४ ज० णत्थि अंतरं । अज० ज० उ० अंतो० ।

विशेषार्थ—जो अप्रमत्तसंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्तमें चायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेवाला है वह सर्वविशुद्ध होकर पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। यह अवस्था पुनः प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निषेध किया है। और इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर कहा है। इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर घटित कर लेना चाहिये। हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके निषेधका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादि के कह आये हैं। दो आयुओंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम छयासठ सागर कहा है सो इसका कारण यह है कि जो देव या मनुष्य क्रमसे वेदकसम्यक्त्वके आरम्भ होनेपर मनुष्यायु और देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध करता है। पुनः उसकी समाप्तिके पूर्व इनका जघन्य अनुभागबन्ध करता है उसके इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण ही देखा जाता है। तथा इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानीके स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। मनुष्यगति पञ्चक और देवगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर भी आभिनिबोधिक ज्ञानियोंके समान यहाँ घटित कर लेना चाहिए। मात्र वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण नहीं करते, इसलिए इनके देवगतिचतुष्कके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त न होकर साधिक एक पल्य जानना चाहिए। और उत्कृष्ट अन्तर पूरा तेतीस सागर जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

६३४. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, तीन युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। आठ कषाय और आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर

६३५. सासणे^१ ध्रुवियाणं ज० अज० गत्थि अंतरं । पुरिस०-हस्स०-रदि-
तिरिक्ख०३-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-उज्जो० ज० गत्थि अंतरं । अज० ज० ए०,
उ० अंतो० । तिण्णिआउ० मणजोगिभंगो । सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।
अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध उपशमश्रेणिमें अपनी अपनी वन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा उपशमश्रेणिमें इनका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्त तक वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और इनका एक समयके अन्तरसे जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । मनुष्यगति पञ्चकका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख देव और नारकी करते हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । आठ कपाय और आहारक-द्विकका जघन्य अनुभागवन्ध अन्तमुहूर्त के अन्तरसे ही सम्भव है तथा यथायोग्य गुणस्थान प्राप्त होने पर अन्तमुहूर्त काल तक इनका वन्ध नहीं होता, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ उपशमसम्यक्त्वके कालमें यह अवस्था प्राप्त कर अन्तरकाल ले आना चाहिए । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकाल का निषेध किया है और उपशमश्रेणिमें वन्धव्युच्छित्तिके वाद उतर कर उसी स्थानके प्राप्त होने तक इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

६३५.सासादनसम्यक्त्वमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यञ्चगतित्रिक, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीन आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वमें चारो गतिके सर्वविशुद्ध जीवके पाँच ज्ञानावरणादिका और चारों गतिके सर्वसंक्लिष्ट जीवके पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । पुरुषवेद आदिका जो जघन्य स्वामित्व बतलाया है उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभागवन्धका भी अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इसका निषेध किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तीन आयुओंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा शेष प्रकृतियों परावर्तमान हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

१. ता० आ० प्रत्योः अज० ज० उ० अंतो० । सासणे पंचाणावरणादि० एवं सध्यायं उक्तस्स-
भंगो सासणे इति पाठः ।

६३६. सम्मामिच्छ० ध्रुवियाणं ज० अज० णत्थि अंतरं । सादासाद०-अरदि-
सोग-थिरादितिणियुग० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो० । हस्स-रदि० ज
णत्थि अंतरं । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । मिच्छादिट्ठी० मदि०भंगो ।

६३७. सण्णी० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णीसु ध्रुवियाणं पसत्थापसत्थ-
पगदीणं ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० वेसम० । सत्तणोक०-
तिरिक्ख०-पंचिदि०--ओरालि०-ओरालि०अंगो०--तिरिक्खाणु०-पर०--उस्सा०-आदा-
उज्जो०-तस०४-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ०
अंतो० । चदुआउ०-वेउन्वियळ०-मणुस०३ तिरिक्खोयं । सेसाणं ज० ज० ए०, उ०
असंखेज्जा लोगा । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६३६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु-
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, और स्थिर आदि
तीन युगलके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य
अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मिथ्यादृष्टि जीवों
का भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और
अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालके निषेधका कारण बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी
जानना चाहिए; क्योंकि इनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख
जीवके और प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्य मिथ्यात्वके अभिमुख जीवके होता है । साता-
वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं और इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे हो
सकता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । हास्य और रतिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख
हुए जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा
ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मिथ्यात्व मत्यज्ञानीके ही होता है और प्रायः इनका
साहचर्य है, अतः मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा मत्यज्ञानी जीवोंके समान कही है ।

६३७. संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली
प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिक
आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्रवास, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और नीचगोत्रके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । चार
श्रायु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।
अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध पञ्चेन्द्रिय जीव और

६३८. आहारएसु ध्रुविगाणं तित्थयरस्स च ओघं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० अंगुल० असंखे० । अज० ओघं । सादासाद०-
अरदि-सोग-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-
थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
अंगुल० असंखे० । अज० ओघं । अट्ठक० ज० मिच्छत्तभंगो । अज० ओघं । तिण्णि-
आउ०-वेउन्वियद्ध०-मणुस०३ ज० अज० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे० । तिरि-
क्खायु० ज० सादभंगो । अज० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० ज० मिच्छत्तभंगो ।
अज० ओघं । उज्जो० ज० सादभंगो । अज० ओघं । इत्थि० मिच्छत्तभंगो । णवरि

प्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वसंक्लिष्ट पञ्चेन्द्रिय जीव करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इसी प्रकार सात नोकषाय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र ये अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। चार आयु आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका सामान्य तिर्यञ्चोंके जो अन्तर कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए यह उनके समान कहा है। शेष जो सातावेदनीय आदि प्रकृतियाँ हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध बादर एकेन्द्रियोंके भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

६३८. आहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। आठ कषायोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर मिथ्यात्वके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। तीन आयु, वैक्रियिक छह, और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर मिथ्यात्वके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य अनु-

१. ता० आ० प्रत्योः अज० ओघं । णवरि तिरिक्खगिद्धिगं ज० ज० अंतो० । इत्थि० मिच्छत्त-
भंगो इति पाठः ।

ज० ज० ए० । णवुंसगदंडओ ज० सादभंगो । अज० ओघं । सेसाणं ज० सादभंगो ।
अज० ओघं अप्पप्पणो । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं जहण्णयं समत्तं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । नपुंसकवेददण्डकके जघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर अपने अपने ओघके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—आहारक मार्गणामें सर्वप्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व ओघके समान है और इसका उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इन दो विशेषताओंको ध्यानमें लेकर यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार जघन्य अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	७	वग्गो भवदि । अर्यांतार्यांतार्यां वग्गयाणं	वग्गो भवदि । अर्यांतार्यांतार्या वग्गयाणं समु- दयसमागमेण एगा वग्गया भवदि । अर्यां- तार्यांतार्यां वग्गयाणं
१२	६	उवसमस्स	उवसमयस्स
१६	१२	उवसमसंप०	उवसमसुहुमसंप०
१८	११	जहण्णए	जहण्णियाए
२३	२	मज्झिम० पज्जत्तण्णिव्वत्तीए	मज्झिम० । आउ० जह० अरुण० कस्स ? अरण्ण० पज्जत्तण्णिव्वत्तीए
२३	३	आउ०-गोद०	गोद०
२३	१६	परिणामवाला जघन्य	परिणामवाला जीव-स्वामी है । आयुर्कर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कन है ? जघन्य
२३	१७	उक्त कर्मोंके	आयुर्कर्मके
२३	१७	आयु और गोत्र	गोत्र
२५	१६	उक्त कर्मोंके	गोत्र कर्मके
२५	८	अरुण० ? सत्तमाए	अरुण० क० ? अरण्ण० सत्तमाए
२७	३	कम्माण गिरयोधमंगो ।	कम्माण उक्क० गिरयोधमंगो ।
२७	२७	कर्मोंका भङ्ग	कर्मोंका उत्कृष्ट भङ्ग
२६	८	घादि ४ उक्क० ओघं० ।	घादि ४ ओघ ।
२६	३२	घातिकर्मोंके उत्कृष्ट	घातिकर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
३६	१	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	जह० एग० । अज०
३६	७	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	जह० एग० । अज०
३६	६	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	जह० एग० । अज०
३६	१४	जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य	जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
३६	३३	जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य	जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
३६	३७	जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है । अजघन्य	जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
४०	५, ८, १०	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	ज० एग० । अज०
४०	२२, २८, ३३	जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य	जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
४१	१, ३, ५	जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०	जह० एग० । अज०
४१	१२, १६, २०	जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य	जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य
४४	४	गोदा० जह० णत्थि	गोदा० उक्क० णत्थि
४६	८	आउ० [जह० एग०]	आउ० उ० ज० ए०
५३	१	अरुण० जहण्णु०	अरुण० जह०
७१	४	अज० [जह० एग०, उक्क० चत्तारिस म० । णवदि गोद० उ० वेसम० ।] आउ०	अज० ओघं० । आउ०
७१	२३	जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इतनी विशेषता है कि गोत्रका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयु	जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । आयु
७३	६	एवं पगादि बंधदि	ये पगादी बंधदि



